

और भी—“ अज्जज्जसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु ।
भुवणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ”

अर्थात् वह श्री चामुण्डराय जयवंता रहो कि जिसके गुरु अजितसेन नाथमें ऋद्धिप्राप्त गणधर देवादिकोंके गुण पाये जाते हैं ॥ आचार्य श्री आर्यसेनके अनेक गुणोंके समूहको धारण करनेवाले तथा तीन लोकके गुरु अजितसेन गुरु जिसके गुरु हैं वह गोम्मट राजा जयवंता रहो ॥

इससे यह बात मालुम होती है कि जिन अजितसेन स्वामीका उल्लेख बाहुवली चरितमें और गोमट्टसारमें किया गया है वे एक ही है । परंतु ये अजितसेन कब हुए इस बातका कुछ पता श्रवणवे लगोलाके एक शिलालेखसे मिलता है ।

उसमें अजितसेनके विषयमें लिखा है कि:—

गुणा- कुंदस्पन्दोद्भुमरसमरा वागमृतवाः ,
पुवप्रायः प्रेय प्रसरसरसा कीर्तिरिव सा ।
नखिन्दुज्योत्स्नाःऽग्नेर्वृषचयचकोरप्रणयिनी,
न कासां श्लाघांना पदमजितसेनो व्रतिपतिः ॥

यह शिलालेख करीब ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ है । इससे मालुम होता है कि श्री अजितसेन स्वामी ग्यारहमी शदीके पूर्व हुए हैं, और उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए हैं । परंतु प. नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित ‘ चंद्रप्रभचरितकी भूमिका’में श्री चामुण्डरायके परिचयमें लिखा है कि कनडी भाषाके प्रसिद्ध कवि रत्नने शक सम्वत् ९१५ में ‘ पुराणतिलक ’ नामक ग्रंथकी रचना की है और उसने अपनेको रक्स गगराजका आश्रित बतलाया है । चामुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहनेका वह जिक्र करता है । इससे मालुम होता है कि शक स ९१५ या विक्रम सं. १०५० के लगभग ही श्री चामुण्डराय और श्री अजितसेन स्वामी हुए हैं

गोमट्टसारकी श्री चामुण्डरायकृत एक कर्नाटक वृत्ति श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीके समक्ष ही बन चुकी थी । उसीके अनुसार श्री केशववर्णीकृत सस्कृत टीका भी है । उसकी आदिमें लिखाहुआ है कि:-

‘श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुहाभ्यंतरानिवासिप्रवादिर्सिंधुरासिंहायमान-सिंह-
नंदिनन्दिनंगवशललाम-राजसर्वज्ञाद्यनेकगुणनामधेय-श्रीमद्राजमल्लदेवमही-वल्लभमहा-
मात्यपदाविराजमान-रणरत्नमल्लासहायपराक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविधि
धगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-श्रीमच्चामुण्डरायप्रशावताणैकचत्वारिंशत्पदनामसत्वप्ररूप-
णद्वारेणागेपविनेयजननिकुरं वसंशोधनार्थ श्रीमन्नेमिचंद्रसैद्धान्तिक-चक्रवर्ती
समस्तसैद्धान्तिकजनप्रख्याताविशदयशाः विशालमतिरसौ भगवाच्च
गोमट्टसारपंचसंघहप्रपंचमारचयैस्तदादौ निर्विघ्नतः शास्त्रपरिसमाप्तिनिमित्तं
देवताविशेषं नमस्करोति ।

राचमल्ल और रक्स गंगराज ये दोनों ही भाई थे । उपर्युक्त गोमट्टसारकी पक्तियोंसे स्पष्ट है कि राचमल्ल चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्ती तीनोंही समकालीन हैं । राचमल्लका समय विक्रमकी ग्यारहमी शदी निश्चित की जाती है । अत एव स्वयं सिद्ध है कि यही समय चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीका भी होना चाहिये ।

नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीने कई जगह वीरनंदि आचार्यका स्मरण किया है । यथा:—

“ जस्स य पायपसाएणणंतससारजलहिमुत्तिण्णो ।

वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरुं ॥ ”

“ णमिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारगिदणंदिगुरुं

वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छं ॥ ”

“ णमह गुणरयणभूसणसिद्धंतामियमहविधभवभावं ।

वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणाभिदणंदिगुरुं ॥ ”

इन्ही वीरनंदिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है । यथा:—

चंद्रप्रभाभिसंबद्धा रसपुष्टा मन प्रियम् ।

कुमुद्वतीव नो धत्ते भारती वीरनंदिनः ॥ (पार्वनाथकाव्य श्लो ३०)

वादिराज सूरीने पार्वनाथ काव्यकी पूर्ति शक सं. ९४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम प्रशस्तिके इस पद्यसे मालुम होता है ।

“ शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने,
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने ।

सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेर्यं मया,

निष्पत्तिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥ ”

अर्थात् ‘ शक सम्वत् ९४७ (क्रोधन सम्वत्सर) की कार्तिक शुक्ला तृतीयाको पार्वनाथ काव्य पूर्ण किया । ’ इस कथनसे यद्यपि यह मालुम होता है कि वीरनंदि आचार्य शक सवत् ९४७ के पहले ही होचुके हैं; तथापि जब कि वीरनंदी आचार्य स्वयं अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी उनको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि वीरनंदि और नेमिचंद्र दोनों ही समकालीन हैं ।

गोमट्टसारकी गाथाओंका उल्लेख प्रमेयकमलमार्तण्डमें भी मिलता है—यथा:—

“ विग्गहगादिमावण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य ।

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ ” (६६५)

श्रीप्रभाचंद्र आचार्यने प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना भोजराजके समयमें की है, क्योंकि उमके अंतमें यह उल्लेख है कि:—

“ श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामार्जितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रभाचंद्रपाण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षासुखपदमिदं विवृतमिति । ”

धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निश्चित है । इन्ने या मान्य होता है कि नेमिचंद्रस्वामी या तो प्रभाचंद्राचार्यके समकालीन हैं या कुछ पहले होचुके हैं । यद्यपि इस प्रमाणसे यह भी मालुम होसकता है कि श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती प्रभाचंद्राचार्यमें वरं शरी परं हुए हैं, परंतु जबकि कवि रचने अपनेपर श्रीमान् चामुण्डगयकी कृपा गनेजा जिउ किउ ते हम् पण्णातिलककी रचना शक सं. ९१५ में उसने की है यह निश्चित है तब इन शब्दोंके अर्थ नहीं सक्त । अत एव इतिहासप्रेमी यह निश्चित करते हैं कि श्रीमान् नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीके समय ही प्रभाचंद्र शक सं. ९१५ के ही हैं । परंतु यह निश्चय एक प्रकारसे सुरजतिरुदके अंतमें ही है । तब एव

अभी इतना संदेह ही है कि यदि पुराणतिलकके कथनको प्रमाण माना जाय तो बाहुवलीचरितके कथनको प्रमाण क्यों न माना जाय ? यदि माना जाय तो किस तरह घटित किया जाय ? इसतरह नेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीका समय एक तरहसे अभीतक हमको सदिग्ध ही है । इसीलिये समयनिर्णयको हम यहीं विराम देते हैं । दूसरी बात यह भी है कि समयकी प्राचीनता या अर्वाचीनतासे प्रमाणता या अप्रमाणताका निर्णय नहीं होता । प्रामाण्य या अप्रामाण्यके निर्णयका हेतु ग्रंथकर्त्ताका ग्रंथ होता है ।

इस ग्रंथके रचयिता साधारण विद्वान् न थे । उनके रचित गोमट्टसार त्रिलोकसार लघ्विसार आदि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और 'सिद्धांतचक्रवर्ती' इस पदवीको सार्थक सिद्ध कर रहे हैं । यद्यपि उपलब्ध ग्रंथोंमें गणितकी प्रचुरता देखकर लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि श्री नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती गणितके ही अप्रतिम पिण्डित थे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सर्वविषयमें पूर्ण निष्णात थे ।

ऊपर जो गोमट्टसार संस्कृत टीकाकी उत्थानिकाका उल्लेख दिया है उसमें यह बात दिखाई गई है कि इस ग्रंथकी रचना श्रीमन्नामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार हुई है । इस विषयमें ऐसा सुननेमें आता है कि एक बार श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती धवलान्दि महासिद्धांत ग्रंथोंमेंसे किस सिद्धांत-ग्रंथका स्वाध्याय कर रहे थे । उसी समय गुरुका दर्शन करनेकेलिये श्री चामुण्डराय भी आये । शिष्यको आता हुआ देखकर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीने स्वाध्याय करना बंद कर दिया । जब चामुण्डराय गुरुको नमस्कार करके बैठगये तब उनने पूछा कि गुरो ! आपने ऐसा क्यों किया ? तब गुरुने कहा कि श्रावकको इन सिद्धांत ग्रंथोंके सुननेका अधिकार नहीं है । इसपर चामुण्डरायने कहा कि हमको इन ग्रंथोंका अवबोध किस तरह होसकता है ? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे हम भी इनका महावानुभव कर सकें । सुनते हैं कि इसीपर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीने सिद्धांत ग्रंथोंका सार लेकर इस गोमट्टसार ग्रंथकी रचना की है ।

इम ग्रंथका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । क्योंकि इसमें महाकर्मप्राभृतके सिद्धांतसंबंधी जीवस्थान क्षुद्रबंध वषरवामी वेदनाखंड वर्गणाखंड इन पांच विषयोंका वर्णन है । मूलग्रंथ प्राकृतमें लिखा गया है । यद्यपि मूल लेखक श्रीश्रुत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हैं, तथापि कहीं २ पर कोई २ गाथा, माधवचंद्र त्रैविद्यदेवने भी लिखी हैं । यह टीकामें दी हुई गाथाओंकी उत्थानिका के देखनेसे मालूम होती है । माधवचंद्र त्रैविद्यदेव श्री नेमिचंद्र सि चक्रवर्तीके प्रधान शिष्योंमेंसे एक थे । मालूम होता है कि तीन विद्याओंके अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रैविद्यदेवका पद मिला होगा । इससे पाठकोंको यह भी अंदाज करलेना चाहिये कि नेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीकी विद्वत्ता कितनी असाधारण थी ।

इस ग्रंथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गई है । जिसमें सबसे पहले एक कर्नाटक वृत्ति कर्नी है । उनके रचयिता ग्रंथकर्त्ताके अन्यतम शिष्य श्रीचामुण्डराय हैं । इसी टीकाके आधारपर एक संस्कृत टीका कर्नी है, जिसके निर्माता केशववर्णी हैं, और यह टीका भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । दूसरी संस्कृत टीका श्रीमद्भद्रचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीकी बनाई हुई है जो कि 'मंद्रप्रबोधिनी' नामसे प्रख्यात है । उपयुक्त दोनों टीकाओंके आवागसे श्रीमद्विद्वद् टोडरमल्लजीने 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका' नामकी हिंदी टीका बनाई है । उक्त कर्नाटक वृत्तिके सिवाय तीनों टीकाओंके आवागपर यह संक्षिप्त बालबोधिनी टीका लिखी है । 'मंद्रप्रबोधिनी' हमको पूर्ण नहीं मिलसकी इसलिये जहांतक मिल सकी वहांतक तीनों टीकाओंके अन्वयमें और आगे 'केशववर्णी' तथा 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका'के आधारसे ही हमने इसको लिखा है ।

इस ग्रंथके दो भाग हैं—एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशुद्ध अवस्थाओंका या भावोंका वर्णन है । कर्मकाण्डमें कर्मोंकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है । कर्मकाण्डकी संक्षिप्त हिंदी टीका श्रीयुत पं. मनोहरलालजी शास्त्री द्वारा सम्पादित इसी ग्रंथमालाके द्वारा पहले प्रकाशित हो चुकी है । जीवकाण्डकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुई थी । अत एव आज विद्वानोंके समक्ष उसीके उपास्थित करनेका मैंने साहस किया है ।

जिस समय श्रीयुत प्रातःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्याद्वादवारिधि वादिगजकेसरी गुरुवर्य पं. गोपालदासजीके चरणोंमें मैं विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आज्ञानुसार इसके लिखनेका मैंने प्रारम्भ किया था । यद्यपि इसके लिखनेमें प्रमाद या अज्ञानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रह गई होंगी, तथापि सज्जन पाठकोंके गुणग्राही स्वभावपर दृष्टि देनेसे इस विषयमें मुझे अपने उपहासका विलकुल भय नहीं होता । ग्रंथके पूर्ण करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ था तथापि किसीभी तरह जो मैं इसको पूर्ण कर सका हूँ उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है । अत एव इस कृतज्ञताके निदर्शनार्थ गुरुके चरणोंका चिरंतन चिंतवन करना ही श्रेय है ।

प्राचीन टीकाएं समुद्रसमान गम्भीर हैं—सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता । जो अवगाहन नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है । आशा है कि इसके अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीर्पुओंको अवश्य कुछ सरलता होगी । पाठकोंसे यह निवेदन है कि यदि इस कृतिमें कुछ सार भाग मालुम हो तो उसे मेरे गुरुका समझ हृदयंगत करें । और यदि कुछ निःसारता या विपरीतता मालुम पड़े तो उसे मेरी कृति समझें, और मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान करें ।

यह टीका स्व. श्रीमान् रायचंद्रजीद्वारा स्थापित 'परमश्रुतप्रभावकमंडल'की तरफसे प्रकाशित की गई है । अत एव उक्त मंडल तथा उसके ऑनरेरी व्यवस्थापक शा. रेवाशंकर जगजीवनदासजीका साधुवादन करता हूँ ।

इस तुच्छ कृतिको पढनेके पूर्व "गच्छतः स्वलन कापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनारतत्र समादधति सज्जनाः" इस श्लोकके अर्थको दृष्टिपथ करनेके लिये विद्वानोंसे प्रार्थना करनेवाला—

७-७-१९१६ ई. }
२ रा पाजरापोळ-ववई न. ४ }

स्वचंद्र जैन
वेरनी (एटा) निवासी



विषयसूची ।

विषय.	पृ. पं.	विषय.	पृ. पं.
मंगलका प्रयोजन .	११ १	छठे गुणस्थानका लक्षण ...	१४१२२
मंगल और प्रतिज्ञा ...	११ ५	प्रमादके १५ भेद .	१५१ ७
बीस अधिकारोंके नाम ...	२१ १	प्रमादके विषयमे ५ प्रकार .	१५११५
गुणस्थान और मार्गणाकी उत्पत्तिका		सख्या ...	१५१२५
निमित्त और उनके पर्याय वाचक शब्द	२११८	प्रस्तारका पहला क्रम ...	१६१११
गुणस्थान संज्ञाको मोहयोगभवा क्यों		प्रस्तारका दूसरा क्रम ...	१६१२५
कहा ? इसका उत्तर ..	३१ १	प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवर्तन ...	१७११०
दो प्ररूपणा और बीस प्ररूपणाकी भिन्न		दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसंचार ...	१७१२४
२ अपेक्षा ..	३१ ५	नष्टकी विधि ...	१८१ ६
मार्गणाप्ररूपणामें दूसरी प्ररूपणाओंका		उद्दिष्टका स्वरूप .	१८१२३
अंतर्भाव ...	३११४	प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा नष्ट उद्दिष्टका	
संज्ञाओंका अंतर्भाव ...	४१ १	गूढयंत्र ...	१९११०
उपयोगका अंतर्भाव ...	४११३	दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गूढयंत्र ...	१९१२२
गुणस्थानका लक्षण ...	४१२५	सातमे गुणस्थानका स्वरूप ...	२०१ ३
चौदह गुणस्थानोंके नाम ...	५१ ६	सातमे गुणस्थानके दो भेदोंका स्वरूप ...	२०१११
चार गुणस्थानोंमें होनेवाले पाच भाव ...	६१ १	अध करणका लक्षण ...	२११ १
४ गुणस्थानोंके पाच भावोंकी अपेक्षा ...	६११६	अपूर्वकरण गुणस्थान ..	२३११५
पांचमे आदि गुणस्थानोंमें होनेवाले		अपूर्वकरण परिणामोंका कार्य .	२५१ ३
भाव और उनकी अपेक्षा ...	७१ १	नवमे गुणस्थानका स्वरूप . .	२५१००
मिथ्यात्वका लक्षण और भेद .	७१२१	दशमे गुणस्थानका स्वरूप ...	२७१ ८
मिथ्यात्वके पांच भेदोंका दृष्टांत ...	८११४	ग्यारहमे गुणस्थानका स्वरूप ...	२७१०८
प्रकारांतरसे मिथ्यात्वका लक्षण ...	८१२३	बारहमा गुणस्थान ...	२८१ ६
मिथ्यादृष्टिके चाक्ष चिन्ह ...	९१ ५	तेरहमा गुणस्थान ...	२८११४
सासादन गुणस्थानका लक्षण ...	९११४	चौदहमा गुणस्थान ...	२९१ ८
सासादनका दृष्टांत ...	९१२५	गुणस्थानोंमें होनेवाली गुणप्रेणिभिर्जरा ...	२९११६
तीसरे मिश्र गुणस्थानका लक्षण ...	१०१११	सिद्धोंका स्वरूप ...	३०११२
तीसरे गुणस्थानका दृष्टान्त ...	१०१३०	सिद्धोंको दियेहुए विवेकपूर्ण फल ..	३०१२३
तीसरे गुणस्थानकी कुछ विशेषता ...	१११ ८	जीवसमाप्त-आधिकार *	
वेदक सम्यक्त्वका लक्षण ...	१२१ १	जीवसमाप्तका लक्षण ...	३१११३
औपशामिक और क्षायिक सम्यक्त्वका		जीवसमाप्तके चौदह भेद ..	३२१११
लक्षण ...	१२१००	जीवसमाप्तके ५३ भेद .	३३११५
चतुर्थ गुणस्थानकी कुछ विशेषता	१३१ १	जीवसमाप्तके विषयमे मन्त्र विवेक ..	
पांचमे गुणस्थानका लक्षण ...	१४१ १	फल ...	३३१००
विरताविरतकी उपपत्ति ...	१४१ ८	स्थानाधिकार ..	३३११०

विषय.	पृ. पं	विषय.	पृ. पं.
दोनिअधिकार	३५१२७	संज्ञाओंके स्वामी	५७१ ६
तीन प्रकारका जन्म	३६११५	मार्गणा-महाधिकार	
जन्मका योनिके साथ सम्बन्ध	३७१ ४	मंगलान्तरण और मार्गणाधिकारके वर्ण-	
गुणयोनिकी संख्या	३७१२४	नकी प्रतिज्ञा	५७१२१
गतित्री अपेक्षा जन्म	३८११२	मार्गणाका निरुक्तिपूर्वक लक्षण	५८१ १
गतित्री अपेक्षा वेदोंका नियम	३९१ ७	चौदह मार्गणाओंके नाम	५८११०
अवगाहनाधिकार	३९११९	अंतरमार्गणाओंके भेद और उनके काल-	
अवगाहनाओंके स्वामी और उनकी न्यु-		का नियम	५८११७
नाधिकारका गुणाकार	४११ ७	अंतरमार्गणा विशेष	५९१ ७
चतु स्तम्भपतित वृद्धि और अवगाहनाके		गतिमार्गणा अ-६	
मध्यके भेद	४३११४	गति शब्दकी निरुक्ति और उसके भेद	५९१२१
पशुमयकी अवगाहना	४५११३	नारकादि ४ गतियोंका भिन्न २ स्वरूप	६०१ १
तैजसागाढिकी अवगाहनाओंके गुणाका-		सिद्धगतिका स्वरूप	६२१ ३
रकी उत्पत्तिका क्रम	४६१२३	गतिमार्गणामें जीवसंख्या	६२११८
अवगाहनाके विषयमें मत्स्यरचना	४७१ ३	इन्द्रियमार्गणा अ-७	
उत्पत्तिकार	४७११६	इन्द्रियका निरुक्तिसिद्ध अर्थ	६६१२३
पर्याप्ति-अधिकार ३		इन्द्रियके द्रव्य भावरूप दो भेद और	
परीनद्वारा पर्याप्त अपर्याप्तका स्वरूप ...	४८१२२	उनका स्वरूप	६७१ ५
पर्याप्तिसे छह भेद और उनके स्वामी ...	४९१ ५	इन्द्रियकी अपेक्षा जीवोंके भेद	६७११४
पर्याप्ति का लक्षण	५०१ १	इन्द्रियवृद्धिका क्रम	६८१ १
अपर्याप्तका स्वरूप	५०१२६	इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र	६८१११
अपर्याप्तके उच्छेद भव	५११ १	इन्द्रियोंका आकार	७०१ १
अपर्याप्ति की अपर्याप्तताकी शक्तिका परि-		इन्द्रियगत आत्मप्रदेशोंका अवगाहना-	
हार	५२११०	प्रमाण	७०१ ८
अपर्याप्तताकी अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त		अतीन्द्रियज्ञानियोंका स्वरूप	७११ १
का लक्षण	५२१२८	एकेन्द्रियादि जीवोंकी संख्या	७१११७
अपर्याप्तता और सम्बन्धके अभावका		कायमार्गणा अ-८	
लक्षण	५३११०	कायका लक्षण और भेद	७३१२७
प्रमाण-अधिकार ४		पृथ्वी आदि ४ स्थावरोंकी उत्पत्तिका	
प्रमाण का लक्षण	५३१२१	कारण	७४१ ६
प्रमाण के भेद	५४१ ५	शरीरके भेद और लक्षण	७४११६
प्रमाण के उच्छेद का लक्षण	५४११२	शरीरका प्रमाण	७४१२५
प्रमाण के भेद	५४१२७	वनस्पतिका स्वरूप और भेद	७५१ ४
प्रमाण के भेद और उनके नियम	५५१ ६	त्रयोंका स्वरूप भेद क्षेत्र आदि	७५१२६
भोग-अधिकार ५		वनस्पतिके समान दूसरे जीवोंमें प्रतिष्ठित	
भोग के लक्षण	५५१२४	अप्रतिष्ठित भेद	८०१२६
भोग के भेद	५६१ ८	स्थावर और त्रय जीवोंका आकार	८११ ५

विषय.	पृ. पं.
दृष्टांतद्वारा कायका कार्य	८१११५
कायरहित-सिद्धोंका स्वरूप	८११२६
पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी संख्या	८२११०
योगमार्गणा अ-९	
योगका सामान्य लक्षण	८७१ ९
योगका विशेष लक्षण	८७१२३
दश प्रकारका सत्य	८८११३
अनुभय वचनके भेद	९०१२४
चार प्रकारके मनोयोग और वचनयो- गके कारण	९१११७
सयोगकेवलीके मनोयोगकी सभ्यता	९११२५
काययोगके प्रत्येक भेदका स्वरूप ..	९२११७
योगप्रवृत्तिका प्रकार	९६१ ४
अयोगी जिन	९६१११
शरीरमें कर्म नोकर्मका विभाग ..	९६११८
औदारिकादिके समयप्रबद्धकी संख्या ...	९६१२६
औदारिकादिके समयप्रबद्ध और वर्गणा- का अवगाहन प्रमाण	९७११३
विस्त्रसोपचयका स्वरूप	९८१ १
कर्म नोकर्मका उत्कृष्ट सचय और स्थान	९८११२
उत्कृष्ट सचयकी सामग्रीविशेष	९८१२५
शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थिति	९९१ ३
उत्कृष्ट स्थितिका गुणहानि आयाम	९९११४
शरीरोंके समयप्रबद्धका बंध उदय सत्व अवस्थामें द्रव्यप्रमाण	९९१२२
औदारिक और वैक्रियिक शरीरकी विशे- षता	१००१११
औदारिक शरीरके उत्कृष्ट सचयका स्वाभी	१००१२८
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट सचयका स्थान	१०११ ५
तैजस कर्मणके उत्कृष्ट संचयका स्थान	१०११६
योगमार्गणामे जीवोंकी संख्या	१०११२५
वेदमार्गणा अ-१०	
तीन वेदोंके दो भेदोंका कारण और उनकी समविपमता	१०६१ १
भावभेद और उसके तीन भेदोंका स्वरूप	१०६११३
वेदरहित जीव	१०७११५
वेदकी अपेक्षा जीवसंख्या ..	१०७१२३

विषय.	पृ. पं.
कषायमार्गणा अ-११	
कषायके निरुक्तिसिद्ध लक्षण	१०९११४
शक्तिकी अपेक्षा क्रोधादिके ४ भेद	११०१ ६
गतियोंके प्रथम समयमे क्रोधादिका नियम	१११११४
कषायरहित जीव	११११२६
कषायोंके स्थान	११२१ ४
कषायकी अपेक्षा जीवसंख्या	११४११३
ज्ञानमार्गणा अ-१२	
ज्ञानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण ...	११५१२८
पांच ज्ञानोंका क्षायोपशमिक क्षायिकर- पसे विभाग	११६१ ६
मिथ्याज्ञानका कारण और स्वामी ...	११६११३
मिश्रज्ञानका कारण और मन पर्ययज्ञान- का स्वामी	११६१२२
दृष्टांतद्वारा तीन मिथ्याज्ञानका स्वरूप...	११७१ ३
मतिज्ञानका स्वरूप उत्पत्ति आदि ...	११८१ ३
श्रुतज्ञानका सामान्य लक्षण	१२११२३
श्रुतज्ञानके भेद	१२२१ २
पर्यायज्ञान	१२२१२८
पर्यायसमास	१२४१ ३
छह वृद्धियोंकी छह सज्ञा	१२४१२०
छह वृद्धियोंकी कुछ विशेषता ...	१२४१२८
अर्थाक्षर श्रुतज्ञान ..	१२७११०
श्रुतनिबद्ध विषयका प्रमाण	१२७१२१
अक्षरसमास और पदज्ञान	१२८१ ३
पदके अक्षरोंका प्रमाण	१२८१११
पदसमास और सघात श्रुतज्ञान	१२८१२४
सघातसमास आदि १३ प्रकारके ध्रुतज्ञान- नरा विस्तृत स्वरूप	१२९१ ४
अंगवाच्य ध्रुतके भेद .	१४०१ ३
ध्रुतज्ञानका माहात्म्य .	१४०११४
अवधिज्ञानका स्वरूप और दो भेद ..	१४११ १
दो प्रकारकी अवधिज्ञान स्वामी और स्वरूप	१४१११०
गुणप्रत्यय और सामान्य अवधिके भेद	१४१११६
अवधिकी द्रव्यादि-पुनरादि-अवधि कर्तव्य	१४३१ १

विषय.	पृ. पं.	विषय	पृ. पं.
अवधिज्ञा सबसे जघन्य द्रव्य ...	१४३।१७	विपुलमत्तिका द्रव्य ..	१६५।२१
अवधिका जघन्य क्षेत्र ...	१४३।२८	दोनों भेदोंके क्षेत्रादिका प्रमाण ..	१६६।११
जघन्यक्षेत्रका विशेष कथन ...	१४४। ७	केवल ज्ञानका स्वरूप .	१६७।१६
अवधिका समयप्रवृद्ध ...	१४५।२७	ज्ञानमार्गणामे जीवसंख्या .	१६७।२९
ध्रुवहारका प्रमाण ...	१४६। ५	संयममार्गणा अ-१३	
मनोद्रव्य-वर्णनाका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण ..	१४६।१४	संयमका स्वरूप और उसके पांच भेद	१६९। १
प्रकारान्तरसे ध्रुवहारका प्रमाण ...	१४६।२३	संयमकी उत्पत्तिका कारण ...	१६९।१०
देशानधिके द्रव्यकी अपेक्षा भेद ...	१४७। ६	देशसंयम और असंयमका कारण ..	१७०। ३
क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण	१४७।१५	सामायिक संयम . .	१७०।१०
वर्णनाका प्रमाण ...	१४७।२४	छेदोपस्थापना संयम ...	१७०।१९
परमावधिके भेद ...	१४८। ३	परिहारविशुद्धि संयम ...	१७०।२८
देशानधिके विकल्प और उनके विषयभूत क्षेत्रादिके प्रमाण निकालनेके क्रम...	१४८।१२	सूक्ष्मसांपराय संयम ...	१७१।१७
उनीस काण्डकमें दोनों क्रमोंका स्वरूप...	१५०।१०	यथाख्यात संयम ...	१७१।२६
ध्रुववृद्धिका प्रमाण ...	१५२। ४	देशविरत ...	१७२। ९
अध्रुववृद्धिका प्रमाण ...	१५२।१६	असंयत ...	१७२।२५
उत्कृष्ट देशानधिके विषयभूत द्रव्यादिका प्रमाण ...	१५३। १	इन्द्रियोंके अष्टाईस विषय ...	१७३। ३
परमावधिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण ...	१५३।२५	संयमकी अपेक्षा जीवसंख्या ...	१७३।१२
उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण ...	१५४। ३	दर्शनमार्गणा अ-१४	
अवधिके विषयभूत द्रव्य	१५४।११	दर्शनका लक्षण...	१७४। १
परम परिच्छेद क्षेत्र कालकी अपेक्षा भेद	१५४।२२	चक्षुदर्शन आदि ४ भेदोंका क्रमसे स्वरूप	१७४।१७
विषयके अक्षरानुगुणितक्रमका प्रकार	१५४।२८	दर्शनकी अपेक्षा जीवसंख्या ...	१७५।१३
प्रमाणसममे कृत्कारका प्रमाण ..	१५५।१७	लेश्यामार्गणा अ-१५	
परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और क्षेत्रका प्रमाण निकालनेकेलिये दो ध्रुवमूत्र ...	१५६।१३	लेश्याका लक्षण ..	१७६।११
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके ध्रुवपरिचयत माय-द प्रमाण ..	१५६।३०	लेश्याओंके निर्देश आदि १६ अधिकार	१७७। १
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्र	१५७।२०	१ निर्देश ...	१७७।१३
विषय और ध्रुवमूत्रमें अवधि	१५७।३०	२ वर्ण ...	१७७।२४
देशानधिके अवधिके क्षेत्रादिके	१५८। ९	३ परिणाम ...	१७९। ६
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्रादिके	१६१।२८	४ सक्रम ...	१८०।१८
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्रादिके	१६२। ७	५ कर्म .	१८२। ९
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्रादिके	१६२।२६	६ लक्षण ...	१८३। १
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्रादिके	१६८। १	७ गति . .	१८५। ९
उत्कृष्ट क्षेत्राधिके क्षेत्रादिके	१८५।१८	८ स्वामी ...	१८९।१८
		९ साधन ...	१९२। १
		१० सख्या ...	१९२।१२
		११ क्षेत्र ...	१९४।२७
		१२ स्पर्श ...	१९६। ६
		१३ काल ...	१९८।१६
		१४ अन्तर ...	१९९।१३

विषय.	पृ. पं.
१५-१६ भाव और अल्पबहुत्व ...	२००।२७
लेझ्यारहित जीव ...	२०१।११
भव्यमार्गणा अ-१६	
भव्यअभव्यका स्वरूप ...	२०१।२४
भव्यत्व अभव्यत्वसे रहित जीव ...	२०२।२४
भव्यमार्गणामें जीवसंख्या...	२०३। ५
पांच परिवर्तन. .	२०३।१२
सम्यक्त्वमार्गणा अ-१७	
सम्यक्त्वका स्वरूप ...	२०८।१३
सात अधिकारोंके द्वारा छह द्रव्यका निरूपण .	२०८।२७
१ नाम . . .	२०९। ५
२ उपलक्षण ...	२०९।२२
३ स्थिति ...	२१५।१२
४ क्षेत्र ..	२१६। ३
५ संख्या ...	२१७।२५
६ स्थानस्वरूप ...	२१८।२३
७ फल ...	२२३। ४
परमाणुके स्कन्धरूप परिणामनका कारण	२२४।२१
पंचास्तिकाय ...	२२८।२६
नव पदार्थ .	२२९।१४
गुणस्थानक्रमसे जीवसंख्या ...	२३०। ६
अजीवादि-तत्वोंका सक्षिप्त स्वरूप ...	२३८। ७
क्षाधिक सम्यक्त्व ...	२३९। ७
वेदक सम्यक्त्व ...	२४०।२६
उपशम सम्यक्त्व ...	२४१। ७
पांच लब्धि ...	२४१।२२
सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य जीव ...	२४२। ६
सम्यक्त्वमार्गणाके दूसरे भेद ...	२४२।२७
सम्यक्त्वमार्गणामें जीवसंख्या ...	२४४। १
संज्ञी मार्गणा अ-१८	
संज्ञी असंज्ञीका स्वरूप ...	२४५। १

विषय.	पृ. पं.
संज्ञी असंज्ञीकी परीक्षाके चिन्ह ...	२४५।१२
संज्ञी मार्गणामें जीवसंख्या ...	२४६। १
आहारमार्गणा अ-१९	
आहारका स्वरूप ...	२४६।१०
आहारक अनाहारकका विभेद .	२४६।२५
समुद्रातके भेद .	२४७। ४
समुद्रातका स्वरूप ...	२४७।१२
आहारक और अनाहारकका कालप्रमाण	२४७।२६
आहारमार्गणामें जीवसंख्या	२४८। ५
उपयोगाधिकार-२०	
उपयोगका स्वरूप और दो भेद ...	२४८।१४
दोनों उपयोगोंके उत्तर भेद ...	२४८।२२
साकार उपयोगकी विशेषता ...	२४९। १
अनाकार उपयोगकी विशेषता ...	२४९।१३
उपयोगाधिकारमें जीवसंख्या ...	२४९।२७
अंतर्भावाधिकार १	
गुणस्थान और मार्गणामें शेष प्ररूपणा-ओंका अंतर्भाव ...	२५०। ७
मार्गणाओंमें गुणस्थानादि..	२५०।१७
गुणस्थानोंमें जीवसमासादि ...	२५८।२०
आलापाधिकार २	
नमस्कार और आलापाधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञा ...	२६३।१६
गुणस्थान और मार्गणाओंके आलापोंकी सत्या ...	२६३।२४
गुणस्थानोंमें आलाप ...	२६८। १
मार्गणाओंमें आलाप ...	२६५। १
जीवसमासकी विशेषता ...	२६९।२७
दीस भेदोंकी योजना ...	२७०।११
आवश्यक नियम ...	२७०।२९
गुणस्थानातीत मित्रोंका स्वरूप ...	२७२। १
दीस भेदोंके जाननेका उपाय ...	२७२।१
अंतिम आशुवाद .	२७३।१८

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची ।

१ **पुरुषार्थसिद्ध्युपाय भाषाटीका** यह श्रीभृत्तचन्द्रस्वामी विरचित प्रसिद्ध शास्त्र है। इसमें आचार-संबन्धी बडे २ गूढ रहस्य हैं। विशेष कर हिंसाका स्वरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया है। यह एक वार छपकर विक्रमगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया है। न्यो १ रु

२ **पञ्चास्तिकाय संस्कृत भा. टी.** यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल और श्रीभृत्तचन्द्रसूरीकृत संस्कृतटीकासहित पहले छपा था। अबकी वार इसकी दूसरी आवृत्तिमें एक संस्कृतटीका तात्पर्यवृत्ति नामकी जो कि श्रीजयसेनाचार्यने बनाई है अर्थकी सरलताकेलिये लगादी गई है। तथा पहली संस्कृतटीकाके सूक्ष्म अक्षरोको मोटा करादिया है और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये लगादी हैं। इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पांच द्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कालद्रव्यका भी सक्षेपमें वर्णन किया गया है। इसकी भाषा टीका स्वर्गीय पांडे हेमराजकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकाके परिवर्तन कीगई है। इसपर भी न्यो. २ रु.

३ **ज्ञानार्णव भा. टी.** इसके कर्ता श्रीशुभचन्द्रस्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है। प्रकरणवश ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी बहुत दिखलाया है। यह एकवार छपकर विक्रमगया था अब द्वितीयवार संशोधन कराके छपाया गया है। न्यो. ४ रु

४ **सप्तभङ्गीतरंगिणी भा. टी.** यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है इसमें ग्रंथकर्ता श्रीविमलदासजीने स्यादस्ति, स्यानास्ति आदि सप्तभङ्गी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वादमत क्या है यह जाननेकेलिये यह ग्रंथ अवश्य पढना चाहिये। इसकी पहली आवृत्तिमें की एक भी प्रति नहीं रही अब दूसरी आवृत्ति शीघ्र छपकर प्रकाशित होगी। न्यो. १ रु.

५ **बृहद्द्रव्यसंग्रह संस्कृत भा. टी.** श्रीनेमिचन्द्रस्वामीकृत मूल और श्रीनरहृदेवजीकृत सस्कृतटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित है। इसमें छह द्रव्योंका स्वरूप अतिसूक्ष्मरीतिमें दिग्गाया गया है। न्यो. २ रु.

६ **द्रव्यानुयोगतर्कणा** इस ग्रंथमें शास्त्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धिजनोंकी द्रव्य-ज्ञान होनेकेलिये 'अथ, " गुणपर्ययवद्रव्यम् " इस महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य—गुण तथा अन्य पदार्थोंका भी विशेष वर्णन किया है और प्रसंगवश ' स्यादस्ति ' आदि सप्तभङ्गीका और दिग्दशाचार्यवर्ष श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारमें वर्णन किया है। न्यो. २ रु.

७ **सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र** इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र भी है। जैनियोंका यह परममान्य और मुख्य ग्रन्थ है। इसमें जैनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचार्यवर्य श्रीउमास्वाति (भी) जीने बडे तात्पर्यसे संग्रह किये हैं। ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है जो इसके सूत्रोंमें गभित न हो। सिद्धांतकारोंको एतद्व्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमें भरदेना यह कार्य अनुपनसामर्थ्यवाले इसके रचयिताका ही था। तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रोंके अर्थगाभीर्थको देखकर विद्वानोंकी विस्मित होना पढता है। न्यो. २ रु

८ **स्याद्वादमञ्जरी संस्कृत भा. टी.** इसमें छोटे मतोंका विवेचनकरके टीका कर्ता श्रीनेमिचन्द्रसूरीजीने स्याद्वादको पूर्णरूपसे सिद्ध किया है। न्यो. ८ रु

९ **गोम्मटसार (कर्मकाण्ड)** सस्कृतभाषा और संक्षिप्त ३ श्रीनेमिचन्द्राचार्यसिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है, इसमें जैन

कर्मका स्वरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं होसकती देखनेसेही मालूम होसकता है । और जो कुछ संसारका झगडा है वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म) के सबन्धसे है सो इन दोनोंका स्वरूप दिखानेकेलिये अपूर्व सूर्य है । न्यौं २ र

१० प्रवचनार—श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका सं टी., “ जो कि यूनिवर्सिटीके कोर्समे दाखिल है ” तथा श्रीजयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति सं टी और वालाबबोधिनी भाषाटीका इन तीन टीकाओं सहित छपाया गया है इसके मूलकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य है । यह अध्यात्मिक ग्रन्थ है । न्यौं. ३ र

११ मोक्षमाळा—कृती मरहुम सतावधानी कवी श्रीमद्राजचंद्र छे. आ एक स्यादवाद तत्वावबोध-वृक्षसु बीज छे आ ग्रन्थ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एतुं एमा कंड अशे पण दैवत रह्य छे. आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बाळ युवानी अविबेकी विद्या पामी जे आत्मसिद्धीथी अष्ट थाय छे ते अष्टता अटकाववानो छे. आ मोक्षमाळा मोक्षमेळववानां कारण रूप छे. आ पुस्तकनी वे वे आवृत्तिओ खलास थइ गइछे अने ग्राहकोनी बहोळी मागणी थी आ त्रीजी आवृत्ति छपावी छे कांमत आना वार.

१२ भावनावोध—आ ग्रन्थना कर्ता पण उक्त महापुरुष छे वैराग्य ए आ ग्रन्थनो मुख्यविषय छे. पात्रता पामवानुं अने कपायमल दूर करवानुं आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे. आत्मगवेषिओने आ ग्रन्थ आनंदोहास आपनार छे आ ग्रन्थनी पण वे आवृत्तिओ खपी जवायी अने ग्राहकोनी बहोळी मागणी थी आ त्रीजी आवृत्ति छपावी छे. कांमत आना चार आवंने ग्रन्थो गुजराती भाषामां अने वालबोध टाइपमां छपावेल छे.

१३ परमात्मप्रकाश—यह ग्रंथ श्रीयोगीन्द्रदेव रचित प्राकृतदोहाओंमें है इसकी संस्कृतटीका श्रीब्रह्मदेवकृत है तथा भाषाटीका पं० दौलतरामजीने की है उसके आधारसे नवीन प्रचलित हिंदीभाषा अन्वयार्थ भावार्थ पृथक् करके बनाई गई है । इसतरह दो टीकाओं सहित छपगया है । ये अध्यात्मग्रंथ निश्चयमोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । न्यौं० ३ र.

१४ षोडशकप्रकरण—यह ग्रन्थ श्वेताम्बराचार्य श्रीमद्धरिभद्रसूरिका बनाया हुआ संस्कृत आर्या छन्दोंमें है इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण हैं । इसका संस्कृत टीका तथा हिंदीभाषाटीका सहित प्रकाशन होरहा है । एक वर्षमें लगभग तैयार होजायगा ।

१५ लट्ठिसार (क्षणसार सहित)—यह ग्रन्थ भी श्रीनेमिचन्द्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्तीका बनाया हुआ है और गोमटसारका परिशिष्ट भाग है । इसीसे गोमटसारक स्वाध्याय करनेकी सफलता होती है । इसमे मोक्षका मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेकी पांच लट्ठियोंका वर्णन है फिर सम्यक्त्व होनेके बाद कर्मोंके नाश होनेका बहुत अच्छा क्रम बतलाया गया है कि सम्यक्त्व ही कर्मोंसे छूट अनंत सुखको प्राप्त होकर अविनाशी पदमें पासकते हैं । यह भी मूल गाथा छाया तथा सक्षिप्त भाषाटीका सहित छपाया जा रहा है । छह महीनेके लगभग तैयार होजायगा ।

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं है केवल परोपकारकेवास्ते है । जो द्रव्य आता है वह इसी शास्त्रमालाके उत्पन्नग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता है ॥ इति शम् ॥

ग्रंथोंके मिलनेका पत्ता—

शा० रेवाड़ीकर जगजीवन जोंहरी

ऑर्नरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मठल


जोंहरी बाजार खारकुवा पो० न० २ बंबई. ।



श्रीमन्नेमिचन्द्राय नमः ।

अथ छायाभापाटीकोपेतः

गोम्मटसारः ।



जीवकाण्डम् ।

अथ श्रीनेमिचन्द्र सैद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्मटसार ग्रन्थके लिखनेके पूर्व ही निर्विघ्न समाप्ति नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन और उपकारस्मरण—इन चार प्रयोजनोसे इष्टदेवको नमस्कार करते हुए इस ग्रन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसकी “ सिद्धं ” इत्यादि गाथासूत्रद्वारा प्रतिज्ञा करते हैं:—

सिद्धं सुद्धं पणमिय जिणिन्दवरणेमिचन्द्रमकलंकं ।

गुणरयणभूसणुदयं जीवस्स परूदणं वोच्छं ॥ १ ॥

सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलङ्कम् ।

गुणरत्नभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपणं वक्ष्ये ॥ १ ॥

अर्थ—जो सिद्ध अवस्था अथवा स्वात्मोपलब्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके अनेक प्रमाणोंसे जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार घातिया—द्रव्यकर्मके अभासे शुद्ध, और मिथ्यात्वादि भावकर्मोंके नाशसे अकलङ्क हो चुका है, और जिसके हमेशाही सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्नोंके भूषणोंका उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीजिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र स्वामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूर्वान्तर्य परम्परामे चला आ रहा है इस सिद्ध, और पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध, और दृग्दर्श विन्दु आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्पादक न होनेसे निष्कलङ्क है, जो सिद्धे सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्नभूषणोंकी प्राप्ति होती है—जो निष्कला आदिनी कदा कदा कदा नहीं है इस प्रकारके जीवप्ररूपण नामक ग्रन्थसे अर्थात् निम्नमें अशुद्ध होनेके अन्तर्गत भेद प्रभेद आदि दिखलाये है इस प्रकारके ग्रन्थसे उद्भूत गा ।

इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित ग्रंथकी प्रतिज्ञा कर इस जीवकाण्डमें जितने अधिकारोके द्वारा जीवका वर्णन करेगे उनके नाम और संख्या दिखाते हैं ।

गुणजीवा पञ्चती पाणा सण्णाय भग्गणाओ य ।

उबओगोवि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा ॥ २ ॥

गुणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्च मार्गणाश्च ।

उपयोगोपि च क्रमशः विशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ २ ॥

अर्थ—गुणस्थान, जीवसमाप्त, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा, और उपयोग इस प्रकार ये वीस प्ररूपणा पूर्वाचार्योंने कही हैं । भावार्थ इनहीके द्वारा आगे जीवद्रव्यका निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें स्वय आचार्य कहेंगे तथापि यहापर संक्षेपसे इनका लक्षण कहेदेना भी उचित है । मोह और योगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रगुणोंकी अवस्थाओंको **गुणस्थान** कहते हैं । जिन सदृशधर्मोंके द्वारा अनेक जीवोका सङ्ग्रह किया जासके उन सदृशधर्मोंका नाम **जीवसमाप्त** है । शक्तिविशेषकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । जिनका संयोग रहनेपर जीवमें ' यह जीता है ' और वियोग होनेपर ' यह मरगया ' ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । आहारादिकी वाञ्छाको संज्ञा कहते हैं । जिनके द्वारा अनेक अवस्थाओंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो उनको मार्गणा कहते हैं । बाह्य तथा अभ्यंतर कारणोंके द्वारा होनेवाली आत्माके चेतना गुणकी परिणतिको उपयोग कहते हैं ।

उक्त वीस प्ररूपणाओका अन्तर्भाव गुणस्थान और मार्गणा इन दो प्ररूपणाओंमेंही हो सकता है, इस कथनके पूर्व दोनों प्ररूपणाओकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके पर्यायवाचक शब्दोंको दिखाते हैं ।

संखेओ ओघोत्ति य गुणसण्णया सा च मोहजोगभवा ।

वित्थारादेसोत्ति य भग्गणसण्णया सकम्मभवा ॥ ३ ॥

संक्षेप ओघ इति गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा ।

विस्तार आदेश इति च मार्गणसंज्ञा स्वकर्मभवा ॥ ३ ॥

अर्थ—संक्षेप और ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमित्तसे उत्पन्न होती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणाकी संज्ञा है और यह भी अपने २ कर्मोंके उदयादिसे उत्पन्न होती है । यहापर चकारका ग्रहण किया है इससे गुणस्थानकी सामान्य और मार्गणाकी विशेष यह भी संज्ञा समझना । यहापर यह शब्दा होसकती है कि मोह तथा योगके निमित्तसे गुणस्थान उत्पन्न होते हैं, नकि ' गुणस्थान '

१ नामके एकदेशसे भी सम्पूर्ण नाम समझा जाता है इस लिये गुणशब्दसे गुणस्थान और जीवशब्दसे जीवसमाप्त समझता ।

यह संज्ञा; फिर संज्ञाको मोहयोगभवा (मोह और योगसे उत्पन्न) क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि परमार्थसे मोह और योगके द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं न कि गुणस्थानसंज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकमें कथंचित् अभेदको मानकर उपचारसे संज्ञाको भी मोहयोगभवा कहा है ।

उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव दो प्ररूपणाओंमें किस अपेक्षासे हो सकता है और वीसप्ररूपणा किस अपेक्षासे कही हैं यह दिखाते हैं ।

आदेशे संलीणा जीवा पञ्जत्तिपाणसण्णाओ ।

उबओगोवि य भेदे वीसं तु परूवणा भणिदा ॥ ४ ॥

आदेशे संलीना जीवाः पर्याप्तिप्राणसंज्ञाश्च ।

उपयोगोपि च भेदे विशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ ४ ॥

अर्थ—मार्गणाओंमें ही जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग इनका अन्तर्भाव हो सकता है, इस लिये अभेद विवक्षासे गुणस्थान और मार्गणा ये दो प्ररूपणा ही माननी चाहिये; वीस प्ररूपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षासे हैं ।

किस मार्गणामे कौन २ प्ररूपणा अन्तर्भूत हो सकती है यह बात तीन गाथाओद्वारा दिखाते हैं ।

इन्द्रियकाये लीणा जीवा पञ्जत्तिआणमासमणो ।

योगे काओ णाणे अक्खा गदिसग्गणे आऊ ॥ ५ ॥

इन्द्रियकाययोर्लीना जीवाः पर्याप्त्यानभापामनासि ।

योगे कायः ज्ञाने अक्षीणि गतिमार्गणायामायुः ॥ ५ ॥

अर्थ—इन्द्रियमार्गणामें तथा कायमार्गणामें स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवसमासका अन्तर्भाव हो सकता है; क्योंकि इन्द्रिय तथा काय जीवसमासके स्वरूप हैं और जीवसमास स्वरूपवान् हैं । तथा इन्द्रिय और काय विशेष हैं जीवसमास सामान्य है । इसीप्रकार धर्मधर्मि सम्बन्धकी अपेक्षा पर्याप्ति भी अन्तर्भूत हो सकती है, क्योंकि इन्द्रिय धर्मा है और पर्याप्ति धर्म है । कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा प्राण, वचनवल प्राण, तथा मनोवलप्राणका, पर्याप्तिमें अन्तर्भाव हो सकता है; क्योंकि प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है । कायवल प्राण विशेष है और योग सामान्य है इसलिये सामान्यविशेषकी अपेक्षा योगमार्गणामे कायवलप्राण अन्तर्भूत हो सकता है । तद्वन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमार्गणामे इन्द्रियोक्त अन्तर्भाव हो सकता है । क्योंकि ज्ञानमार्गणामे प्रति लैब्धीन्द्रिय कारण हैं । इसीप्रकार गतिमार्गणामें आयुप्राणका अन्तर्भाव मान्यमान्यकी अपेक्षा हो सकता है, क्योंकि इन दोनोंका उदय साथही होता है ।

संज्ञाओंका अन्तर्भाव किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं ।

मायालोहे रदिपुव्वाहारं क्रोधमाणगह्नि भयं ।

वेदे मेहुणसण्णा लोहह्नि परिग्रहे सण्णा ॥ ६ ॥

मायालोभयो रतिपूर्वकमाहारं क्रोधमानकयोर्भयम् ।

वेदे मैथुनसंज्ञा लोभे परिग्रहे संज्ञा ॥ ६ ॥

अर्थ—रतिपूर्वक आहार अर्थात् आहारसंज्ञा रागविशेष होनेसे रागका स्वरूपही है और माया तथा लोभकषाय दोनोंही स्वरूपवान् है इसलिये स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा माया और लोभकषायमे आहारसंज्ञाका अन्तर्भाव होता है । इसीप्रकार (स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा) क्रोध तथा मानकषायमें भयसंज्ञाका अन्तर्भाव होता है । कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा वेदकषायमें मैथुनसंज्ञाका और लोभकषायमे परिग्रहसंज्ञाका अन्तर्भाव होता है; क्योंकि वेदकषाय तथा लोभकषाय कारण है और मैथुनसंज्ञा तथा परिग्रहसंज्ञा कार्य है ।

उपयोगका अन्तर्भाव दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं ।

सागारो उबजोगो णाणे मग्गह्नि दंसणे मग्गे ।

अणगारो उबजोगो लीणोत्ति जिणेहिं णिद्धिं ॥ ७ ॥

साकार उपयोगो ज्ञानमार्गणाया दर्शनमार्गणायाम् ।

अनाकार उपयोगो लीन इति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ७ ॥

अर्थ—उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ 'यह घट है, यह पट है' इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित हो । इसीको ज्ञान कहते हैं । इसलिये इसका ज्ञानमार्गणामें अन्तर्भाव होता है । जिसमे कोई भी विशेष पदार्थ प्रतिभासित न होकर केवल महासत्ताही विषय हो उसको अनाकार उपयोग तथा दर्शन कहते हैं । इसका दर्शनमार्गणामे अन्तर्भाव होता है ।

यद्यपि यहांपर ऊपर सब जगह अभेद विवक्षासे दो ही प्ररूपणाओंमें शेष प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव दिखलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्ररूपणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेंगे ।

प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणस्थानका सामान्य लक्षण करते हैं ।

जेहिं तु लक्खिज्जंते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं ।

जीवा ते गुणसण्णा णिद्धिंता सब्बदरसीहिं ॥ ८ ॥

यैस्तु लक्ष्यन्ते उदयादिषु सम्भवैर्भावैः ।

जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सर्वदर्शिभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाके

होनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वज्ञदेवने उसी गुणस्थानवाला और परिणामोंको गुणस्थान कहा है ।

भावार्थः—जिस प्रकार किसी जीवके दर्शन मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादृष्टि और उन परिणामोंको मिथ्यात्व गुणस्थान कहेंगे ।

गुणस्थानोंके १४ चौदह भेद है । उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं ।

मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य ।

विरदा पमत्त इदरो अपुव्व अणियट्ट सुहमो य ॥ ९ ॥

१ मिथ्यात्वं २ सासनः ३ मिश्रः । ४ अविरतसम्यक्त्वं च ५ देशविरतश्च ।

विरताः ६ प्रमत्तः ७ इतरः ८ अपूर्वः ९ अनिवृत्तिः १० सूक्ष्मश्च ॥ ९ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय । इस सूत्रमें चौथे गुणस्थानके साथ अविरतशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूर्वके तीन गुणस्थानोंमेंभी अविरतपना समझना चाहिये । तथा छठे गुणस्थानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहासे लेकर सम्पूर्ण गुणस्थान विरत ही होते हैं ऐसा समझना ।

उबसंत खीणमोहो सयोगकेवलजिणो अजोगी य ।

चउदस जीवसमासा क्रमेण सिद्धा य णादव्वा ॥ १० ॥

११ उपशान्तः, १२ क्षीणमोहः, १३ संयोगकेवलजिनः, १४ अयोगी च ।

चतुर्दश जीवसमासाः क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातव्याः ॥ १० ॥

अर्थ—उपशान्तमोह, क्षीणमोह, संयोगकेवलजिन, अयोगकेवली ये १४ चौदह जीवसमासा (गुणस्थान) हैं । और सिद्ध जीवसमासासे रहित है । अर्थात् इस सूत्रमें क्रमेण शब्द के पडा है उससे यह सूचित होता है कि जीवसामान्यके दो भेद है, एक ससारी दूसरा मुक्त । मुक्तअवस्था संसारपूर्वक ही होती है । संसारियोंके गुणस्थानकी अपेक्षा चौदह भेद है । इसके अनन्तर क्रमसे गुणस्थानोंसे रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है । इन गाथामे संयोग शब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूर्वके मिथ्यादृष्ट्यादि मन्हीं गुणस्थानों में जीव योगसहित होते हैं । और जिन शब्द मध्यदीपक है इसमें अयोगकेवलजिनसे अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवलि शब्द आदिदीपक है इसलिये अयोगी पर्यन्त तथा सिद्ध तीनों ही केवली होते हैं यह सूचित होता है ।

इस प्रकार सामान्यसे गुणस्थानोंका निर्देशकर अब प्रत्येक गुणस्थानोंमें जो २ भाव होते हैं उनका उल्लेख करते हैं ।

मिच्छे खलु ओदइओ विदिये पुण पारणामिओ भावो ।

मिस्से खओवसमिओ अविरदसम्महि तिण्णेव ॥ ११ ॥

मिथ्यात्वे खलु औदयिको द्वितीये पुनः पारणामिको भावः ।

मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रय एव ॥ ११ ॥

अर्थ—प्रथम गुणस्थानमें औदयिक भाव होते हैं । और द्वितीय गुणस्थानमें पारणामिक भाव होते हैं । मिश्रमे क्षायोपशमिक भाव होते हैं । और चतुर्थ गुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक इस प्रकार तीनोंही भाव होते हैं ।

कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हो उनको औदयिक भाव कहते हैं । जो कर्मके उपशम होनेसे भाव होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं । सर्वघातिस्पर्धकोंके वर्तमान निषेकोंके विना फल दिये ही निर्जरा होनेपर और उसीके (सर्वघातिस्पर्धकोंके) आगामिनिषेकोंका सदवस्थारूप उपशम होनेपर देशघाति स्पर्धकोका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जिनमें कर्मके उदय उपशमादिकी कुछ भी अपेक्षा न हो उनको पारणामिक भाव कहते हैं ।

उक्त चारों ही गुणस्थानके भाव किस अपेक्षासे कहे हैं उसको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं ।

एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच्च भणिदा हु ।

चारित्तं णत्थि जदो अविरदअन्तेसु ठाणेसु ॥ १२ ॥

एते भावा नियमा दर्शनमोहं प्रतीत्य भणिताः खलु ।

चारित्रं नास्ति यतो अविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ १२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानोंमें जो नियमबद्ध औदयिकादि भाव कहे हैं वे दर्शनमोहनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं, क्योंकि चतुर्थगुणस्थानपर्यन्त चारित्र नहीं होता । अर्थात् मिथ्यादृष्ट्यादि गुणस्थानोंमें यदि सामान्यसे देखा जाय तो केवल औदयिकादि भाव ही नहीं होते किन्तु क्षायोपशमिकादि भाव भी होते हैं तथापि यदि केवल दर्शनमोहनीय कर्मकी अपेक्षा देखा जाय तो औदयिकादि भाव ही होते हैं; क्योंकि प्रथमगुणस्थानमें दर्शनमोहनीय-कर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपेक्षा है इसलिये औदयिक भाव ही है । द्वितीयगुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा ही नहीं है इसलिये पारणामिकभाव है । तृतीयगुणस्थानमें ज्ञान्यन्तर सर्वघाति मिश्रप्रकृतिका उदय है इसलिये क्षायोपशमिक भाव होते हैं । इसीप्रकार चतुर्थ गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम क्षय क्षयोपशम तीनोंका सद्भाव है इसलिये तीनों ही प्रकारके भाव होते हैं ।

पञ्चमादिगुणस्थानोंमें जो २ भाव होते हैं उनको दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं ।

देशविरदे प्रमत्ते इदरे य खओवसमियभावो हु ।

सो खलु चरित्तमोहं पडुच्च भणियं तथा उवरिं ॥ १३ ॥

देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकभावस्तु ।

स खलु चारित्रमोहं प्रतीत्य भणितस्तथा उपरि ॥ १३ ॥

अर्थ—देशविरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायो-पशमिक भाव होते हैं । तथा इनके आगे अपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमें भी चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा ही भावोंको कहेंगे ।

तत्तो उवरिं उवसमभावो उवसामगेषु खबगेषु ।

खइओ भावो णियमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य ॥ १४ ॥

तत उपरि उपशमभावः उपशामकेषु क्षपकेषु ।

क्षायिको भावो नियमात् अयोगिचरिम इति सिद्धे च ॥ १४ ॥

अर्थ—सातवें गुणस्थानके ऊपर उपशमश्रेणीवाले आठवें नौवें दशवें गुणस्थानमें तथा ग्यारहवेंमें औपशमिकभाव ही होते हैं, इसीप्रकार क्षपकश्रेणीवाले उक्त तीन गुणस्थान तथा क्षीणमोह, सयोगकेवली अयोगकेवली गुणस्थानोंमें और सिद्धोके नियमसे क्षायिक भाव ही होते हैं । क्योंकि उपशम श्रेणीवाला तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है और ग्यारहवेंमें सम्पूर्ण चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है इसलिये यहापर औपशमिक भाव ही होते हैं । इसीतरह क्षपकश्रेणीवाला इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और सिद्ध यहापर क्षय होचुका है इसलिये क्षायिक भाव ही होते हैं ।

इसप्रकार संक्षेपसे सम्पूर्ण गुणस्थानोंमें होनेवाले भाव और उनके निमित्तको दिखाने गुणस्थानोंका लक्षण अब क्रमप्राप्त है, इसलिये पहले प्रथमगुणस्थानका लक्षण और उत्तम भेदोंको कहते हैं ।

मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्वहणं तु तच्चअत्थाणं ।

एयंतं विवरीयं विणयं संसायिदमण्णाणं ॥ १५ ॥

मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धानं तु तत्त्वार्थानाश्र ।

एकान्तं विपरीतं विनय भंगयित्तमज्ञानं ॥ १६ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें तत्त्वार्थके विपरीत श्रद्धानमें मिथ्यात्व रहने । इसके पांच भेद हैं एकान्त विपरीत विनय भंगयित्त अज्ञान । अज्ञान तत्त्वार्थके विपरीत किसी एक धर्मात्मक मानना इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं, जैसे मनुष्य को देव मानना अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अस्तित्व ही है इत्यादि ।

धर्मादिकके स्वरूपको विपर्ययरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं; जैसे हिंसासे स्वर्गादिककी प्राप्ति होती है।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्रोंमें समान बुद्धि रखनेको विनयमिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मको समान समझना।

समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदार्थोंमेंसे किसी भी एकका निश्चय न होना इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे सग्रन्थ लिङ्ग मोक्षका साधन है या निर्ग्रन्थ लिङ्ग, अथवा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन है अथवा यागादि कर्म, तथा कर्मोंके सर्वथा अभावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी शुद्ध अवस्थाविशेषको मोक्ष कहते हैं यद्वा बुद्धि आदि विशेषगुणोंके अभावको मोक्ष कहते हैं।

जीवादि पदार्थोंको “ यही है ” “ इसी प्रकार है ” इस तरह विशेषरूपसे न समझनेको अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं।

इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यात्वके ये पांच भेद हैं विस्तारसे असख्यातलोकप्रमाणतक भेद हो सकते हैं।

उक्त मिथ्यात्वके पांच भेदोंके दृष्टान्तोंको दिखते हैं।

एयंत बुद्धदरसी विवरीओ बह्व तावसो विणओ ।

इंदो विय संसइयो मक्कडियो चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥

एकान्तो बुद्धदर्शी विपरीतो ब्रह्म तापसो विनयः ।

इन्द्रोपि च संशयितो मस्करी चैवाज्ञानी ॥ १६ ॥

अर्थ—ये केवल दृष्टान्तमात्र हैं इसलिये प्रत्येकके साथ आदि शब्द लगा लेना चाहिये। अर्थात् बौद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्यादृष्टि हैं। याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत मिथ्यादृष्टि हैं। तापसादि विनयमिथ्यादृष्टि हैं। इन्द्रनामक श्वेताम्बर गुरु प्रभृति संशयमिथ्यादृष्टि हैं। और मस्करी आदिक अज्ञानी हैं।

उक्त मिथ्यात्वके लक्षणको दूसरे प्रकारसे कहते हैं।

मिच्छंतं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ।

ण य धम्मं रोचेदि हु मधुरं खु रसं जहा जरिदो ॥ १७ ॥

मिथ्यात्व विदन् जीवो विपरीतदर्शनो भवति ।

न च धम्मं रोचते हि मधुरं खलु रसं यथा ज्वरितः ॥ १७ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्या परिणामोका अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धानवान्न हो जाता है। उसको जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको मधुर रस भी अच्छा मालुम नहीं होता उस ही प्रकार यथार्थ धम्म अच्छा मालुम नहीं होता है। भावार्थ—मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमे जो जीव देवगुरुशास्त्रके यथार्थ स्वरूपका

श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं। यहाँपर जो व शब्द डाला है उससे यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीव बाहिरसे सम्यग्दृष्टिके समान आचरण करे और अन्तरङ्गसे उसके विपरीत परिणाम हो तो वह यथार्थमें मिथ्यादृष्टि ही है।

इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये ही मिथ्यादृष्टिके बाह्य चिह्नोंको दिखाते हैं।

मिच्छाद्दृष्टी जीवो उबद्दुं पवयणं ण सद्वहदि ।

सद्वहदि असब्भावं उबद्दुं वा अणुबद्दुं ॥ १८ ॥

मिथ्यादृष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचनं न श्रद्धाति ।

श्रद्धाति असद्भावमुपदिष्टं वाऽनुपदिष्टम् ॥ १८ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन गुरुओंके पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित और हितके करनेवाले भी वचनका यथार्थ श्रद्धान नहीं करता। किन्तु आचार्याभासोंकेद्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका अर्थात् पदार्थके विपरीत स्वरूपका इच्छानुसार श्रद्धान करता है।

इस प्रकार प्रथम गुणस्थानका स्वरूप, उसके भेद, और उनके दृष्टान्त, तथा बाह्य चिह्नोंको दिखाकर अब दूसरे सासादन गुणस्थानको कहते हैं।

आदिमसम्मत्तद्वा समयादो छावलिचि वा सेसे ।

अणअणदरुदयादो णासियसम्मोत्ति सासणक्खो सो ॥ १९ ॥

आदिमसम्यक्त्वाद्वा आसमयतः षडावलिरिति वा शेषे ।

अनान्यतरोदयात् नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्यः सः ॥ १९ ॥

अर्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अथवा यहापर वा शब्दका ग्रहण किया है इसलिये द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्तमात्र कालमेंसे जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल शेष रहे उतने कालमें अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेंसे क्रिमीके भी उदयसे सम्यक्त्वकी विराधना होनेपर सम्यग्दर्शनगुणकी जो अव्यक्त अतत्त्वश्रद्धानरूप परिणति होती है उसको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं।

अब इस गुणस्थानको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं।

सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो ।

णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयध्वो ॥ २० ॥

सम्यक्त्वरत्नपर्वतशिखरात् मिथ्यात्वभूमिसमभिमुत्त ।

नाशितसम्यक्त्वः सः सासननामा मन्तव्यः ॥ २० ॥

अर्थ—सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वतके शिखरमें गिरकर जो जीव मिथ्या इत्यत्र भूमिके समान

हो चुका है, अत एव जिसने सम्यक्त्वकी विराधना (नाश) करदी है और मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं । भावार्थ—जिसप्रकार पर्वतसे गिरनेपर और भूमिपर पहुंचनेके पहले मध्यका जो काल है वह न पर्वतपर ठहरनेकाही है और न भूमिपर ही ठहरनेका है; किन्तु अनुभय काल है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कषायमेंसे किसी एकके उदय होनेसे सम्यक्त्वपरिणामोंके छूटनेपर, और मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय न होनेसे मिथ्यात्व परिमाणोंके न होनेपर मध्यके अनुभयकालमें जो परिणाम होते हैं उनको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं । यहापर जो सम्यक्त्वको रत्नपर्वतकी उपमा दी है उसका अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार रत्नपर्वत अनेक रत्नोंका उत्पन्न करनेवाला और उन्नतस्थान पर पहुंचानेवाला है उसही प्रकार सम्यक्त्व भी सम्यग्ज्ञानादि अनेक गुणरत्नोंको उत्पन्न करनेवाला है और सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुंचानेवाला है ।

क्रमप्राप्त तृतीयगुणस्थानका लक्षण करते हैं ।

सम्भामिच्छुद्येण य जत्तंतरसव्वघादिकज्जेण ।

णय सस्मं मिच्छं पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥ २१ ॥

सम्यग्मिथ्यात्वोद्येन च जात्यन्तरसर्वघातिकार्येण ।

नच सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणामः ॥ २१ ॥

अर्थ—जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणको सर्वथा घातनेका कार्य दूसरी सर्वघाति प्रकृतियोंसे विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सर्वघाति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे केवल सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं । (शब्दा) यह तीसरा गुणस्थान बन नहीं सकता; क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एकही आत्मा और एकही कालमें माने जाय तो शीतउष्णकी तरह परस्पर सहावस्थान लक्षण विरोध दोष आवेगा । यदि क्रमसे दोनों परिमाणोंकी उत्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप तीसरा गुणस्थान नहीं बनता । (समाधान) यह शब्दा ठीक नहीं है, क्योंकि मित्रामित्रन्यायसे एककाल और एकही आत्मामें मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैं । भावार्थ—जिसप्रकार देवदत्तनामक किसी मनुष्यमें यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना और चैत्रकी अपेक्षा अमित्रपना ये दोनों धर्म एकही कालमें रहते हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है । उस ही प्रकार सर्वज्ञ निरूपित पदार्थके स्वरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभासकयित अतत्त्वश्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों ही धर्म एक काल और एक आत्मामें घटित हो सकते हैं इसमें कोई भी विरोधादि दोष नहीं है ।

उक्त अर्थको ही दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं ।

दहिगुडमिव घात्मिस्सं पुहभावं णिव कारिदुं सकं ।

एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छोत्तिणाद्ववो ॥ २२ ॥

दधिगुडमिव व्यामिश्रं पृथग्भावं नैव कर्तुं शक्यम् ।

एवं मिश्रकभावः सम्यग्मिथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम् ॥ २२ ॥

अर्थ—जिसप्रकार दही और गुडको परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दोनोंको पृथक् २ नहीं करसकें, उस द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप (खट्टा और मीठा मिला हुआ) होता है । उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोंमें भी एकही कालमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं ऐसा समझना चाहिये ।

इस गुणस्थानमें होनेवाली विशेषताको दिखाते हैं ।

सो संजमं ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं ।

सम्मं वा मिच्छं वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥

स संयमं न गृह्णाति देशयमं वा न वध्नाति आयुः ।

सम्यक्त्वं वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य म्रियते नियमेन ॥ २३ ॥

अर्थ—तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देशसंयमको ग्रहण नहीं करता, और न इस गुणस्थानमें आयुर्कर्मका बन्ध ही होता है । तथा इस गुणस्थानवाला जीव यदि मरण करता है तो नियमसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता ।

उक्त अर्थको और भी स्पष्ट करते हैं ।

सम्मत्तमिच्छपरिणामेषु जहिं आउगं पुरा वद्ध ।

तहिं मरणं मरणंतसमुग्घादो वि य ण मिस्सम्मि ॥ २४ ॥

सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरिणामेषु यत्रायुष्कं पुरा वद्धम् ।

तत्र मरण मारणान्तसमुद्धातोपि च न मिश्रे ॥ २४ ॥

अर्थ—तृतीयगुणस्थानवर्ती जीवने तृतीयगुणस्थानको प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूपके परिणामोंमेंसे जिस जातिके परिणाम कालमें आयुर्कर्मका बन्ध किया हो उस ही तरहके परिणामोंके होने पर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्रगुणस्थानमें मरण नहीं होता । और न इस गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्घात ही होता है ।

१ मूल शरीरकी बिना छोड़े ही आत्मनके प्रदेशोंका बहिर दिखलना इनको समुद्घात करते हैं । तब ही मरण भेद है—वेदना कथाम धैर्य तक मारणान्तिक तैजस आहार चैन केवल । मरणछे दुर्गम्यमें ही मरण समुद्घात मारणान्तिक समुद्घात करते हैं ।

चतुर्थ गुणस्थानका लक्षण बताने के पूर्व उसमें होनेवाले सम्यग्दर्शन के औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक इन तीन भेदोंमेंसे प्रथम क्षायोपशमिकका लक्षण करते हैं ।

सम्मत्तदेसघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्मं ।

चलमलिनमगाढं तं णिच्चं कम्मक्खवणहेटु ॥ २५ ॥

सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदकं भवेत्सम्यक्त्वम् ।

चलं मलिनमगाढं तन्नित्यं कर्मक्षपणहेतु ॥ २५ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमेंसे देशघाति सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होने पर (तथा अनन्तानुबन्धि चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाति प्रकृतियोंके आगामि निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोंकी विना फल दिये ही निर्जरा होनेपर) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । वे परिणाम चल मलिन या अगाढ होते हुए भी नित्य ही अर्थात् जघन्य अन्तर्मुहूर्तसे लेकर उत्कृष्ट छ्चासठ सागरपर्यन्त कर्मोंकी निर्जराको कारण हैं ।

जिसप्रकार एकही जल अनेक कल्लोलरूपमें परिणत होता है उसही प्रकार जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थकर या अर्हन्तोंमें समान अनन्त शक्तिके होने पर भी ' श्रोशान्तिन, धजी शान्तिकेलिये और श्रीपार्श्वनाथजी रक्षा करनेके लिये समर्थ है ' इस तरह नाना विषयोंमें चलायमान होता है उस को चल सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण भी मलके निमित्तसे मलिन कहा जाता है उसही तरह सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है उसको मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिस तरह वृद्ध पुरुषके हाथमें उहरी हुई भी लठी कापती है उसही तरह जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने वनवाये हुए मन्दिरादिमें ' यह मेरा मन्दिर है ' और दूसरेके वनवाये हुए मन्दिरादिमें ' यह दूसरेका है ' ऐसा भ्रम हो उसको अगाढ सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

अब औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दर्शनका लक्षण कहते हैं ।

सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खयाटु खइयो य ।

विदियकसायुदयादो असंजदो होदि सम्मो य ॥ २६ ॥

सप्तानामुपशमत उपशमसम्यक्त्वं क्षयात्तु क्षायिकं च ।

द्वितीयकषायोदयादसंयतं भवति सम्यक्त्वं च ॥ २६ ॥

अर्थ—तीन दर्शनमोहनीय अर्थात् मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानुबन्धी कपाय इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है । इस (चतुर्थगुणस्थानवर्ती) सम्यग्दर्शन के साथ संयम बिलकुल ही नहीं होता; क्योंकि यहाँ पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकपायका उदय है । अत एव इस गुणस्थानवर्ती जीवको असंयतसम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते है ।

सम्माइष्टी जीवो उबइष्टं पबयणं तु सहहृदि ।

सहहृदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥

सम्यग्दृष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचनं तु श्रद्धधाति ।

श्रद्धधात्यसद्भावमज्ञायमानो गुरुनियोगात् ॥ २७ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव आचार्योंके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धान करलेता है । भावार्थ “ अरिहंत-देवका ऐसा ही उपदेश है ” ऐसा समझकर यदि कोई पदार्थका विपरीत श्रद्धान भी करता है तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही है; क्योंकि उसने अरिहंतका उपदेश समझकर उस पदार्थका वैसा श्रद्धान किया है । परन्तु—

सुत्तादो तं सम्मं दरसिज्जंतं जदा ण सहहृदि ।

सो चेव हवइ मिच्छाइष्टी जीवो तदो पहुदी ॥ २८ ॥

सूत्रात्तं सम्यक् दर्शयन्तं यदा न श्रद्धधाति ।

स चैव भषति मिथ्यादृष्टिर्जीवस्तदा प्रभृति ॥ २८ ॥

अर्थ—गणधरादिकथित सूत्रके आश्रयसे आचार्यादिके द्वारा भलेप्रकार समझाये जाने पर भी यदि वह जीव उस पदार्थका समीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही कालसे मिथ्यादृष्टि होजाता है । भावार्थ—आगममें दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्वमें अज्ञानसे किये हुए अतत्त्वश्रद्धानको न छोड़े तो वह जीव उसही कालसे मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥

चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवका और भी विशेष स्वरूप दिखाते है ।

णो इन्द्रियेषु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सहहृदि जिणुत्तं सम्माइष्टी अद्विरदो सो ॥ २९ ॥

नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे तसे वापि ।

यः श्रद्धधाति जिनोक्तं सम्यग्दृष्टिरविरतः सः ॥ २९ ॥

अर्थ—जो इन्द्रियोके विषयोंसे तथा त्रस स्थावर जीवोंकी हिंसामे विरक्त नहीं है, किन्तु जिनेन्द्रवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्दृष्टि है । भावार्थ—संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम । इन्द्रियोंके विषयमें विरक्त होनेको इन्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाको प्राणसंयम करते हैं । इस गुणस्थानमें दोनों संयमोंमेंसे कोई भी संयम नहीं होता अन एव इमं अग्निं सम्यग्दृष्टि कहते हैं । परन्तु इस गुणस्थानमें जो अपि शब्द पदा है उन्में सूक्ति होना है कि विना प्रयोजन किसी हिंसामें प्रवृत्त भी नहीं होता ।

पंचमगुणस्थानका लक्षण कहते हैं ।

पञ्चखाणुदयादो संजमभावो ण होदि णवरिं तु ।

थोववदो होदि तदो देसवदो होदि पंचमओ ॥ ३० ॥

प्रत्याख्यानोदयात् संयमभावो न भवति नवरिं तु ।

स्तोकत्रतो भवति ततो देशत्रतो भवति पञ्चमः ॥ ३० ॥

अर्थ—यहा पर प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेसे पूर्ण संयम तो नहीं होता, किन्तु यह विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरणकषायका उदय न होनेसे देशत्रत होता है, अत एव इस पंचमगुणस्थानका नाम देशत्रत है ।

इस गुणस्थानको विरताविरत भी कहते हैं । सो क्यों ? इसकी उपपत्तिको कहते हैं ।

जो तसबहाउविरदो अविरदओ तहय थावरबहादो ।

एकसमयमिह जीवो विरदाविरदो जिणेकमई ॥ ३१ ॥

यस्त्रसवधाद्विरतः अविरतस्तथा च स्थावरवधात् ।

एकसमये जीवो विरताविरतो जिनैकमतिः ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो जीव जिनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ त्रसकी हिंसासे विरत और उस ही समयमें स्थावरकी हिंसासे अविरत होताहै उस जीवको विरताविरत कहते हैं । भावार्थ—यहा पर जिन शब्द उपलक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेन्द्रदेव, और उनके उपदेशरूप आगम, तथा उसके अनुसार चलनेवाले गुरुओंका ग्रहण करना चाहिये । अर्थात् जिनदेव, जिन आगम, जिनगुरुओंका श्रद्धान करनेवाला जो जीव एकही समयमें त्रस हिंसाकी अपेक्षा विरत और स्थावरहिंसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एकही समयमें विरताविरत कहते हैं । यहांपर जो तथा च शब्द पड़ा है उसका चह अभिप्राय है कि विना प्रयोजन स्थावरहिंसाको भी नहीं करता ।

छट्टे गुणस्थानका लक्षण कहते हैं ।

संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा ।

मलजणणपमादो वि थ तम्हा हु पमत्तविरदो सो ॥ ३२ ॥

संज्वलननोकषायाणामुदयात्संयमो भवेद्यस्मात् ।

मलजननप्रमादोपि च तस्मात्खलु प्रमत्तविरतः सः ॥ ३२ ॥

अर्थ—सकलसंयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कषायका उपशम होने से पूर्ण संयम तो हो नुका है; किन्तु उस संयम के साथ संज्वलन और नो कषायके उदयसे संयममें मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है, अत एव इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं ।

१ विशेषता अर्थका द्योतक यह अव्यय है ।

वत्तावत्तपमादे जो वसइ प्रमत्तसंजदो होदि ।

सयलगुणशीलकलिओ महव्वई चित्तलायरणो ॥ ३३ ॥

व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति ।

सकलगुणशीलकलितो महाव्रती चित्रलाचरणः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जो महाव्रती सम्पूर्ण मूलगुण (२८) और शीलसे युक्त होता हुआ भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारके प्रमादोंको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्रलै होता है। प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते हैं ।

विकहा तहा कसाया इंदियाणिहा तहेव पणयोय ।

चट्टु चट्टु पणमेगेगं हाति पमादा हु पणरस ॥ ३४ ॥

विकथास्तथा कषाया इन्द्रियनिद्रास्तथैव प्रणयश्च ।

चतुःचतुःपञ्चैकैकं भवन्ति प्रमादाः खलु पञ्चदश ॥ ३४ ॥

अर्थ—चार विकथा (स्त्रीकथा भक्तकथा राष्ट्रकथा अविनिपालकथा) चार कषाय (क्रोध मान माया लोभ) पांच इन्द्रिय (स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र) एक निद्रा और एक प्रणय (स्नेह) ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है ।

अब प्रमादोंका विशेष वर्णन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोका वर्णन करते हैं ।

संख्या तह पत्थारो परिघट्टण णट्ट तह समुद्दिट्टं ।

एदे पंच पयारा पमदसमुक्कित्तणे णेया ॥ ३५ ॥

संख्या तथा प्रस्तारः परिवर्तन नष्ट तथा समुद्दिष्टम् ।

एते पञ्च प्रकाराः प्रमादसमुत्कीर्तने ज्ञेयाः ॥ ३५ ॥

अर्थ—प्रमादके विशेष वर्णनके विषयमें इन पांच प्रकारोको समझना चाहिये । संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, और समुद्दिष्ट । आलापोंके भेदों की गणनाको संख्या कहते हैं । संख्याके रखने या निकालनेके क्रमको प्रस्तार, और एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंचनेके क्रमको परिवर्तन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेको नष्ट, और भेदको रखकर संख्याके निकालनेके समुद्दिष्ट कहते हैं ।

संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं ।

सव्वेपि पुच्चभंगा उवरिमभंगेसु एककमेक्केसु ।

मेलंतित्ति य कमसो गुणिदे उप्पज्जदे संखा ॥ ३६ ॥

१-२ जिसका स्वयं अनुभव हो उसको व्यक्त और उचित विषयों की संख्या प्रमाद कहते हैं ।

३ वितरुता अर्थात् जिसमें किसी दूसरे संख्या भी समाप्त हो । इसे संख्याके समुद्दिष्ट कहते हैं ।

सर्वेपि पूर्वभङ्गा उपरिमभङ्गेषु एकैकेषु ।

मिलन्ति इति च क्रमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या ॥ ३६ ॥

अर्थ—पूर्वके सब ही भङ्ग आगेके प्रत्येक भङ्गमें मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गुणा-कार करने पर संख्या उत्पन्न होती है । भावार्थ—पूर्वके विकथाओंके प्रमाण चारको आगेकी कषायोंके प्रमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा प्रत्येक कषायके साथ पाई जाती है । इससे जो राशि उत्पन्न हो (जैसे १६) उसको पूर्व समझकर उसके आगेकी इन्द्रियोंके प्रमाण पाचसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा या कषाय प्रत्येक इन्द्रियके साथ पाई जाती है । इसके अनुसार सोलहको पाचसे गुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या निकलती है । निद्रा और प्रणय ये एक ही एक है इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर संख्यामें वृद्धि नहीं हो सकती ।

अत्र प्रस्तारक्रमको दिखाते हैं ।

पढमं पमदप्रमाणं क्रमेण णिक्खविय उवरिमाणं च ।

पिण्डं पडि एककेकं णिक्खत्ते होदि पत्थारो ॥ ३७ ॥

प्रथमं प्रमादप्रमाणं क्रमेण निक्षिप्य उपरिमाणं च ।

पिण्डं प्रति एकैकं निक्षिप्ते भवति प्रस्तारः ॥ ३७ ॥

अर्थ—प्रथम प्रमादके प्रमाणका विरलन कर क्रमसे निक्षेपण करके उसके एक एक रूपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादके प्रमाणका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है । भावार्थ—प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण ४, उसका विरलन कर क्रमसे ११११ इसतरह निक्षेपण करना । इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर $4 \times 4 \times 4 \times 4$ इसतरह निक्षेपण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर (कषायको) जोड़ देने पर १६ सोलह होते हैं । इन सोलहका भी पूर्वकी तरह विरलन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा प्रत्येक एकके ऊपर आगेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना । ऐसा करनेसे पूर्वकी तरह परस्पर जोड़ने पर अस्सी प्रमाद होते हैं । इसको प्रस्तार कहते हैं । इससे यह मालूम हो जाता है कि पूर्वके समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के प्रत्येक भेदके साथ पाये जाते हैं ।

प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं ।

णिक्खत्तु विदियमेत्तं पढमं तस्सुवरि विदियमेक्केक्कं ।

पिण्डं पडि णिक्खेओ एवं सब्बत्थ कायव्वो ॥ ३८ ॥

निक्षिप्त्वा द्वितीयमात्रं प्रथमं तस्योपरि द्वितीयमेकैकम् ।

पिण्डं प्रति निक्षेप एव सर्वत्र कर्तव्यः ॥ ३८ ॥

अर्थ—दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादके पिण्डको रखकर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमेंसे एक २ का निक्षेपण करना, और आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार करना । भावार्थ—दूसरे कषाय प्रमादका प्रमाण चार है इसलिये चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका स्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड पिण्डके प्रति एक २ कषायका (११११) स्थापन करना । इनको परस्पर जोड़नेसे सोलह होते हैं । इन सोलहको प्रथम समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पांच है इस लिये सोलहके पिण्डको पांच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर क्रमसे एक २ इन्द्रियका स्थापन करना (१६ १६ १६ १६ १६) इन सोलहको इन्द्रियप्रमादके प्रमाण पाचसे गुणा करने पर या पाच जगहपर रखे हुए सोलहको परस्पर जोड़नेसे प्रमादोकी संख्या अस्सी निकलती है ।

प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवर्तनको कहते हैं ।

तद्वियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विद्वियक्खो ।

दोण्णिवि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि पढमक्खो ॥ ३९ ॥

तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः ।

द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्षः ॥ ३९ ॥

अर्थ—प्रमादका तृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिस्थानको प्राप्त होजाय तब प्रमादका दूसरा स्थान भी बदलजाता है । इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त होजाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदलता है । भावार्थ—तीसरा इन्द्रियस्थान जब स्पर्शनादिके क्रमसे क्रोध और प्रथम विकथापर घूमकर अन्तको प्राप्त होजाय तब दूसरे कषायस्थानमें क्रोधका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है । इसी प्रकार क्रमसे जब कषायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथामें स्त्रीकथाका स्थान छूटकर राष्ट्रकथाका स्थान होता है । इस क्रमसे स्त्रीकथालपी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवशगतो निद्रालुः स्नेहग्न आदि अस्ती हू भङ्ग निकलते हैं । निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिये इनमें अक्षसंचार नहीं होता ।

दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसंचारको कहते हैं

पढमक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विद्वियक्खो ।

दोण्णिवि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि तद्वियक्खो ॥ ४० ॥

प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः ।

द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति तृतीयाक्षः ॥ ४० ॥

१ एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानपर जानेसे परिवर्तन कहते हैं ।

अर्थ—प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादस्थान वह घूमता हुआ जब क्रमसे अंततक पहुंचकर फिर स्त्रीकथारूप आदि स्थानपर आता है तब दूसरा कषायका स्थान क्रोधको छोड़कर मानपर आता है। इसी प्रकार जब दूसरा कषायस्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर आदि (क्रोध) स्थानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थान बदलता है। अर्थात् स्पर्शनको छोड़कर रसनापर आता है।

आगे नष्टके लानेकी विधि बताते हैं।

सगमाणोहिं विभक्ते सेसं लक्खित्तु जाण अक्खपदं ।

लद्धे रुबं पक्खिव सुद्धे अंते ण रुवपक्खेवो ॥ ४१ ॥

स्वकमानैर्विभक्ते शेषं लक्षयित्वा जानीहि अक्षपदम् ।

लब्धे रूपं प्रक्षिप्य शुद्धे अन्ते न रूपप्रक्षेपः ॥ ४१ ॥

अर्थ—किसीने जितनेवा प्रमादका भङ्ग पूछा हो उतनी संख्याको रखकर उसमें क्रमसे प्रमादप्रमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझ जो लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग देनेसे जो शेष रहै उसको अक्षस्थान समझना चाहिये। किन्तु शेष स्थानमें यदि शून्य हो तो अन्तका अक्षस्थान समझना चाहिये, और उसमें एक नहीं मिलाना चाहिये। जैसे किसीने पूछा कि प्रमादका बीसवा भङ्ग कौनसा है? तो बीसकी संख्याको रखकर उसमें प्रथम विकथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध पाच आये, और शून्य शेषस्थानमें है इसलिये पाचमें एक नहीं मिलाना, और अन्तकी विकथा (अवनिपालकथा) समझना चाहिये। इसी प्रकार आगे भी कषायके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध और शेष एक २ ही रहा इस लिये प्रथम क्रोधकषाय, और लब्ध एकमें एक और मिलनेसे दो होते हैं इसलिये दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये। अर्थात् २० वा भङ्ग अवनिपालकथालापी क्रोधी रसनेन्द्रियवशंगतो निद्रालुः स्नेहवान् यह हुआ।

अत्र उद्दिष्टका स्वरूप कहते हैं।

संठाविट्ठण रुबं उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।

अवणित्तु अणाकिदयं कुज्जा एमेव सव्वत्थ ॥ ४२ ॥

संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा स्वकमानम् ।

अपनीयानङ्कितं कुर्यात् एवमेव सर्वत्र ॥ ४२ ॥

अर्थ—एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार करना चाहिये। और उसमें जो अनङ्कित हो उसका त्याग करै। इसीप्रकार आगे भी करनेसे उद्दिष्टका प्रमाण निकलता है। भावार्थ—प्रमादके भङ्गको रखकर उसकी संख्याके निकालने

को उद्दिष्ट कहते हैं । उसके निकालने का क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकथालापि मायी घ्राणेन्द्रियवशंगतः निद्रालुः स्नेहवान् यह प्रमादका भङ्ग कितनेमा है ? तो एक (१) संख्या को रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये और जो अनंकित हो उसको उसमेसे घटादेना चाहिये । जैसे १ एकका स्थापनकर उसको इन्द्रियोंके प्रमाण पांचसे गुणा करनेपर पाच हुए उसमेंसे अनंकित चक्षुः श्रोत्र दो है; क्योंकि भङ्ग पूछनेमें घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण किया है, इसलिये दोको घटाया तो शेष रहे तीन, उनको कषायके प्रमाण चारसे गुणा करनेपर बारह होते हैं, उनमें अनंकित एक लोभकषाय है, इसलिये एक घटादिया तो शेष रहे ग्यारह । उनको विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चवालीस होते हैं, उसमेंसे एक अवनिपालकथाको घटा दिया तो शेष रहे तेतालीस, इसलिये उक्त भङ्ग तेतालीसमां हुआ ।

प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवर्तन बताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके गूढयन्त्रको दिखाते हैं ।

इगिवितिचपणखपणदशपण्णरसं खवीसतालसट्टी य ।

संठविय पमदठाणे णट्टुद्धिट्ठं च जाण तिट्ठाणे ॥ ४३ ॥

एकद्वित्रिचतुःपंचखपञ्चदशपञ्चदश खर्विशच्चत्वारिंशत् षष्ठीश्च ।

संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्दिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४३ ॥

अर्थ—तीन प्रमादस्थानोंमें क्रमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार पाचको क्रमसे स्थापन करना । चार कषायोंके स्थानपर शून्य पाच दश पन्द्रह स्थापन करना । तथा विकथाओंके स्थानपर क्रमसे शून्य वीस चालीस साठ स्थापन करना । ऐसा करनेसे नष्ट उद्दिष्ट अच्छीतरह समझमे आसकते हैं । क्योंकि जो भङ्ग विवक्षित हो उसके स्थानोंपर रक्वी हुई संख्याको परस्पर जोड़नेसे, यह कितनेवां भङ्ग है अथवा इस संख्यावाले भङ्गमें कौन २ सा प्रमाद आता है यह समझमे आसकता है ।

दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गूढयन्त्रको कहते हैं ।

इगिवितिचखचडवारं खसोलरागट्टदालचउसट्ठिं ।

संठविय पमदठाणे णट्टुद्धिट्ठं च जाण तिट्ठाणे ॥ ४४ ॥

एकद्वित्रिचतुःखचतुरष्टद्वादश खषोडशरौगाष्टचत्वारिंशच्चतुःषष्टिम् ।

संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्दिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४४ ॥

अर्थ—दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोंमें क्रमसे प्रथम विकथाओंके स्थानपर १।२।३।४ स्थापन करना, और कषायोंके स्थानपर ०।४।८।१२ स्थापन करना, और

१-रागशब्दसे ३२ स्थिे जाते हैं, क्योंकि "कटपयपुर स्थवर्णे" श्रुत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गन्ध अर्थ ३ और रका अर्थ २ होता है । और यह नियम है कि "अङ्गोऽपि विपरीत गति होता है" ।

इन्द्रियोंकी जगहपर ०।१६।३२।४८।६४।स्थापन करना। ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा भी पूर्वकी तरह नष्टोद्दिष्ट समझमे आसकते है।

सप्तमगुणस्थानका स्वरूप बताते है।

संज्वलणणोकसायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि ।

अप्रमत्तगुणो तेण य अप्रमत्तो संजदो होदि ॥ ४५ ॥

संज्वलननोकषायाणामुदयो मन्दो यदा तदा भवति ।

अप्रमत्तगुणस्तेन च अप्रमत्तः संयतो भवति ॥ ४५ ॥

अर्थ—जब संज्वलन और नोकपायका मन्द उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त मुनिके प्रमादका अभाव हो जाता है। इसहीलिये इस गुणस्थानको अप्रमत्तसंयत कहते है। इसके दो भेद है—एक स्वस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त ।

स्वस्थानाप्रमत्तसंयतका निरूपण करते है।

णट्ठासेसपमादो वयगुणशीलोलिमंडिओ णाणी ।

अणुवसमओ अखवओ ज्ञाणणिलीणोहु अप्रमत्तो ॥ ४६ ॥

नष्टाशेषप्रमादो व्रतगुणशीलवलिमण्डितो ज्ञानी ।

अनुपशमक अक्षपको ध्याननिलीनो हि अप्रमत्तः ॥ ४६ ॥

अर्थ—जिस संयतके सम्पूर्ण व्यक्तान्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके है, और जो समग्र ही महाव्रत अट्टाईस मूलगुण तथा शीलसे युक्त है, और शरीर आत्माके भेदज्ञानमें तथा मोक्षके कारणभूत ध्यानमें निरन्तर लीन रहता है, ऐसा अप्रमत्त जबतक उपशमक या क्षपक श्रेणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त कहते है।

सातिशय अप्रमत्तका स्वरूप कहते है।

इगधीसमोहखवणुवसमणामित्ताणि तिकरणाणि तहिं ।

पढमं अधापवत्तं करणं तु करोदि अप्रमत्तो ॥ ४७ ॥

एकविंशतिमोहक्षपणोपशमनानिमित्तानि त्रिकरणानि तेषु ।

प्रथममधःप्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः ॥ ४७ ॥

अर्थ—अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सम्बन्धी क्रोधमानमायालोभ तथा हास्यादिक नव नोकपाय मिलकर इक्कीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्माके ये तीन करण अर्थात् तीन प्रकारके विशुद्ध परिणाम निमित्तभूत है, अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्ति-करण। उनमेंसे सातिशय अप्रमत्त—अर्थात् जो श्रेणि चढनेके सम्मुख है वह प्रथमके अधः-प्रवृत्त करणको ही करता है।

अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कहते हैं ।

जह्या उवरिमभावा हेद्विमभावेहिं सरिसगा होंति ।

तह्या पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिद्विद्वं ॥ ४८ ॥

यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभावैः सदशका भवन्ति ।

तस्मात्प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—अधःप्रवृत्तकरणके कालमेंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नचिके समयवर्ती जीवोंके परिणामके सदश—अर्थात् संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं इसलिये प्रथम करणको आगममें अधःप्रवृत्त करण कहा है ।

अधःप्रवृत्तकरणके काल और उसमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण बताते हैं ।

अंतोमुहुत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ परिणामा ।

लोगाणमसंखमिदा उबरुवरिं सरिसवड्ढिगया ॥ ४९ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रस्तत्कालो भवति तत्र परिणामाः ।

लोकानामसंख्यमिता उपर्युपरिसदशवृद्धिगताः ॥ ४९ ॥

अर्थ—इस अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है, और उसमें परिणाम असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सदश वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं । अर्थात् यह जीव चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तकरणोंको करता है । उसमें से अधःकरण श्रेणि चढ़नेके सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, और अपूर्वकरण आठवें और अनिवृत्तकरण नववें गुणस्थानमें होता है । भावार्थ—करण नाम आत्माके परिणामोंका है । इन परिणामोंमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है । जिसके बलसे कर्मोंका उपशम तथा क्षय और स्थितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते हैं । इन तीनों करणोंका काल यद्यपि सामान्यालपसे अन्तर्मुहूर्तमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके सख्यातवें भाग अपूर्वकरणका काल है, और अपूर्वकरणके कालसे संख्यातवें भाग अनिवृत्तकरणका काल है । अधःप्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यातलोक प्रमाण है । अपूर्वकरणके परिणाम अधःकरणके परिणामोंसे असंख्यातलोकगुणित है । और अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके समान है । अर्थात् अनिवृत्तकरणके कालके जितने समय है उतने ही उसके परिणाम है । पूर्वोक्त कथनका खुलासा विना दृष्टान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका दृष्टान्त इसप्रकार समझना चाहिये किः—कल्पना करो कि अधःकरणके कालके समयोंका प्रमाण १६, अपूर्वकरणके कालके समयोंका प्रमाण ८, और अनिवृत्तकरणके कालके समयोंका प्रमाण ४ है । अधःकरणके परिणामोंकी संख्या ३०७२, अपूर्वकरणके परिणामोंकी संख्या ४०९, और

अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या ४ है। एक समयमें एक जीवके एकही परिणाम होता है इसलिये एक जीव अधःकरणके १६ समयोंमें १६ परिणामोंको ही धारण कर सकता है। अधःकरणके और अपूर्वकरणके परिणाम जो १६ और ८ से अधिक कहे हैं, वे नाना जीवोंकी अपेक्षासे कहे गये हैं। यहां इतना विशेष है कि अधःकरणके १६ समयोंमेंसे प्रथम समयमें यदि कोई भी जीव अधःकरण मांडेगा तो उसके अधःकरणके समस्त परिणामोंमेंसे पहले १६२ परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा। अर्थात् तीन कालमें जब कभी चाहे जब चाहे जो अधःकरण मांडेगा तो उसके पहले समयमें नम्बर १ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामोंमेंसे उसकी योग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम होगा। इसही प्रकार किसी भी जीवके उसके अधःकरण मांडनेके दूसरे समयमें नम्बर ४० से लगाकर नम्बर २०५ तक १६६ परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा। इसही प्रकार तीसरे चौथे आदि समयोंमें भी क्रमसे नम्बर ८० से लगाकर २४९ तक १७० परिणामोंमेंसे कोई एक और १२१ से लगाकर २९४ तकके १७४ परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा। इसीतरह आगेके समयोंमें होनेवाले परिणाम गोम्मतसारकी बड़ी टीकामें, या सुशीला उपन्यासमें दिये हुए यन्त्रद्वारा समझलेने चाहिये। अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवल ९१२ है। और समस्त समयोंमें होनेवाले पुनरुक्त और अपुनरुक्त परिणामोंका जोड़ ३०७२ है। इस अधःकरणके परिणाम समानवृद्धिको लिये हुए है—अर्थात् पहले समयके परिणामसे द्वितीय समयके परिणाम जितने अधिक है उतने ही उतने द्वितीयादिक समयोंके परिणामोंसे तृतीयादिक समयोंके परिणाम अधिक है। इस समानवृद्धिको ही चय कहते हैं। इस दृष्टान्तमें चयका प्रमाण ४ है, स्थानका प्रमाण १६, और सर्व धनका प्रमाण ३०७२ है। प्रथमस्थानमें वृद्धिका अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानमें एक घाटि पद (स्थान) प्रमाण चय वर्द्धित है। अतएव एक घाटि पदके आधेको चय और पदसे गुणाकरनेपर $\frac{94 \times 4 \times 16}{2} = 3072$ चयधनका प्रमाण होता है। भावार्थ—प्रथम समयके समान समस्त समयोंमें परिणामोंको मिलाकर वर्द्धित प्रमाणके जोड़को चयधन वा उत्तरधन कहते हैं। सर्वधनमेंसे चयधनको घटाकर शेषमें पदका भाग देनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण $\frac{3072 - 4 \times 16}{4} = 768$ होता है। इसमें क्रमसे एक २ चय जोड़नेपर द्वितीयादिक समयोंके परिणामपुंजका प्रमाण होता है। एक घाटि पदप्रमाण चय मिलानेसे अंतसमयसम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण $768 + 4 \times 16 = 816$ होता है। एक समयमें अनेक परिणामोंकी सम्भावना है इसलिये एक समयमें अनेक जीव अनेक परिणामोंको ग्रहण कर सकते हैं। अतएव एक समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षासे परिणामोंमें विसदृशता है। एकसमयमें अनेक जीव एक परिणामको ग्रहण कर सकते हैं इसलिये एक समयमें नानाजीवोंकी अपेक्षासे परिणामोंमें सदृशता है। मिलाकर समयोंमें अनेक जीव अनेक परिणामोंको ग्रहण कर सकते हैं इसलिये मिलाकर समयोंमें नानाजीवोंकी

अपेक्षासे परिणामोमे विसदृशता है । जो परिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयमें हो सकता है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और तीसरे जीवके तीसरे समयमें, तथा चौथे जीवके चौथे समयमें हो सकता है, इसलिये भिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके परिणामोंमें सदृशता भी होती है । जैसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ समयमें होसकता है । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंजके भी ३९, ४०, ४१, ४२, इसतरह चार खण्ड किये गये हैं । अर्थात् नम्बर १ से लेकर ३९ नम्बर तकके ३९ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम समयमें पाये जाते हैं, द्वितीयादिक समयोंमें नहीं; इनही ३९ परिणामोंके पुंजको प्रथम खंड कहते हैं । दूसरे खण्डमें नम्बर ४० से ७९ तक ४० परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम और द्वितीय समयमें पाये जाते हैं इसको द्वितीय खण्ड कहते हैं । तीसरे खण्डमें नम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम द्वितीय तृतीय समयोंमें पाये जाते हैं । और चतुर्थ खण्डमें नम्बर १२१ से १६२ तक ४२ परिणाम ऐसे हैं जो आदिके चारोंही समयोंमें पाये जा सकते हैं । इसही प्रकार अन्य समयोंमेंभी समझना । अधःकरणके ऊपर २ के समस्त परिणाम पूर्वपूर्व परिणामकी अपेक्षा अनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हुए है ।

अब अपूर्वकरण गुणस्थानको कहते हैं ।

अंतोमुद्घुत्तकालं गमिञ्जण अधापवत्तकरणं तं ।

पडिसमयं सुज्झंतो अपुव्वकरणं समल्लियइ ॥ ५० ॥

अन्तर्मुहूर्तकालं गमयित्वा अधःप्रवृत्तकारणं तत् ।

प्रतिसमयं शुध्यन् अपूर्वकारणं समाश्रयति ॥ ५० ॥

अर्थ—जिसका अन्तर्मुहूर्तमात्र काल है ऐसे अधःप्रवृत्तकरणको विताकर वह सातिशय अप्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए अपूर्वकारण जातिके परिणामोंको करता है तब उसको अपूर्वकरणनामक अष्टमगुणस्थानवर्ती कहते हैं ।

अपूर्वकरणका निरुक्तिपूर्वक लक्षण कहते हैं ।

एदह्मि गुणढाणे विसरिससययट्टियेहिं जीवेहिं ।

पुव्वमपत्ता जह्मा होंति अपुव्वा हु परिणामा ॥ ५१ ॥

एतस्मिन् गुणस्थाने विसदृशसमयस्थितैर्जावैः ।

पूर्वमप्राप्ता यस्मात् भवन्ति अपूर्वा हि परिणामाः ॥ ५१ ॥

अर्थ—इस गुणस्थानमें भिन्नसमयवर्ती जीव, जो पूर्वसमयमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामोंको ही धारण करते हैं इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकारण है ।

भावार्थ—जिसप्रकार अधःकरणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विषदृश दोनों

ही प्रकारके होते है, वैसा अपूर्वकरणमें नहीं है; किन्तु यहांपर भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते है सदृश नहीं होते ।

इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा विशेष स्वरूप दिखाते हैं ।

भिष्णसमयद्वियेहिं दु जीवेहिं ण होदि सब्बदा सरिसो ।

करणोहिं एक्कसमयद्वियेहिं सरिसो विसरिसो वा ॥ ५२ ॥

भिन्नसमयस्थितैस्तु जीवैर्न भवति सर्वदा सादृश्यम् ।

करणैरेकसमयस्थितैः सादृश्यं वैसादृश्यं वा ॥ ५२ ॥

अर्थ—यहांपर (अपूर्वकरणमें) भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सादृश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती जीवोंमें सादृश्य और वैसादृश्य दोनोंही पाये जाते है ।

अंतोमुहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा ।

कमउड्ढा पुव्वगुणे अणुकट्ठी णत्थि णियमेण ॥ ५३ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः ।

क्रमवृद्धा अपूर्वगुणे अनुकृष्टिर्नास्ति नियमेन ॥ ५३ ॥

अर्थ—इस गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है, और इसमें परिणाम असंख्यात लोक-प्रमाण होते है, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानवृद्धिको लिये हुए हैं । तथा इस गुणस्थानमें नियमसे अनुकृष्टिरचना नहीं होती है । भावार्थ—अधःप्रवृत्तकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल यद्यपि संख्यातगुणा ही है; तथापि सामान्यसे अन्तर्मुहूर्तमात्रही है । और इसमें परिणामोंकी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्यासे असंख्यातलोकगुणी है । और इन परिणामोंमें उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गई है । अर्थात् प्रथम समयके परिणामोंसे जितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम है उतने २ ही अधिक द्वितीयादि समयके परिणामोंसे तृतीयादि समयके परिणाम हैं । तथा जिसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणमें भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें सादृश्य पाया जाता है इसलिये वहांपर अनुकृष्टि रचना की है उस प्रकार अपूर्वकरणमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती; क्योंकि भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें यहांपर सादृश्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकसंख्या इस प्रकार है । सर्वजनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६ और स्थानका प्रमाण ८ है । एक अष्टपदके आवेसो चय और पदसे गुणाकरनेपर चयधनका प्रमाण $७४९६ \times ८ = ४४८$ होता है । सर्वजनके चयधनको चयधन पदका भाग देनेसे प्रथमसमयसम्बन्धी परिणाम- $४४८ \div २ = २२४$ होता है । इसमें एक २ चय जोड़नेपर द्वितीयादिक

समयमें होनेवाले परिणामाका प्रमाण निकलता है । इसमें एक घाटि पदप्रमाण चय जोड़नेसे अंतसमयसंबन्धी परिणामोंका प्रमाण $४९६+७ \times १६=५६८$ होता है ।

इन अपूर्वकरण परिणामोंके द्वारा क्या कार्य होता है? यह दो गाथाओद्वारा स्पष्ट करते हैं ।

तारिसपरिणामद्वियजीवा ह्यु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं ।

मोहस्सपुव्वकरणा खवणुवसमणुज्जया भणिया ॥ ५४ ॥

तादृशपरिणामस्थितजीवा हि जिनैर्गलिततिमिरैः ।

मोहस्यापूर्वकरणाः क्षपणोपशमनोद्यताः भणिता ॥ ५४ ॥

अर्थ—अज्ञान अन्धकारसे सर्वथा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामोंको धारण करनेवाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मकी शेष प्रकृतियोंका क्षपण अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं ।

णिद्वापयले णट्टे सदि आऊ उवसमंति उवसमया ।

खवयं हुक्के खवया णियमेण खवंति मोहं तु ॥ ५५ ॥

निद्राप्रचले नष्टे सति आयुषि उपशमयन्ति उपशमकाः ।

क्षपकं ढौकमानाः क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु ॥ ५५ ॥

अर्थ—जिनके निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छिन्ति हो चुकी है, तथा जिनका आयुर्कर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेषमोहनीयका उपशमन करते हैं, और जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाले हैं वे नियमसे मोहनीयका क्षपण करते हैं । भावार्थ—जिसके अपूर्वकरणके छह भागोंमेंसे प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छिन्ति होगई है, और जिसका आयुर्कर्म विद्यमान है (जो मरणके सम्मुख नहीं है), अर्थात् जो श्रेणिको चढ़नेवाला है, क्योंकि श्रेणिसे उतरते समय यहांपर मरणकी सम्भावना है^३; इसप्रकारके उपशमश्रेणिको चढ़नेवाले जीवके अपूर्वकरण परिणामोंके निमित्तसे मोहनीयका उपशम और क्षपकश्रेणिवालेके क्षय होता है^४ ।

नवमें गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं ।

एकहिं कालसमये संठाणादीहिं जह णिवट्ठंति ।

ण णिवट्ठंति तहावि य परिणामेहिं सिद्धो जेहिं ॥ ५६ ॥

१ इस विशेषणसे उनके कहे हुए वचनमें प्रामाण्य दिखलाया है, क्योंकि यह नियम है कि जो परिपूर्ण ज्ञानका धारक है वह मिथ्या भाषण नहीं करता । २ इन दोनों कर्मोंकी बन्धव्युच्छिन्ति यहीं पर होती है । इन कथनसे अष्टमगुणस्थानका प्रथम भाग लेना चाहिये, क्योंकि उपशम या क्षयका प्रारम्भ यहींसे होजाता है । ३ मरणके समयसे पूर्वसमयमें होनेवाले गुणस्थानकी भी उपचारसे मरणका गुणस्थान करते हैं । ४ इन गाथाओंमें 'तु' शब्द पडा है इससे सूचित होता है कि क्षपकश्रेणिमें मरण नहीं होता ।

एकस्मिन् कालसमये संस्थानादिभिर्भूया निवर्तन्ते ।

न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो यैः ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्तर्मुहूर्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्य कारणोंसे तथा ज्ञानाव-
रणादिकर्मके क्षयोपशमादि अन्तरङ्ग कारणोंसे परस्परमे भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तसे परस्परमें भेद नहीं पाया जाता:—

ह्येति अणियद्विणो ते पडिसमयं जेस्सिमेक्कपरिणामा ।

विमलयरझाणहुयवहसिहाहिं णिद्वु कम्मवणा ॥५७॥ (जुम्मम्)

भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामाः ।

विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निर्दग्धकर्मवनाः ॥ ५७ ॥ (युम्मम्)

अर्थ—उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं । और अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उतनेही उसके परिणाम है । इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवृत्तिकरणका एक ही परिणाम होता है । तथा ये परिणाम अत्यन्तनिर्मल ध्यानरूप अग्निकी शिखा-
ओंकी सहायतासे कर्मवनोंको भस्म करदेते हैं । भावार्थ—अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उतनेही उसके परिणाम है, इसलिये प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है । अतएव यहाँपर भिन्नसमयवर्ती परिणामोंमें सर्वथा विसदृशता और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणा-
मोंमें सर्वथा सदृशता ही होती है । इन परिणामोंसेही आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी गुणश्रेणिनिर्जरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, और मोहनीय कर्मकी वादरकृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि होती है ।

नवमें गुणस्थानके संख्यात भागोंमेंसे अन्तके भागमें होनेवाले कार्यको कहते हैं ।

पुब्बापुब्बण्ण्डुयत्तादरसुहमगयकिद्विअणुभागा ।

हीणकमाणंतगुणेणवराडु वरं च हेद्वस्स ॥ ५८ ॥

पूर्वापूर्वस्पर्धकवादरसूक्ष्मगतकृष्ट्यनुभागाः ।

हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरात्तु वरं चाधस्तनस्य ॥ ५८ ॥

अर्थ—पूर्वस्पर्धकसे अपूर्व स्पर्धकके और अपूर्वस्पर्धकसे वादरकृष्टिके तथा वादरकृष्टिसे सूक्ष्मकृष्टिके अनुभाग क्रमसे अनन्तगुणे २ हीन है । और ऊपरके (पूर्व २ के) जघन्यसे नीचेका (उत्तरोत्तरका) उत्कृष्ट और अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ हीन है । भावार्थ:—अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिसे युक्त कर्मणवर्णाओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं । जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरणके पूर्वमें पायेजाय उनको पूर्वस्पर्धक कहते हैं । जिनका अनिवृ-
त्तिकरणके निमित्तसे अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको अपूर्वस्पर्धक कहते हैं । तथा जिनका

अनुभाग अपूर्व स्पर्धकसेभी क्षीण हो जाय उनको बादरकृष्टि, और जिनका अनुभाग बादरकृष्टिकी अपेक्षाभी क्षीण हो जाय उनको सूक्ष्मकृष्टि कहते हैं । पूर्वस्पर्धकके जघन्य अनुभागसे अपूर्वस्पर्धकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा हीन है । इसीप्रकार अपूर्वस्पर्धकके जघन्यसे बादरकृष्टिका उत्कृष्ट और बादरकृष्टिके जघन्यसे सूक्ष्मकृष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा २ हीन है । और जिस प्रकार पूर्वस्पर्धकके उत्कृष्टसे पूर्वस्पर्धकका जघन्य अनन्तगुणाहीन है उसही प्रकार अपूर्वस्पर्धक आदिमें भी अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा २ हीन है ।

दशवें गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं ।

धुदकोसुंभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्तं ।

एवं सुहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादव्वो ॥ ५९ ॥

धौतकौसुम्भवत्त्वं भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम् ।

एवं सूक्ष्मकषायः सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्यः ॥ ५९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार धुले हुए कसूमी वस्त्रमे लालिमा (सुखी) सूक्ष्म रहजाती है, उसही प्रकार जो अत्यन्तसूक्ष्म राग (लोभ) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं । भावार्थः—जहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोसे क्रमसे लोभकषायके विना चारित्रमोहनीयकी शेष वीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होनेपर सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त लोभकषायका उदय पाया जाय उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामका दशवां गुणस्थान कहते हैं ।

इस सूक्ष्मलोभके उदयसे होनेवाले फलको दिखाते हैं ।

अणुलोहं वेदंतो जीवो उबसामगो व खबगो वा ।

सो सुहमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ ६० ॥

अणुलोभं विदन् जीव उपशमको व क्षपको वा ।

स सूक्ष्मसाम्परायो यथाख्यातेनोनः किञ्चित् ॥ ६० ॥

अर्थ—चाहे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपश्रेणिका आरोहण करनेवालाहो; परन्तु जो जीव सूक्ष्मलोभके उदयका अनुभव कर रहा है ऐसा दशमे गुणस्थानवर्ती जीव यथाख्यात चारित्रसे कुछही न्यून रहता है । भावार्थ—यहांपर सूक्ष्म लोभका उदय रहनेसे यथाख्यात चारित्रके प्रकट होनेमें कुछ कमी रहती है ।

ग्यारहमे गुणस्थानका स्वरूप दिखाते हैं ।

कदकफलजुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं ।

सयलोवसंतमोहो उचसंतकसायओ होदि ॥ ६१ ॥

कतकफलयुतजलं वा शरदि सरःपानीयं व निर्मलम् ।

सकलोपशान्तमोह उपशान्तकषायको भवति ॥ ६१ ॥

अर्थ—निर्मली फलसे युक्त जलकी तरह, अथवा शरदःऋतुमें होनेवाले सरोवरके जलकी तरह, सम्पूर्ण मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मल परिणामोंको उपशान्तकषाय ग्याहरमां गुणस्थान कहते हैं ।

वारहमे गुणस्थानको कहते हैं ।

णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो ।

खीणकसाओ भण्यदि णिग्गंथो वीयरयेहिं ॥ ६२ ॥

निःशेषक्षीणमोहः स्फटिकामलभाजनोदकसमचित्तः ।

क्षीणकषायो भण्यते निर्ग्रन्थो वीतरागैः ॥ ६२ ॥

अर्थ—जिस निर्ग्रन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होनेसे स्फटिकके निर्मल पात्रमें रखे हुए जलके समान निर्मल होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकषायनामक वारहमे गुणस्थानवर्ती कहा है ।

दो गाथाओंद्वारा तेरहवें गुणस्थानको कहते हैं ।

केवलणाणदिवायरकिरणकलाबप्पणासियण्णाणो ।

णवकेवललल्लुग्गमसुजणियपरमप्पववप्सो ॥ ६३ ॥

केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलाप्रणाशिताज्ञानः ।

नवकेवललल्लुग्गमसुजनितपरमात्मव्यपदेशः ॥ ६३ ॥

अर्थ—जिसका केवलज्ञानरूपी सूर्यकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणोंके समूहसे (उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण) अज्ञान अन्धकार सर्वथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव केवललल्लुग्गियोंके (शायिक—सम्यक्त्व चारित्र ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य) प्रकट होनेसे “ परमात्मा ” यह व्यपदेश (संज्ञा) प्राप्त होगया है, वहः—

असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण—

जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥

असहायज्ञानदर्शनसहित इति केवली हि योगेण—

युक्त इति सयोगिजिनः अनादिनिधनार्थे उक्तः ॥ ६४ ॥

अर्थ—इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान दर्शनसे युक्त होनेके कारण जगती, और काययोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मोंसे रहित होनेके कारण चित्त नष्ट जाता है । ऐसा अनादिनिधन आर्ष आगममें कहा है । भावार्थ—वारहमे गुणस्था-

नका विनाश होतेही जिसके ज्ञानावरणादि तीन घाति और सोलह अघाति प्रकृति, सम्पूर्ण मिलाकर ६३ प्रकृतियोंके नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवललब्धि प्रकट हो चुकी हैं और काय योगसे युक्त है उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते हैं ।

चौदहमे अयोगकेवली गुणस्थानको कहते हैं ।

शीलसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो ।

कम्मरयाविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥ ६५ ॥

शीलैश्यं संप्राप्तः निरुद्धनिःशेषास्त्रवो जीवः ।

कर्मरजोविप्रमुक्तो गतयोगः केवली भवति ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो अठारह हजार शीलके भेदोंका स्वामी हो चुका है । और जिसके कर्मोंके आनेका द्वाररूप आस्त्रव सर्वथा बन्द होगया । तथा है सत्त्व और उदय अवस्थाको प्राप्त कर्मरूप रजकी सर्वोत्कृष्ट निर्जरा होनेसे, जो उस कर्मसे सर्वथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस काय योगरहित केवलीको चौदहमे गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते हैं । भावार्थ—शीलकी पूर्णता यहींपर होती है, इसलिये जो शीलका स्वामी होकर पूर्ण संवर और निर्जराका पात्र होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है, ऐसे काययोगसे भी रहित केवलीको चौदहमें गुणस्थानवर्ती कहते हैं ।

इसप्रकार चौदह गुणस्थानोंको कहकर, अब उनमें होनेवाली आयुर्कर्मके विना शेष सातकर्मोंकी गुणश्रेणिनिर्जराको दो गाथाओं द्वारा कहते हैं ।

सम्मत्तुप्पत्तीये सावयविरदे अणंतकम्मसे ।

दंसणमोहक्खवगे कसायउबसामगे य उवसंते ॥ ६६ ॥

सम्यक्त्वोत्पत्तौ श्रावकविरते अनन्तकर्मसि ।

दर्शनमोहक्षपके कषायोपशामके चोपशान्ते ॥ ६६ ॥

खवगे य खीणमोहे जिणेसु द्वा अखगुणिदकमा ।

तव्विरीया काला संखेज्जगुणक्कमा होंति ॥ ६७ ॥ (जुम्मं)

क्षपके च क्षीणमोहे जिनेषु द्रव्याण्यसंख्यगुणितक्रमाणि ।

तद्विपरीताः कालाः संख्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥ ६७ ॥ (युग्मम्)

अर्थ—सातिशय मिथ्यादृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी कर्मका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहनीयकर्मका क्षय करनेवाला, कषायोंका उपशम करनेवाले ८-९-१० गुणस्थानवर्ती जीव, उपशान्तकषाय, कषायोंका क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुणस्थानवर्ती जीव, क्षीणमोह, सयोगी अयोगी दोनोंप्रकारके जिन, इन ग्यारह स्थानोंमें द्रव्यकी अपेक्षा कर्मकी निर्जरा

क्रमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है । और उसका काल इससे विपरति है—क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है । भावार्थ—सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिथ्या-दृष्टि जब करणलब्धिको प्राप्त कर उसके अधःकरणपरिणामोंको भी विताकर अपूर्वकरण परिणामोंको ग्रहण करता है, उस समयसे गुणश्रेणिनिर्जराका प्रारम्भ होता है । इस सातिशय मिथ्यादृष्टिके जो कर्मोंकी निर्जरा होती है वह पूर्वकी निर्जरासे असंख्यातगुणी अधिक है । श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कर्मकी निर्जरा होती है वह सातिशयमिथ्यादृष्टिकी निर्जरासे भी असंख्यातगुणी अधिक है । इसीप्रकार विरतादिस्थानोंमें भी उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यात-गुणी २ कर्मकी निर्जरा होती है । तथा इस निर्जराका काल उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है । अर्थात् सातिशय मिथ्यादृष्टिकी निर्जरामें जितना काल लगता है, श्राव-ककी निर्जरामें उससे संख्यातगुणा कम काल लगता है । इसी प्रकार विरतादिमें भी समझना चाहिये ।

इस प्रकार चौदहगुणस्थानोंमें रहनेवाले जीवोंका वर्णन करके अब गुणस्थानोंका अतिक्र-मण करनेवाले सिद्धोंका वर्णन करते हैं ।

अष्टविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिञ्चा ।

अट्टगुणा किदकिञ्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥

अष्टविहकर्मविकलाः शीतीभूता निरञ्जना नित्याः ।

अष्टगुणाः कृतकृत्याः लोकाग्रनिवासिनः सिद्धाः ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंसे रहित है, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुभव करनेवाले—ज्ञान्तिमय हैं, नवीन कर्मबन्धको कारणभूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्मरूपी अञ्जनसे रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान वर्णन सुख वीर्य अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्मत्व अगुरुलघु ये अष्ट गुण्यगुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य (जिनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा है) हैं, लोकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं ।

सिद्धोंको द्वियहये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं ।

सदसिव मंसो मक्कडि बुद्धो णेयाइयो य वेसेसी ।

इसरमंडलिदंसणविदूसणट्टं कयं एदं ॥ ६९ ॥

सदसिव मात्थ्यः मक्करी बुद्धो नैयायिकश्च वैशेषिकः ।

इ इरमण्डलिदर्शनविदूषणार्थं कृतमेतत् ॥ ६९ ॥

अर्थ—सदसिव, मात्थ्य, मक्करी, बुद्ध, नैयायिक और वैशेषिक, कर्तृवादी (ईश्वरको मानने वाले), मक्करी इनके मतोंका निराकारण करनेके लिये ये विशेषण दिये

है । भावार्थ—सदाशिव मतवाला जीवको सदा कर्मसे रहितही मानता है, उसके निराकरणके लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोंसे रहित होता है—सदा नहीं । सिद्ध अवस्थासे पूर्व संसार अवस्थामें कर्मोंसे सहित रहता है । सांख्यमतवाला मानता है कि “ बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृतिको होते है, आत्माको नहीं ” । इसके निराकरणके लिये “ सुखस्वरूप ” ऐसा विशेषण दिया है । मस्करीमतवाला मुक्तजीवोंका लौटना मानता है, उसको दूषित करनेके लिये ही कहा है कि “ सिद्ध निरञ्जन है ” अर्थात् मिथ्यादर्शन क्रोध मानादि भावकर्मोंसे रहित है । क्योंकि विना भावकर्मके नवीन कर्मका ग्रहण नहीं हो सकता और विना कर्मग्रहणके जीव निर्हेतुक संसारमें लौट नहीं सकता । बौद्धोंका मत है कि “ सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक अर्थात् क्षणध्वंसी है ” उसको दूषित करनेके लिये कहा है कि वे “ नित्य ” है । नैयायिक तथा वैशेषिकमतवाले मानते है कि “ मुक्तिमें बुद्ध्यादिगुणोंका विनाश होजाता है, ” उसको दूर करनेके लिये “ ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित है ” ऐसा कहा है । ईश्वरको कर्ता माननेवालोंके मतके निराकरणके लिये “ कृतकृत्य ” विशेषण दिया है । अर्थात् अब (मुक्त होनेपर) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नहीं रहा है । मण्डली मतवाला मानता है कि “ मुक्तजीव सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कभी ठहरता नहीं ” उसके निराकरणके लिये “ लोकके अग्रभागमें स्थित है ” ऐसा कहा है ।

इति गुणस्थानप्ररूपणा नामा प्रथमोऽधिकारः ।

क्रमप्राप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरुक्तिपूर्वक सामान्य लक्षण कहते हैं ।

जैहिं अणेया जीवा णज्जंतं बहुविहा वि तज्जादी ।

ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥

यैरनेके जीवा नयन्ते बहुविधा अपि तज्जातयः ।

ते पुनः संगृहीतार्था जीवसमासा इति विज्ञेयाः ॥ ७० ॥

अर्थ—जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाय उन धर्मोंको अनेक पदार्थोंका संग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कहते है, ऐसा समझना चाहिये । भावार्थ—उन धर्मविशेषोंको जीवसमास कहते है कि जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा जीवकी अनेक जातियोंका संग्रह किया जासके ॥

उत्पत्तिके कारणकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका लक्षण कहते है ।

तसचदुजुगाणमज्झे अविस्सुद्धेहिं जुदजादिकम्मदये ।

जीवसमासा होंति हु तद्वभवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ॥

१ सदाशिव सदाऽकर्मा सांख्यो मुक्तं सुखोऽक्षितं । मस्करी ऋल मुक्तानां मन्यन्ते पुनरागतिम् ॥ १ ॥
२. पितृं निर्घुणं चैव बुद्धो गौगन्ध मन्यते । कृतान्त्य तमीषानो मण्डलीनोर्ध्वगामिनम् ॥ २ ॥

त्रसचतुर्युगलानां मध्ये अविरुद्धैर्युतजातिकर्मोदये ।

जीवसमासा भवन्ति हि तद्भवसादृश्यसामान्याः ॥ ७१ ॥

अर्थ—त्रसस्थावर वादरसूक्ष्म पर्याप्तअपर्याप्त प्रत्येकसाधारण इन चार युगलोंमेंसे अवि-
रुद्ध त्रसादि कर्मोंसे युक्त जाति नामकर्मका उदय होनेपर जीवोंमें होनेवाले उर्ध्वतासामान्यरूप
या तिर्यक् सामान्यरूप धर्मोंको जीवसमास कहते हैं । भावार्थ—एक पदार्थकी काष्ठक्रमसे
होनेवाली अनेक पर्यायोंमें रहनेवाले समानधर्मको उर्ध्वतासामान्य अथवा सादृश्यसामान्य कहते हैं ।
एक समयमें अनेक पदार्थगत सदृश धर्मको तिर्यक् सामान्य कहते हैं । यह उर्ध्वतासामान्यरूप
या तिर्यक् सामान्यरूप धर्म, त्रसादि युगलोंमेंसे अविरुद्ध कर्मोंसे युक्त एकेन्द्रियादि जाति नाम-
कर्मका उदय होनेपर उत्पन्न होता है । इसीको जीवसमास कहते हैं ।

जीवसमासके चौदह भेदोंको गिनाते हैं ।

बादरसुहमेइंदियवितिचउरिंदियअसणिसण्णी य ।

पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोद्दसा होंति ॥ ७२ ॥

बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिनश्च ।

पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतुर्दश भवन्ति ॥ ७२ ॥

अर्थ—एकेन्द्रियके दो भेद हैं, बादर तथा सूक्ष्म । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
असंज्ञिपंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय । ये सातो ही प्रकारके जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही
प्रकारके होते हैं । इसलिये जीवसमासके सामान्यसे चौदह भेद हुए ।

विस्तारपूर्वक जीवसमासोंका वर्णन करते हैं ।

भूआउतेउवाऊणिच्चदुग्गदिणिगोद्धूलिदरा ।

पत्तेयपदिष्ठिदरा तसपण पुण्णा अपुण्णहुगा ॥ ७३ ॥

भ्वप्तेजोवायुनित्यचतुर्गतिनिगोदस्थूलतराः ।

प्रत्येकप्रतिष्ठेतराः त्रसपञ्च पूर्णा अपूर्णाद्विकाः ॥ ७३ ॥

अर्थ—पृथिवी, जल, तेज, वायु, नित्यनियोद, इतरनिगोद । इन छहके बादर सूक्ष्मके
भेदसे बारह भेद हुए । तथा प्रत्येकके दो भेद, एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । और
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी इसतरह त्रसके पांच भेद । सब मिलाकर उन्नीस
भेद होते हैं । ये सभी पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्त होते हैं । इसलिये उन्नीसका तीनके
साथ गुणा करनेपर जीवसमासके उत्तरभेद ९७ होते हैं ।

जीवसमासके उक्त ९७ भेदोंके भी अवान्तर भेद दिखानेके लिये स्थानादि चार अधिका-
रोंको कहते हैं ।

१ त्रसकर्मका बादरकेसाथ अविरोध और सूक्ष्मके साथ विरोध है, इसीप्रकार पर्याप्तकर्मका साधारणकर्मके
साथ विरोध और प्रत्येकके साथ अविरोध है । इसीतरह अन्यत्र भी यथासम्भव लगातेना ।

ठाणेहिं वि जोणीहिं वि देहोग्गाहणकुलाणभेदेहिं ।

जीवसमासा सव्वे परूविदव्वा जहाकमसो ॥ ७४ ॥

स्थानैरपि योनिभिरपि देहावगाहनकुलाना भेदैः ।

जीवसमासाः सर्वे प्ररूपितव्या यथाक्रमशः ॥ ७४ ॥

अर्थ—स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना, कुलोके भेद इन चार अधिकारोके द्वारा सम्पूर्ण जीवसमासोंका क्रमसे निरूपण करना चाहिये ।

एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिभेदको स्थान कहते हैं । कन्द मूल अण्डा गर्भरस स्वेद आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते हैं । शरीरके छोटे बड़े भेदोको देहावगाहना कहते हैं । भिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिको कारणीभूत नोकर्मवर्गणाके भेदोको कुल कहते हैं ।

क्रमके अनुसार प्रथम स्थानाधिकारको कहते हैं ।

सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगलसयलचरिमदुगे ।

इंदियकाये चरिमस्स य द्दुत्तिचदुपणगभेदजुदे ॥ ७५ ॥

सामान्यजीवः त्रसस्थावरयोः एकविकलसकलचरमद्विके ।

इन्द्रियकाययोः चरमस्य च द्वित्रिचतुःपञ्चभेदयुते ॥ ७५ ॥

अर्थ—सामान्यसे (द्रव्यार्थिक नयसे) जीवका एकही भेद है, क्योंकि “जीव” कहनेसे जीवमात्रका ग्रहण हो जाता है । इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद । त्रस और स्थावरकी अपेक्षासे दो भेद । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय) सकलेन्द्रिय (पंचेन्द्रिय) की अपेक्षा तीन भेद । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जाय तो जीवसमासके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते हैं । इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाच भेद है, अर्थात् एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय । पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति ये पाच स्थावर और एक त्रस इसप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद है । यदि पाच स्थावरोंमें त्रसके विकल और सकल इसतरह दो भेद करके मिला दिये जाय तो सात भेद होते हैं । और विकल असंज्ञी संज्ञी इसप्रकार तीन भेदकरके मिलानेसे आठ भेद होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिलानेसे नव भेद होते हैं । और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी इसतरह पाच भेद करके मिलानेसे दश भेद होते हैं ।

पणजुगले तससहिये तसस्स द्दुत्तिचदुरपणगभेदजुदे ।

छद्दुगपत्तेयग्ग्हि य तसस्स त्तियचदुरपणगभेदजुदे ॥ ७६ ॥

पञ्चयुगले त्रससहिते त्रसस्य द्वित्रिचतुःपञ्चभेदयुते ।

पद्द्विकप्रत्येके च त्रसस्य त्रिचतुःपञ्चभेदयुते ॥ ७६ ॥

अर्थ—पाच स्थावरोंके वादर सूक्ष्मकी अपेक्षा पांच युगल होते हैं । इनमें त्रस सामान्यका एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते हैं । तथा इनही पाच युगलोंमें त्रसके विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलानेसे बारह, और त्रसके विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इसप्रकार तीन भेद मिलानेसे तेरह, और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय ये चार भेद मिलानेसे चौदह, तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पाच भेद मिलानेसे पन्द्रह भेद जीवसमासके होते हैं । पृथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतर निगोद इनके वादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह युगल और प्रत्येक वनस्पति इनमें त्रसके उक्त विकलेन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये तीन भेद मिलानेसे सोलह, और द्वीन्द्रियादि चार भेद मिलानेसे सत्रह, तथा पांच भेद मिलानेसे अठारह भेद होते हैं ।

सगजुगलमिह तसस्स य पणभंगजुदेसु होंति उणवीसा ।

एयादुणवीसोत्ति य इगिवितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥

सप्तयुगले त्रसस्य च पंचभंगयुतेषु भवन्ति एकोनविंशतिः ।

एकादेकोनविंशतिरिति च एकाद्विन्निगुणिते भवेयुः स्थानानि ॥ ७७ ॥

अर्थ—पृथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोदके वादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह युगल और प्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलोंमें त्रसके उक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैं । इस प्रकार एकसे लेकर उन्नीस तक जो जीवसमासके भेद गिनाये हैं, इनका एक दो तीनके साथ गुणा करनेपर क्रमसे उन्नीस, अड़तीस, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर भेद होते हैं ।

एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बताते हैं ।

सामण्णेण तिपंती पढमा विदिद्या अपुण्णगे इदरे ।

पज्जत्ते लद्धिअपज्जत्तेऽपढमा हवे पंती ॥ ७८ ॥

सामान्येन त्रिपङ्कयः प्रथमा द्वितीया अपूर्णके इतरस्मिन् ।

पर्यासे लब्ध्यपर्यासेऽप्रथमा भवेत् पङ्क्तिः ॥ ७८ ॥

अर्थ—उक्त उन्नीस भेदोंकी तीन पङ्क्ति करनी चाहिये । उसमें प्रथम पङ्क्ति सामान्यकी अपेक्षासे है । और दूसरी पङ्क्ति अपर्याप्त तथा पर्याप्तकी अपेक्षासे है । और तीसरी पङ्क्ति पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षासे है । भावार्थ—उन्नीसका जब एकसे गुणा करते हैं तब सामान्यकी अपेक्षा है, पर्याप्त अपर्याप्तके भेदकी विवक्षा नहीं है । जब दोके साथ गुणा करते हैं तब पर्याप्त अपर्याप्तकी अपेक्षा है । और जब तीनके साथ गुणा करते हैं तब पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा है । गाथामें केवल लब्धि शब्द है उसका अर्थ लब्ध्यपर्याप्त होता है; क्योंकि नामका एक देशभी पूर्णनामका बोधक होता है ।

जीवसमासके और भी उत्तर भेदोंको गिनानेकेलिये दो गाथा कहते हैं ।

इगिवणं इगिविगले असणिसणिसणभयजलथलखगाणं ।

गव्भमवे सम्मुच्छे दुतिगं भोगथलखेचरे दो दो ॥ ७९ ॥

एकपञ्चाशत् एकविकले असंज्ञिसंज्ञिगतजलस्थलखगानाम् ।

गर्भभवे सम्मुच्छे द्वित्रिकं भोगस्थलखेचरे द्वौ द्वौ ॥ ७९ ॥

अर्थ—जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंमेंसे पञ्चेन्द्रियके छह भेद निकालनेसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कर्मभूमिमें होनेवाले तिर्यञ्चोंके तीन भेद हैं, जलचर स्थलचर नभश्चर । ये तीनों ही तिर्यञ्च सञ्ज्ञी और असञ्ज्ञी होते हैं । तथा गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं; परन्तु गर्भजोंमें पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त ही होते हैं, इसलिये गर्भजके बारह भेद, और सम्मूर्छनोंमें पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंही भेद होते हैं, इसलिये सम्मूर्छनोंके अठारह भेद, सब मिलाकर कर्मभूमिज तिर्यञ्चोंके तीसभेद होते हैं । भोगभूमिमें पंचेन्द्रियतिर्यञ्चोंके स्थलचर नभश्चर दो ही भेद होते हैं । और ये दोनोंही पर्याप्त तथा निर्वृत्यपर्याप्त होते हैं । इसलिये भोगभूमिज तिर्यञ्चोंके चार भेद, और उक्त कर्मभूमिज सम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदोंमें मिलानेसे तिर्यग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण जीवसमासके ८५ भेद होते हैं । भोगभूमिमें जलचर सम्मूर्छन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते ।

मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोंको गिनाते हैं ।

अज्जवमलेच्छमणुए तिदु भोगकुभोगभूमिजे दो दो ।

सुरणिरये दो दो इदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥ ८० ॥

आर्यम्लेच्छमनुष्ययोस्त्रयो द्वौ भोगकुभोगभूमिजयोद्वौ द्वौ ।

सुरनिरययोद्वौ द्वौ इति जीवसमासा हि अष्टानवतिः ॥ ८० ॥

अर्थ—आर्यखण्डमें पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंही प्रकारके मनुष्य होते हैं । म्लेच्छखण्डमें लब्ध्यपर्याप्तको छोड़कर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं । इसीप्रकार भोगभूमि कुभोगभूमि देव नारकियोंमें भी दो दो ही भेद होते हैं । इसलिये सब मिलाकर जीवसमासके ९८ भेद हुए । भावार्थ—पूर्वोक्त तिर्यञ्चोंके ८५ भेद, और ९ भेद मनुष्योंके तथा दो भेद देवोंके; दो भेद नारकियोंके; इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर भेद ९८ होते हैं ।

इसप्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमासोंका वर्णन किया । अब दूसरा योनि अधिकार क्रमसे प्राप्त है । उस योनिके दो भेद हैं, एक आकारयोनि दूसरी गुणयोनि । उसमें प्रथम आकारयोनिको कहते हैं ।

संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य ।

तत्थ य संखावत्ते णियमाट्टु विवज्जदे गम्भो ॥ ८१ ॥

शंखावर्तकयोनिः कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनी च ।

तत्र च शंखावर्ते नियमात्तु विवर्ज्यते गर्भः ॥ ८१ ॥

अर्थ—योनिके तीन भेद हैं, शंखावर्त कूर्मोन्नत वंशपत्र । उनमेंसे शंखावर्त योनिमें गर्भ नियमसे वर्जित है । भावार्थ—जिसके भीतर शंखके समान चक्र पड़े हों उसको शंखावर्त योनि कहते हैं । जो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते हैं । जो बांसके पत्तेके समान लम्बी हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैं । ये तीन तरह की आकार योनि हैं । इनमेंसे प्रथम शंखावर्तमें नियमसे गर्भ नहीं रहता ।

कुम्मुष्णयजोणीये तित्थयरा दुविहचक्रवह्नी य ।

रामा वि य जायन्ते सेसाए सेसगजणो दु ॥ ८२ ॥

कूर्मोन्नतयोनौ तीर्थकरा द्विविधचक्रवर्तिनश्च ।

रामा अपि च जायन्ते शेषाया शेषकजनस्तु ॥ ८२ ॥

अर्थ—कूर्मोन्नतयोनिमें तीर्थकर अर्धचक्री चक्रवर्ती तथा बलभद्र और अपिशब्दकी सामर्थ्यसे साधारण पुरुष भी उत्पन्न होते हैं । तीसरी वंशपत्रयोनिमें साधारण पुरुष ही उत्पन्न होते हैं तीर्थकरादि महापुरुष नहीं होते ।

जन्म तथा उसकी आधारभूत गुणयोनिके भेदोंको गिनाते हैं ।

जम्मं खलु सम्मुच्छणगढ्भुववादा दु होदि तज्जोणी ।

सच्चित्तसीदसंडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥ ८३ ॥

जन्म खलु सम्मूर्छनगर्भोपपादास्तु भवति तद्योनयः ।

सच्चित्तशीतसंवृतसेतरमिश्राश्च प्रत्येकम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—जन्म तीन प्रकारका होता है, सम्मूर्छन गर्भ उपपाद । तथा इनकी आधारभूत सच्चित्त शीत संवृत, अचित्त उष्ण विवृत, मिश्र, ये गुण योनि होती हैं । इनमेंसे यथासम्भव प्रत्येक सम्मूर्छनादि जन्मके साथ लगा लेनी चाहिये ।

किन जीवोंके कौनसा जन्म होता है यह बताते हैं ।

पोतजरायुजअंडजजीवाणं गढ्भ देवणिरयाणं ।

उववादां सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिदिट्ठं ॥ ८४ ॥

पोतजरायुजांडजजीवानां गर्भः देवनारकाणां ।

उपपाद शेषाणा सम्मूर्छनकं तु निर्दिष्टम् ॥ ८४ ॥

अर्थ—पोत (जो उत्पन्न होते ही भागने लगे, जैसे शेर विहरी हिरन आदि), जरायुज

१ अन्तरेणोच्चे युक्त पुट्टलपिट्ठको सच्चित्त कहते हैं । २ ढका हुआ । ३ खुला हुआ । ४ दोका मिला हुआ, अर्धे चित्त और अचित्तको मिलाकर एक मिश्र योनि होती है ।

(जो जेरके साथ उत्पन्न हों), अण्डज (जो अण्डेसे उत्पन्न हों) इन तीन प्रकारके जीवोंका गर्भ जन्म ही होता है । देव नारकियोंका उपपाद जन्म ही होता है । शेष जीवोंका सम्मूर्छन जन्मही होता है ।

किस जन्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं ।

उबवादे अच्चित्तं गब्भे मिरसं तु होदि सम्मुच्छे ।

साच्चित्तं अच्चित्तं मिरसं च य होदि जोणी हु ॥ ८५ ॥

उपपादे अचित्ता गर्भे मिश्रा तु भवति सम्मूर्छे ।

साचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिर्हि ॥ ८५ ॥

अर्थ—उपपाद जन्मकी अचित्त ही योनि होती है । गर्भ जन्मकी मिश्र योनि ही होती है । तथा सम्मूर्छन जन्मकी साचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनि होती है ।

उबवादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिरसयं होदि ।

उबवादेयक्खेसु य संउड वियलेसु विउलं तु ॥ ८६ ॥

उपपादे शीतोष्णे शेषे शीतोष्णमिश्रका भवन्ति ।

उपपादैकाक्षेषु च संवृता विकलेषु विवृता तु ॥ ८६ ॥

अर्थ—उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण दो प्रकारकी योनि होती है । शेष जन्मोंमें शीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती है । उपपाद जन्मवालोंकी तथा एकोन्द्रिय जीवोंकी योनि संवृत ही होती है । और विकलेन्द्रियोंकी विवृत ही होती है ।

गब्भजजीवाणं पुण मिरसं णियमेण होदि जोणी हु ।

सम्मूर्च्छणपंचक्खे वियलं वा विउलजोणी हु ॥ ८७ ॥

गर्भजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनिर्हि ।

सम्मूर्छनपंचक्षाणां विकलं वा विवृतयोनिर्हि ॥ ८७ ॥

अर्थ—गर्भजजीवोंकी योनि नियमसे मिश्र (संवृत विवृतकी अपेक्षा) होती है । पंचेन्द्रिय सम्मूर्छन जीवोंकी विकलेन्द्रियोंकी तरह विवृत योनि ही होती है ।

उक्त गुणयोनिकी उपसंहारपूर्वक विशेषसंख्याको बताते हैं ।

सामण्णेण य एवं णव जोणीओ हवंति वित्थारे ।

लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण ॥ ८८ ॥

सामान्येन चैवं नव योनयो भवन्ति विस्तारे ।

लक्षाणा चतुरशीतिः योनयो भवन्ति नियमेन ॥ ८८ ॥

१ देवोंके उत्पन्न होनेकी शक्त्या और नारकियोंके उत्पन्न होनेके उद्भ्रकादि स्थानोंको उपपाद कहते हैं, उनमें उन्पन्न होनेको भी उपपाद कहते हैं । २ चारो तरफने पुटलका इकट्ठा होना (जूं मन्डर आदिके जन्मविशेषमें रुः ६) । ३ माताके सचित्तरज और पिताके अचित्त धीर्यके मिलनेसे मिश्र योनि होती है ।

अर्थ—पूर्वोक्त क्रमानुसार सामान्यसे योनियोके नियमसे नव ही भेद होते हैं।
विस्तारकी अपेक्षा इनके चौरासी लाख भेद होते हैं।

योनिसम्बन्धी विस्तृत संख्याको दिखाते हैं।

णिच्चिदरधादुसत्त य तरुदस विचलिंदियेसु छच्चेव ।

सुरणिरयतिरियचउरो चोद्वस मणुए सदसहस्सा ॥ ८९ ॥

नित्येतरधातुसत्त च तरुदश विकलेन्द्रियेषु षट् चैव ।

सुरनिरयतिर्यक्चतस्रः चतुर्दश मनुष्ये शतसहस्राः ॥ ८९ ॥

अर्थ—नित्यनिगोद इतरनिगोद पृथिवी जल अग्नि वायु इन प्रत्येककी सात २ लाख, वनस्पतिकी दशलाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय इन प्रत्येककी दो २ लाख अर्थात् विकलेन्द्रियकी छह लाख, देव नारकी तिर्यञ्च इन प्रत्येककी चार २ लाख, मनुष्यकी चौदह लाख, सब मिलाकर ८४ लाख योनि होती है।

किस गतिमें कौनसा जन्म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं।

उववादा सुरणिरया गढभजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया ।

सम्मुच्छिमा मणुस्साऽपज्जत्ता एयवियलक्खा ॥ ९० ॥

उपपादाः सुरनिरया गर्भजसम्मुच्छिमा हि नरतिर्यञ्चः ।

सम्मुच्छिमा मनुष्या अपर्याप्ता एकविकलाक्षाः ॥ ९० ॥

अर्थ—देवगति और नरकगतिमें उपपाद जन्मही होता है। मनुष्य तथा तिर्यञ्चोंमें गर्भ और सम्मूर्छन दो ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंका सम्मूर्छन जन्म ही होता है।

पंचक्खातिरिक्खाओ गढभजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाणं ।

भोगभुमा गढभवा नरपुण्णा गढभजाचेव ॥ ९१ ॥

पञ्चाक्षतिर्यञ्चो गर्भजसम्मुच्छिमा तिरश्चाम् ।

भोगभूमा गर्भभवा नरपूर्णा गर्भजाश्चैव ॥ ९१ ॥

अर्थ—कर्मभूमिया पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च गर्भज तथा सम्मूर्छन ही होते हैं। तिर्यञ्चोंमें जो भोगभूमिया तिर्यञ्च हैं वे गर्भज ही होते हैं। और जो पर्याप्त मनुष्य हैं वे भी गर्भज ही होते हैं।

लब्ध्यपर्याप्तकोंकी कहा २ सम्भावना है और कहां नहीं है यह बताते हैं।

उववाद्गढभजेसु य लद्धिअपज्जत्तगा ण णिचमेण ।

णरसम्मुच्छिमजीवा लद्धिअपज्जत्तगा चेव ॥ ९२ ॥

उपपादगर्भजेषु च लब्ध्यपर्याप्तका न नियमेन ।

नरसम्मूर्च्छिमजीवा लब्ध्यपर्याप्तकाश्चैव ॥ ९२ ॥

अर्थ—उपपाद और गर्भ जन्मवालोंमें नियमसे लब्ध्यपर्याप्तक नहीं होते । और सम्मूर्च्छन मनुष्य नियमसे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं । भावार्थ—देव नारकी पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त ही होते हैं । और चक्रवर्तीकी रानी आदिको छोड़कर शेष आर्यखण्डकी स्त्रियोंकी योनि कांख स्तन मूत्र मल आदिमें उत्पन्न होनेवाले सम्मूर्च्छन मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं ।

नरकादि गतियोंमें होनेवाले वेदोंका नियम करते हैं ।

णेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा ।

संढा सुरभोगभूमा पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥ ९३ ॥

नैरयिकाः खलु षण्ढा नरतिरश्चोस्त्रयो भवन्ति सम्मूर्च्छाः—

षण्ढाः सुरभोगभूमाः पुरुषस्त्रीवेदकाश्चैव ॥ ९३ ॥

अर्थ—नारकियोंका द्रव्यवेद तथा भाववेद नपुंसक ही होता है । मनुष्य और तिर्यञ्चोंके तीनोंही (स्त्री पुरुष नपुंसक) वेद होते हैं । देव और भोगभूमियाओके पुरुषवेद और स्त्रीवेद ही होता है । भावार्थ—देव नारकी भोगभूमियां और सम्मूर्च्छन जीव इनका जो द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता है; किन्तु शेष मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें यह नियम नहीं है । उनके द्रव्यवेद और भाववेदमें विपरीतता भी पाई जाती है । अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे होनेवाले शरीरगत चिह्नविशेषको द्रव्यवेद, और मोहनीयकर्मकी वेदप्रकृतिके उदयसे होनेवाले परिणाम-विशेषोंको भावभेद कहते हैं ।

शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमासोंका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट और जघन्य शरीरकी अवगाहनाओके स्वामियोंको दिखाते हैं ।

सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्य जादस्स तदियसमयमिह ।

अंगुलअसंखभागं जहण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥ ९४ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये ।

अङ्गुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये ॥ ९४ ॥

अर्थ—उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी अङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है । और उत्कृष्ट अवगाहना मत्स्यके होती है । भावार्थ—ऋजुगतिकेद्वारा उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी उत्पत्तिसे तीसरे समयमें शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है, और इसका प्रमाण घनाङ्गुलके

१ उत्पत्तिके प्रथम समयमें आद्यतचतुरस्र और दूसरे समयमें समचतुरस्र होता है, इस लिये प्रथम द्वितीय समयमें जघन्य अवगाहना नहीं होती, किन्तु तीसरे समयमें गोल होजानेसे जघन्य अवगाहना होती है ।

असंख्यातमें भागप्रमाण है । उत्कृष्ट अवगाहना स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्यमें होनेवाले महामत्स्यकी होती है । इसका प्रमाण हजार योजन लम्बा, पाचसौ योजन चौड़ा, ढाईसौ योजन मोटा है । जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक २ प्रदेशकी वृद्धिके क्रमसे मध्यम अवगाहनाके अनेक भेद होते हैं । अवगाहनाके सम्पूर्ण विकल्प असंख्यात होते हैं ।

इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण बताते हैं ।

साहियसहस्समेकं वारं कोसूणमेकमेकं च ।

जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९५ ॥

साधिकसहस्रमेकं द्वादश क्रोशोनमेकं च ।

योजनसहस्रदीर्घं पद्मे विकले महामत्स्ये ॥ ९६ ॥

अर्थ—पद्म (कमल), द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्स्य इनके शरीरकी अवगाहना क्रमसे कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीनकोश, एक योजन, हजार योजन लम्बी समझनी चाहिये । भावार्थ—एकेन्द्रियोंमें सबसे उत्कृष्ट कमलकी कुछ अधिक एक हजार योजन, द्वीन्द्रियोंमें शंखकी बारहयोजन, त्रीन्द्रियोंमें त्रैप्पी (चींठी) की तीन कोश, चतुरिन्द्रियोंमें भ्रमरकी एक योजन, पंचेन्द्रियोंमें महामत्स्यकी एक हजार योजन लम्बी शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण है । यहापर महामत्स्यकी एक हजार योजनकी अवगाहनासे जो पद्मकी कुछ अधिक अवगाहना बतलाई है, और पूर्वमें सर्वोत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्यकी ही बतलाई है, इससे पूर्वापर विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि यहांपर केवल लम्बाईका वर्णन है, और पूर्वमें जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना बताई थी वह घनक्षेत्रफलकी अपेक्षासे थी । इसलिये पद्मकी अपेक्षा मत्स्यके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी चाहिये; क्योंकि पद्मकी अपेक्षा मत्स्यके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है ।

पर्याप्तक द्वीन्द्रियादिकोंकी जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है ? और उसके धारक जीव कौन २ हैं यह बताते हैं ।

बित्तिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीकुंधुकाणमच्छीसु ।

सिच्छयमच्छे विंदंगुलसंखे संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥

द्वित्रिचपपूर्णजघन्यमनुधरीकुंधुकाणमक्षिकासु ।

सिक्थक्रमत्स्ये वृन्दाङ्गुलसंख्यं संख्यगुणितक्रमाः ॥ ९६ ॥

अर्थ—द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवोंमें अनुंधरी कुंधु काणमक्षिका सिक्थमत्स्यके क्रमसे जघन्य अवगाहना होती है । इसमें प्रथमकी घनाङ्गुलके संख्यातमे भागप्रमाण है । और पूर्वकी अपेक्षा उत्तरकी अवगाहना क्रमसे संख्यातगुणी २ अधिक है । भावार्थ—द्वीन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अवगाहना अनुंधरीके पाई जाती है और उसका

प्रमाण घनाङ्गुलके संख्यातमें भागमात्र है । उससे संख्यातगुणी त्रीन्द्रियोंकी जघन्य अवगाहना है, यह कुंथुके पाई जाती है । इससे संख्यातगुणी चौइन्द्रियोमें काणमक्षिका की, और इससे भी संख्यातगुणी पंचेन्द्रियोमें सिक्थमत्स्यके जघन्य अवगाहना पाई जाती है । यहांपर आचार्योंने द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय आदि शब्द न लिखकर “ त्रि, ति, च, प, ” ये शब्द जो लिखे हैं वे ‘ नामका एकदेश भी सम्पूर्ण नामका बोधक होता है ’ इस नियमके आश्रयसे लाघवके लिये लिखे हैं ।

जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्त जितने भेद हैं उनमें किस भेदका कौन स्वामी है ? और अवगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुणाकार क्या है ? यह पांच गाथाओद्वारा बताते हैं ।

सुहमाणिवातेआभूवातेआपुणिपदिद्विदं इदरं ।

बितिचपमादिलाणं एयाराणं तिसेढीय ॥ ९७ ॥

सूक्ष्मनिवातेआभूवातेअपुनिप्रतिष्ठितमितरत् ।

द्वित्रिचपमाद्यानामेकादशानां त्रिश्रेणयः ॥ ९७ ॥

अर्थ—एक कोठेमें सूक्ष्मनिगोदिया वायुकाय तेजकाय जलकाय पृथिवीकाय इनका क्रमसे स्थापन करना । इसके आगे दूसरे कोठेमें वायुकाय तेजकाय जलकाय पृथिवीकाय निगोदिया प्रतिष्ठित इनका क्रमसे स्थापन करना । और तीसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रियोंका क्रमसे स्थापन करना । इसके आगे उक्त सोलह स्थानों मेंसे आदिके ग्यारह स्थानोंकी तीन श्रेणि मांडना चाहिये । भावार्थ—तीनकोठोंमें स्थापित सोलह स्थानोंके आदिके ग्यारहस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेमें स्थापित किये गये हैं—अर्थात् सूक्ष्मनिगोदियासे लेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह स्थानोंको क्रमानुसार उक्त तीन कोठाओंके आगे पूर्ववत् दो कोठाओंमें स्थापित करना चाहिये, और इसके नीचे इनही ग्यारह स्थानोंके दूसरे और दो कोठे स्थापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनो कोठोंके नीचे तीसरे दो कोठे स्थापित करना चाहिये । इसप्रकार तीन श्रेणिमें दो २ कोठाओंमें ग्यारह स्थानोंको स्थापित करना चाहिये । और इसके आगे:—

अपदिद्विदपत्तेयं बितिचपतिचविअपदिद्विदंसयलं ।

तिचविअपदिद्विदं च य सयलं वादालगुणिदकमा ॥ ९८ ॥

अप्रतिष्ठितप्रत्येकं द्वित्रिचपत्रिचद्व्यप्रतिष्ठितं सकलम् ।

त्रिचद्व्यप्रतिष्ठितं च च सकलं द्वाचत्वारिंशद्गुणितक्रमाः ॥ ९८ ॥

अर्थ—छठे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रियका स्थापन करना । इसके आगेके कोठेमें क्रमसे त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेन्द्रियका स्थापन करना । इससे आगे के कोठेमें त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक गो. ६

पंचेन्द्रियका क्रमसे स्थापन करना । इन सम्पूर्ण चौसठ स्थानोंमें व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणितक्रम है । भावार्थ—आदिके तीन कोठोंमें स्थापित सोलह स्थान और जिन ग्यारहस्थानोंको तीन श्रेणियोंमें स्थापित किया था उनमेंसे नीचेकी दो श्रेणियोंमें स्थापित वाईस स्थानोंको छोड़कर ऊपरकी श्रेणिके ग्यारहस्थान । तथा इसके आगे तीन कोठोंमें स्थापित पन्द्रह स्थान । सब मिलाकर व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणितक्रम है । और दूमरी तीसरी श्रेणिके वाईस स्थान अधिकक्रम हैं । व्यालीस स्थानोंके गुणाकारका प्रमाण और वाईसस्थानोंके अधिकका प्रमाण आगे बतावेगे । यहांपर उक्त स्थानोंके स्वामियोंको बताते हैं ।

अवरमपुण्यं पढमं सोलं पुण पढमविदियतदियोली ।

पुण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णमुक्कस्समुक्कस्स ॥ ९९ ॥

अवरमपूर्णं प्रथमे षोडश पुनः प्रथमद्वितीयतृतीयावलिः ।

पूर्णेतरपूर्णाणां जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टम् ॥ ९९ ॥

अर्थ—आदिके सोलह स्थान जघन्य अपर्याप्तकके है । और प्रथम द्वितीय तृतीयश्रेणि क्रमसे पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा पर्याप्तककी जघन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिये । भावार्थ—प्रथम तीन कोठोंमें विभक्त सोलह स्थानोंमें अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना बताई है । और इसके आगे प्रथम श्रेणिके ग्यारह स्थानोंमें पर्याप्तककी जघन्य और इसके नीचे दूसरी श्रेणिमें अपर्याप्तककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिमें पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिये ।

पुण्णजहण्णं तत्तो वरं अपुण्णस्स पुण्णउक्कस्सं ।

वीपुण्णजहण्णोत्ति असंखं संखं गुणं तत्तो ॥ १०० ॥

पूर्णजघन्यं ततो वरमपूर्णस्य पूर्णोत्कृष्टम् ।

द्विपूर्णजघन्यमिति असंख्यं संख्यं गुणं ततः ॥ १०० ॥

अर्थ—श्रेणिके आगेके प्रथम कोठेमें (छठे कोठेमें) पर्याप्तककी जघन्य और दूसरे कोठेमें अपर्याप्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमें पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिये । द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना पर्यन्त असंख्यातका गुणाकार है, और इसके आगे संख्यातका गुणाकार है । भावार्थ—पहले जो व्यालीस स्थानोंको गुणितक्रम बताया था उनमेंसे आदिके उनतीस स्थान (सूक्ष्मनिगोदिया अपर्याप्तक जघन्यसे लेकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना पर्यन्त) उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे २ है । और इसके आगे तेरह स्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे २ हैं ।

गुणाकार रूप असंख्यातका और श्रेणिगत वाईस स्थानोंके अधिकका प्रमाण बताते हैं ।

सुहमेदरगुणगारो आवलिपल्लाअसंखभागो दु ।

सट्ठाणे सेट्ठिगया अहिया तत्थेकपडिभागो ॥ १०१ ॥

सूक्ष्मेतरगुणकार आवलिपल्यासंख्येयभागस्तु ।

स्वस्थाने श्रेणिगता अधिकास्तत्रैकप्रतिभागः ॥ १०१ ॥

अर्थ—सूक्ष्म और बादरोंका गुणकार स्वस्थानमें क्रमसे आवली और पल्यके असंख्यात में भाग है । और श्रेणिगत वाईस स्थान अपने २ एक प्रतिभागप्रमाण अधिक २ है । भावार्थ—सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवलीके असंख्यातमें भागसे गुणित है, और इसीप्रकार सूक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेजकायका और सूक्ष्मतेजकायसे सूक्ष्मजलकायका सूक्ष्मजलकायसे सूक्ष्म पृथिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्तर आवलीके असंख्यातमें २ भागसे गुणित है । परन्तु सूक्ष्म पृथिवीकायसे बादर वातकायका प्रमाण परस्थान होनेसे पल्यके असंख्यातमें भागगुणित है । इसीप्रकार बादर वातकायसे बादर तेजकायका और बादर तेजकायसे बादर जलकायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर क्रमसे पल्यके असंख्यातमें भाग २ गुणा है । इसीप्रकार आगेके स्थान भी समझना । परन्तु श्रेणिगत वाईस स्थानोंमें गुणाकार नहीं है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक २ है, अर्थात् वाईस स्थानोंमें जो सूक्ष्म है वे आवलीके असंख्यातमें भाग अधिक है, और जो बादर है वे पल्यके असंख्यातमें भाग अधिक है ।

सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तिककी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म वायुकायकी अवगाहना आवलीके असंख्यातमें भाग गुणित है यह पहले कह आये हैं । अब इसमें होनेवाली चतुःस्थानपतित वृद्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यमें होनेवाले अनेक अवगाहनाके भेदोंको कहते हैं ।

अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेज्जभागवड्डीएः ।

आदी गिरंतरमदो एगेगपदेसपरिवड्डी ॥ १०२ ॥

अवरोपरि एकप्रदेशे युते असंख्यातभागवृद्धेः ।

आदिः निरन्तरमतः एकैकप्रदेशपरिवृद्धिः ॥ १०२ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है वह असंख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान है । इसके आगे भी क्रमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि करनी चाहिये । और ऐसा करते २—

अवरोग्गाहणमाणे जहणपरिमिदअसंखरासिंहिदे ।

अवरस्सुवरिं उहे जेडुमसंखेज्जभागस्स ॥ १०३ ॥

अवरावगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिमितासंख्यातराशिहते ।

अवरस्योपरि वृद्धे ज्येष्ठमसंख्यातभागस्य ॥ १०३ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जघन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने प्रदेश जघन्य अवगाहनामें मिलानेपर असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है ।

तस्सुवरि इगिपदेसे जुदे अवत्तव्वभागपारम्भो ।
वरसंखमवाहिदवरे रूऊणे अवरउवरिजुदे ॥ १०४ ॥

तस्योपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारम्भः ।

वरसंख्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते ॥ १०४ ॥

अर्थ—असंख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट स्थानके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करनेसे अव-
क्तव्य भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । इसमें एक २ प्रदेशकी वृद्धि होते २, जब जघन्य अव-
गाहनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसमें एक कमकरके जघन्यके
प्रमाणमें मिलादिया जाय तब:—

तव्वड्डीए चरिमो तस्सुवरिं रूबसंजुदे पढमा ।
संखेज्जभागउड्डी उवरिमदो रूवपरिवड्डी ॥ १०५ ॥

तद्वृद्धेश्चरमः तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमा ।

संख्यातभागवृद्धिः उपर्यतो रूपपरिवृद्धिः ॥ १०५ ॥

अर्थ—अवक्तव्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है । इसके आगे एक और मिला-
नेसे संख्यातभागवृद्धिका प्रथम स्थान होता है । और इसके आगे एक २ की वृद्धि करते ३ जब:

अवरन्दे अवरुवरिं उड्ढे तव्वड्ढिपरिसमत्ती हु ।
रूवे तदुवरि उड्ढे होदि अवत्तव्वपढमपदं ॥ १०६ ॥

अवराद्धे अवरोपरिवृद्धे तद्वृद्धिपरिसमाप्तिर्हि ।

रूपे तदुपरि वृद्धे भवति अवक्तव्यप्रथमपदम् ॥ १०६ ॥

अर्थ—जघन्यका जितना प्रमाण है उसमें उसका (जघन्यका) आधा और मिला-
नेसे संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्टस्थान होता है । इसके आगे भी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर
अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम स्थान होता है ।

रूऊणवरे अवरुस्सुवरिं संवहिदे तदुक्कस्सं ।
तस्सि पदेसे उड्ढे पढमा संखेज्जगुणवड्डी ॥ १०७ ॥

रूपोनावरे अवरस्योपरि संवद्धिते तदुत्कृष्टम् ।

तस्मिन् प्रदेशे वृद्धे प्रथमा संख्यातगुणवृद्धिः ॥ १०७ ॥

अर्थ—जघन्यके प्रमाणमे एक कम जघन्यका ही प्रमाण और मिलानेसे अवक्तव्य-
वृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है । और इसमें एक प्रदेश और मिलानेसे संख्यातगुणवृद्धिका
प्रथम स्थान होता है ।

अवरे वरसंखगुणे तच्चरिमो तम्हि रूबसंजुत्ते ।
उग्गाहणम्हि पढमा होदि अवत्तव्वगुणवड्डी ॥ १०८ ॥

अवरे वरसंख्यगुणे तच्चरमः तस्मिन् रूपसंयुक्ते ।

अवगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणवृद्धिः ॥ १०८ ॥

अर्थ—जघन्यको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्टस्थान होता है । इस संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट स्थानमे ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणवृद्धिका प्रथमस्थान होता है ।

अवरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय रूबपरिहीणे ।

तच्चरिमो रूबजुदे तद्वि असंखेज्जगुणपढमं ॥ १०९ ॥

अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीने ।

तच्चरमो रूपयुते तस्मिन् असंख्यातगुणप्रथमम् ॥ १०९ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक घटाने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है । और इसमें एक प्रदेशकी वृद्धि होनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रथम स्थान होता है ।

रूबुत्तरेण ततो आवलियासंखभागगुणगारे ।

तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहणं कमसो ॥ ११० ॥

रूपोत्तरेण तत आवलिकासंख्यभागगुणकारे ।

तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहनं क्रमशः ॥ ११० ॥

अर्थ—इस असंख्यातगुणवृद्धिके प्रथमस्थानके ऊपर क्रमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि होते २ जब सूक्ष्म अपर्याप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य आवलिके असंख्यातमे भागका गुणाकार उत्पन्न होजाय तब क्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना होती है । भावार्थ—जघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिके क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धिको क्रमसे असंख्यात २ वार होनेपर, और इन वृद्धियोंके मध्यमें अवक्तव्यवृद्धिको भी प्रदेशोत्तरवृद्धिके क्रमसे ही असंख्यात २ वार होनेपर, जब असंख्यातगुणवृद्धि होते २ अन्तमे अपर्याप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाको उत्पन्न करनेमें योग्य आवलीके असंख्यातमें भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार आजाय तब उसके साथ जघन्य अवगाहनाका गुणा करनेसे अपर्याप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यह पूर्वोक्त कथन विना अंकसंदष्टिके समझमें नहीं आसकता इसलिये यहापर अंकसंदष्टि लिखदेना उचित समझते है । वह इस प्रकार है—कल्पना कीजिये कि जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जघन्य संख्यातका प्रमाण २ तथा उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण १५ और जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण १६ है । इस जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जघन्य अवगाहनाका ही भाग देनेसे १ लब्ध आता है

उसको जघन्य अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है। और जघन्य परीतासंख्यात अर्थात् १६ का भाग देनेसे ६० लब्ध आते हैं उनको जघन्य अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यातका अर्थात् १५ का जघन्य अवगाहनामें भाग देनेसे लब्ध ६४ आते हैं इनको जघन्य अवगाहनामें मिलानेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है। जघन्यमें २ का भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अर्थात् जघन्यके आधेको जघन्यमें मिलानेसे संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। परन्तु उत्कृष्ट असंख्यातभागवृद्धिके आगे और जघन्य संख्यातभागवृद्धिके पूर्व जो तीन स्थान हैं, अर्थात् जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी वृद्धि तथा ६४ प्रदेशोंकी वृद्धिके मध्यमें जो ६१-६२ तथा ६३ प्रदेशोंकी वृद्धिके तीन स्थान हैं, वे न तो असंख्यातभागवृद्धिमें ही आते हैं और न संख्यातभागवृद्धिमें ही, इसलिये इनको अवक्तव्यवृद्धिमें लिया है। इसके आगे गुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, जघन्यको दूना करनेसे संख्यातगुणवृद्धिका आदिस्थान (१९२०) होता है। इसके पूर्वमें उत्कृष्ट संख्यातभागवृद्धिके स्थानसे आगे अर्थात् १४४० से आगे जो १४४१ तथा १४४२ आदि १९१९ पर्यंत स्थान हैं वे सम्पूर्ण ही अवक्तव्यवृद्धिके स्थान हैं। इसही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणित करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसके आगे जघन्यपरीतासंख्यातका जघन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका आदिस्थान होता है। तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूर्वकी तरह अवक्तव्य वृद्धि होती है। इस असंख्यातगुणवृद्धिमें ही प्रदेशोत्तरवृद्धिके क्रमसे वृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है उसका जघन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है। इस अंकसंदष्टिके अनुसार अर्थ संदष्टि भी समझना चाहिये; परन्तु अंकसंदष्टिको ही अर्थसंदष्टि नहीं समझना चाहिये।

इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य अवगाहनास्थानोंसे सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहनापर्यन्त स्थानोंको बताकर तेजस्कायादिके अवगाहनास्थानोंके गुणाकारकी उत्पत्तिके क्रमको बताते हैं।

एवं उवरि विणेओ पदेसवह्विक्रमो जहाजोग्गं ।

सव्वत्थेक्केकहिं य जीवसमासाण विञ्चाले ॥ १११ ॥

एवमुपर्यपि ज्ञेयः प्रदेशवृद्धिक्रमो यथायोग्यम् ।

सर्वत्रैकैकस्मिंश्च जीवसमासानामन्तराले ॥ १११ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तसे लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त वातकायकी जघन्य अवगाहना पर्यन्त प्रदेश वृद्धिके क्रमसे अवगाहनाके स्थान बताये, उसही प्रकार आगे

भी तेजस्कायिकसे लेकर पर्याप्त पञ्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त सम्पूर्ण जीवसमासोंके प्रत्येक अन्तरालमें प्रदेशवृद्धिक्रमसे अवगाहनास्थानोंको समझना चाहिये ।

उक्त सम्पूर्ण अवगाहनाके स्थानोंमें किसमें किसका अन्तर्भाव होता है इसको मत्स्यर-चनाके द्वारा सूचित करते हैं ।

हेढा जेसिं जहणणं उवरिं उक्कस्सयं हवे जत्थ ।

तत्थंतरगा सब्बे तेसिं उग्गाहणविअप्पा ॥ ११२ ॥

अघस्तनं येषां जघन्यमुपर्युत्कृष्टकं भवेद्यत्र ।

तत्रान्तरगाः सर्वे तेषामवगाहनविकल्पाः ॥ ११२ ॥

अर्थ—जिन जीवोंकी प्रथम जघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका जहाँ २ पर वर्णन किया गया है उनके मध्यमें जितने भेद हैं उन सबका मध्यके भेदोंमें अन्तर्भाव होता है । भावार्थ—जिनके अवगाहनाके विकल्प अल्प हैं उनका प्रथम विन्यास करना, और जिनकी अवगाहनाके विकल्प अधिक हैं उनका विन्यास पीछे करना । जिसके जहासे जहांतक अवगाहना स्थान है उनका वहांसे वहांतक ही विन्यास करना चाहिये । ऐसा करनेसे मत्स्यका आकार होजाता है । इस मत्स्यरचनासे किस जीवके कितने अवगाहनाके स्थान हैं और कहासे कहांतक है यह प्रतीत होजाता है ।

इसप्रकार स्थान योनि तथा शरीरकी अवगाहनाके निमित्तसे जीवसमासका वर्णन करके कुलोंके द्वारा जीवसमासका वर्णन करते हैं ।

बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडिसयसहस्साइं ।

णेया पुढविदगागणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥ ११३ ॥

द्वाविंशतिः सप्त त्रीणि च सप्त च कुलकोटिशतसहस्राणि ।

ज्ञेया पृथिवीदकाग्निवायुकायकानां परिसंख्या ॥ ११३ ॥

अर्थ—पृथिवीकायके बाईस लाख कुलकोटि हैं, जलकायके सात लाख कुलकोटि हैं । अग्निकायके तीन लाख कुलकोटि हैं । और वायुकायके सात लाख कुलकोटि हैं । भावार्थ—शरीरके भेदको कारणभूत नोकर्मवर्गणाके भेदको कुल कहते हैं । ये कुल क्रमसे पृथिवीकायके बाईस लाख कोटि, जलकायके सात लाख कोटि, अग्निकायके तीन लाख कोटि, और वायुकायके सात लाख कोटि समझने चाहिये ।

अद्धत्तेरस वारस दसयं कुलकोडिसदसहस्साइं ।

जलचरपक्खिउप्पय उरपरिसप्पेसु णव होंति ॥ ११४ ॥

अद्धत्रयोदश द्वादश दशकं कुलकोटिशतसहस्राणि ।

जलचरपक्षिचतुष्पदोरुपरिसर्पेषु नव भवन्ति ॥ ११४ ॥

अर्थ—जलचरोके कुल साढ़ेवारह लाख कोटि, पक्षियोंके वारह लाख कोटि, पशुओंके दश लाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमुही आदिके नव लाख कोटि कुल है ।

छप्पंचाधियवीसं बारसकुलकोडिसदसहस्साइं ।

सुरणेरइयणराणं जहाकमं होंति णेयाणि॥ ११५ ॥

षट्पञ्चाधिकविंशतिः द्वादश कुलकोटिशतसहस्राणि ।

सुरनैरधिकनराणा यथाक्रमं भवन्ति ज्ञेयानि ॥ ११५ ॥

अर्थ—देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुल क्रमसे छव्वीस लाख कोटि, पच्चीस लाख कोटि, तथा वारह लाख कोटि है ।

पूर्वोक्तप्रकारसे भिन्न २ जीवोंके कुलोंकी संख्याको बताकर सबका जोड़ कितना है यह बताते है ।

एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साइं ।

पण्णं कोडिसहस्सा सव्वंगीणं कुलाणंय ॥ ११६ ॥

एका च कोटिकोटी सप्तनवतिश्च शतसहस्राणि ।

पञ्चाशत्कोटिसहस्राण सर्वाङ्गिना कुलाना च ॥ ११६ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण जीवोंके समस्त कुलोंकी संख्या एक कोडाकोड़ि सतानवे लाख तथा पचास हजार कोटि है । भावार्थ—सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या एक कोड़ि सतानवे लाख पचास हजारको एककोटिसे गुणनेपर जितना लब्ध आवे उतनी है । अर्थात् १९७९०००००००००००० प्रमाण है ।

इसप्रकार स्थान योनि देहावगाहना तथा कुलके द्वारा जीवसमास नामक दूसरे अधिकारका वर्णन किया ।

इति जीवसमासप्ररूपणो नाम द्वितीयोऽधिकारः ।

इसके अनन्तर तीसरे पर्याप्तिनामक अधिकारका प्रतिपादन करते है ।

जह पुण्णापुण्णाइं गिहघटवत्थादियाइं दव्वाइं ।

तह पुण्णिदरा जीवा पज्जत्तिदरा मुणेयव्वा ॥ ११७ ॥

यथा पूर्णापूर्णानि गृहघटवत्खादिकानि द्रव्याणि ।

तथा पूर्णेतारा जीवाः पर्याप्ततरा मन्तव्याः ॥ ११७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार घर घट बरत आदिक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनो प्रकारके होते है. उस ही प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकारके होते है । जो पूर्ण है उनको पर्याप्त और जो अपूर्ण हैं उनको अपर्याप्त कहते है । भावार्थ—गृहीत आहारवर्गणाको खलरम भागाद्रिरूप परिणमानेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होजानेको पर्याप्ति कहते है । यह

पर्याप्ति जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त, और जिनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुई है उन जीवोंको अपर्याप्त कहते हैं। जिसप्रकार घटादिक द्रव्य वनचुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्व अपूर्ण कहे जाते हैं। इसही प्रकार पर्याप्ति सहितको पर्याप्त और पर्याप्ति रहितको अपर्याप्त कहते हैं।

पर्याप्तिके छह भेद तथा उनके स्वामियोंका नामनिर्देश करते हैं।

आहारशरीरिन्द्रियपञ्जती आणपाणभासमणो ।

चत्तारि पंच छप्पि य एइंदियवियलसण्णीणं ॥ ११८ ॥

आहारशरीरेन्द्रियाणि पर्याप्तयः आनप्राणभाषामनान्ति ।

चतस्रः पञ्च षडपि च एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनाम् ॥ ११८ ॥

अर्थ—आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा मन इस प्रकार पर्याप्तिके छह भेद हैं। जिनमें एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पर्याप्ति, और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा असंज्ञिपंचेन्द्रियके मनःपर्याप्तिको छोड़कर शेष पांच पर्याप्ति होती है। और संज्ञी जीवोंके सभी पर्याप्ति होती है। भावार्थ—एक शरीरको छोड़कर नवीन शरीरको करण भूत जिस नोकर्म वर्गणाको जीव ग्रहण करता है उसको खल रस भागरूप परिणमावनेकेलिये जीवकी शक्तिके पूर्ण होजानेको आहारपर्याप्ति कहते हैं। और खलभागको हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा रसभागको खून आदि द्रव (नरम) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेके शरीरपर्याप्ति कहते हैं। तथा उस ही नोकर्मवर्गणाके स्कन्धमेंसे कुछ वगणाओंको अपनी २ इन्द्रियके स्थानपर उस उस द्रव्येन्द्रियके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होजानेको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं। इसही प्रकार कुछ स्कन्धोको श्वासोच्छ्वासरूप परिणमावनेकी जो जीवकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। और वचनरूप होनेके योग्य पुद्गल स्कन्धोको (भाषावर्गणाको) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होनेको भाषापर्याप्ति कहते हैं। तथा द्रव्यमनरूप होनेको योग्य पुद्गलस्कन्धोको (मनोवर्गणाको) द्रव्यमनके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होनेको मनपर्याप्ति कहते हैं। इन छह पर्याप्तियोंमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पर्याप्ति ही होती है। और द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञिपंचेन्द्रिय पर्यन्त मनःपर्याप्तिको छोड़कर पांच पर्याप्ति होती है। और संज्ञी जीवोंके सभी पर्याप्ति होती है। जिन जीवोंकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उनको पर्याप्त, और जिनकी पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं। अपर्याप्त जीवोंके भी दो भेद हैं—एक निर्वृत्त्यपर्याप्त दूसरा लब्ध्यपर्याप्त। जिनकी पर्याप्ति अभीतक पूर्ण नहीं हुई है, किन्तु अन्तर्मुहूर्तके बाद नियमसे पूर्ण होजायगी उनको निर्वृत्त्यपर्याप्त कहते हैं। और जिसकी अभीतक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और पूर्ण होनेसे प्रथम ही जिसका मरण भी होजायगा—अर्थात् अपनी आयुके कालमें जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण न हो उसके लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं।

इन पर्याप्तियोंमेंसे प्रत्येक तथा समस्तके प्रारम्भ और पूर्ण होनेमें कितना काल लगता है यह बताते हैं ।

पञ्जतीपद्यवणं जुगवं तु कमेण होदि णिद्यवणं ।

अंतोमुहुत्तकालेणहियकमा तत्तियालावा ॥ ११९ ॥

पर्याप्तप्रस्थापनं युगपत्तु क्रमेण भवति निष्ठापनम् ।

अन्तर्मुहूर्तकालेन अधिकक्रमास्तावदालापात् ॥ ११९ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण पर्याप्तियोंका आरम्भ तो युगपत् होता है, किन्तु उनकी पूर्णता क्रमसे होती है। इनका काल यद्यपि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका कुछ २ अधिक है; तथापि सामान्यकी अपेक्षा सबका अन्तर्मुहूर्तमात्र ही काल है। भावार्थ—एकसाथ सम्पूर्ण पर्याप्तियोंके प्रारम्भ होनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालमें आहारपर्याप्ति पूर्ण होती है। और उससे संख्यात-भाग अधिक कालमें शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। इस ही प्रकार आगे २ की पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें पूर्व २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल लगता है, तथापि वह अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है। क्योंकि असंख्यात समयप्रमाण अन्तर्मुहूर्तके भी असंख्यात भेद है; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं। इस लिये सम्पूर्ण पर्याप्तियोंके समुदायका काल भी अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है।

पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्तका काल बताते हैं ।

पञ्जत्तस्स य उदये णियणियपञ्जत्तिणिच्छिदो होदि

जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्ति अपुण्णगो ताव ॥ १२० ॥

पर्याप्तस्य च उदये निजनिजपर्याप्तिनिष्ठितो भवति ।

यावत् शरीरमपूर्णं निर्वृत्यपूर्णं कस्तावत् ॥ १२० ॥

अर्थ—पर्याप्त नामकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पर्याप्तियोंसे पूर्ण होता है; तथापि जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्तु निर्वृत्यपर्याप्त कहते हैं। भावार्थ—इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन इन पर्याप्तियोंके पूर्ण नहीं होनेपर भी यदि शरीरपर्याप्ति पूर्ण होगई है तो वह जीव पर्याप्त ही है; किन्तु उससे पूर्व निर्वृत्यपर्याप्तक कहा जाता है।

लब्धपर्याप्तकका स्वरूप दिखाते हैं ।

उदये ङु अपुण्णस्स य सगसगपञ्जत्तिर्य ण णिद्यवादि ।

अंतोमुहुत्तमरणं लद्धिअपञ्जत्तगो सो ङु ॥ १२१ ॥

उदये तु अपूर्णस्य च स्वकस्वकपर्याप्तिनिष्ठापयति ।

अन्तर्मुहूर्तमरणं लब्धपर्याप्तकः स तु ॥ १२१ ॥

अर्थ—अपर्याप्त नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण न करके अन्तर्मुहूर्तकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं ।
भावार्थ—जिन जीवोंका अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे अपने २ योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण न करके अन्तर्मुहूर्तमें ही मरण होजाय उनको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं । इस गाथामें जो तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तर्मुहूर्तमें ही मरण होता है, और दूसरे चकारसे इन जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्रही है, ऐसा समझना चाहिये । यह अन्तर्मुहूर्त एक श्वासके अठारहवें भागप्रमाण है । इस प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तक जीव एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सबहीमें पाये जाते हैं ।

यदि एक जीव एक अन्तर्मुहूर्तमें लब्ध्यपर्याप्तक अवस्थामें ज्यादासे ज्यादा भवोंको धारण करै तो कितने करसकता है ? यह बताते हैं ।

तिष्ठिणसया छत्तीसा छावड्डिसहस्सगाणि मरणाणि ।

अन्तोमुहुत्तकाले तावदिया चेव खुद्दभवा ॥ १२२ ॥

त्रीणि शतानि षट्त्रिंशत् षट्षष्टिसहस्रकाणि मरणानि ।

अन्तर्मुहूर्तकाले तावन्तश्चैव क्षुद्भवाः ॥ १२२ ॥

अर्थ—एक अन्तर्मुहूर्तमें एक लब्ध्यपर्याप्तक जीव छ्यासठ हजार तीससौ छत्तीस मरण और इतने ही भवोंको (जन्म) भी धारण कर सकता है । **भावार्थ**—एक लब्ध्यपर्याप्तक जीव यदि निरन्तर भवोंको धारण करै तो ६६३३६ जन्म और इतने ही मरणोंको धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता ।

उक्त भवोंमें एकेन्द्रियादिकमेसे किस २ के कितने २ भवोंको धारण करता है यह बताते हैं ।

सीदी सट्ठी ताळं वियले चउवीस होंति पंचक्खे ।

छावड्डिं च सहस्सा सयं च वत्तीसमेयक्खे ॥ १२३ ॥

अशीतिः षष्टिः चत्वारिंशद्विकले चतुर्विंशतिर्भवन्ति पंचाक्षे ।

षट्षष्टिश्च सहस्राणि शतं च द्वात्रिंशमेकाक्षे ॥ १२३ ॥

अर्थ—विकलेन्द्रियोंमें द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ८० भव, त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके २४, तथा एकेन्द्रियोंके ६६१३२ भवोंको धारण कर सकता है, अधिकको नहीं ।

एकेन्द्रियोंकी संख्याको भी स्पष्ट करते हैं ।

पुढविदगागणिमारुदसाहारणथूलसुहमपत्तेया ।

एदेसु अपुण्णेसु य एक्के वार खं छक्कं ॥ १२४ ॥

पृथ्वीदकाग्निमास्तसाधारणस्थूलसूक्ष्मप्रत्येकाः ।

एतेषु अपूर्णेषु च एकैकस्मिन् द्वादश खं पट्कम् ॥ १२४ ॥

अर्थ—स्थूल और सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और साधारण, और प्रत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेंसे प्रत्येक (हर-एक) के ६०१२ भेद होते हैं । भावार्थ—स्थूल पृथिवी सूक्ष्म पृथिवी स्थूल जल सूक्ष्म जल स्थूल वायु सूक्ष्म वायु स्थूल अग्नि सूक्ष्म अग्नि स्थूल साधारण सूक्ष्म साधारण तथा प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेंसे प्रत्येकके ६०१२ भव होते हैं । इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके उत्कृष्ट भवोंका प्रमाण ६६१२२ निकलता है ।

समुद्धात अवस्थामे केवलियोंके भी अपर्याप्तता कही है सो किस प्रकार हो सकती है यह बताते हैं ।

पञ्जत्तसरीरस्स य पञ्जत्तुदयस्स कायजोगस्स ।

जोगिस्स अपुण्णत्तं अपुण्णजोगोत्ति णिद्धिं ॥ १२५ ॥

पर्याप्तशरीरस्य च पर्याप्त्युदयस्य काययोगस्य ।

योगिनोऽपूर्णत्वमपूर्णयोग इति निर्दिष्टम् ॥ १२५ ॥

अर्थ—जिस संयोग केवलीका शरीर पूर्ण है, और उसके पर्याप्ति नाम कर्मका उदय भी मौजूद है, तथा काययोग भी है, उसके अपर्याप्तता किसप्रकार हो सकती है ? तो इसका कारण योगका पूर्ण न होना ही बताया है । भावार्थ—जिसके अपर्याप्त नामकर्मका उदय हो, अथवा जिसका शरीर पूर्ण न हुआ हो उसको अपर्याप्त कहते हैं । क्योंकि पहले “ जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव” ऐसा कह आये है । अर्थात् जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तककी अवस्थाको निर्वृत्त्यपर्याप्ति कहते हैं । परन्तु केवलीका शरीर भी पर्याप्त है, और उनके पर्याप्ति नामकर्मका उदय भी है, तथा काययोग भी मौजूद है, तब उसको अपर्याप्त क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि सभी मौजूद हैं तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण तीनोंही समुद्धात अवस्थामें योग पूर्ण नहीं है, इस ही लिये उनको आगममे गौणतासे अपर्याप्त कहा है, मुख्यतासे अपर्याप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है ऐसे प्रथम द्वितीय चतुर्थ और छठा ये चार ही गुणस्थान हैं ।

किस २ गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है ? यह बताते हैं ।

लद्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि विदिये चउत्थच्छे य ।

णिव्वत्तिअपञ्जत्ती तत्थवि सेसेसु पञ्जत्ती ॥ १२६ ॥

लब्ध्यपूर्ण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुर्थषष्ठे च ।

निर्वृत्यपर्याप्तिः तत्रापि शेषेषु पर्याप्तिः ॥ १२६ ॥

अर्थ—लब्ध्यपर्याप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होते है । निर्वृत्यपर्याप्तक प्रथम द्वितीय चतुर्थ और छठे गुणस्थानमें होते है । और पर्याप्ति उक्त चारो और शेष सभी गुणस्थानोंमें पाई जाती है । भावार्थ—प्रथम गुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्ति निर्वृत्यपर्याप्ति पर्याप्ति तीनों अवस्था होती है । सासादन असंयत और प्रमत्तमें निर्वृत्यपर्याप्त पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं । उक्त तथा शेष सब ही गुणस्थानोंमें पर्याप्ति पाई जाती है । प्रमत्त गुणस्थानमें जो निर्वृत्यपर्याप्त अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है । इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है । उससे सयोगकेवली भी निर्वृत्यपर्याप्तक होते है यह बात गौणतया सूचित की है ।

सासादन और सम्यक्त्वके अभावका नियम कहां २ पर है यह बताते है ।

हेट्टिमच्छपुढवीणं जोइसिवणभवनसव्वइत्थीणं ।

पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ॥ १२७ ॥

अधःस्तनषट्पृथ्वीनां ज्योतिष्कवनभवनसर्वस्त्रीणाम् ।

पूर्णेतरस्मिन् न हि सम्यक्त्वं न सासनो नारकापूर्णे ॥ २७ ॥

अर्थ—द्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पूर्ण स्त्रिया इनकी अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । और सासादन सम्यग्दृष्टी अपर्याप्त नारकी नहीं होता । भावार्थ—सम्यक्त्वसहित जीव मरण करके द्वितीयादिक छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी देवोंमें और समग्र स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता । और सासादनसम्यग्दृष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता ।

इति पर्याप्तिप्ररूपणो नाम तृतीयोऽधिकारः :

अब प्राणप्ररूपणा क्रमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूर्ण लक्षण कहते है ।

बाहिरपाणेहिं जहा तहेव अब्भंतरेहिं पाणेहिं ।

पाणांति जेहिं जीवा पाणा ते होंति णिद्धिटा ॥ १२८ ॥

बाह्यप्राणैर्यथा तथैवाभ्यन्तरैः प्राणैः ।

प्राणान्ति यैर्जीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टाः ॥ १२८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके कार्यभूत नेत्रोंका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छ्वास निःश्वास आदि बाह्य प्राणोंके द्वारा जीव जीते है, उसही प्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते है । भावार्थ—जिनके सद्भावमें जीवमें जीवितपनेका और वियोग होनेपर मरणपनेका व्यवहार

हो उनको प्राण कहते हैं । ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियोंके कार्यरूप हैं—अर्थात् प्राण और पर्याप्तिये कार्य और कारणका अन्तर है । क्योंकि गृहीत पुद्गलस्क्न्ध विशेषोंको इन्द्रिय वचन आदिरूप परिणामावनेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति, और वचन व्यापार आदिकी कारण-भूत शक्तिकी, तथा वचन आदिकी प्राण कहते हैं ।

प्राणके भेदोंको गिनाते हैं ।

पंचवि इन्द्रियपाणा मणवचिकायेसु तिष्ठिण बलपाणा ।

आणापाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥

पञ्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकायेषु त्रयो बलप्राणाः ।

अनापानप्राणा आयुष्कप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः ॥ १२९ ॥

अर्थ—पांच इन्द्रियप्राण—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्र । तीन बलप्राण—मनोबल वचनबल कायबल । श्वासोच्छ्वास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं ।

द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारके प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते हैं ।

वीरियजुदमदिखउवसमुत्था णोइंदियेदियेसु बला ।

देहुदये कायाणा वचीबला आउ आउदये ॥ १३० ॥

वीर्ययुतमतिक्षयोपशमोत्था नोइन्द्रियेन्द्रियेषु बलाः ।

देहोदये कायानौ वचोबल आयुः आयुरुदये ॥ १३० ॥

अर्थ—मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीर्यान्तराय कर्म और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारणसे उत्पन्न होते हैं । शरीरनामकर्मके उदयसे कायबलप्राण होता है । श्वासोच्छ्वास और शरीरकर्मके उदयसे प्राण—श्वासोच्छ्वास उत्पन्न होते हैं । स्वरनाम-कर्मके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है । आयु कर्मके उदयसे आयुःप्राण होता है । भावार्थ—वीर्यान्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले मनोबल और इन्द्रियप्राण, निज और पर पदार्थको ग्रहण करनेमें समर्थ लब्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हैं । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न होनेवाले कायबलादिक प्राणोंमें शरीरकी चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यरूप कायबलप्राण, श्वासोच्छ्वासकी प्रवृत्तिमें कारणभूत शक्तिरूप श्वासोच्छ्वास प्राण, वचनव्यापारको कारणभूत शक्तिरूप वचोबल प्राण, नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिरूप आयुःप्राण होता है ।

प्राणोंके स्वामियोंको बताते हैं ।

इंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णेसु पुण्णने आणा ।

वीइंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्णिपुण्णेव ॥ २३१ ॥

इन्द्रियकायायूंषि च पूर्णापूर्णेषु पूर्णके आनः ।

द्वीन्द्रियादिपूर्णे वचः मनः संज्ञिपूर्णे एव ॥ १३१ ॥

अर्थ—इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोही के होते हैं । किन्तु श्वासोच्छ्वास पर्याप्तके ही होता है । और वचनबल प्राण पर्याप्त द्वीन्द्रियादिके ही होता है । तथा मनोबल प्राण संज्ञिपर्याप्तके ही होता है ।

एकेन्द्रियादि जीवोंमें किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं ।

दश सण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स वेऊणा ।

पज्जत्तेसिदरेसु य सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ १३२ ॥


दश संज्ञिनां प्राणाः शेषैकोनमन्तिमस्य व्यूनाः ।

पर्याप्तेष्वितरेषु च सप्त द्विके शेषकैकोनाः ॥ १३२ ॥

अर्थ—पर्याप्त संज्ञिपंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं । शेषके पर्याप्तकोंके एक २ प्राण कम होता जाता है; किन्तु एकेन्द्रियोके दो कम होते हैं । अपर्याप्तक संज्ञि और असंज्ञी पंचेन्द्रियके सात प्राण होते हैं और शेषके अपर्याप्त जीवोंके एक २ प्राण कम होता जाता है ।

भावार्थ—पर्याप्त संज्ञिपंचेन्द्रियके सबही प्राण होते हैं । असंज्ञिके मनोबलप्राणको छोड़कर बाकी नव प्राण होते हैं । चतुरिन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रियको छोड़कर आठ, और त्रीन्द्रियके चक्षुको छोड़कर बाकी सात, द्वीन्द्रियके घ्राणको छोड़कर बाकी छह, और एकेन्द्रियके रसनेन्द्रिय तथा वचनबलको छोड़कर बाकी चार प्राण होते हैं । यह सम्पूर्ण कथन पर्याप्तककी अपेक्षासे है । अपर्याप्तकमें कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार है कि संज्ञि और असंज्ञि पंचेन्द्रियके श्वासोच्छ्वास वचोबल मनोबलको छोड़कर बाकी पांच इन्द्रिय कायबल आयुःप्राण इसप्रकार सात प्राण होते हैं । आगे एक २ कम होता गया है—अर्थात् चतुरिन्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीन्द्रियके चक्षुः को छोड़कर ५, और द्वीन्द्रियके घ्राणको छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके रसनाको छोड़कर बाकी तीन प्राण होते हैं ।

इति प्राणप्ररूपणो नाम चतुर्थोऽधिकारः ।



इह जाहि बाहियावि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं ।

सेवंतावि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥ १३३ ॥

इह याभिर्वाषिता अपि च जीवाः प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम् ।

सेवमाना अपि च उभयस्मिन् ताश्चतत्तः संज्ञाः ॥ १३३ ॥

अर्थ—जिनसे सङ्कोशित होकर जीव इस लोकमें और जिनके विषयका सेवन करनेसे दोनों ही भवोंमें दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संज्ञा कहते हैं । उसके चार भेद हैं ।

भावार्थ—संज्ञानाम वांछाका है, जिसके निमित्तसे दोनोंही भवोंमें दारुण दुःखकी प्राप्ति होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं। उसके चार भेद हैं, आहारसंज्ञा भयसंज्ञा मैथुन-संज्ञा परिग्रहसंज्ञा।

आहारसंज्ञाका स्वरूप बताते हैं।

आहारदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमकोठाए ।

सादिदरुदीरणाए हवदि हु आहारसण्णा हु ॥ १३४ ॥

आहारदर्शनेन च तस्योपयोगेन अवमकोष्ठया ।

सातेतरोदीरणया भवति हि आहारसंज्ञा हि ॥ १३४ ॥

अर्थ—आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे और पेटके खाली होनेसे तथा असातावेदनीयके उदय और उदीर्णा होनेपर जीवके नियमसे आहारसंज्ञा उत्पन्न होती है। भावाथ—किसी उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेसे अथवा पूर्वानुभूत भोजनका स्मरण करनेसे यद्वा पेटके खाली होजानेसे और असाता वेदनीयके उदय और उदीर्णासे इत्यादि और भी अनेक कारणोंसे आहारसंज्ञा अर्थात् आहारकी वाछा उत्पन्न होती है।

भयसंज्ञाके कारण और उसका स्वरूप बताते हैं।

अइभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए ।

भयकम्मुदीरणाए भयसण्णा जायदे चटुहिं ॥ १३५ ॥

अतिभीमदर्शनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्त्वेन ।

भयकर्मोदीरणया भयसंज्ञा जायते चतुर्भिः ॥ १३५ ॥

अर्थ—अत्यन्त भयंकर पदार्थके देखनेसे, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदार्थके स्मरणादिसे, यद्वा शक्तिके हीन होनेपर, और अंतरगमें भयकर्मकी उदय उदीर्णा होनेपर इत्यादि कारणोंसे भयसंज्ञा होती है।

मैथुनसंज्ञाको बताते हैं।

पणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगे कुशीलसेवाए ।

वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ॥

प्रणतिरसभोजनेन च तस्योपयोगे कुशीलसेवया ।

वेदस्योदीरणया मैथुनसंज्ञा भवति एवम् ॥ १३६ ॥

अर्थ—स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, और पहले भुक्त विषयोंका स्मरण आदि करनेसे, तथा कुशीलका सेवन करनेसे और वेद कर्मका उदय उदीर्णा आदिसे मैथुनसंज्ञा होती है।

परिग्रह संज्ञाका वर्णन करते हैं।

उवयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण मुच्छिदाए य ।

लोहस्सुदीरणाए परिग्गहे जायदे सण्णा ॥ १३७ ॥

उपकरणदर्शनेन च तस्योपयोगेन मूर्च्छिता ये च ।

लोभस्योदीरणया परिग्रहे जायते संज्ञा ॥ १३७ ॥

अर्थ—इत्रुः भोजन उत्तम वस्त्र स्त्री आदि भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोंके देखनेसे अथवा पहले भुक्त पदार्थोंका स्मरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके होनेसे, लोभकर्मका उदय उदीर्णा होनेसे, इत्यादि कारणोंसे परिग्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है ।

किस जीवके कौनसी संज्ञा होती है यह बताते हैं ।

णष्टपमाए पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा ।

सेसा कम्मत्थित्तेणुबयारेणत्थि णहि कज्जे ॥ १३८ ॥

नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात् ।

शेषाः कर्मास्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्ये ॥ १३८ ॥

अर्थ—अप्रमत्त गुणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहांपर उसका कारण असात्वेदनीय कर्मका उदय नहीं है । और शेषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती है । क्योंकि उनका कारण कर्म वहापर मौजूद है । किन्तु उनका कार्य वहांपर नहीं होता । भावार्थ—साता असाता वेदनीय और मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोंकी उदीरण प्रमत्तविरतमें ही होती है—आगे नहीं । इसलिये सातवें गुणस्थानमे आहारसंज्ञा नहीं है । किन्तु शेष तीन संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं । क्योंकि उनका कारणभूत कर्म वहांपर है । किन्तु भागना रतिक्रीडा परिग्रहस्वीकार आदिमे प्रवृत्तिरूप उनका कार्य नहीं है । क्योंकि वहांपर ध्यान अवस्था ही है । अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, और कर्मोंका क्षय तथा मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होसकेगी ।

इति संज्ञाप्ररूपणो नाम पञ्चमोऽधिकारः ।

अथ मङ्गलपूर्वक क्रमप्राप्त मार्गणा महाधिकारको कहते है ।

धम्मगुणमग्गणाहयमोहारिबलं जिणं णभंसित्ता ।

मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणिस्सामो ॥ १३९ ॥

धर्मगुणमार्गणाहतमोहारिबलं जिनं नमसित्वा ।

मर्गणामहाधिकारं विविधाधिकारं भणिष्यामः ॥ १३९ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनादि अथवा उत्तमक्षमादि धर्मरूपी धनुष, और ज्ञानादि गुणरूपी प्रत्यंत्ता (डोरी), तथा चौदह मार्गणारूपी वाणोंसे जिसने मोहरूपी शत्रुके बलको नष्ट कर दिया है इसप्रकारके जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके, मार्गणा महाधिकारका जिसमें कि और भी अनेक अधिकारोंका अन्तर्भाव होता है वर्णन करूंगा ।

इसप्रकार मार्गणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका (मार्गणाका) निरुक्तिपूर्वक लक्षण कहते हैं ।

जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते जहा तथा दिट्ठा ।
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १४० ॥

याभिर्वा यासु वा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः ।

ताश्चतुर्दश जानीहि श्रुतज्ञाने मार्गणा भवन्ति ॥ १४० ॥

अर्थ—जिसप्रकारसे प्रवचनमें देखेगये हो उसही प्रकारसे जीवादि पदार्थोंका जिन भावोंके द्वारा अथवा जिन पर्यायोंमें विचार किया जाय वे ही मार्गणा हैं, ऐसा समझना चाहिये । उनके चौदह भेद हैं ।

चौदह मार्गणाओंके नाम बताते हैं ।

गइइंदियेसु काये जोगे वेदे कषायणाणे य ।

संजमदंसणलेस्सामवियासम्मत्तसण्णिआहारे ॥ १४१ ॥

गतीन्द्रियेषु काये योगे वेदे कषायज्ञाने च ।

संयमदर्शनलेश्यामन्यतासम्यक्त्वसंज्ञाहारे ॥ १४१ ॥

अर्थ—गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सम्यक्त्व संज्ञा आहार, ये चौदह मार्गणा हैं ।

अन्तरमार्गणाओंके भेद तथा उनके कालका नियम बताते हैं ।

उवसमसुहमाहारे वेगुवियमिस्सणरअपज्जत्ते ।

सासणसम्मि मिस्से सांतरगा मग्गणा अट्ट ॥ १४२ ॥

उपशमसूक्ष्माहारे वैगूर्विकमिश्रनरापर्याप्ते ।

सासनसम्यक्त्वे मिश्रे सान्तरका मार्गणा अष्ट ॥ १४२ ॥

अर्थ—उपशमसम्यक्त्व सूक्ष्मसापराय आहारकयोग आहारकमिश्रयोग वैक्रियिकमिश्र अपर्याप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये अन्तमार्गणा हैं ।

उक्त आठ अन्तरमार्गणाओंका उत्कृष्ट और जघन्य काल बताते हैं ।

सत्तदिणा छम्मासा वासपुधत्त च बारसमुहुत्ता ।

पह्लासंखं तिण्हं वरमवरं एकसमयो डु ॥ १४३ ॥

सप्तदिनानि षण्मासा वर्षपृथक्त्वं च द्वादशमुहूर्ताः ।

पल्यासंख्यं त्रयाणां वरमवरमेकसमयस्तु ॥ १४३ ॥

अर्थ—उक्त आठ अन्तर मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल क्रमसे सात दिन, छह महीना,

पृथक्त्व वर्ष, पृथक्त्व वर्ष, बारहमुहूर्त और अन्तकी तीन मार्गणाओंका काल पल्यके असंख्यातवें भाग है । और जघन्य काल सबका एक समय है । भावार्थ—उपशम सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल सात दिन, सूक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका पृथक्त्ववर्ष, तथा आहारक-मिश्रका पृथक्त्ववर्ष, वैक्रियिकमिश्रका बारह मुहूर्त, अपर्याप्त मनुष्यका पल्यके असंख्यातवें भाग, तथा सासादन सम्यक्त्व और मिश्र इन दोनोंका भी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । और जघन्य काल सबका एक समय ही है ।

अंतरमार्गणाविशेषोंको दिखाते है ।

पढसुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चौदसा दिवसा ।

विरदीए पणरसा विरहिदकालो दु बोधव्वो ॥ १४४ ॥

प्रथमोपशमसहिताया विरताविरतेश्चतुर्दश दिवसाः ।

विरतेः पञ्चदश विरहितकालस्तु बोद्धव्यः ॥ १४४ ॥

अर्थ—प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिन, और छठे सातमें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये । भावार्थ—उपशम-सम्यक्त्वके दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । चार अनन्तानुबन्धी तथा एक दर्शनमोहनीय (मिथ्यात्व) के, अथवा तीनों दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन और दर्शनमोहनीयत्रिकका उपशम होनेसे जो सम्यक्त्व होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । इनमेंसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिन, और छठे सातवे गुणस्थानका पंद्रह दिन है । किन्तु जघन्य विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है ।

गतिमार्गणाका प्रारम्भ करते हुए प्रथम गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके भेदोंको गिनाते है ।

गइउदयजपज्जाया चउगइगमणस्सहेउ वा हु गइ ।

णारयतिरिक्खमाणुसदेवगइत्तिय हवे चटुधा ॥ १४५ ॥

गत्युदयजपर्यायः चतुर्गतिगमनस्य हेतुर्वा हि गतिः ।

नारकतिर्यग्मानुपदेवगतिरिचि च भवेत् चतुर्धा ॥ १४५ ॥

अर्थ—गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाली जीवकी पर्यायको अथवा चारों गतियोंमें गमन करनेके कारणको गति कहते हैं । उमके चार भेद हैं, नरकगति तिर्यग्गति मनुष्य-गति देवगति ।

गतिमार्गणामे कुल्ल विशेष (चारों गतियोंका पृथक् २) वर्णन पाच गाथाओं द्वारा करते हैं ।

ण रमन्ति जदो णिच्चं दव्वे खेत्ते य कालभावे य ।

अण्णोण्णेहिं य जह्मा तह्मा ते णारया भणिया ॥ १४६ ॥

न रमन्ते यतो नित्यं द्रव्ये क्षेत्रे च कालभावे च ।

अन्योन्यैश्च यस्मान्तस्मात्ते नारता भणिताः ॥ १४६ ॥

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भावमें स्वयं तथा परस्परमें प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएव उनको नारत (नारकी) कहते हैं । भावार्थ—शरीर और इन्द्रियके विषयोंमें; उत्पत्ति शयन विहार उठने बैठने आदिके स्थानमें, भोजन आदिके समयमें, अथवा और भी अनेक अवस्थाओंमें जो स्वयं अथवा परस्परमें प्रीति (सुख) को प्राप्त न हों उनको नारत कहते हैं । इस गाथामें जो च शब्द पडा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अर्थ समझना चाहिये । अर्थात् जो नरकगतिनाम कर्मके उदयसे हों उनको, अथवा (नरान्) मनुष्योंको (कायन्ति) क्लेश पहुंचावे उनको नारक कहते हैं । क्योंकि नीचे सातो ही भूमियोंमें रहनेवाले नारकी निरन्तर ही स्वाभाविक शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य इन पाच प्रकारके दुःखोंसे दुःखी रहते हैं ।

तिर्यग्गतिका स्वरूप वताते हैं ।

तिरियन्ति कुटिलभावं सुविडलसण्णा णिगिडिमण्णाणा ।

अच्चंतपावबहुला तह्मा तेरिच्छया भणिया ॥ १४७ ॥

तिरोच्चन्ति कुटिलभावं सुविवृतसंज्ञा निक्कष्टमज्ञानाः ।

अत्यन्तपापबहुलास्तस्मात्तैरश्चका भणिताः ॥ १४७ ॥

अर्थ—जो मन वचन कायकी कुटिलताको प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक संज्ञा दूमेरे मनुष्योंको अच्छीतरह प्रकट हो, और जो निक्कष्ट अज्ञानी हों तथा जिनमें अत्यन्त पापका बाहुल्य पाया जाय उनको तिर्यच कहते हैं । भावार्थ—जिनमें कुटिलताकी प्रधानता हो, क्योंकि प्रायःकरके सबही तिर्यच जो उनके मनमें होता है उसको वचनद्वारा नहीं कहते; क्योंकि उनके उसप्रकारकी वचनशक्ति ही नहीं है, और जो वचनसे कहते हैं उसको कायसे नहीं करते, तथा जिनकी आहारादिसंज्ञा प्रकट हो, और श्रुतका अभ्यास तथा शुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी तरह महाव्रतादिकको धारण न करसकने और दर्शनविशुद्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें अन्यन्त पापका बाहुल्य पाया जाय उनको तिर्यच कहते हैं ।

मनुज्यगतिका स्वरूप वताते हैं ।

मण्णांति जदो णिच्चं मणेण णिडणा मणुक्कडा जह्मा ।

मण्णुमवा य सच्चे तह्मा ते माणुसा भणिदा ॥ १४८ ॥

मन्यन्ते यतो नित्यं मनसा निपुणा मनसोत्कटा यस्मात् ।

मनूद्भवाश्च सर्वे तस्मात्ते मानुषा भणिताः ॥ १४८ ॥

अर्थ—जो नित्य ही हेय उपादेय तत्त्व अतत्त्व धर्म अधर्मका विचार करे, और जो मनके द्वारा गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयमें उत्कृष्ट हों, तथा युगकी आदिमें जो मनुओंसे उत्पन्न हुए हो उनको मनुष्य कहते हैं। भावार्थ—मनका विषय तीव्र होनेसे गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि जिनमें उत्कट रूपसे पाया जाय, तथा चतुर्थ कालकी आदिमें आदीश्वर भगवान् तथा कुलकरोंने उनको व्यवहारका उपदेश दिया इसलिये जो आदीश्वर भगवान् अथवा कुलकरोंकी संतान कहे जाते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। इस गाथामें एक यतः शब्द है दूसरा यस्मात् शब्द है, अर्थ दोनोंका एक ही होता है, इसलिये एक शब्द व्यर्थ है; वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करता है कि लब्ध्यपर्याप्तिक मनुष्योंमें यद्यपि यह लक्षण घटित नहीं होता तथापि उनको मनुष्यगति नामकर्म और मनुष्य आयुकर्मके उदयमात्रकी अपेक्षासे ही मनुष्य कहते हैं ऐसा समझना चाहिये।

तिर्यच तथा मनुष्योंके भेदोंको गिनाते हैं।

सामण्णा पंचिंदी पज्जत्ता जोणिणी अपज्जत्ता ।

तिरिया णरा तहावि य पंचिंदियभंगदो हीणा ॥ १४९ ॥

सामान्याः पंचेन्द्रियाः पर्याप्ताः योनिमत्यः अपर्याप्ताः ।

तिर्यञ्चो नरास्तथापि च पंचेन्द्रियभंगतो हीनाः ॥ १४९ ॥

अर्थ—तिर्यचोंके पांच भेद हैं, सामान्यतिर्यच पंचेन्द्रियातिर्यच पर्याप्ततिर्यच योनिमती-तिर्यच और अपर्याप्ततिर्यच। इसही प्रकार मनुष्यके भी पंचेन्द्रियके भंगको छोड़कर बाकी चार भेद होते हैं। भावार्थ—तिर्यचोंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्भावना है इसलिये तिर्यचोंमें पंचेन्द्रियके भंगसहित पांच भेद हैं, किन्तु मनुष्योंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलिये उनके सामान्यमनुष्य पर्याप्तमनुष्य योनिमती-मनुष्य अपर्याप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते हैं।

देवोंका स्वरूप बताते हैं।

दीव्वंति जदो णिच्चं गुणोहिं अट्टेहिं दिव्वभावेहिं ।

भासंतदिव्वकाया तह्मा ते वणिणया देवा ॥ १५० ॥

दिव्यन्ति यतो नित्यं गुणैरष्टाभिर्द्रेव्यभावाः ।

भासमानदिव्यकाया तस्मात्ते वर्णिता देवा ॥ १५० ॥

अर्थ—जो देवगतिमें होनेवाले परिणामोंसे सदा मुखी रहते हैं। और अणिमा महिमा

आदि आठ गुणों (ऋद्धियों) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते हैं । और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागममें देव कहा है ।

इसप्रकार संसारसम्बन्धी चारों गतियोंका स्वरूप बताकर अब संसारसे विलक्षण पांचमी सिद्धगतिका स्वरूप बताते हैं ।

जाइजरामरणभया संयोगविजोगदुःखसण्णाओ ।

रोगादिगा य जिस्से ण संति सा होदि सिद्धगई ॥ १५१ ॥

जातिजरामरणभयाः संयोगवियोगदुःखसंज्ञाः ।

रोगादिकाश्च यस्यां न सन्ति सा भवति सिद्धगतिः ॥ १५१ ॥

अर्थ—पंचेन्द्रियादि जाति बुढ़ापा मरण भय अनिष्टसंयोग इष्टवियोग इनसे होनेवाला दुःख आहारादिविषयक संज्ञा (वाञ्छा) और रोगादिक जिस गतिमें नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं । भावार्थ—एकेन्द्रियादि जाति, आयुःकर्मके घटनेसे शरीरके शिथिल होनेरूप जरा, आयुःकर्मके अभावसे होनेवाला प्राणत्यागरूप मरण, अनर्थकी आशंका करके अपकारक वस्तुसे भागनेकी इच्छारूप भय, क्लेशके कारणभूत अनिष्ट पदार्थ की प्राप्तिरूप संयोग, सुखके कारणभूत इष्ट पदार्थके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और आहारसंज्ञा आदि तीनसंज्ञा, (क्योंकि भयसंज्ञाका पृथक् ग्रहण हो चुका है), खांसी आदि अनेक रोग, तथा आदिशब्दसे मानभंग बध बन्धन आदि दुःख जिस गतिमें अपने २ कारणभूत कर्मके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं ।

गतिमार्गणामें जीवसंख्याका वर्णन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकगतिमें जीवसंख्याका वर्णन करते हैं ।

सामण्णा णेरइया घणअंगुलविदियमूलगुणसेठी ।

विदियादि बारदसअडछत्तिदुणिजपदहिदा सेठी ॥ १५२ ॥

सामान्या नैरयिका घनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणश्रेणी ।

द्वितीयादिः द्वादशदशाष्टषट्त्रिद्विनिजपदहिता श्रेणी ॥ १५२ ॥

अर्थ—सामान्यसे सम्पूर्ण नारकियोंका प्रमाण घनाङ्गुलके दूसरे वर्गमूलसे गुणित जगच्छ्रेणी प्रमाण है । द्वितीयादि पृथिवियोंमें होनेवाले नारकियोंका प्रमाण क्रमसे अपने बारहमे दशमे आठमे छठे तीसरे दूसरे वर्गमूलसे भक्त जगच्छ्रेणीप्रमाण समझना चाहिये । भावार्थ—घनाङ्गुलके दूसरे वर्गमूलका जगच्छ्रेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतने ही सातो पृथिवियोंके नारकी है । इससे द्वितीयादिक पृथिवियोंके नारकियोंका प्रमाण बतानेके लिये कहते हैं कि अपने अर्थात् जगच्छ्रेणीका जितना प्रमाण है

१ इस ग्रन्थके अन्तमें गणितका प्रकरण लिखेगे वहाँपर इन सबका प्रमाण स्पष्ट रूपसे बताया जायगा ।

उसके बारहमे वर्गमूलका जगच्छ्रेणीमें ही भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने ही दूसरी पृथिवीके नारकी है । इस ही प्रकार दशमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने तीसरी पृथिवीके, और आठमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने चौथी पृथिवीके, तथा छठे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने पांचमीं पृथिवीके, और तीसरे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने छठी पृथिवीके, तथा दूसरे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने सातमी पृथिवीके नारकी होते है । यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है—अर्थात् एक समयमें जादेसे जादेसे इतने नारकी हो सकते हैं ।

इसतरह नीचेकी छह पृथिवियोंके नारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम पृथिवीके नारकियोंका प्रमाण बताते है ।

हेट्टिमछप्पुढवीणं रासिविहीणो ढु सव्वरासी ढु ।

पढमावणिह्नि रासी णेरइयाणं तु णिद्धिढो ॥ १५३ ॥

अधस्तनषट्पृथ्वीनां राशिविहीनस्तु सर्वराशिस्तु ।

प्रथमावनौ राशिः नैरयिकाणां तु निर्दिष्टः ॥ १५३ ॥

अर्थ—नीचेकी छह पृथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पूर्ण नारक-राशिमैसे घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम पृथ्वीके नारकियोंका प्रमाण है ।

तिर्यग्जीवोंकी संख्या बताते हैं ।

संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो ।

सामण्णा पंचिदी पंचिंदियपुण्णतेरिक्खा ॥ १५४ ॥

संसारिणः पञ्चाक्षास्तत्पूर्णाः त्रिगतिहीनकाः क्रमशः ।

सामान्याः पञ्चेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियपूर्णैरश्वाः ॥ १५४ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण जीवराशिमैसे सिद्धराशिको घटानेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही संसारराशिका प्रमाण है । संसारराशिमैसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंको घटानेपर जो शेष रहे उतना ही सामान्य तिर्यकोंका प्रमाण है । सम्पूर्ण पंचेन्द्रियोंमैसे उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रियोंको घटानेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तिर्यच है । तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके प्रमाणमैसे उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहें उतने ही पर्याप्त तिर्यच पंचेन्द्रिय जीव हैं ।

छस्सयजोयणकदिहिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं ।

पुण्णूणा पंचक्खा तिरियअपज्जत्तपरिसंखा ॥ १५५ ॥

षट्शतयोजनकृतिहितजगत्प्रतरं योनिमतीनां परिमाणम् ।

पूर्वोनाः पंचाक्षाः तिर्यगपर्याप्तपरिसंख्या ॥ १५५ ॥

अर्थ—छहसौं योजनके वर्गका जगत्प्रतरमे भाग देनेसे जो लघ्व आवे उतना ही योनिमती तिर्यचोंका प्रमाण है । और पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमेंसे पर्याप्त तिर्यचोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतना अपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका प्रमाण है ।

मनुष्योंका प्रमाण बतानेके लिये तीन गाथाओंको कहते हैं ।

सेढीसूईअंगुलआदिमतादियपदभाजिदेगुणा ।

सामण्णमणुसरासी पंचमकदिघणसमा पुण्णा ॥ १५६ ॥

श्रेणी सूच्यङ्गुलादिमतृतीयपदभाजितैकोना ।

सामान्यमनुष्यराशिः पञ्चमकृतिघनसमाः पूर्णाः ॥ १५६ ॥

अर्थ—सूच्यंगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलका जगच्छ्रेणीमें भाग देनेसे जो शेष रहे उसमें एक और घटानेपर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है । इसमेंसे द्विरूपवर्गधारोंमें उत्पन्न पांचमे वर्ग (वादाल) के घनप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है ।

पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको स्पष्टरूपसे बताते हैं ।

तललीनमधुगविमलंधूमसिलागाविचोरभयमेरु ।

तटहरिखड्गसा होंति हु माणुसपज्जत्तसंखंका ॥ १५७ ॥

तललीनमधुगविमलंधूमसिलागाविचोरभयमेरु ।

तटहरिखड्गसा भवन्ति हि मानुषपर्याप्तसंख्याङ्काः ॥ १५७ ॥

अर्थ—तकारसे लेकर सकारपर्यन्त जितने अक्षर इसगाथामें बताये हैं, उतने ही अङ्कप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है । भावार्थ—इस गाथामें तकारादि अक्षरोंसे अङ्कोंका ग्रहण करना चाहिये, परन्तु किस अक्षरसे किस अङ्कका ग्रहण करना चाहिये इसके लिये “ कटपयपुरस्थवर्णैर्नवनवपंचाष्टकल्पितैः क्रमशः । स्वरब्जनशून्यं संख्यामात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम्, यह गाथा उपयोगी है । अर्थात् कसे लेकर आगेके झ तकके नव अक्षरोंसे क्रमसे एक दो आदि नव अङ्क समझने चाहिये । इस ही प्रकार टसे लेकर नव अक्षरोंसे नव अङ्क, और पसे लेकर पाच अक्षरोंसे पांच अङ्क, तथा यसे लेकर आठ अक्षरोंसे आठ अङ्क, एवं सोलह स्वर और व न इनसे शून्य (०) समझना चाहिये । किन्तु मात्रा और ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी अङ्क ग्रहण नहीं करना चाहिये । इस नियमके और “ अङ्कोंकी विपरीत गति होती है ” इस नियमके अनुसार इस गाथामें कहे हुए अक्षरोंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या ७९२२८१६२९१४२६४३३७५९३९४३९०३३६ निकलती है

मानुषी तथा अपर्याप्त मनुष्योंकी संख्या बताते हैं ।

पञ्चतमणुस्साणं तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं ।

सामण्णा पुण्णणा मणुवअपञ्चत्तगा होंति ॥ १५८ ॥

पर्याप्तमनुष्याणां त्रिचतुर्थो मानुषीणां परिमाणम् ।

सामान्याः पूर्णोना मानवा अपर्याप्तका भवन्ति ॥ १५८ ॥

अर्थ—पर्याप्त मनुष्योंका जितना प्रमाण है उसमे तीन चोथाई ($\frac{3}{4}$) मानुषियोंका प्रमाण है । सामान्य मनुष्यराशिमेसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घाटनेपर जो शेष रहे उतना ही अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है ।

इसप्रकार चारों ही प्रकारके मनुष्योंकी संख्या बताकर अब देवगतिके जीवोंकी संख्या बताते हैं ।

तिण्णिणसयजोयणाणं बेसदृच्छप्पण अंगुलाणं च ।

कदिहिदपदरं वेंतरजोइसियाणं च परिमाणं ॥ १५९ ॥

त्रिशतयोजनानां द्विशतषट्पञ्चाशदङ्गुलाना च ।

कृतिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणां च परिमाणम् ॥ १५९ ॥

अर्थ—तीनसौ योजनके वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना व्यन्तरदेवोंका प्रमाण है । और २५६ प्रमाणाङ्गुलोंके वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ज्योतिषियोंका प्रमाण है ।

घणअङ्गुलपढमपदं तदियपदं सेढिसंगुणं कमसो ।

भवणे सोहम्मदुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६० ॥

घनाङ्गुलप्रथमपदं तृतीयपदं श्रेणिसंगुणं क्रमशः ।

भवने सौधर्मद्विके देवानां भवति परिमाणम् ॥ १६० ॥

अर्थ—जगच्छ्रेणीके साथ घनाङ्गुलके प्रथम वर्गमूलका गुणा करनेसे भवनवासी, और तृतीय वर्गमूलका गुणा करनेसे सौधर्मद्विकके देवोंका प्रमाण निकलता है ।

तत्तो एगारणवसगपणचउणियमूलभाजिदा सेठी ।

पह्लासंखेज्जदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ॥

तत एकादशनवसप्तपञ्चचतुर्निजमूलभाजिता श्रेणी ।

पल्यासंख्यातकाः प्रत्येकमानितादिसुराः ॥ १६१ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर अपने (जगच्छ्रेणी) ग्यारहमें नवमे सातमे पाचमे चौथे वर्गमूलसे भाजित जगच्छ्रेणी प्रमाण देवोंका प्रमाण है । आनतादिकमें प्रत्येक कल्पके देवोंका

प्रमाण पल्यके असंख्यातमें भाग प्रमाण है। भावार्थ—ऐशान स्वर्गसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंका प्रमाण जगच्छ्रेणीमें जगच्छ्रेणीके ग्यारहमे वर्गमूलका भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतना ही है। इसही प्रकार जगच्छ्रेणीके नवमे वर्गमूलका जगच्छ्रेणीमें भाग देनेपर जो लब्ध आने उतना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोंका प्रमाण है, और सातम वर्गमूल (जगच्छ्रेणीका) का जगच्छ्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना लान्तव कापिष्ठ स्वर्गके देवोंका प्रमाण है। पाचमें वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना शुक्र महाशुक्र स्वर्गके देवोंका प्रमाण है। चौथे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना मतार सहम्वार स्वर्गके देवोंका प्रमाण है। आनत प्राणत आरण अच्युत नव त्रैवेयक नव अनुदिश विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन छब्बीस कल्पोंमें देवोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातमें भाग है।

सर्वार्थसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका प्रमाण बताते हैं।

तिगुणा सत्तगुणा वा सब्बट्ठा माणुसीपमाणादो ।

सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥ १६२ ॥

त्रिगुणा सत्तगुणा वा सर्वार्था मानुपीप्रमाणतः ।

सामान्यदेवराशिः ज्योतिष्कतो विशेषाधिकः ॥ १६२ ॥

अर्थ—मनुष्यस्त्रियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सत्तगुना सर्वार्थसिद्धिके देवोंका प्रमाण है। ज्योतिष्क देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवराशिका प्रमाण है। भावार्थ—मानुषियोंसे तिगुना और सत्तगुना इसतरह दो प्रकारसे जो सर्वार्थसिद्धिके देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचार्योंके मतकी अपेक्षासे है। सम्पूर्ण देवोंमें ज्योतिषियोंका प्रमाण बहुत अधिक है, शेष तीन जातिके देवोंका प्रमाण बहुत अल्प है इसलिये ऐसा कहा है कि सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है।

॥ इति गतिमार्गणाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त इन्द्रियमार्गणामें इन्द्रियोंका विषय स्वरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम उसका निरुक्तिपूर्वक अर्थ बताते हैं।

अहमिंदा जह देवा अविसेसं अहमहंति मण्णंता ।

ईसंति एकमेकं इंदा इव इंदिये जाण ॥ १६३ ॥

अहमिन्द्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमानाः ।

ईशते एकैकमिन्द्रा इव इन्द्रियाणि जानीहि ॥ १६३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अहमिन्द्र देवोंमें दूसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अपने २ को स्वामी मानते हैं, उसही प्रकार इन्द्रियां भी हैं। भावार्थ—इन्द्रके समान जो हो उसको इन्द्रिय कहते हैं। इसलिये जिस प्रकार नव त्रैवेयकादिवासी देव अपने २ विषयोंमें

दूसरेकी अपेक्षा न रखनेसे अर्थात् स्वतन्त्र होनेसे अपने २ को इन्द्र मानते हैं । उस ही प्रकार स्पर्शनादिक इन्द्रियां भी अपने २ स्पर्शादिक विषयोंमें दूसरेकी (रसना आदिकी) अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र है । अतएव इनको इन्द्रके (अहमिन्द्रके) समान होनेसे इन्द्रिय कहते हैं ।

इन्द्रियके संक्षेपसे भेद और उनका स्वरूप बताते हैं ।

मदिआवरणखओबसमुत्थविसुद्धी हु तज्जबोहो वा ।

भाविंदियं तु द्रव्यं देहुदयजदेहचिहं तु ॥ १६४ ॥

मत्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिर्हि तज्जबोधो वा ।

भावेन्द्रियं तु द्रव्यं देहोदयजदेहचिहं तु ॥ १६४ ॥

अर्थ—इन्द्रियके दो भेद हैं एक भावेन्द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय । मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगात्मक ज्ञानको भावेन्द्रिय कहते हैं । और शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाले शरीरके चिह्नविशेषको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ।

इन्द्रियकी अपेक्षासे जीवोंके भेद कहते हैं ।

फासरसगंधरूपे सद्दे णाणं च चिण्हयं जेसिं ।

इगिबितिचटुपंचिंदियजवा णियभेयभिण्णाओ ॥ १६५ ॥

स्पर्शरसगंधरूपे शब्दे ज्ञानं च चिह्नकं येषाम् ।

एकाद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवा निजभेदभिन्नाः ॥ १६५ ॥

अर्थ—जिन जीवोंके बाह्य चिह्न (द्रव्येन्द्रिय) और उसके द्वारा होनेवाला स्पर्श रस गंध रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं । भावार्थ—जिन जीवोंके स्पर्शविषयक ज्ञान और उसका अवलम्बनरूप द्रव्येन्द्रिय मौजूद हो उनको एकेन्द्रिय जीव कहते हैं । इस ही प्रकार अपने २ अवलम्बनरूप द्रव्येन्द्रियके साथ २ जिन जीवोंके रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालोंको त्रीन्द्रिय, तथा रूपविषयक ज्ञानवालोंको चतुरिन्द्रिय, और शब्दविषयक ज्ञानवालोंको पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । इन एकेन्द्रियादि जीवोंके भी अनेक अवान्तर भेद हैं । तथा आगे २ की इन्द्रियवालोंके पूर्व २ की इन्द्रिय अवश्य होती है । जैसे रसनेन्द्रियवालोंको स्पर्शनेन्द्रिय अवश्य होगी और घ्राणेन्द्रियवालोंके स्पर्शन और रसना अवश्य होगी । इत्यादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त ऐसा ही समझना ।

इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोंके इन्द्रियोंके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इन्द्रिय-वृद्धिका क्रम बताते हैं ।

एइंदियस्स फुसणं एकं वि य होदि सेसजीवाणं ।

होति कमउट्टियाइं जिब्भाघाणच्छिसोत्ताइं ॥ १६६ ॥

एकेन्द्रियस्य स्पर्शनमेकमपि च भवति शेषजीवानाम् ।

भवन्ति क्रमवर्द्धितानि जिब्हाघ्राणाक्षिश्रोत्राणि ॥ १६६ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शनेन्द्रिय ही होती है । शेष जीवोंके क्रमसे जिब्हा घ्राण चक्षु और श्रोत्र बढ़ जाते हैं । भावार्थ—एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पर्शनेन्द्रिय, द्वीन्द्रियके स्पर्शन रसना (जिब्हा), त्रीन्द्रियके स्पर्शन रसना घ्राण (नासिका) चतुरिन्द्रियके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और पंचेन्द्रियके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र होते हैं ।

स्पर्शनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्खे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं यह बतानेके लिये तीन गाथाओंमें इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं ।

धनुवीसडदसयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा ।

अट्टसहस्स धणूणं विसया दुगुणा असण्णिात्ति ॥ १६७ ॥

धनुर्विशत्यष्टदशककृतिः योजनषट्चत्वारिंशद्धीनत्रिसहस्राणि ।

अष्टसहस्रं धनुषा विषया द्विगुणा असंज्ञीति ॥ १६७ ॥

अर्थ—स्पर्शन रसना घ्राण इनका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र क्रमसे चारसौ धनुष चौसठ धनुष सौ धनुष प्रमाण है । चक्षुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवसौ चौअन योजन है । और श्रोत्रेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है । और आगे असंज्ञिपर्यन्त दूना दूना विषय बढ़ता गया है । भावार्थ—एकेन्द्रियके स्पर्शनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चारसौ धनुष है । और द्वीन्द्रियादिके वह दूना २ होता गया है । अर्थात् द्वीन्द्रियके आठसौ त्रीन्द्रियके सोलहसौ चतुरिन्द्रियके बत्तीससौ असंज्ञिपंचेन्द्रियके चौसठसौ धनुष स्पर्शनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है । द्वीन्द्रियके रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चौसठ धनुष है और वह भी त्रीन्द्रियादिकके स्पर्शनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह दूना २ होता गया है । इस ही प्रकार घ्राण चक्षु और श्रोत्रका विषयक्षेत्र भी समझना ।

संज्ञी जीवकी इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं ।

सण्णिस्स वार सोदे तिण्हं णव जोयणाणि चक्खुस्स ।

सत्तेतालसहस्सा वेसदत्तेसट्ठिमदिरेया ॥ १६८ ॥

संज्ञिनो द्वादश श्रोत्रे त्रयाणा नव योजनानि चक्षुषः ।

सप्तचत्वारिंशत्सहस्राणि द्विशतत्रिषष्ट्यतिरेकाणि ॥ १६८ ॥

अर्थ—संज्ञी जीवके स्पर्शन रसन घ्राण इन तीनमें प्रत्येकका विषय क्षेत्र नव २ योजन है । और श्रोत्रेन्द्रियका बारह योजन, तथा चक्षुका सेतालीस हजार दोसौ त्रेसठसे कुछ अधिक उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है ।

चक्षुके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं ।

तिणिसयसद्विविरहिदलक्षं दशमूलताडिदे मूलम् ।

णवगुणिदे सद्विहिदे चक्षुष्पासस्त अद्वाणं ॥ १६९ ॥

त्रिशतषष्टिविरहितलक्षं दशमूलताडिते मूलम् ।

नवगुणिते षष्टिहिते चक्षुःस्पर्शस्य अध्वा ॥ १६९ ॥

अर्थ—तीनसौ साठ कम एक लाख योजन जम्बूद्वीपके विष्कम्भका वर्ग करना और उसका दशगुणा करके वर्गमूल निकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नवका गुणा और साठका भाग देनेसे चक्षुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है । भावार्थ—सूर्यका चारक्षेत्र पांचसौ बारह योजन चौड़ा है । उसमें तीनसौ बत्तीस योजन तो खणसमुद्रमें हैं और शेष एकसौ अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें है । इस लिये जम्बूद्वीपके दोनों भागके तीनसौ साठ योजन क्षेत्रको छोड़कर बाकी निन्यानवे हजार छहसौ चालीस योजन प्रमाण जम्बूद्वीपके विष्कम्भकी परिधि करणसूत्रके अनुसार तीन लाख पन्द्रह हजार नवासी योजन होती है । इस अभ्यन्तर परिधिको एक सूर्य अपने भ्रमणके द्वारा साठ मुहूर्तमें समाप्त करता है । और निषधगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह मुहूर्तमें अपने भ्रमण द्वारा समाप्त करता है । इसके विलकुल बीचमें अयोध्या नगरी पडती है । इस अयोध्या नगरीके बीचमें बने हुए अपने महलके ऊपरले भागपरसे भरतादि चक्रवर्ती निषधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर वीथीमें उदय होते हुए सूर्यके भीतरकी जिन प्रतिबिम्बका दर्शन करते हैं । और निषधगिरिके उस उदयस्थानसे अयोध्या पर्यन्त उत्तरी-तिके अनुसार सूर्यको भ्रमण करनेमें नव मुहूर्त लगते हैं । इसलिये साठ मुहूर्तमें इतने क्षेत्रपर भ्रमण करै तो नव मुहूर्तमें कितने क्षेत्रपर भ्रमण करै ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेसे अर्थात् फलराशि (परिधिका प्रमाण) और इच्छाराशिका (नव) गुणा कर उसमें प्रमाणराशि साठका भागदेनेसे चक्षुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र सेतालीस हजार दोसौ त्रेसठसे कुछ अधिक निकलता है । अर्थात् ज्यादेसे ज्यादै इतनी दूर तकका पदार्थ चक्षुकेद्वारा जाना जा सकता है ।

१ “ विष्कम्भवर्गदशगुणकरिणी वदस्व परिरहो होदि ” अर्थात् विष्कम्भका जितना प्रमाण है उसका वर्गकर दशगुणा करना पाँचे उसका वर्गमूल निकालना ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना ही वृत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण होता है । २ तीन लाख पन्द्रह हजार नवासी योजन । ३ सातयोजनके बीच भोगोमिध एक भाग ।

इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताकर अब उनका आकार बताते हैं ।

चक्रखू सोदं घाणं जिब्भायारं मसूरजवणाली ।

अतिमुत्तखुरप्पसमं फासं तु अण्यसंठाणं ॥ १७० ॥

चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकारं मसूरयवनाख्य—।

तिमुत्तखुरप्रसमं स्पर्शनं तु अनेकसंस्थानम् ॥ १७० ॥

अर्थ—मसूरके समान चक्षुका जवकी नलीके समान श्रोत्रका तिलके फूलके समान घ्राणका तथा खुरपाके समान जिह्वाका आकार है । और स्पर्शनेन्द्रियके अनेक आकार है । इन्द्रियोंके (द्रव्येन्द्रियोंके) आकारमें जो आत्माके प्रदेश है उनका अवगाहन प्रमाण बताते हैं ।

अंगुलअसंखभागं संखेज्जगुणं तदो विसेसहिय ।

तत्तो असंखगुणिदं अंगुलसंखेज्जयं तत्तु ॥ १७१ ॥

अङ्गुलासंख्यभागं संख्यातगुणं ततो विशेषाधिकम् ।

ततोऽसंख्यगुणितमङ्गुलसंख्यातं तत्तु ॥ १७१ ॥

अर्थ—आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा चक्षुरिन्द्रियका अवगाहन घनाङ्गुलके असंख्यातमे भाग-प्रमाण है । और इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्द्रियका अवगाहन है । श्रोत्रेन्द्रियका जितना प्रमाण है उससे पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक घ्राणेन्द्रियका अवगाहन है । घ्राणेन्द्रियके अवगाहसे पल्यके असंख्यातमे भाग गुणा रसनेन्द्रियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी अपेक्षा गुणाकार और भागहारका अपवर्तन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन प्रमाण घनाङ्गुलके संख्यातमे भागमात्र है ।

स्पर्शनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं ।

सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयह्मि ।

अङ्गुलअसंखभागं जहण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥ १७२ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये ।

अङ्गुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये ॥ १७२ ॥

अर्थ—स्पर्शनेन्द्रियकी जघन्य अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातमे भाग प्रमाण है । और यह अवगाहना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें होती है । उत्कृष्ट अवगाहना महामरस्यके होती है, इसका प्रमाण संख्यातघनाङ्गुल है ।

१ द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं, निर्गृति और उपकरण । निर्गृतिके भी दो भेद हैं, बाह्य तथा आन्धन्तर । बाह्य आन्धन्तर निर्गृतिरूप द्रव्येन्द्रियका प्रमाण बताते हैं ।

इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवोंका वर्णन करके अतीन्द्रियज्ञानवालोंका निरूपण करते हैं ।

णबि इंदियकरणजुदा अवग्रहादीहिं गाहया अत्थे ।

णेव य इंदियसोक्खा अणिंदियाणंतणाणसुहा ॥ १७३ ॥

नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रहादिभिः ग्राहका अर्थे ।

नैव च इन्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥

अर्थ—वे मुक्त जीव इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नहीं हैं । तथा अवग्रहादिक क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थका ग्रहण नहीं करते । और इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं हैं; क्योंकि उन मुक्त जीवोंका अनन्तज्ञान और अनन्तसुख अनिन्द्रिय है । भावार्थ—मुक्त-जीवोंका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है । और जो स्वयं अपने कार्यके करनेमें समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । इस ही लिये वे मुक्त जीव इन्द्रियव्यापारसे रहित हैं । और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको अनन्तज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, अवग्रह ईहा अवाय धारणा स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । और उनके इन्द्रियजन्य सुख भी नहीं है । क्योंकि उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कर्मका सर्वथा अभाव होचुका है ।

संक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीवोंकी सख्याको बताते हैं ।

स्थावरसंखपिपीलियभ्रमरमणुस्सादिगा समेदा जे ।

जुगवारमसंखेज्जाणंतणांता णिगोदभवा ॥ १७४ ॥

स्थावरशङ्खपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादिकाः समेदा ये ।

युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निगोदभवाः ॥ १७४ ॥

अर्थ—स्थावर एकेन्द्रिय जीव, शङ्ख आदिक द्वीन्द्रिय, चीटी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्तर्भेदोंसे युक्त असंख्यातासंख्यात हैं । और निगोदिया जीव अनन्तानन्त हैं । भावार्थ—त्रस प्रत्येक वनस्पति पृथिवी जल अग्नि वायु इनको छोडकर वाकी संसारी जीवोंका (साधारण जीवोंका) प्रमाण अनन्तानन्त है । और साधारणको छोडकर वाकी एकेन्द्रिय स्थावर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इनमें प्रत्येकका प्रमाण जगत्प्रतरके असंख्यातमे भागमात्र असंख्यातासंख्यात है ।

तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा ।

पुण्णाणं परिमाणं संखेज्जदिमं अपुण्णाणं ॥ १७५ ॥

त्रसहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेषां संख्यका भागाः ।

पूर्णानां परिमाणं संख्येयकमपूर्णांनाम् ॥ १७५ ॥

अर्थ—संसारराशिमेंसे त्रसराशिको घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्द्रिय जीव है । और एकेन्द्रियजीवोंकी राशिमें संख्यातका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण अपर्याप्तक और शेष बहुभागप्रमाण पर्याप्तक जीव है ।

बादरसुहमा तेषिं पुण्णापुण्णोत्ति छव्विहाणांपि ।

तत्कायमर्गणाये भणिज्जमाणक्कमो णेयो ॥ १७६ ॥

बादरसूक्ष्मास्तेषां पूर्णापूर्ण इति षड्विधानामपि ।

तत्कायमार्गणाया भणिष्यमाणक्कमो ज्ञेयः ॥ १७६ ॥

अर्थ—एकेन्द्रियजीवोंके सामान्यसे दो भेद है बादर और सूक्ष्म । इसमें भी प्रत्येकके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दो २ भेद है । इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियोंकी संख्याका क्रम कायमार्गणामें कहेंगे वहासे ही समझलेना । भावार्थ—एकेन्द्रिय जीवोंकी छह राशियोंका प्रमाण कायमार्गणामें विशेषरूपसे कहेंगे ।

इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्याको सामान्यसे बताकर अब त्रसजीवोंकी संख्याको तीन गाथाओंमें बताते हैं ।

चित्तिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिदपदरं ।

हीणकमं पडिभागो आवलियासंखभागो हु ॥ १७७ ॥

द्वित्रिचतुःपञ्चमानमसंख्येनावहितप्रतराङ्गुलेन हितप्रतरम् ।

हीनक्रमं प्रतिभाग आवलिकासंख्यभागस्तु ॥ १७७ ॥

अर्थ—प्रतराङ्गुलके असंख्यातमें भागका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना सामान्यसे त्रसराशिका प्रमाण है । परन्तु पूर्व २ द्वीन्द्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्द्रियादिकका प्रमाण क्रमसे हीन २ है । और इसका प्रतिभागहार आवलिका असंख्यातमा भाग है ।

इस उक्त त्रसराशिके प्रमाणको स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं ।

बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेक्कभागस्सि ।

उत्तकमो तत्थचि बहुभागो बहुगस्स देओ हु ॥ १७८ ॥

बहुभागे समभागश्चतुर्णामेतेपामेकभागे ।

उत्तक्रमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥

अर्थ—त्रसराशिमें आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देकर लब्ध बहुभागके समान चार भाग करना । और एक २ भागको द्वीन्द्रियादि चारोहीमें विभक्त कर, शेष एक भागमें

फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और लब्ध बहुभागको बहुतसंख्यावालेको देना चाहिये । इस प्रकार अन्तपर्यन्त करना चाहिये । भावार्थ—कल्पना की जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसौ छप्पन है । और प्रतिभागहाररूप आवलीके असंख्यातमे भागका प्रमाण ४ चार है । इसलिये दोसौ छप्पनमें चारका भाग देनेसे लब्ध ६४ आते है । इस ६४ के एक भागको अलग रखदेने पर बहुभागका प्रमाण एकसौ बानवे वाकी रहता है; इस बहुभागके अड़तालीस २ के समान चार भाग करके द्वीन्द्रियादि चारोंको विभक्त करना चाहिये । और शेष चौसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये । इससे लब्ध सोलहके एक भागको अलग रखकर वाकी अड़तालीसके बहुभागको बहुतसंख्यावाले द्वीन्द्रियको देना चाहिये । और शेष सोलहके एकभागमें फिर चारका भाग देनेसे लब्ध बारहके बहुभागको क्रमप्राप्त त्रीन्द्रियको देना चाहिये । और शेष चारके एक भागमें फिर चारका भाग देनेसे लब्ध तीनके बहुभागको चतुरिन्द्रियको देना चाहिये । और शेष एक पंचेन्द्रियको देना चाहिये । इस प्रकार त्रसोंकी २५६ राशिमैंसे द्वीन्द्रियोका प्रमाण ९६, त्रीन्द्रियोका प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोका प्रमाण ५१, और पंचेन्द्रियोका प्रमाण ४९ हुआ । जिसप्रकार अंकसंदष्टिमे यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अर्थसंदष्टिमे भी समझना; परन्तु अङ्कसंदष्टिको ही अर्थसंदष्टि नहीं समझना चाहिये ।

त्रसोंमें पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंका प्रमाण बताते है ।

तिविपचपुण्णप्रमाणं पदरंगुलसंखभागहिदपदरं ।

हीनकमं पुण्णूणा वितिचपजीवा अपज्जत्ता ॥ १७९ ॥

त्रिद्विपञ्चचतुःपूर्णप्रमाणं प्रतराङ्गुलसंख्यभागहितप्रतरम् ।

हीनकमं पूर्णाना द्वित्रिचतुःपंचजीवा अपर्याप्ताः ॥ १७९ ॥

अर्थ—प्रतराङ्गुलके संख्यातमे भागका जगत्प्रतरमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमें प्रत्येक पर्याप्तकका प्रमाण है । परन्तु यह प्रमाण “ बहुभागे समभागो ” इस गाथामे कहे हुए क्रमके अनुसार उत्तरोत्तर हीन २ है । अपनी २ समस्तराशिमैंसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घटानेपर अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण निकलता है ।

इति इन्द्रियमार्गणाधिकार समाप्त ॥

कायमार्गणाका वर्णन क्रमसे प्राप्त है । अतः उसकी आदिमें कायका लक्षण और उसके भेदोंको बताते है ।

जार्हअविणाभावीतसथावरउदयजो हवे काओ ।

सो जिणमदह्नि भणिओ पुदधीकायादिछब्भेयो ॥ १८० ॥

जात्यविनाभावित्रसस्थावरोदयजो भवेत् कायः ।

स जिनमते मणितः पृथ्वीकायादिषड्भेदः ॥ १८० ॥

अर्थ—जातिनामकर्मके अविनाभावी त्रस और स्थावर नामकर्मके उदयसे होनेवाली आत्माकी पर्यायको जिनमतमें काय कहते हैं । इसके छह भेद हैं; पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस ।

पाच स्थावरोंमेंसे वनस्पतिको छोड़कर बाकी पृथिवी आदि चार स्थावरोंकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं ।

पृथ्वीआकृतेऊवाऊकम्भोदयेण तत्थेव ।

णियवण्णचउक्कजुदो ताणं देहो हवे णियमा ॥ १८१ ॥

पृथिव्यसेजोवायुकर्मोदयेन तत्रैव ।

निजवर्णचतुष्कयुतस्तेपां देहो भवेन्नियमात् ॥ १८१ ॥

अर्थ—पृथिवी अप् (जल) तेज (अग्नि) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने २ पृथिवी आदि नामकर्मके उदयसे, अपने २ योग्य रूप रस गंध स्पर्शसे युक्त पृथिवी आदिकमें ही बनता है । भावार्थ—पृथिवी आदि नामकर्मके उदयसे पृथिवीकायिकादि जीवोंके अपने २ योग्य रूप रस गंध स्पर्शसे युक्त पृथिवी आदि पुद्गलम्बुध ही शरीररूप परिणत होजाते हैं । शरीरके भेद और उनके लक्षण बताते हैं ।

वादरसुहुसुदयेण य वादरसुहुमा हवंति तद्देहा ।

घादसरिरं थूलं अघाददेहं हवे सुहुमं ॥ १८२ ॥

वादरसूक्ष्मोदयेन च वादरसूक्ष्मा भवन्ति तद्देहाः ।

घातशरीरं स्थूलमघातदेहं भवेत् सूक्ष्मम् ॥ १८२ ॥

अर्थ—वादर नामकर्मके उदयसे वादर और सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म शरीर होता है । जो शरीर दूसरेको रोकनेवाला हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसको वादर (स्थूल) कहते हैं । और जो दूसरेको न तो रोके और न स्वयं दूसरेसे रुके उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं ।

शरीरका प्रमाण बताते हैं ।

तद्देहमंगुलस्स असंस्रभागस्स विंदमाणं तु ।

आधारे थूला ओ सव्वत्थ णिरंतरा सुहुया ॥ १८३ ॥

तद्देहमङ्गुलस्यासंस्रभागस्य वृन्दमानं तु ।

आधारे स्थूलाः ओ सर्वत्र निरन्तराः सूक्ष्माः ॥ १८३ ॥

१ इत्थं गायामे " ओ " शिष्यसम्बोधनके लिये आया है ।

अर्थ—बादर और सूक्ष्म दोनों ही तरहके शरीरोंका प्रमाण घनाङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण है । इनमें से स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर विना व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भरे हुए है ।

वनस्पतिकायका स्वरूप और भेद बताते है ।

उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति ।
पत्तेयं सामण्णं षडिद्धिदिदरेत्ति पत्तेयं ॥ १८४ ॥

उदये तु वनस्पतिकर्मणश्च जीवा वनस्पतयो भवन्ति ।

प्रत्येकं सामान्यं प्रतिष्ठितेतेरे इति प्रत्येकम् ॥ १८४ ॥

अर्थ—वनस्पति नामकर्मके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते है । उनके दो भेद है, एक प्रत्येक दूसरा साधारण । प्रत्येकके भी दो भेद है, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित । भावार्थ—प्रत्येक उसको कहते है कि जिसके एक शरीरका एक जीव मालिक हो । जहांपर अनेक जीव समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहते है । प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद है । एक प्रतिष्ठित दूसरी अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते है कि जिस एक शरीरमें एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहै । और जहांपर एक मुख्य जीवके आश्रयसे अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है ।

मूलाग्रपर्वबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा ।

सम्मुच्छिन्ना य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ १८५ ॥

मूलाग्रपर्वबीजाः कन्दास्तथा स्कन्धबीजबीजरुहाः ।

सम्मुच्छिन्नाश्च भाणिताः प्रत्येकानंतकायाश्च ॥ १८५ ॥

अर्थ—जिन वनस्पतियोंका बीज, मूल, अग्र, पर्व, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा जो बीजसे ही उत्पन्न होजाती है, यद्वा सम्मूर्छन है, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती है । भावार्थ—वनस्पति अनेक प्रकारकी होती है । कोई तो मूलसे उत्पन्न होती है, जैसे अदरख हल्दी आदि । कोई अग्रसे उत्पन्न होती है जैसे गुलाब । कोई पर्वसे (पंगोली) उत्पन्न होती है, जैसे ईख वेंत आदि । कोई कन्दसे उत्पन्न होती है, जैसे सूरण आदि । कोई स्कन्धसे उत्पन्न होती है, जैसे टाक । कोई अपने २ बीजसे उत्पन्न होती है, जैसे गेहूं चना आदि । कोई मट्टी जल आदिके सम्बन्धमें ही उत्पन्न होजाती है, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकारकी होती है ।

सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचान (परीक्षा—चिन्ह)
वताते हैं ।

गूढसिरसंधिपर्व्वं समभंगमहीरुहं च छिण्णरुहं ।
साहारणं सरीरं तद्विबरीयं च पत्तेयं ॥ १८६ ॥
गूढशिरासन्धिपर्व्वं समभङ्गमहीरुकं च छिन्नरुहम् ।
साधारणं शरीरं तद्विपरीतं च प्रत्येकम् ॥ १८६ ॥

अर्थ—जिनकी शिरा संधि पर्व्व अप्रकट हो, और जिसका भङ्ग करनेपर समान भंग
हों, और दोनों भङ्गोंमें परस्पर तन्तु न लगा रहै, तथा छेदन करनेपर भी जिसकी
पुनः वृद्धि होजाय उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक, और इससे विपरीतको अप्रतिष्ठित प्रत्येक
कहते हैं ।

मूले कन्दे छल्लीपवालशालदलकुसुमफलबीजे ।
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥ १८७ ॥
मूले कन्दे त्वक्प्रवालशालदलकुसुमफलबीजे ।
समभङ्गे सति नान्ता असमे सति भवन्ति प्रत्येकाः ॥ १८७ ॥

अर्थ—जिन वनस्पतियोंके मूल कन्द त्वचा प्रवाल (नवीन कोंपल) क्षुद्रशाखा
(टहनी) पत्र फूल तथा बीजेको तोड़नेसे समान भंग हो उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति
कहते हैं । और जिनका भंग समान न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ।

कन्दस्स व मूलस्स व शालाखंदस्स वाचि बहुलतरी ।
छल्ली साणंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥
कन्दस्य वा मूलस्य वा शालास्कन्धस्य वापि बहुलतरा ।
त्वक् सा अनन्तजीवा प्रत्येकजीवा तु तनुकतरा ॥ १८८ ॥

अर्थ—जिस वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षुद्रशाखा या स्कन्धकी छाल मोटी हो उसको
अनन्तजीव (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) कहते हैं । और जिसकी छाल पतली हो उसको अप्रतिष्ठित
प्रत्येक कहते हैं ।

बीजे जोणीभूद् जीवो चंकमदि सो व अण्णो वा ।
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ॥ १८९ ॥
बीजे योनीभूते जीवः चङ्कामति स वा अन्यो वा ।
येपि च मूलादिकास्ते प्रत्येकाः प्रथमतायाम् ॥ १८९ ॥

अर्थ—जिस योनीभूत बीजमें वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह
और मूलादिक प्रथम अवस्थामें अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं । भावार्थ—वे बीज जिनकी कि

अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है, और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर उत्पन्न हो, और मूल कन्द आदि जिनको कि पहले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं ।

इस प्रकार प्रत्येक और साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोंमेंसे प्रत्येकका वर्णन करके अब साधारणका वर्णन करते हैं ।

साधारणोदयेण णिगोदशरीरा हवन्ति सामण्णा ।

ते पुण दुविहा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णेया ॥ १९० ॥

साधारणोदयेन निगोदशरीरा भवन्ति सामान्याः ।

ते पुनर्द्विविधा जीवा बादरसूक्ष्मा इति विज्ञेयाः ॥ १९० ॥

अर्थ—जिन जीवोंका शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं । इनके दो भेद है, एक बादर दूसरा सूक्ष्म ।
भावार्थ—साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अनन्तानन्त जीवोंको आश्रय दे सकें । इस शरीरमें एक मुख्य जीव नहीं रहता; किन्तु अनन्तानन्त जीव समानरूपसे रहते ह । अत एव इनका नाम सामान्य या साधारण जीव है । इनके दो भेद है, एक बादर दूसरा सूक्ष्म ।

साधारणमाहारो साधारणमाणपाणग्रहणं च ।

साधारणजीवाणं साधारणलक्षणं भणियं ॥ १९१ ॥

साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहणं च ।

साधारणजीवाना साधारणलक्षणं भणितम् ॥ १९१ ॥

अर्थ—इनका (साधारण जीवोंका) साधारण (समान) ही तो आहार होता है, और साधारण ही श्वासोच्छ्वासका ग्रहण होता है । साधारण जीवोंका लक्षण साधारण ही परमागममें कहा है । **भावार्थ**—साथ ही उत्पन्न होनेवाले जिन अनन्तानन्त (साधारण) जीवोंकी आहारादिक पर्याप्ति और उनके कार्य सदृश और समान कालमें होते हों उनको साधारण कहते हैं ।

जत्थेक्कमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं ।

वक्कमइ जत्थ एक्को बक्कमणं तत्थ णंताणं ॥ १९२ ॥

यत्रैको म्रियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेत् अनन्तानाम् ।

प्रकामति यत्र एकः प्रक्रमणं तत्रानन्तानाम् ॥ १९२ ॥

अर्थ—साधारण जीवोंमें जहा पर एक जीव मरण करता है वहापर अनन्त जीवोंका

मरण होता है। और जहांपर एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद होता है। भावार्थ—साधारण जीवोंमें उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा भी सादृश्य है। प्रथम समयमें उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवोंकी तरह द्वितीयादि समयोंमें भी उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवोंका जन्म मरण साथ ही होता है। यहां इतना विशेष समझना कि एक वादर निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते हैं। किन्तु मिश्ररूप नहीं होते क्योंकि उनके समान कर्मोदयका नियम है।

वादर निगोदिया जीवोंकी संख्या बतानेको दो गाथा कहते हैं।

खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलविदेहा वि ।

हेट्टिलजोणिगाओ असंखलोगेण गुणितकमा ॥ १९३ ॥

स्कन्धा असंख्यलोका अंडरावासपुलविदेहा अपि ।

अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुणितक्रमाः ॥ १९३ ॥

अर्थ—स्कन्धोंका प्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण है। और अंडर आवास पुलवि तथा देह ये क्रमसे उत्तरोत्तर असंख्यातलोक २ गुणित हैं। भावार्थ—अपने योग्य असंख्यातका लोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना समस्त स्कन्धोंका प्रमाण है। और एक एक स्कन्धमें असंख्यातलोक प्रमाण अंडर है, एक २ अंडरमें असंख्यातलोक प्रमाण आवास है, एक २ आवासमें असंख्यातलोक प्रमाण पुलवि है। एक २ पुलविमें असंख्यातलोकप्रमाण वादर निगोदिया जीवोंके शरीर है। इस लिये जब एक स्कन्धमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है तब समस्त स्कन्धोंमें कितने अंडर होंगे ? इस प्रकार इनका त्रैशिक करनेसे अंडर आवास पुलवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यातलोक असंख्यातलोक गुणा प्रमाण निकलता है।

इसका दृष्टान्त बताते हैं।

जम्बूद्वीवं भरहो कोसलसागेदतग्घराइं वा ।

खंधंडरआवासापुलविशरीराणि दिठंता ॥ १९४ ॥

जम्बूद्वीपो भरतः कोशलसाकेततद्गहाणि वा ।

स्कन्धाण्डरावासाः पुलविशरीराणि दृष्टान्ताः ॥ १९४ ॥

अर्थ—जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र कोशलदेश साकेतनगरी (अयोध्या) और साकेत नगरीके घर ये क्रमसे स्कन्ध अंडर आवास पुलवि और देहके दृष्टान्त हैं। भावार्थ—जिस प्रकार जम्बूद्वीप आदिक एक २ द्वीपमें भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक २ भरतादि क्षेत्रमें

१ स्कन्ध अंडर आवास आदि प्रत्येकजीवोंके शरीरविशेष हैं।

कोशल आदि अनेक देश, एक २ देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक २ नगरीमें अनेक घर होते हैं । उस ही प्रकार एक २ स्कन्धमें, असंख्यातलोक २ प्रमाण अंडर, एक २ अंडरमें असंख्यातलोक २ प्रमाण आवास, एक २ आवासमें असंख्यातलोक २ प्रमाण पुलवि, और एक २ पुलविमें असंख्यातलोक २ प्रमाण बादर निगोदियाजीवोंके शरीर होते हैं ।

एक निगोदशरीरमें द्रव्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते हैं ।

एगणिगोदशरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धेहिं अणंतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥ १९५ ॥

एकनिगोदशरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टाः ।

सिद्धैरनन्तगुणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ १९५ ॥

अर्थ—द्रव्यकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और सम्पूर्ण अतीतकालके समयोंसे अनन्तगुणे जीव एक निगोद शरीरमें रहते हैं ।

नित्यनिगोदका लक्षण कहते हैं ।

अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण पत्तो तसाण परिणामो ।

भावकलङ्कसुपउरा णिगोदवासं ण मुंचंति ॥ १९६ ॥

सन्ति अनन्ता जीवा येन प्राप्तः त्रसाना परिणामः ।

भावकलङ्कसुप्रचुरा निगोदवासं न मुञ्चन्ति ॥ १९६ ॥

अर्थ—ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने त्रसोंकी पर्याय अभीतक कभी नहीं पाई है, और जो निगोद अवस्थामें होनेवाले दुर्लेश्यरूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिभूत रहनेके कारण निगोदस्थानको कभी नहीं छोड़ते । भावार्थ—निगोदके दो भेद हैं, एक इतरनिगोद दूसरा नित्यनिगोद । जिसने कभी त्रस पर्यायको प्राप्त करलिया हो उसको इतरनिगोद कहते हैं । और जिसने अभीतक कभी त्रसपर्यायको नहीं पाया, अथवा जो कभी त्रस पर्यायको नहीं पावेगा उसको नित्यनिगोद कहते हैं । क्योंकि नित्यशब्दके दो अर्थ होते हैं, एक तो अनादि दूसरा अनादि अनन्त । इन दोनों ही प्रकारके जीवोंकी संख्या अनन्तानन्त है ।

दो गाथाओंमें त्रस जीवोंका स्वरूप भेद और उनका क्षेत्र आदि बताते हैं ।

बिहि तिहि चटुहिं पंचहिं सहिया जे इंदिएहिं लोयहि ।

ते तसकाया जीवा णेया वीरोपदेसेण ॥ १९७ ॥

द्वाम्यां त्रिभिश्चतुर्भिः पञ्चभिः सहित. ये इन्द्रियैर्लोकैः ।

ते त्रसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७ ॥

अर्थ—जो जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियोंसे युक्त है उनको वीर भगवान्के उपदेशसे त्रस काय समझना चाहिये । भावार्थ—पूर्वोक्त स्पर्शनादिक पांच इन्द्रियोंमें से आदिकी दो, तीन, चार, या पांच इन्द्रियोंसे जो युक्त है उसको त्रस कहते हैं । अत एव इन्द्रियोंकी अपेक्षा त्रसोके चार भेद हुए—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

उबबादमारणंतियपरिणदतसमुज्झिऊण सेसतसा ।

तसणालिबाहिरह्मि य णत्थित्ति जिणेहिं णिद्धिं ॥ १९८ ॥

उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसमुज्झित्वा शेषत्रसाः ।

त्रसनालीबाह्ये च न सन्तीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ १९८ ॥

अर्थ—उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातवाले त्रस जीवोंको छोड़कर बाकीके त्रस जीव त्रसनालीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । भावार्थ—किसी विवक्षित भवके प्रथम समयकी पर्यायको उपपाद कहते हैं । अपनी आयुके अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें जो समुद्घात होता है उसको मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं । लोकके विलकुल मध्यमें एक २ राजू चौड़ी और मोटी तथा चौदह राजू ऊंची नाली है—उसको त्रसनाली कहते हैं; क्योंकि त्रस जीव इसके भीतर ही होते हैं—बाहर नहीं होते । किन्तु उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातवाले त्रस, तथा इस गाथामें च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये केवलसमुद्घातवाले भी त्रसनालीके बाहर कदाचित् रहते हैं । वह इस प्रकारसे कि लोकके अन्तिम वातवलयमें स्थित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा त्रसनालीमें त्रसपर्यायसे उत्पन्न होनेवाला है, वह जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोडा लेता है उस समयमें त्रसपर्यायको धारण करने पर भी त्रसनालीके बाहर है । इस लिये उपपादकी अपेक्षा त्रस जीव त्रसनालीके बाहर रहता है । इसही प्रकार त्रसनालीमें स्थित किसी त्रसने मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा त्रसनालीके बाहिरके प्रदेशोंका स्पर्श किया; क्योंकि उसको मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस समयमें भी त्रस जीवका अस्तित्व त्रसनालीके बाहिर पाया जाता है । इस ही तरह जब केवली केवलसमुद्घातके द्वारा त्रसनालीके बाह्य प्रदेशोंका स्पर्श करते हैं उस समयमें भी त्रसनालीके बाहर त्रस जीवका सद्भाव पाया जाता है । परन्तु इन तीनोंको छोड़कर बाकी त्रस जीव त्रसनालीके बाहर कभी नहीं रहते ।

जिस तरह वनस्पतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद है उस ही तरह दूसरे जीवों में भी ये भेद होते हैं यह बताते हैं ।

पुढवीआदिचउण्हं केवलिआहारदेवणिरयंग्गा ।

अपादिद्धिदा णिगोदहिं पदिद्धिदंग्गा हवे सेसा ॥ १९९ ॥

पृथिव्यादिचतुर्णां केवल्याहारदेवनिरयाङ्गानि ।

अप्रतिष्ठितानि निगोदैः प्रतिष्ठिताङ्गा भवन्ति शेषाः ॥ १९९ ॥

अर्थ—पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुकायके जीवोंका शरीर तथा केवलिशरीर आहार-कशरीर और देवनारकियोंका शरीर निगोदिया जीवोंसे अप्रतिष्ठित है । और शेष वनस्पतिकायके जीवोंका शरीर तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्योका शरीर निगोदिया जीवोंसे प्रतिष्ठित है ।

स्थावरकायिक और त्रसकायिक जीवोंका आकार बताते हैं ।

मसुरं बुबिंदुसृष्टकलाबधयसण्णहो हवे देहो ।

पुढवीआदिचउण्हं तरुतसकाया अणेयविहा ॥ २०० ॥

मसूरां बुबिंदुसूचीकलापध्वजसन्निभो भवेद्देहः ।

पृथिव्यादिचतुर्णां तरुत्रसकाया अनेकविधाः ॥ २०० ॥

अर्थ—मसूर (अन्नविशेष), जलक्री बिन्दु, सुइयोंका समूह, ध्वजा, इनके सदृश पृथिवी अप् तेज वायुकायिक जीवोंका शरीर होता है । और वृक्ष तथा त्रसोंका शरीर एक प्रकारका होता है । भावार्थ—जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही तरहका वृक्ष और त्रसोंका शरीर होता है; किन्तु वृक्ष और त्रसोंका शरीर एक प्रकारका नहीं; किन्तु आकारका होता है ।

इस प्रकार कायमार्गणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायके ही कर्मभारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बताते हैं ।

जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावळियं ।

एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावळियं ॥ २०१ ॥

यथा भारवहः पुरुषो वहति भारं गृहीत्वा कावटिकाम् ।

एवमेव वहति जीवः कम्मभरं कायकावटिकाम् ॥ २०१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावटिकाके द्वारा भारका वहन करता है, ही प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाके द्वारा कर्मभारका वहन करता है । भावार्थ—प्रकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरन्तर बोझा ढोता है, और उससे रहित होनेपर सुखी है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा कर्मरूपी बोझाको नाना गतियोंमें लिये है, किन्तु इस काय और कर्मके अभावमें परम सुखी होता है ।

कायमार्गणासे रहित सिद्धोंका स्वरूप बताते हैं ।

जह कंचणमग्गिगयं मुंचइ किट्टेण कालियाए य ।

तह कायबंधमक्का अकाइया झाणजोगेण ॥ २०२ ॥

१ कर्मात् इतने जीवोंके शरीरके आधय निगोदिया जीव नहीं रहते हैं । २ बर्हणी—घावटी ।
गो. ११

यथा कंचनमग्निगतं मुच्यते किट्टेन कालिकया च ।

तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेन ॥ २०२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अग्निके द्वारा सुसंस्कृत सुवर्ण बाह्य और अम्यन्तर दोनों ही प्रकारके मलसे रहित होजाता है । उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर और कर्म-बन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है । भावार्थ—जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये हुए सुवर्णमें बाह्य और अभ्यतर दोनों ही प्रकारके मलका विलकुल अभाव होजानेपर फिर किसी दूसरे मलका सम्बन्ध नहीं होता । उस ही प्रकार शुद्धध्यान आदिरूपी अग्निके द्वारा सुतप्त आत्मामें काय और कर्मके सम्बन्धके सर्वथा छूटने पर फिर उनका बन्ध नहीं होता ।

ग्यारह गाथाओंमें पृथिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याको बताते हैं ।

आड्डूरासिवारं लोके अण्णोणसंगुणे तेजः ।

भूजलवाज्ज अहिया पडिभागोऽसंख्यलोगो दु ॥ २०३ ॥

सार्धत्रयराशिवारं लोके अन्योन्यसंगुणे तेजः ।

भूजलवायवः अधिकाः प्रतिभागोऽसंख्यलोकस्तु ॥ २०३ ॥

अर्थ—शलाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे लोकका साढ़े तीन वार परस्पर गुणा करनेसे तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकलता है । पृथिवी जल वायुकायिक जीवोंका उत्तरोत्तर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है । इस अधिकताके प्रतिभागहारका प्रमाण असंख्यातलोक है । भावार्थ—लोकप्रमाण (जगच्छ्रेणीके घनका जितना प्रमाण है उसके बराबर) शलाका विरलन देय इस प्रकार तीन राशि स्थापन करना । विरलन राशिका विरलन कर (एक २ वखेर कर) प्रत्येक एकके ऊपर उस लोकप्रमाण देय राशिका स्थापन करना, और उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, और शलाका राशिमेंसे एक कम करना । इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरलन और देय ये दो राशि स्थापन करना, तथा विरलन राशिका विरलन कर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर पूर्वकी तरह परस्पर गुणा करना, और शलाका राशिमेंसे एक और कम करना । इस ही प्रकारसे एक २ कम करते २ जब समस्त शलाका राशि समाप्त होजाय तब उस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरलन देय शलाका ये तीन राशि स्थापन करना, और विरलन राशिका विरलन और देय राशिका उत्करीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिसे ही शलाका राशिमेंसे एक २ कम करते २ जब दूसरी वार भी शलाका राशि समाप्त होजाय, तब उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि स्थापन करना । और उक्त विधानके अनुसार ही विरलन राशिका विरलन देय राशिका परस्पर गुणाकार तथा शलाका राशिमेंसे एक २

कम करना । इस प्रकार शलाकात्रयनिष्ठापन कर चौथी वारकी स्थापित महाशलाकाराशि-
मेंसे पहली दूसरी तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतनी वार उक्त
क्रमसे विरलन राशिका विरलन और देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा शेष महाशलाका-
राशिमेंसे एक २ कम करना । ऐसा करनेसे अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज-
स्कायिक जीवोंका प्रमाण है । इस तेजस्कायिक जीवराशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे
जो लब्ध आवे उस एक भागको तेजस्कायिक जीवराशिमें मिलानेपर पृथिवीकायिक
जीवोंका प्रमाण निकलता है । और पृथिवीकायिक जीवोंके प्रमाणमें असंख्यात लोकका
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उस एक भागको पृथिवीकायिक जीवोंके प्रमाणमें मिलानेपर
जलकायके जीवोंका प्रमाण निकलता है । जलकायके जीवोंके प्रमाणमें असंख्यात लोकका
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उस एक भागको जलकायकी जीवराशिमें मिलानेपर वायुकायिक
जीवोंका प्रमाण निकलता है ।

अपदिद्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति

तत्तो पदिद्विदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४ ॥

अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंख्यलोकप्रमाणका भवन्ति ।

ततः प्रतिष्ठिताः पुनः असंख्यलोकेन संगुणिताः ॥ २०४ ॥

अर्थ—अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव असंख्यातलोकप्रमाण है, और इससे
भी असंख्यातलोकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण है ।

तसरासिपुढविआदीचउक्कपत्तेचहीणसंसारी ।

साधारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिद्वं ॥ २०५ ॥

त्रसराशिपृथिव्यादिचतुष्कप्रत्येकहीनसंसारी ।

साधारणजीवानां परिमाणं भवति जिनादिद्वम् ॥ २०५ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे, त्रस, पृथिव्यादि चतुष्क (पृथिवी अप् तेज
वायु) प्रत्येक वनस्पतिकायका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवोंका
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

सगसगअसंखभागो वादरकायाण होदि परिमाणं ।

सेसा सुहमपमाणं पडिभागो पुव्वणिद्विद्वो ॥ २०६ ॥

स्वकस्वकासख्यभागो वादरकायानां भवति परिमाणम् ।

शेषाः सूक्ष्मप्रमाण प्रतिभाग. पूर्वनिदिष्टः ॥ २०६ ॥

अर्थ—अपनी २ राशिका असंख्यातमा भाग वादरकाय जीवोंका प्रमाण है । और

शेष सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूर्वोक्त असंख्यातलोकप्रमाण है। भावार्थ—पृथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे वह एक भाग प्रमाण बादर, शेष बहुभागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है।

सुहमेसु संखभागं संखा भागा अपुण्णगा इदरा ।

जस्ति अपुण्णद्धादो पुण्णद्धा संखगुणिदकमा ॥ २०७ ॥

सूक्ष्मेषु संख्यभागः संख्या भागा अपूर्णका इतरे ।

यस्मादपूर्णाद्धातः पूर्णाद्धा संख्यगुणितक्रमाः ॥ २०७ ॥

अर्थ—सूक्ष्म जीवोंमें संख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण अपर्याप्तक और बहुभाग-प्रमाण पर्याप्तक है। क्योंकि अपर्याप्तकके कालसे पर्याप्तकका काल संख्यातगुणा है।

पल्लासंखेज्जवहिदपरंगुलभाजिदे जगत्पदरे ।

जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसंखभजिदकमा ॥ २०८ ॥

पल्यासंख्यावहितप्रतराङ्गुलभाजिते जगत्प्रतरे ।

जलभूनिपवादरकाः पूर्णा आवल्यसंख्यभजितक्रमाः ॥ २०८ ॥

अर्थ—पल्यके असंख्यातमें भागसे भक्त प्रतराङ्गुलका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना बादर पर्याप्त जलकायिक जीवोंका प्रमाण है। इसमें अवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध रहे उतना बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीवोंका प्रमाण है। इसमें भी आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है। पूर्वकी तरह इसमें भी आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध रहे उतना अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है।

विंदावलिलोगाणमसंखं संखं च तेउवाऊणं ।

पज्जत्ताण एमाणं तेहिं विहीणा अपज्जत्ता ॥ २०९ ॥

वृन्दावलिलोकानामसंख्यं संख्यं च तेजोवायूनाम् ।

पर्याप्तानां प्रमाणं तैर्विहीना अपर्याप्ताः ॥ २०९ ॥

अर्थ—वनावलिके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण पर्याप्त तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण है। और लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण है। अपनी २ सम्पूर्ण राशिमेंसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वही अपर्याप्तकोंका प्रमाण है। भावार्थ—सूक्ष्म जीवोंका अलग वर्णन किया गया है। इसलिये “पल्लासंखेज्जवहिद” और “विंदावलिलोगाण” इन दो गाथाओंमें बादर जीवोंका ही प्रमाण

समझना । और इन दो गाथाओंमें कहे हुए पर्याप्तक जीवोंके प्रमाणको अपनी २ सामान्य राशिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना अपर्याप्तकोका प्रमाण है ।

साहरणबादरेसु असंखं भागं असंखगा भागा ।

पुण्णाणमपुण्णाणं परिमाणं होदि अणुक्रमसो ॥ २१० ॥

साधारणबादरेषु असंख्यं भागमसंख्यका भागाः ।

पूर्णांनामपूर्णांना परिमाणं भवत्यनुक्रमशः ॥ २१० ॥

अर्थ—साधारण बादर जीवोंमें असंख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त और बहु-भागप्रमाण अपर्याप्त है ।

आवलिअसंखसंखेणवहिदपदरङ्गुलेण हिदपदरं ।

क्रमसो तसत्पुण्णा पुण्णूणतसा अपुण्णा हु ॥ २११ ॥

आवलयसंख्यसंख्येनावहितप्रतराङ्गुलेन हितप्रतरम् ।

क्रमशस्वसत्पूर्णाः पूर्णोन्नत्ता अपूर्णा हि ॥ २११ ॥

अर्थ—आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है । और आवलीके संख्यातमे भागसे भक्त प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण है । सामान्य त्रसराशिमेंसे पर्याप्तकोका प्रमाण घटानेपर शेष अपर्याप्त त्रसोंका प्रमाण निकलता है ।

बादर तेजस्कायिकादि जीवोंकी अर्द्धच्छेद संख्याको बताते हैं ।

आवलिअसंखभागेणवहिदपल्लूणसायरद्धच्छिदा ।

बादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायरं पुण्णं ॥ २१२ ॥

आवलयसंख्यभागेनावहितपल्योनसागरार्धच्छेदाः ।

बादरतेपनिभूजलवाताना चरमः सागरः पूर्णः ॥ २१२ ॥

अर्थ—आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्यको सागरमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अर्द्धच्छेद है । और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण क्रमसे आवलीके असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार, चार वार, पाच वार पल्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको सागरमें घटानेसे निकलता है । और बादर वातकायिक जीवोंके अर्द्धच्छेदका प्रमाण पूर्ण सागरप्रमाण है । भावार्थ—किसी राशिको जितनी वार आधा २ करनेसे एक शेष रहे उसको अर्द्धच्छेद राशि कहते हैं । जैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, मोलहकी चार, और बत्तीसकी पाच अर्द्धच्छेद राशि हैं । इस ही प्रकार बादर तेजस्कायिक जीवोंकी

अर्द्धच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पत्यको सागरमें घटानेपर जो शेष रहे उतना है। दो वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पत्यको सागरमें घटानेपर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण निकलता है। तीन वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पत्यको सागरमें घटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण होता है। चार वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पत्यको सागरमें घटानेसे वादर पृथ्वीकायिक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण निकलता है। पाच वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पत्यको सागरमेंसे घटानेपर शेष वादर जलकायिक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण होता है। और वादर वातकायिक जीवोंके अर्द्धच्छेदोंका प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है।

तेवि विसेसेणहिया पल्लासंखेज्जभागमेत्तेण ।

तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ २१३ ॥

तेपि विशेषेणाधिकाः पत्यासंख्यातभागमात्रेण ।

तस्मात्ते राशयोऽसंख्यलोकेन गुणितक्रमाः ॥ २१३ ॥

अर्थ—ये प्रत्येक अर्द्धच्छेद राशि पत्यके असंख्यातमे २ भाग उत्तरोत्तर अधिक है। इसलिये ये सभी राशि (तेजस्कायिकादि जीवों के प्रमाण) क्रमसे उत्तरोत्तर असंख्यातलोकगुणी है। भावार्थ—वादर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठितोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोंके अर्द्धच्छेद पत्यके असंख्यातमे २ भाग अधिक है। इसी प्रकार पृथिवीकायिकादि के भी अर्द्धच्छेद पूर्व की अपेक्षा पत्यके असंख्यातमे भाग अधिक हैं। इस लिये पूर्व २ राशिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि (मूल) असंख्यात लोकगुणी है।

उक्त असंख्यातलोकगुणितक्रमको निकालनेके लिये करणसूत्रको कहते हैं।

दिण्णच्छेदेणवहिदइट्टच्छेदेहिं पयद्विरलणं भजिदे ।

लद्धमिदइट्टरासीणणोणहदीए होदि पयदधणं ॥ २१४ ॥

देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदैः प्रकृतविरलनं भाजिते ।

लब्धमितेष्टराश्यन्योन्यहत्या भवति प्रकृतधनम् ॥ २१४ ॥

अर्थ—देयराशिके अर्द्धच्छेदोसे भक्त इष्ट राशिके अर्द्धच्छेदोंका प्रकृत विरलन राशि में भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतनी जगह इष्ट राशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतधन होता है। भावार्थ—इसकी अंकसंज्ञा इस प्रकार है कि जब सोलह जगह दूआ माड़ (सोलह जगह दोका अंक रखकर) परस्पर गुणा करनेसे पण्णट्ठी (६९९३६) उत्पन्न होती है तब ६४ जगह दूआ माड़ परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ? तो देयराशि दोके अर्द्धच्छेद एकका इष्टराशि पण्णट्ठीके अर्द्धच्छेद सोलहमें भाग देनेसे लब्ध

सोलहका भाग प्रकृतविरलन राशि ६४ में दिया, इससे चारकी संख्या लब्ध आई । इसलिये चार जगह पर पण्णष्टीको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतधन होता है । इस ही प्रकार अर्थसंहतिमें जब इतनी जगह (अर्धच्छेदोंकी राशिप्रमाण) दूआ माडि परस्पर गुणा करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह (आगेकी राशिके अर्धच्छेदप्रमाण) दूआ माडि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ? इस प्रकार उक्त क्रमसे त्रैराशिक विधान करनेपर पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातलोकगुणी सिद्ध होती है ।

इति कायमार्गणाधिकारः

अब योगमार्गणा क्रमप्राप्त है, इसलिये प्रथम ही योगका सामान्य लक्षण कहते हैं ।

पुद्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स ।

जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५ ॥

पुद्गलविपाकिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्य ।

जीवस्य या हि शक्तिः कर्मागमकारणं योगः ॥ २१५ ॥

अर्थ—पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं । भावार्थ—आत्माकी अनन्त शक्तियोंमेंसे एक योग शक्ति भी है । उसके दो भेद हैं, एक भावयोग दूसरा द्रव्य-योग । पुद्गलविपाकी आङ्गोपाङ्गनामकर्म और शरीरनामकर्मके उदयसे, मनो वचन काय पर्याप्ति जिसकी पूर्ण होचुकी है और जो मनोवाक्कायवर्गणाका अवलम्बन रखता है ऐसे संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेवाली कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उसको भावयोग कहते हैं । और इस ही प्रकारके जीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द है उसको द्रव्ययोग कहते हैं । यहां पर कर्मशब्द उपलक्षण है इसलिये कर्म और नोकर्म दोनोंको ग्रहण करनेवाला योग होता है ऐसा समझना चाहिये ।

योगविशेषका लक्षण कहते हैं ।

मणवयणाणपउत्ती सच्चासच्चुभयअणुभयत्थेसु ।

तण्णामं होदि तदा तेहि दु जोगा हु तज्जोगा ॥ २१६ ॥

मनोवचनयोः प्रवृत्तयः सत्यासत्योभयानुभयार्थेषु ।

सन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात् हि तज्जोगाः ॥ २१६ ॥

अर्थ—सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थोंमेंसे जिस पदार्थको जानने या कहनेकेलिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस समयमें मन और वच-

नका वही नाम होता है। और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है।
 भावार्थ—सत्य पदार्थको जाननेकेलिये किसी मनुष्यके मन या वचन की प्रवृत्ति हुई तो उसके मनको सत्यमन और वचनको सत्य वचन कहेंगे। तथा उनके द्वारा होनेवाले योगको सत्यमनोयोग और सत्य वचनयोग कहेंगे। इस ही प्रकारसे मन और वचनके असत्य उभय अनुभय इन तीनों भेदोंको भी समझना चाहिये।

सम्यग्ज्ञानके विषयभूत पदार्थको सत्य कहते हैं, जैसे यह जल है। मिथ्याज्ञानके विषयभूत पदार्थको मिथ्या कहते हैं, जैसे मरीचिकामें यह जल है। दोनोंके विषयभूत पदार्थको उभय कहते हैं, जैसे कमण्डलुमें यह घट है; क्योंकि कमण्डलु घटका काम देता है इसलिये कथंचित् सत्य है और घटाकार नहीं है इसलिये असत्य भी है। जो दोनोंही प्रकारके ज्ञानका विषय न हो उसको अनुभय कहते हैं, जैसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभास होना कि “यह कुछ है”। यहां पर सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं होसकता इसलिये अनुभय है।

योगविशेषोंका लक्षण कहते हैं।

सबभावमणो सच्चो जो जोगो तेण सच्चमणजोगो ।

तद्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१७ ॥

सद्भावमनः सत्यं यो योगस्तेन सत्यमनोयोगः ।

तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभयं सत्यमृषेति ॥ २१७ ॥

अर्थ—समीचीन भावमनको (पदार्थको जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको) अर्थात् समीचीन पदार्थको विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्यमनोयोग कहते हैं। सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं। तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकारके मनको उभय मन कहते हैं।

ण य सच्चमोसजुत्तो जो ढु मणो सो असच्चमोसमणो ।

जो जोगो तेण हवे असच्चमोसो ढु मणजोगो ॥ २१८ ॥

न च सत्यमृषायुक्तं यत्तु मनः तदसत्यमृषामनः ।

यो योगस्तेन भवेत् असत्यमृषा तु मनोयोगः ॥ २१८ ॥

अर्थ—जो न तो सत्य हो और न मृषा हो उसको असत्यमृषा मन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यमृषामनोयोग कहते हैं।

दसविहसच्चे वयणे जो जोगो सो ढु सच्चवचिजोगो ।

तद्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१९ ॥

दशविधसत्ये वचने यो योगः स तु सत्यवचोयोगः ।

तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभयं सत्यमृषेति ॥ २१९ ॥

अर्थ—दश प्रकारके सत्य अर्थके वाचक वचनको सत्यवचन और उससे होनेवाले योगको सत्यवचनयोग कहते हैं । तथा इससे जो विपरीत है उसको मृषा और जो कुछ सत्य और कुछ मृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते हैं ।

जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसवचिजोगो ।

अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ २२० ॥

यो नैव सत्यमृषा स जानीहि असत्यमृषावचोयोगः ।

अमनसां या भाषा संज्ञिनामामन्त्रण्यादिः ॥ २२० ॥

अर्थ—जो न सत्यरूप हो और न मृषारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते हैं । असंज्ञियोंकी समस्त भाषा और संज्ञियोंकी आमन्त्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा कही जाती है ।

दशप्रकारका सत्य बताते हैं ।

जणवदसम्मदिठवणाणामे रूवे पडुच्चववहारे ।

संभावणे य भावे उवमाए दसविहं सच्चं ॥ २२१ ॥

जनपदसम्मतिस्थापनानाम्निं रूपे प्रतीत्यव्यवहारयोः ।

संभावनायां च भावे उपमायां दशविधं सत्यम् ॥ २२१ ॥

अर्थ—जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यवहारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं ।

दश प्रकारके सत्यका दो गाथाओंमें दृष्टान्त बताते हैं ।

भक्तं देवी चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो ।

सेदो दिग्घो रच्छादि कूरोत्ति य जं हवे वयणं ॥ २२२ ॥

सक्को जंबूदीपं पल्लदृदि पाववज्जवयणं च ।

पल्लोवमं च कमसो जणवदसच्चादिदिठंता ॥ २२३ ॥

भक्तं देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्तः ।

श्वेतो दीर्घो रघ्यते क्रूरमिति च यद्भवेद्वचनम् ॥ २२२ ॥

शक्नो जम्बूद्वीपं परिवर्तयति पाप्मर्जवचनं च ।

पल्लोपमं च क्रमशो जनपदसत्यादिदृष्टान्ताः ॥ २२३ ॥

अर्थ—उक्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये दश दृष्टान्त हैं । भावार्थ—तत्तद्देश-वासी मनुष्योंके व्यवहारमें जो शब्द रूढ होरहा है उसको जनपद सत्य कहते हैं । जैसे=भक्त

भात=कुलु । बहुत मनुष्योंकी सम्मतिसे जो साधारणमें रूढ हो उसको सम्मतिसत्य या संवृत्तिसत्य कहते हैं । जैसे पट्टराणीके सिवाय किसी साधारण स्त्रीको भी देवी कहना । भिन्न वस्तुमें भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनासत्य कहते हैं । जैसे प्रतिमाको चन्द्रप्रभ कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारकेलिये जो किसीका संज्ञाकर्म करना इसको नामसत्य कहते हैं । जैसे जिनदत्त । यद्यपि उसको जिनेन्द्रने दिया नहीं है तथापि व्यवहारकेलिये उसको जिनदत्त कहते हैं । पुद्गलके रूपादिक अनेकगुणोंमेंसे रूपकी प्रधानतासे जो वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहते हैं । जैसे किसी मनुष्यके केशोंका काला कहना, अथवा उसके शरीरमें रसादिकके रहने पर भी उसको श्वेत कहना । किसी विवक्षित पदार्थकी अपेक्षासे दूसरे पदार्थके स्वरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य अथवा आपेक्षिकसत्य कहते हैं । जैसे किसीको बड़ा लम्बा या स्थूल कहना । नैगमादि नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय उसको व्यवहारसत्य कहते हैं । जैसे नैगम नयकी प्रधानतासे “ भात पकाता हूं ” संग्रहनयकी अपेक्षा ‘ सम्पूर्ण सत् है ‘ अथवा ‘ सम्पूर्ण असत् है ’ आदि । असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके किसी धर्मको निरूपण करनेमें प्रवृत्त वचनको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे इन्द्र जम्बूद्वीपको लौटादे अथवा लौटा सकता है । आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थोंमें संकल्पित परिणामोंको भाव कहते हैं, उसके आश्रित जो वचन हों उसको भावसत्य कहते हैं । जैसे शुष्क पक्क तप्त और निमक मिर्च खटाई आदिसे अच्छीतरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है । यहां पर यद्यपि सूक्ष्म जीवोंको इन्द्रियोसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी प्रासुकताका वर्णन किया जाता है । इसलिये इसही तरहके पापवर्ज वचनको भावसत्य कहते हैं । दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थको उपमा कहते हैं । इसके आश्रयसे जो वचन बोला जाय उसको उपमासत्य कहते हैं । जैसे पल्य । यहां पर रोमखण्डोंका आधारभूत गड्ढा, पल्य अर्थात् खासके सदृश होता है इसलिये उसको पल्य कहते हैं । इस संख्याको उपमासत्य कहते हैं । इस प्रकारके ये दशप्रकारके सत्यके दृष्टान्त हैं इसलिये और भी इस ही तरह जानना । दो गाथाओंमें अनुभव वचनके भेदोंको गिनाते हैं ।

आमंतणि आणवणी याचणिया पुच्छणी य पणवणी ।

पञ्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ २२४ ॥

णवभी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवंति भासाओ ।

सोदारारणं जम्हा वत्तावत्तंससंजणया ॥ २२५ ॥

आमन्त्रणी आज्ञापणी याचनी आपृच्छणी च प्रज्ञापणी ।

प्रत्यामन्यानी संशयवचनी इच्छानुलोमनी च ॥ २२४ ॥

— नवमी अनक्षरगता असत्यमृषा भवन्ति भाषाः ।

श्रोतृणां यस्मात् व्यक्ताव्यक्तांशसंज्ञापिकाः ॥ २२५ ॥

अर्थ—आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, इच्छानुलोम्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषा है। क्योंकि इनके सुननेवालेको व्यक्त और अव्यक्त दोनोंही अंशोंका ज्ञान होता है। भावार्थ—हे देवदत्त ! यहां आओ, इसतरहके बुलनेवाले वचनोंको आमन्त्रणी भाषा कहते हैं। यह काम करो, इसतरहके आज्ञावचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह मुझको दो, इसतरहके प्रार्थनावचनोंको याचनी भाषा कहते हैं। यह क्या है ? इसतरहके प्रश्नवचनोंको आपृच्छनी भाषा कहते हैं। मैं क्या करूं, इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। इसको छोड़ता हूं, इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं। यह बलाका है अथवा पताका, ऐसे संदिग्ध वचनोंको संशयवचनी भाषा कहते हैं। मुझको भी ऐसा ही होना चाहिये, ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाले वचनोंको इच्छानुलोम्नी भाषा कहते हैं। द्वीन्द्रियादिक असंज्ञिपचेन्द्रियपर्यन्त जीवोंकी भाषा अनक्षरात्मक होती है। ये सब ही भाषा अनुभयवचन रूप है। क्योंकि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशोंका बोध होता है। इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, और विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते।

चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण बताते हैं।

मणवयणाणं मूलणिमित्तं खलु पुण्णदेहउदओ दु ।

ओसुभयाणं मूलणिमित्तं खलु होदि आवरणं ॥२२६ ॥

मनोवचनयोर्मूलनिमित्तं खलु पूर्णदेहोदयस्तु ।

मृषोभययोर्मूलनिमित्तं खलु भवत्यावरणम् ॥ २२६ ॥

अर्थ—सत्य और अनुभय मनोयोगका तथा वचनयोगका मूलकारण पर्याप्ति और शरीर नामकर्मका उदय है। मृषा और उभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण अपना २ आवरण कर्म है।

सयोगकेवलीके मनोयोगकी संभवता बताते हैं।

मणसहियाणं वयणं दिट्ठं तप्पुच्चमिदि सजोगहि ।

उत्तो मणोवयरेणिंदियणाणेण हीणाहि ॥ २२७ ॥

मन.महितानां वचन दृष्टं तत्पूर्वमिति मयोगे ।

उत्तो मन उपचारेणेन्द्रियज्ञानेन हीने ॥ २२७ ॥

अर्थ—अस्मदादिक लक्षणस्य मनमहित जीवोंके वचनप्रयोग मनपूर्वक ही होता है।

इसलिये इन्द्रियज्ञानसे रहित सयोगकेवलीके भी उपचारसे मन कहा है । भावार्थ—यद्यपि उनके मन मुख्यतया नहीं है तथापि उनके वचनप्रयोग होता है । और वह वचनप्रयोग अस्मदादिकके बिना मनके होता नहीं, इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी कल्पना की जाती है ।

अस्मदादिक निरतिशय पुरुषोंमें होनेवाले स्वभावको देखकर सातिशय भगवान्में भी उसकी कल्पना करना अयुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्या हेतु है ? यह बताते हैं ।

अंगोवंगुदयादो द्रव्यमण्डं जिणिंदचंदमिह ।

मणवग्गणखंधाणं आगमणादो दु मणजोगो ॥२२८ ॥

आङ्गोपाङ्गोदयात् द्रव्यमनोर्थं जिनेन्द्रचन्द्रे ।

मनोवर्गणास्कन्धानामागमनात् तु मनोयोगः ॥ २२८ ॥

अर्थ—आङ्गोपाङ्गनामकर्मके उदयसे हृदयस्थानमें विकसित अष्टदल पद्मके आकार द्रव्यमन होता है । इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोवर्गणाओंका सयोगकेवली भगवान्के आगमन होता है । इस लिये उपचारसे मनोयोग कहा है । भावार्थ—यद्यपि मनके कार्य नहीं हैं, तथापि उसके एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी अपेक्षासे उपचारसे मनोयोगकी भी कहा है ।

काययोगकी आदिमें औदारिक काययोगको निरुक्तिपूर्वक कहते हैं ।

पुरुमहदुदारुरालं एयठो संविजाण तस्मि भवं ।

औरालियं तमुच्चइ औरालियकायजोगो सो ॥ २२९ ॥

पुरुमहदुदारुरालमेकार्थः संविजानीहि तस्मिन् भवम् ।

औरालिकं तदुच्यते औरालिककाययोगः सः ॥ २२९ ॥

अर्थ—पुरु महत् उदार उराल ये शब्द एकार्थवाचक है । उदारमें जो होय उसको औदारिक कहते हैं । यहापर भव अर्थमें ठण् प्रत्यय होता है । उदारमें होनेवाला जो काययोग उसको औदारिक काययोग कहते हैं । भावार्थ—मनुष्य और तिर्यञ्चोंका शरीर वैक्रियिकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्थूल है, इसलिये इसको उदार अथवा उराल कहते हैं । और इसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिक काययोग कहते हैं । यह योगरूढ संज्ञा है ।

औदारिकमिश्रयोगको कहते हैं ।

औरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुणं तं ।

जो तेण संपजोगो औरालियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥

औरालिकमुक्तार्थं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत् ।

यस्तेन संप्रयोगः औरालिकमिश्रयोगः सः ॥ २३० ॥

अर्थ—जिस औदारिक शरीरका स्वरूप पहले बताचुके हैं, वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तबतक मिश्र कहाजाता है । और उसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिकमिश्रयोग कहते हैं । **भावार्थ**—शरीरपर्याप्तसे पूर्व कर्मणशरीरकी सहायतासे होनेवाले औदारिक काय-योगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं ।

वैक्रियिक काययोगको बताते हैं ।

**विविहगुणइद्धिजुत्तं विक्रियं वा हु होदि वेगुव्वं ।
तिस्से भवं च णेयं वेगुव्वियकायजोगो सो ॥ २३१ ॥**

विविधगुणद्धियुक्तं विक्रियं वा हि भवति विगूर्वम् ।

तस्मिन् भवं च ज्ञेयं वैगूर्विककाययोगः सः ॥ २३१ ॥

अर्थ—नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियोंसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरको वैक्रियिक अथवा विगूर्व कहते हैं । और इसके द्वारा होनेवाले योगको वैगूर्विक अथवा वैक्रियिककाययोग कहते हैं ।

वैक्रियिक काययोगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते हैं ।

**वादरतेऊवाऊपंचिदियपुण्णगा विगुव्वन्ति ।
ओरालियं शरीरं विगुव्वणप्पं हवे जेसिं ॥ २३२ ॥**

वादरतेजोवायुपंचेन्द्रियपूर्णका विगूर्वन्ति ।

ओरालिकं शरीरं विगूर्वणात्मकं भवेत् येषाम् ॥ २३२ ॥

अर्थ—वादर (स्थूल) तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय, और भोगभूमिज तिर्यग् मनुष्य भी विक्रिया करते हैं । इसलिये इनका भी औदारिक शरीर वैक्रियिक होता है । **भावार्थ**—यद्यपि इन जीवोंका शरीर औदारिक वैक्रियिक होता है, परन्तु यह विक्रिया अपृथक् विक्रिया होती है । किन्तु भोगभूमिज और चक्रवर्ती पृथक् विक्रिया करते हैं ।

वैक्रियिक मिश्र काययोगको बताते हैं ।

**वेगुव्वियउत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं ।
जो तेण संपजोगो वेगुव्वियमिस्सजोगो सो ॥ २३३ ॥**

वैगूर्विकमुक्तार्थं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत् ।

यस्तेन संप्रयोगो वैगूर्विकमिश्रयोगः सः ॥ २३३ ॥

अर्थ—उक्त वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तब तक उम्को वैक्रियिकमिश्र कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगको वैक्रियिकमिश्रकाययोग कहते हैं । **भावार्थ**—

उत्पत्तिके समयसे अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त वैक्रियिक शरीरसे जत्र कर्मण शरीरकी सहायतासे योग होता है तत्र उस योगको वैक्रियिकमिश्र काययोग कहते हैं ।

आहारक काययोगका निरूपण करते हैं ।

आहारस्सुदयेण य प्रमत्तविरदस्स होदि आहारं ।

असंजमपरिहरणट्ठं संदेहविणासणट्ठं च ॥ २३४ ॥

आहारस्योदयेन च प्रमत्तविरतस्य भवति आहारकम् ।

असंयमपरिहरणार्थं संदेहविनाशनार्थं च ॥ २३४ ॥

अर्थ—असंयमके परिहार तथा संदेहको दूर करनेकेलिये छट्टे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारकशरीरनामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है ।

णियखेत्ते केवलिट्ठुगविरहे णिककमणपहुदिकल्लाणे ।

परखेत्त संवित्ते जिणजिणघरवंदणट्ठं च ॥ २३५ ॥

निजक्षेत्रे केवलिट्ठुगविरहे निःक्रमणप्रभृतिकल्याणे ।

परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहवंदनार्थं च ॥ २३५ ॥

अर्थ—अपने क्षेत्रमें केवली तथा श्रुतकेवलीका अभाव होनेपर किन्तु दूसरे क्षेत्रमें जहां पर कि औदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्याणक आदिके होनेपर, और जिन जिनगृह (चैत्यालय) की वन्दनाकेलिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त छट्टे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक शरीर उत्पन्न होता है ।

उत्तमअंगग्ग्हि हवे धातुविहीणं सुहं असंहणणं ।

सुहसंठाणं धवलं हत्थप्रमाणं पसत्थुदयं ॥ २३६ ॥

उत्तमाङ्गे भवेत् धातुविहीनं शुभमसंहननम् ।

शुभसंस्थानं धवलं हस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयम् ॥ २३६ ॥

अर्थ—यह आहारक शरीर रसादिक धातु और संहननसे रहित, समचतुरस्र संस्थानसे युक्त, चन्द्रकान्तके समान श्वेत, एक हस्तप्रमाणवाला आहारकशरीरादिक शुभ नामकर्मके उदयसे उत्तमाङ्ग-शिरसे उत्पन्न होता है ।

अव्वाघादी अंतोमुहुत्तकालट्ठिदी जहाण्णिदरे ।

पज्जत्तीसंपुण्णे मरणमपि कदाचि संभवइ ॥ २३७ ॥

अव्याघाति अन्तर्मुहूर्तकालस्थिती जघन्येतरे ।

पर्याप्तिसंपूर्णाया मरणमपि कदाचित् संभवति ॥ २३७ ॥

अर्थ—न तो इस शरीरके द्वारा किसी दूसरे पदार्थका और न दूसरे पदार्थके द्वारा इस शरीरका ही व्याघात होता है । तथा इसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त-

मात्र है । आहार शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होने पर कदाचित् आहारकक्रद्धिवाले मुनिका मरण भी हो सकता है ।

आहारक काययोगका निरुक्तिसिद्ध अर्थ बताते हैं ।

आहारदि अणेण मुणी सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे ।

गत्ता केवलिपासं तम्हा आहारगो जोगो ॥ २३८ ॥

आहारत्यनेन मुनिः सूक्ष्मानर्थान् स्वस्य संदेहे ।

गत्वा केवलिपार्श्वं तस्मादाहारको योगः ॥ २३८ ॥

अर्थ—छठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके पासमें जाकर सूक्ष्म पदार्थोंका आहरण (ग्रहण) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा होनेवाले योगको आहारककाययोग कहते हैं ।

आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हैं ।

आहारयमुत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपुण्णं तं ।

जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २३९ ॥

आहारकमुक्तार्थं विजानीहि मिश्रं तु अपरिपूर्णं तत् ।

यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोगः सः ॥ २३९ ॥

अर्थ—उक्त आहारक शरीर जब तक पर्याप्त नहीं होता तब तक उसको आहारक-मिश्र कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगको आहारकमिश्रयोग कहते हैं ।

कार्मणकाययोगको बताते हैं ।

कम्मेव य कम्मभवं कम्मइयं जो दु तेण संजोगो ।

कम्मइयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥ २४० ॥

कर्मैव च कर्मभवं कार्मणं यस्तु तेन संयोगः ।

कार्मणकाययोग एकाद्विकत्रिकसमयकालेषु ॥ २४० ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंके समूहको अथवा कार्मणशरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाली कायको कार्मणकाय कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाययोग कहते हैं । यह योग एक दो अथवा तीन समयतक होता है । भावार्थ—विग्रहगतिमें और केवलसमुद्रघातमें भी तीन समय पर्यन्त ही कार्मणकाययोग होता है; किन्तु दूसरे योगोंका ऐसा नियम नहीं है । यहां पर जो समय और काल ये दो शब्द दिये हैं उससे यह सूचित होता है कि शेष योगोंका अन्वयाघातकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त और व्याघातकी

१ दो प्रतर और एक दोषपूर्ण समुद्रघातकी अपेक्षा केवलसमुद्रघातमें भी कार्मणकाययोगको तीन ही समय कहते हैं ।

अपेक्षा एक समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त काल है । यह काल एक जीवकी अपेक्षासे है । किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ अन्तर मार्गणाओंको छोड़कर बाकी निरन्तरमार्गणाओंका सर्व काल है ।

योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं ।

वेगुव्वियआहारयकिरिया ण समं पमत्तविरदम्हि ।

जोगोवि एक्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥

वैगूर्विकाहारकक्रिया न समं प्रमत्तविरते ।

योगोऽपि एककाले एक एव च भवति नियमेन ॥ २४१ ॥

अर्थ—छठे गुणस्थानमें वैक्रियिक और आहारक शरीरकी क्रिया युगपत् नहीं होती । और योग भी नियमसे एक कालमें एक ही होता है ।

योगरहितका वर्णन करते हैं ।

जेसिं ण संति जोगा सुहासुहा पुण्णपावसंजणया ।

ते हांति अजोगिजिणा अणोव्ममाणंतबलकलिया ॥ २४२ ॥

येषां न सन्ति योगाः शुभाशुभाः पुण्यपापसंजनकाः ।

ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तबलकलिताः ॥ २४२ ॥

अर्थ—जिनके पुण्य और पापके करणभूत शुभाशुभ योग नहीं है उनको अयोगिजिन कहते हैं । वे अनुपम और अनन्त बल करके युक्त होते हैं ।

शरीरमें कर्म नोकर्मका विभाग करते हैं ।

ओरालियवेगुव्वियआहारयतेजणामकम्मदये ।

चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं ॥ २४३ ॥

औरालिकवैगूर्विकाहारकतेजोनामकर्मेदये ।

चतुर्नोकर्मशरीराणि कर्मेव च भवति कार्मणम् ॥ २४३ ॥

अर्थ—औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले चार शरीरोंको नोकर्म कहते हैं । और कार्मण शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं ।

औदारिकादिकोंकी समयप्रवद्धकी संख्याको बताते हैं ।

परमाणूहिं अणंतहिं वग्गणसण्णा हु होदि एक्का हु ।

ताहि अणंतहिं णियमा समयपबद्धो हवे एक्को ॥ २४४ ॥

परमाणुभिरनन्तैर्वर्गणासंज्ञा हि भवत्येका हि ।

ताभिरनन्तैर्नियमात् समयप्रवद्धो भवेदेकः ॥ २४४ ॥

अर्थ—अनन्त (अनन्तानन्त) परमाणुओंकी एक वर्गणा होती है । और अनन्त वर्गणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध होता है ।

ताणं समयप्रबद्धा सेठिअसंखेज्जभागगुणितकमा ।

णंतेण य तेजदुगा परं परं होदि सुहमं खु ॥ २४५ ॥

तेषां समयप्रबद्धाः श्रेण्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः ।

अनन्तेन च तेजोद्विका परं परं भवति सूक्ष्मं खलु ॥ २४५ ॥

अर्थ—औदारिक वैक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर क्रमसे श्रेणिके असंख्यातमे भागसे गुणित है और तैजस तथा कर्मण अनन्तगुणे है । किन्तु ये पांचो ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । भावार्थ—औदारिकसे वैक्रियिकके और वैक्रियिकसे आहारकके समयप्रबद्ध श्रेणिके असंख्यातमे भाग गुणित है । किन्तु आहारकसे तैजसके अनन्तगुणे और तैजससे कर्मणशरीरके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे है । इस तरह समयप्रबद्धोंकी संख्याके अधिक २ होनेपर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म २ है ।

औदारिकादिक शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं ।

ओगाहणाणि ताणं समयप्रबद्धाण वग्गणाणं च ।

अंगुलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २४६ ॥

अवगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वर्गणानां च ।

अङ्गुलासंख्यभागा उपर्युपरि असंख्यगुणहीनानि ॥ २४६ ॥

अर्थ—इन शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे अंगुलके असंख्यातमे भाग है; किन्तु आगे आगेके शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण क्रमसे असंख्यातगुणा २ हीन है ।

इस ही प्रमाण को माधवचन्द्र त्रैविद्यदेव भी कहते हैं ।

तस्समयप्रबद्धवग्गणओगाहो सूइअंगुलासंख— ।

भागहिद्विंदुअंगुलमुवरुवरिं तेण भजिदकमा ॥ २४७ ॥

तत्समयप्रबद्धवर्गणावगाहः सूच्यङ्गुलासंख्य— ।

भागहितवृन्दाङ्गुलमुपर्युपरि तेन भजितक्रमाः ॥ २४७ ॥

अर्थ—औदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गणाओंका अवगाहन सूच्यङ्गुलके असंख्यातमे भागसे भक्त घनाङ्गुलप्रमाण है । और पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ की अवगाहना क्रमसे असंख्यातगुणी २ हीन है ।

१ इस गाथाकी सरलरूप्यात्म्या धीमदभयचन्द्रमूर्तिने और हिन्दीभाषा टीका विद्वत् श्रीटोडरमूलने की है इसलिये हमने भी इसको यथावत् लिख दिया है । किन्तु वर्गणवर्गी टीकाके इसकी व्यवस्था हमारे देखनेके नहीं आती है ।

विस्त्रसोपचयका स्वरूप बताते हैं ।

जीवाद्दो णंतगुणा पडिपरमाणुमिह विस्त्रसोवचया ।
जीवेण य समवेदा एकैकं पडि समाणा हु ॥ २४८ ॥

जीवतोऽनन्तगुणाः प्रतिपरमाणौ विस्त्रसोपचयाः ।

जीवेन च समवेता एकैकं प्रति समाना हि ॥ २४८ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त कर्म और नोकर्मकी प्रत्येक परमाणुपर समान संख्याको लिये हुए जीवराशिसे अनन्तगुणे विस्त्रसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध है । भावार्थ—जीवके प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकर्म बंधे हैं, उन कर्म और नोकर्मकी प्रत्येक परमाणु के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विस्त्रसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध हैं । जो कर्मरूप तो नहीं है किन्तु कर्मरूप होनेकेलिये उम्मेद वार है उन परमाणुओंको विस्त्रसोपचय कहते हैं ।

कर्म और नोकर्मके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप तथा स्थान बताते हैं ।

उक्कस्सट्ठिदिचरिमे सगसगउक्कस्ससंचओ होदि ।
पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २४९ ॥

उत्कृष्टस्थितिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयो भवति ।

पञ्चदेहानां वरयोगादिस्वसामग्रीसहितानाम् ॥ २४९ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट योगको आदि लेकर जो २ सामग्री तत् कर्म या नोकर्मके उत्कृष्ट संचयमें कारण है उस २ सामग्रीके मिलनेपर औदारिकादि पाचो ही शरीरवालोंके उत्कृष्ट-स्थितिके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कर्म और नोकर्मका उत्कृष्ट संचय होता है । भावार्थ—स्थितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रवद्धका बंध होता है, और उसके एक २ निषेककी निर्जरा होती है । इस प्रकार शेष समयोंमें शेष निषेकोंका संचय होते २ स्थितिके अन्त समयमें आयुः कर्मको छोड़कर शेष कर्म और नोकर्मका उत्कृष्ट संचय होता है । यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिलनेपर पाचो शरीरवालोंके होता है ।

उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेषको बताते हैं ।

आवासया हु भवअद्धाउस्सं जोगसंकिलेसो य ।
ओकहुक्कट्टणया छच्चैदे गुणिदकम्मसे ॥ २५० ॥

आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुष्यं योगसंक्लेशौ च ।

अपकर्षणोत्कर्षणके षट् चैते गुणितकर्मांशे ॥ २५० ॥

अर्थ—कर्मोंके उत्कृष्ट संचयसे युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकेलिये ये छह आवश्यक कारण होते हैं ।—भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण ।

पांचशरीरोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण बताते हैं ।

पल्लतियं उवहीणं तेत्तीसांतेमुहुत्त उवहीणं ।

छवट्टी कम्मट्टिदि बंधुक्कस्सट्टिदी ताणं ॥ २५१ ॥

पल्यत्रयमुदधीनां त्रयस्त्रिंशदन्तर्मुहूर्त उदधीनाम् ।

षट्षष्टिः कर्मस्थितिर्वन्धोत्कृष्टस्थितिस्तेषाम् ॥ २५१ ॥

अर्थ—औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य, वैक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, आहारक शरीरकी अन्तर्मुहूर्त, तैजस शरीरकी छ्यासठ सागर है । कर्मण शरीरकी सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी सागर, नाम गोत्रकी बीस कोडाकोडी सागर, और आयुः कर्मकी केवल तेतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है ।

पाच शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिके गुणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं ।

अंतोमुहुत्तमेत्तं गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं ।

पल्लासंखेज्जदिमं गुणहाणी तेजकम्माणं २५२ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रा गुणहानिर्भवति आदिमात्रिकाणाम् ।

पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेजःकर्मणोः ॥ २५२ ॥

अर्थ—औदारिक वैक्रियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमात्र है । और तैजस तथा कर्मण शरीरकी गुणहानिका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे भाग-मात्र है ।

औदारिकादि शरीरोंके समयप्रवद्धका वध उदय और सत्त्व अवस्थामें द्रव्यप्रमाण कितना रहता है यह बताते हैं ।

एककं समयपवद्धं बंधदि एककं उदेदि चरिमम्मि ।

गुणहाणीण दिवट्ठं समयपवद्धं हवे सत्तं ॥ २५३ ॥

एकं समयप्रवद्धं वध्नाति एकमुदेति चरमे ।

गुणहानीना व्यर्थं समयप्रवद्धं भवेत् सत्त्वम् ॥ २५३ ॥

अर्थ—प्रति समय एक समयप्रवद्धका वध होता है, और एक ही समयप्रवद्धका उदय होता है, किन्तु अन्तर्में कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रवद्धोंकी सत्ता रहती है । भावार्थ—पाचो शरीरोंमेंसे तैजस और कर्मणका तो प्रतिसमय वध उदय सत्त्व होता है,

इस लिये इन दोनोंके समयप्रवद्धका प्रतिसमय बंध और उदय होता है, तथा किसी विवक्षित समयप्रवद्धके चरमनिषेक समयमे डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रवद्धोंकी सत्ता रहती है। किन्तु औदारिक तथा वैक्रियिक शरीरके समयप्रवद्धोंमें कुछ विशेषता है। वह इस प्रकार है कि जिस समयमें शरीर ग्रहण किया उस समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धके प्रथम निषेकका उदय होता है और द्वितीयादि समयोंमे द्वितीयादि निषेकोंका उदय होता है। और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमें वद्ध समयप्रवद्धका द्वितीय निषेक उदित होता है। इस ही तरह तृतीयादिक समयोंका हिसाब समझना चाहिये। इसलिये इस क्रमसे अन्तमें द्व्यर्धगुणहानि—गुणित समयप्रवद्धोंकी सत्ता रहती है। किन्तु आहारक शरीरका युगपद् प्रथम समयप्रवद्धमात्र द्रव्यका उदय सत्त्व संचय रहता है।

औदारिक और वैक्रियिक शरीरमें विशेषताको बताते हैं।

णवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउमेत्तठिदिवंधो ।

गुणहाणीण दिवहं संचयमुदयं च चरिमग्नि ॥ २५४ ॥

नवरि च द्विशरीरयोर्गलितावशेषायुर्मात्रस्थितिवन्धः ।

गुणहानीना द्व्यर्ध संचयमुदयं च चरमे ॥ २५४ ॥

अर्थ—औदारिक और वैक्रियिक शरीरमें यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके वध्यमान समयप्रवद्धोंकी स्थिति भुक्त आयुसे अवशिष्ट आयुकी स्थितिप्रमाण होती है। और इनका आयुके अन्त समयमे डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है। भावार्थ—शरीरग्रहणके प्रथम समयमे बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धकी स्थिति पूर्ण आयुःप्रमाण होती है। और दूसरे समयमे बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धोंकी स्थिति एक समय कम आयुःप्रमाण और तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धोंकी स्थिति दो समय कम आयुःप्रमाण होती है। इस ही प्रकार आगेके समयप्रवद्धोंकी स्थिति समझना चाहिये। इस क्रमके अनुसार अन्त समयमे बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रवद्धकी स्थिति एक समयमात्र होती है।

आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमय पर्यन्त बंधनेवाले समयप्रवद्धोंकी अवस्थिति, आयुके अन्तसमयसे आगे नहीं रह सकती इसलिये अन्त समयमें कुछ कम डेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रवद्धोंका युगपत् उदय तथा संचय रहता है।

किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थान पर औदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है यह बताते हैं।

ओरालियवरसंचं देवुत्तरकुरुवजादजीवस्स ।

तिरियभणुस्सस्स हवे चरिमद्दुचरिमे तिपल्लुठिदिगस्स ॥ २५५ ॥

औरालिकवरसंचयं देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य ।

तिर्यग्मनुष्यस्य भवेत् चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्य ॥ २५५ ॥

अर्थ—तीन पल्यकी स्थितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यञ्च और मनुष्योंके चरम तथा द्विचरम समयमें औदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है ।

वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान बताते हैं ।

वेगुव्वियवरसंचं बावीससमुद्धारणदुग्ग्मिह ।

जह्मा वरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥

वैगूर्विकवरसंचयं द्वाविंशतिसमुद्धारणद्विके ।

यस्मात् वरयोगस्य च वारा अन्यत्र नहि बहुकाः ॥ २५६ ॥

अर्थ—वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय, वाईस सागरकी आयुवाले आरण और अच्युत स्वर्गके ऊपरके विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही होता है । क्योंकि वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रिया अन्यत्र अनेकवार नहीं होती ।

भावार्थ—आरण अच्युत स्वर्गके उपरितन विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही जिनकी आयु वाईस सागरकी है वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती है, इसलिये इन देवोंके ही वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है ।

तैजस तथा कर्मणके उत्कृष्ट संचयका स्थान बताते हैं ।

तेजासरीरजेट्टं सत्तमचरिमग्ग्मिह विदियवारस्स ।

कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये बहुवारभमिदस्स ॥ २५७ ॥

तैजसशरीरज्येष्ठं सत्तमचरमे द्वितीयवारस्य ।

कर्मणस्यापि तत्रैव च निरये बहुवारभ्रमितस्य ॥ २५७ ॥

अर्थ—तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय सत्तम पृथिवीमें दूसरीवार उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है । और कर्मण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें भ्रमण करके सत्तम पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है । आहारक शरीरका उत्कृष्ट संचय आहारक शरीरका उत्पादन करनेवाले प्रमत्तविरतके ही होता है ।

योगमार्गणामें जीवोंकी संख्याको बताते हैं ।

बादरपुण्णा तेज सगरासीए असंखभागमिदा ।

विकिरियसत्तिजुत्ता पल्लासंखेज्जया बाऊ ॥ २५८ ॥

बादरपूर्णाः तैजसाः स्वकराशेरसंख्यभागमिता ।

विक्रियाशक्तियुक्ता पल्यासख्याना वायवः ॥ २५८ ॥

अर्थ—बादर पर्याप्तक तैजसकायिक जीवोंका जितना प्रमाण है उसमें असंख्यात

भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त है। और वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पल्यके असंख्यातमे भाग विक्रियाशक्तिसे युक्त है।

पलासंखेज्जाहयविदंगुलगुणितसेद्विमेत्ता हु ।

वेगुव्वियपंचक्खा भोगभूमा पुह विगुव्वन्ति ॥ २५९ ॥

पल्यासंख्याताहतवृन्दाङ्गुलगुणितश्रेणिमात्रा हि ।

वैगूर्विकपञ्चाक्षा भोगभूमाः पृथक् विगूर्वन्ति ॥ २६९ ॥

अर्थ—पल्यके असंख्यातमे भागसे अभ्यस्त (गुणित) घनाङ्गुलका जगच्छ्रेणीके साथ गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतने ही पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यचोमें वैक्रियिक योगके धारक हैं। और भोगभूमिया तिर्यच तथा मनुष्य तथा कर्मभूमियाओंमें चक्रवर्ती पृथक् विक्रिया करते है। भावार्थ—विक्रिया दो प्रकारकी होती है, एक पृथक् विक्रिया दूसरी अपृथक् विक्रिया। जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको पृथक् विक्रिया कहते है। और जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अपृथक् विक्रिया कहते है। इन दोनों प्रकारकी विक्रियाके धारक तिर्यच तथा मनुष्योंकी संख्या ऊपर कही हुई है।

देवेहिं सादरेया तिजोगिणो तेहिं हीण तसपुण्णा ।

बियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥

देवैः सातिरेकाः त्रियोगिनस्तैर्हीनाः त्रसपूर्णाः ।

द्वियोगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥

अर्थ—देवसे कुछ अधिक त्रियोगियोका प्रमाण है। पर्याप्त त्रसराशिमसे त्रियोगियोंको घटानेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोंका प्रमाण है। संसारराशिमसे द्वियोगी तथा त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेसे एकयोगवालोंका प्रमाण निकलता है। भावार्थ—नारकी देव संज्ञिपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उतना ही त्रियोगियोंका प्रमाण है। त्रसराशिमसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोंका और संसारराशिमसे त्रियोगि तथा द्वियोगियोंका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोंका प्रमाण निकलता है।

अंतोमुहुत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा ।

तज्जोगो सामण्णं चउवच्चिजोगा तदो हु संखगुणा ॥ २६१ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्राः चतुर्मनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः ।

तद्योगः सामान्य चतुर्वचोयोगाः ततस्तु संख्यगुणाः ॥ २६१ ॥

अर्थ—सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगोंमें प्रत्येकका काल यद्यपि अन्तर्मुहूर्तमात्र है तथापि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका काल क्रमसे संख्यातगुणा है । और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है । इस ही प्रकार चारों मनोयोगोंके जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा काल चारों वचनयोगोंका है । और प्रत्येक वचनयोगका काल भी अन्तर्मुहूर्त है । तथा पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा है । और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तर्मुहूर्त है ।

तज्जोगो सामण्यं काओ संखाहदो तिजोगमिदं ।

सव्वसमासविभजिदं सगसगगुणसंगुणे ढु सगरासी ॥ २६२ ॥

तद्योगः सामान्यं कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम् ।

सर्वसमासविभक्तं स्वकस्वकगुणसंगुणे तु स्वकराशिः ॥ २६२ ॥

अर्थ—चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका काल है । इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है । तीनों योगोंके कालको जोड़देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उस एक भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण निकलता है । **भावार्थ—**तीनों योगोंके जोड़का काल ८५×१७०१ अन्तर्मुहूर्तमात्र है । इसके जितने समय हों उनका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें भाग दीजिये । लब्ध एक भागके साथ सत्यमनोयोगिके कालके जितने समय है उनका गुणा कीजिये, जो लब्ध आवे वह सत्यमनोयोगवाले जीवोंका प्रमाण है । इस ही प्रकार असत्यमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त जीवोंमें प्रत्येकका प्रमाण समझना ।

कम्मोरालियमिस्सयओरालद्धासु संचिदअणंता ।

कम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥

कार्मणौदारिकमिश्रकौरालद्धासु संचितानन्ताः ।

कार्मणौरालिकमिश्रकौरालिकयोगिनो जीवाः ॥ २६३ ॥

अर्थ—कार्मणकाययोग औदारिकमिश्रयोग तथा औदारिककाययोगके समयमें एकत्रित होनेवाले कार्मणयोगी औदारिकमिश्रयोगी तथा औदारिककाययोगी जीव अनन्तानन्त हैं ।

इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं ।

समयत्तयसंखावलिंसंखगुणावलिसमासहिदरासी ।

सगगुणगुणिदे थोवो असंखसंखाहदो कमसो ॥ २६४ ॥

समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलिसमासहितराशिम् ।

स्वगुणगुणिते स्तोक्. असंख्यसंख्याहतः क्रमशः ॥ २६४ ॥

अर्थ—कर्मणकाययोगका काल तीन समय, औदारिकमिश्रयोगका काल संख्यात आवली, औदारिक काययोगका काल संख्यात गुणित (औदारिकमिश्रके कालसे) आवली है। इन तीनोंको जोड़ देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवराशिमें भाग देनेसे लब्ध एक भागके साथ कर्मणकालका गुणा करने पर कर्मणकाययोगी जीवोंका प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ औदारिकमिश्रकाल तथा औदारिककालका गुणा करनेपर औदारिकमिश्रकाययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंका प्रमाण होता है। इन तीनों तरहके जीवोंमें सबसे कम कर्मण काययोगी है उनसे असंख्यातगुणे औदारिकमिश्रयोगी है और उनसे संख्यातगुणे औदारिककाययोगी है।

चार गाथाओंमें वैक्रियिकमिश्र तथा वैक्रियिककाययोगके धारक जीवोंका प्रमाण बताते हैं।

सोवक्कमाणुवक्कमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे ।

आवालिअसंखभागो संखेज्जावलिपमा कमसो ॥ २६५ ॥

सोपक्रमानुपक्रमकालः संख्यातवर्षस्थितिवाने ।

आवलयसंख्यभागः संख्यतावलिप्रमः क्रमशः ॥ २६५ ॥

अर्थ—संख्यातवर्षकी स्थितिवाले उसमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल क्रमसे आवलीके असंख्यातमे भाग और संख्यात आवली प्रमाण है। भावार्थ—उत्पत्तिसहित कालको सोपक्रम काल कहते हैं। और उत्पत्तिरहित कालको अनुपक्रम काल कहते हैं। यदि व्यन्तर देव निरन्तर उत्पन्न हों तो आवलीके असंख्यातमे भागमात्रकाल पर्यन्त उत्पन्न होते ही रहें। यदि कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे संख्यात आवलीमात्र काल पर्यन्त (वारह मुहूर्त) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्पन्न हो ही।

तहिं सव्वे सुद्धसला सोवक्कमकालदो दु संखगुणा ।

तत्तो संखगुणूणा अपुण्णकालमिह सुद्धसला ॥ २६६ ॥

तस्मिन् सर्वाः शुद्धशलाकाः सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः ।

ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशलाकाः ॥ २६६ ॥

अर्थ—जघन्य दश हजार वर्षकी स्थितिमें अनुपक्रमकालको छोड़कर पर्याप्त तथा अपर्याप्त कालसम्बन्धी सोपक्रम कालकी शलाकाका प्रमाण, सोपक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात गुणा है। और इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्तकालसम्बन्धी सोपक्रमकालकी शलाकाका

प्रमाण है । भावार्थ—स्थितिके प्रमाणमें जितनीवार सोपक्रम कालका सम्भव हो उसको शलाका कहते हैं । इसका प्रमाण उक्त क्रमानुसार समझना ।

तं सुद्धशलागाहिदणियरासिमपुण्णकाललद्धाहिं ।

सुद्धशलागाहिं गुणे वेंतरवेगुव्वमिस्सा हु ॥ २६७ ॥

तं शुद्धशलाकाहितनिजराशिमपूर्णकाललब्धाभिः ।

शुद्धशलाकाभिर्गुणे व्यन्तरवैगूर्वमिश्रा हि ॥ २६७ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपक्रम शलाकाका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपर्याप्त—काल—सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने ही वैक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये । भावार्थ—संख्यात वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तरदेव अधिक उत्पन्न होते हैं इसलिये उनकीही मुख्यतासे यहां प्रमाण बताया है ।

तहिं सेसदेवणारयमिस्सजुदे सव्वमिस्सवेगुव्वं ।

सुरणिरयकायजोगा वेगुव्वियकायजोगा हु ॥ २६८ ॥

तस्मिन् शेषदेवनारकमिश्रयुते सर्वमिश्रवैगूर्वम् ।

सुरनिरयकाययोगा वैगूर्विककाययोगा हि ॥ २६८ ॥

अर्थ—उक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें शेष भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक और नारकियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पूर्ण मिश्र वैक्रियिक काययोगका प्रमाण होता है । और देव तथा नारकियोंके काययोगका प्रमाण मिलानेसे समस्त वैक्रियिक काययोगका प्रमाण होता है ।

आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगियोंका प्रमाण बताते हैं ।

आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एकसमयमिह ।

आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा हु उक्कस्सं ॥ २६९ ॥

आहारकाययोगाः चतुप्पञ्चाशत् भवन्ति एकसमये ।

आहारमिश्रयोगा सप्तविंशतिस्तूक्कष्टम् ॥ २६९ ॥

अर्थ—एक समयमें आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चौअन होते हैं । और आहारमिश्रयोगवाले जीव अधिकसे अधिक सत्ताईस होते हैं । यहा पर जो उत्कृष्ट शब्द है वह मध्यदीपक है । भावार्थ—जिस प्रकार देहलीपर रक्खा हुआ दीपक बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा जिसका आगे वर्णन करेंगे ऐसी दोनोंही संख्याओंको उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है ।

इति योगमार्गणाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त वेदमार्गणाका निरूपण करते हैं ।

पुरिसिच्छिसंढवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंढओ भावे ।
णामोदयेण द्रव्ये पाएण समा कहिं विसमा ॥ २७० ॥

पुरुषस्त्रीषण्डवेदोदयेन पुरुषस्त्रीषण्डाः भावे ।

नामोदयेन द्रव्ये प्रायेण समाः कचिद् विषमाः ॥ २७० ॥

अर्थ—पुरुष स्त्री और नपुंसक वेदकर्मके उदयसे भावपुरुष भावस्त्री भाव नपुंसक होता है । और नामकर्मके उदयसे द्रव्य पुरुष द्रव्य स्त्री द्रव्य नपुंसक होता है । सो यह भाववेद और द्रव्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है ।

भावार्थ—वेदनामक नोकषायके उदयसे जीवोंके भाववेद होता है, और आङ्गोपाङ्गनामकर्मके उदयसे द्रव्यवेद होता है । सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही होते हैं, अर्थात् जो भाववेद वही द्रव्यवेद और जो द्रव्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं २ विषमता भी होजाती है, अर्थात् भाववेद दूसरा और द्रव्यवेद दूसरा ।

वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हवेज्ज संमोहो ।

संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुणं व दोषं वा ॥ २७१ ॥

वेदस्योदीरणायां परिणामस्य च भवेत् संमोहः ।

संमोहेन न जानाति जीवो हि गुणं वा दोषं वा ॥ २७१ ॥

अर्थ—वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामोंमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है । और इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार नहीं कर सकता ।

पुरुगुणभोगे सेदे करोदि लोयम्मि पुरुगुणं कम्मं ।

पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वणिणओ पुरिसो ॥ २७२ ॥

पुरुगुणभोगे शेते करोति लोके पुरुगुणं कर्म ।

पुरुत्तमश्च यस्मात् तस्मात् स वर्णितः पुरुषः ॥ २७२ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगोंका जो स्वामी हो, अथवा जो लोकमें उत्कृष्ट-गुणयुक्त कर्मको करै, यद्वा जो स्वयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं ।

छादयदि सयं दोसे णयदो छाददि परं वि दोसेण ।

छादणसीला जम्हा तम्हा सा वणिणया इत्थी ॥ २७३ ॥

१ यद्यपि शीङ् वातुका अर्थ स्वप्न है, तथापि “वातुनामनेकार्यः” इस नियमके अनुसार स्वामी, करना तथा स्थिति अर्थ मानकर पृषोदरादि गणके द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया है । पुरुषु शेते इति पुरुष इत्यादि । अथवा पोस्तकर्मणि इम वातुसे इस शब्दकी सिद्धि समझना चाहिये । पुरु शब्दका अर्थ उत्तम होता है ।

छादयति स्वकं दोषे नयतः छादयति परमपि दोषेण ।

छादनशीला यस्मात् तस्मात् सा वर्णिता स्त्री ॥ २७३ ॥

अर्थ—जो मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करे, और मृदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंको भी हिंसा अब्रह्म आदि दोषोंसे आच्छादित करे, उसको अच्छादन—स्वभावयुक्त होनेसे स्त्री कहते हैं ।

भावार्थ—यद्यपि बहुत सी स्त्रियां अपनेको तथा दूसरोंको दोषोंसे आच्छादित नहीं भी करती हैं तब भी बहुलता की अपेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध लक्षण किया है ।

जेवित्थी जेव पुमं णउंसओ उहयलिङ्गविदिरित्तो ।

इट्ठावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ २७४ ॥

नैव स्त्री नैव पुमान् नपुंसक उभयलिङ्गव्यतिरिक्तः ।

इष्टापाकाग्निसमानकवेदनागुरुकः कलुषचित्तः ॥ २७४ ॥

अर्थ—जो न स्त्री हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों ही लिङ्गोंसे रहित जीवको नपुंसक कहते हैं । इसके अवा (भट्टा) में पकती हुई ईंटकी अग्निके समान तीव्र कषाय होती है । अत एव इसका चित्त प्रतिसमय कलुषित रहता है ।

वेदरहित जीवोंको बताते हैं ।

तिणकारिसिट्ठपागग्गिसरिसपरिणामवेदणुम्मुक्का ।

अवगयवेदा जीवा सगसंभवणंतवरसोक्खा ॥ २७५ ॥

तृणकारिषिष्टपाकाग्निसदृशपरिणामवेदनोन्मुक्ताः ।

अपगतवेदा जीवाः स्वकसम्भवानन्तवरसौख्याः ॥ २७५ ॥

अर्थ—तृणकी अग्नि कारीष अग्नि इष्टपाक अग्नि (अवाकी अग्नि) के समान वेद के परिणामोंसे रहित जीवोंको अपगतवेद कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्पन्न होनेवाले अनन्त और सर्वोत्कृष्ट सुखको भोगते हैं ।

वेदमार्गणामें पांच गाथाओं द्वारा जीवसंख्याका वर्णन करते हैं ।

जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा ।

तत्तेउपम्मलेस्सा संखगुणूणा क्रमेणेदे ॥ २७६ ॥

ज्योतिष्कवानयोनिनीतिर्यक्पुरुषाश्च संज्ञिनो जीवाः ।

तत्तेजःपद्मलेश्याः संख्यगुणोनाः क्रमेणैते ॥ २७६ ॥

अर्थ—ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तिर्यच, संज्ञी तिर्यच, संज्ञी तिर्यच तेजोलेइयावाले, तथा संज्ञीतिर्यच पद्मलेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यातगुणे संख्यातगुणे

हीन है । भावार्थ—६९९३६ से गुणित प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण है । इसमें क्रमसे असंख्यातगुणा २ कम करनेसे आगे २ की राशिका प्रमाण निकलता है ।

इगिपुरिसे बत्तीसं देवी तज्जोगभजिददेवोधे ।

सगगुणगारेण गुणे पुरुषा महिला य देवेषु ॥ २७७ ॥

एकपुरुषे द्वात्रिंशद्व्यः तद्योगभक्तदेवोधे ।

स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाश्च देवेषु ॥ २७७ ॥

अर्थ—देवगतिमें एक देवकी कमसे कम बत्तीस देविया होती है । इसलिये देव और देवियोंके जोडरूप तेतीसका समस्त देवराशिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने २ गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियोंका प्रमाण निकलता है । भावार्थ—समस्त देवराशिमें तेतीसका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका एकके साथ गुण करनेसे देवोंका और बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देवियोंका प्रमाण निकलता है । यद्यपि इन्द्रादिकोंकी देवियोंका प्रमाण अधिक है, तथापि प्रकीर्णक देवोंकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण अत्यल्प है, अतः उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है ।

देवेहिं सादिरेया पुरिसा देवीहिं साहिया इत्थी ।

तेहिं विहीण सवेदो रासी संढाण परिमाणं ॥ २७८ ॥

देवैः सातिरेकाः पुरुषा देवीभिः साधिकाः स्त्रियः ।

तैर्विहीनः सवेदो राशिः षण्डाना परिमाणम् ॥ २७८ ॥

अर्थ—देवोंसे कुछ अधिक, मनुष्य और तिर्यगतिस्म्बन्धी पुंवेदवालोंका प्रमाण है । और देवियोंसे कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यगति स्म्बन्धी स्त्रीवेदवालोंका प्रमाण है । सवेद राशिमेंसे पुंवेद तथा स्त्रीवेदका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे वह नपुंसकोंका प्रमाण है ।

गढभणपुइत्थिसण्णी सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इदरा ।

कुरुजा असण्णिगढभजणपुइत्थीवाणजोइसिया ॥ २७९ ॥

थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलिअसंखभागगुणा ।

पह्लासंखेज्जगुणा तत्तो सव्वत्थ संखगुणा ॥ २८० ॥

गर्भनपुस्त्रीसंज्ञिनः सम्मूर्धनसंज्ञिपूर्णका इतरे ।

कुरुजा असंज्ञिगर्भजनपुस्त्रीवानज्योतिष्काः ॥ २७९ ॥

स्तोकाः त्रिषु संख्यगुणाः तत आवल्यसंख्यभागगुणाः ।

पल्यासंख्येयगुणाः ततः सर्वत्र संख्यगुणाः ॥ २८० ॥

अर्थ—गर्भज संज्ञी नपुंसक १ पुल्लिङ्ग २ तथा स्त्रीलिङ्ग ३ । सम्मूर्छन संज्ञी पर्याप्त ४ और अपर्याप्त ५ भोगभूमिया ६ असंज्ञी गर्भज नपुंसक ७ पुल्लिङ्ग ८ स्त्रीलिङ्ग ९ । व्यन्तर १० । और ज्योतिषी ११ । इन ग्यारह स्थानोंको क्रमसे स्थापन करना चाहिये । जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे २ है । पांचमा स्थान आवलीके असंख्यातमे भाग गुणा है । छठ्ठा स्थान पल्यके असंख्यातमे भागगुणा है । इससे आगेके स्थान क्रमसे संख्यातगुणे २ है । भावार्थ—चौथे और पांचमे स्थानवाले जीव नपुंसक ही होते हैं । छठे स्थानवाले पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग ही होते हैं । ६५५३६ से गुणित प्रतराङ्गुलका, आठवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे भागका, एकवार पल्यके असंख्यातमे भागका, जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है । इससे आगेके तीन स्थान क्रमसे संख्यातगुणे २ है । पांचमा स्थान आवलीके असंख्यातमे भागगुणा, छठ्ठा स्थान पल्यके असंख्यातमे भागगुणा, सातमा आठमा नौमा दशमा ग्यारहमा स्थान क्रमसे संख्यातगुणा २ है ।

इति वेदमार्गणाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त कषाय—मार्गणाके वर्णनकी आदिमें प्रथम कषायका निरुक्तिसिद्ध लक्षण बताते हैं ।

सुहृदुःखसुबहुसस्यं कम्मक्खेत्तं कसेदि जीवस्स ।

संसारदूरमेरं तेण कसाओत्ति णं वेत्ति ॥ २८१ ॥

सुखदुःखसुबहुसस्यं कर्मक्षेत्रं कृषति जीवस्य ।

संसारदूरमर्यादां तेन कषाय इतीमं ब्रुवन्ति ॥ २८१ ॥

अर्थ—जीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी संसाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्र (खेत)का यह कर्षण करता है इसलिये इसको कषाय कहते हैं ।

कृष धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अर्थ बताकर अब हिसार्थक कष धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दकी निरुक्ति बताते हैं ।

सम्मत्तदेससयलचारित्तजहक्खादचरणपरिणामे ।

घादंति वा कपाया चउसोलअसंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥

सम्यक्चदेशसकलचारित्रययाख्यातचरणपरिणामान् ।

घातयन्ति वा कपायाः चतु.पोडशासंख्यलोकमिताः ॥ २८२ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वं देशचारित्र सकलचारित्र यथाख्यातचारित्ररूपी परिणामोंको जो कृषे-घाते=न होनेसे उसको कषाय कहते हैं । इसके अनन्तानुबन्धी अप्रत्यान्यानावरण प्रत्या-

ख्यानावरण संज्वलन इसप्रकार चार भेद है । अनन्तानुबन्धी आदि चारोंके क्रोध मान माया लोभ इस तरह चार २ भेद होनेसे कषायके उत्तरभेद सोलह होते हैं । किन्तु कषायके उदयस्थानोंकी अपेक्षासे असंख्यात लोकप्रमाण भेद है । जो सम्यक्त्वको रोके उसको अनन्तानुबन्धी; जो देशचारित्रिको रोके उसको अप्रत्याख्यानावरण, जो सकलचारित्रिको रोके उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रिको रोके उसको संज्वलन कषाय कहते हैं ।

शक्तिकी अपेक्षासे क्रोधादि चार कषायोंके चार गाथाओद्वारा भेद गिनाते हैं ।

सिलपुढविभेदधूलीजलराइसमाणओ हवे कोहो ।

णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८३ ॥

शिलापृथ्वीभेदधूलिजलराजिसमानको भवेत् क्रोधः ।

नारकतिर्यञ्जरामरगतिषूत्पादकः क्रमशः ॥ २८३ ॥

अर्थ—क्रोध चार प्रकारका होता है । एक पत्थरकी रेखाके समान, दूसरा पृथ्वीकी रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान, चौथा जलरेखाके समान । ये चारों प्रकारके क्रोध क्रमसे नरक तिर्यक् मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न करनेवाले हैं ।

सेलट्टिकट्टवेत्ते णियभेएणणुहरंतओ माणो ।

णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २८४ ॥

शैलास्थिकाष्ठवेत्रान् निजभेदेनानुहरन् मानः ।

नारकतिर्यञ्जरामरगतिषूत्पादकः क्रमशः ॥ २८४ ॥

अर्थ—मान भी चार प्रकारका होता है । पत्थरके समान; हड्डीके समान, काठके समान, तथा वेंतके समान । ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तिर्यञ्च मनुष्य तथा देव गतिके उत्पादक हैं । भावार्थ—जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता, इस ही प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नम्र न हो उसको शैलसमान (पत्थरके समान) मान कहते हैं । ऐसे मानके उदयसे नरकगति उत्पन्न होती है । इस ही तरह अस्थिसमान (हड्डीके समान) आदिक मानको भी समझना चाहिये ।

वेणुवमूलोरव्भयसिंगे गोमुत्तए य खोरप्पे ।

सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिवदि जियं ॥ २८५ ॥

वेणुपमूलोरभ्रकशृङ्गेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण ।

सदृशी माया नारकतिर्यञ्जरामरगतिषु क्षिपति जीवम् ॥ २८५ ॥

अर्थ—माया भी चार प्रकारकी होती है । वांसकी जडके समान, मेढेके सिंगके समान, गोमूत्रके समान, क्षुरपाके समान । यह चार तरहकी माया भी क्रमसे जीवको

१ अनन्तानुबन्धी आदि चार प्रकारके क्रोधमें प्रत्येक काधके ये चार २ भेद समझने चाहिये.

नरक तिर्यञ्च मनुष्य और देवगतिमें लेजाती है । भावार्थ—मायाके ये चार भेद कुटिलताकी अपेक्षासे हैं । जितनी अधिक कुटिलता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया कही जाती है, और वह उक्त क्रमानुसार गतियोंकी उत्पादक होती है ।

किमिरायचक्रतणुमलहरिद्वाराण सरिसओ लोहो ।

णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥ २८६ ॥

किमिरागचक्रतणुमलहरिद्वाराणेण सदृशो लोभः ॥

नारकतिर्यग्मानुषदेवेषूत्पादकः क्रमशः ॥ २८६ ॥

अर्थ—लोभ कषाय भी चार प्रकारका है । किमिरागके समान, चक्रमल (रथ आदिकके पहियोंके भीतरकी ओंगन) के समान, शरीरके मलके समान, हल्दीके रंगके समान । यह भी क्रमसे नरक तिर्यञ्च मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । भावार्थ—जिस प्रकार किरिमिजीका रंग अत्यंत गाढ़ होता है—बड़ी ही मुश्किलसे छूटता है । उसी प्रकार जो लोभ सबसे जादे गाढ़ हो उसको किरिमिजी के समान कहते हैं । इससे जो जल्दी २ छूटनेवाले हैं उनको क्रमसे ओंगन, शरीरमल, हल्दी के रंगके समान कहते हैं,

नरकादि गतिमें उत्पत्तिके प्रथम समयमें बहुलताकी अपेक्षासे क्रोधादिकके उदयका नियम बताते हैं ।

णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालाहि ।

कोहो माया मानो लोहुदओ अनियमो वापि ॥ २८७ ॥

नारकतिर्यग्गरसुरगतिपूत्पन्नप्रथमकाले ।

क्रोधो माया मानो लोभोदयः अनियमो वापि ॥ २८७ ॥

अर्थ—नरक तिर्यञ्च मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध माया मान और लोभका उदय होता है । अथवा अनियम भी है । भावार्थ—नरकगतिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें क्रोधका उदय होता है । परन्तु किसी २ आचार्यका मत है कि ऐसा नियम नहीं है । इस ही प्रकार तिर्यग्गतिमें उत्पन्न होनेवालेके प्रथम समयमें किसी २ आचार्यके मतसे नियमसे माया कषायका उदय होता है । और मनुष्यगतिके प्रथम समयमें मानका तथा देवगतिके प्रथम समयमें लोभ कषायका उदय होता है ।

कषायरहित जीवोंको बताते हैं ।

अप्पपरोभयवाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी ।

जेसिं णत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा ॥ २८८ ॥

आत्मपरोभयत्राधनबन्धासंयमनिमित्तक्रोधादयः ।

येषां न सन्ति कषाया अमला अकषायिणो जीवाः ॥ २८८ ॥

अर्थ—जिनके, खुदको दूसरेको तथा दोनोंको ही वाधा देने और बन्धन करने तथा असंयम करनेमें निमित्तभूत क्रोधादिक कषाय नहीं है, तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मलसे रहित है ऐसे जीवोंको अकषाय कहते हैं ।

क्रोधादि कषायोंके शक्तिकी अपेक्षासे स्थान बताते हैं ।

क्रोहादिकसायाणं चउ चउद्सवीस होंति पदसंखा ।

सत्तिलेस्साआउगबंधाबंधगदभेदेहिं ॥ २८९ ॥

क्रोधादिकषायाणा चत्वारश्चतुर्दशविंशतिः भवन्ति पदसंख्याः ।

शक्तिलेख्याऽऽयुष्कबंधाबंधगतभेदैः ॥ २८९ ॥

अर्थ—शक्ति, लेख्या, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षासे क्रोधादिक कषायोंके क्रमसे चार चौदह और बीस स्थान होते हैं । भावार्थ—शक्तिकी अपेक्षा चार, लेख्याकी अपेक्षा चौदह और आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा क्रोधादि कषायोंके बीस स्थान होते हैं ।

शक्तिकी अपेक्षासे होनेवाले चार स्थानोंको गिनाते हैं ।

सिलसेलवेणुमूलक्किमिरायादी क्रमेण चत्तारि ।

क्रोहादिकसायाणं सत्तिं षड्ढि होंति णियमेण ॥ २९० ॥

शिलाशैलवेणुमूलक्किमिरागादीनि क्रमेण चत्तारि ।

क्रोधादिकषायाणा शक्तिं प्रति भवन्ति नियमेन ॥ २९० ॥

अर्थ—शिलाभेद आदिक चार प्रकारका क्रोध, शैलसमान आदिक चार प्रकारका मान, वेणु (वांस) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, किमिरागके समान आदिक चार प्रकारका लोभ, इस तरह क्रोधादिक कषायोंके उक्त नियमके अनुसार क्रमसे शक्तिकी अपेक्षा चार २ स्थान है ।

लेख्याकी अपेक्षा होनेवाले चौदह स्थानोंको गिनाते हैं ।

किण्हं सिलासमाणे किण्हादी छक्कमेण भूमिम्मि ।

छक्कादी सुक्कोत्ति य धूलिम्मि जलम्मि सुक्केक्का ॥ २९१ ॥

कृष्णा शिलासमाने कृष्णादयः षट् क्रमेण भूमौ ।

षट्कादिः शुक्लेति च धूलौ जले शुक्लैका ॥ २९१ ॥

अर्थ—शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्ण लेख्याकी अपेक्षासे एक ही स्थान होता है । पृथ्वीसमान क्रोधमें कृष्ण आदिक लेख्याकी अपेक्षा छह स्थान है । धूलिसमान क्रोधमें छह लेख्यासे लेकर शुक्ललेख्यापर्यंत छह स्थान होते हैं । और जलसमान क्रोधमें केवल एक शुक्ललेख्या ही होती है । भावार्थ—शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्णलेख्याका एक

ही स्थान होता है । पृथ्वीभेदसमान क्रोधमें छह स्थान होते हैं, पहला केवल कृष्णलेश्याका, दूसरा कृष्ण नील लेश्याका, तीसरा कृष्ण नील कपोत लेश्याका, चौथा कृष्ण नील कपोत पीत लेश्याका, पांचमा कृष्ण नील कपोत पीत पद्म लेश्याका, छठा कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ललेश्याका । इस ही प्रकार धूलिरेखा समान क्रोधमे भी छह स्थान होते है । पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा कृष्णरहित पांचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीलरहित चारलेश्याका, चौथा कृष्ण नील कपोतरहित अतकी तीन शुभ लेश्याओका, पांचमा पद्म और शुक्ल लेश्याका, छठा केवल शुक्ल लेश्यका । जलरेखा समान क्रोधमे एक शुक्ल लेश्याका ही स्थान होता है । जिस प्रकार क्रोधके लेश्याओकी अपेक्षा ये चौदह स्थान बताये है उस ही तरह मानादिक कषायमें भी चौदह २ भेद समझना चाहिये ।

आयुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तीन गाथाओद्वारा वीस स्थानोंको गिनाते हैं ।

शैलगकृष्णे सुण्यं गिरयं च य भूगणविहाणे ।

गिरयं इगिबितिआऊ तिहाणे चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥

शैलगकृष्णे शून्यं निरयं च च भूगैकद्विस्थाने ।

निरयमेकद्विस्थानयुस्त्रिस्थाने चत्वारि शेषपदे ॥ २९२ ॥

अर्थ—शैलगत कृष्णलेश्यामें कुछ स्थान तो ऐसे है कि जहांपर आयुबन्ध नहीं होता, इसके अनन्तर कुछ स्थान ऐसे है कि जिनमे नरक आयुका बन्ध होता है । इसके बाद पृथ्वीभेदगत पहले और दूसरे स्थानमे नरक आयुका ही बन्ध होता है । इसके भी बाद कृष्ण नील कपोत लेश्याके तीसरे भेदमें (स्थानमे) कुछ स्थान ऐसे है जहा नरक आयुका ही बन्ध होता है, और कुछ स्थान ऐसे है जहा नरक तिर्यञ्च दो आयुका बन्ध होसकता है, तथा कुछ स्थान ऐसे है जहांपर नरक तिर्यञ्च तथा मनुष्य तीनों ही आयुका बन्ध हो सकता है । शेषके तीन स्थानोंमें चारो आयुका बन्ध हो सकता है ।

धूलिगच्छकहाणे चउराऊतिगदुगं च उवरिल्लं ।

पणचदुठाणे देवं देवं सुण्यं च तिहाणे ॥ २९३ ॥

धूलिगषट्कस्थाने चतुरायूपि त्रिकद्विकं चोपरितनम् ।

पञ्चचतुर्थस्थाने देवं देवं शून्यं च तृतीयस्थाने ॥ २९३ ॥

अर्थ—धूलिभेदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ स्थानोंमें चागे आयुका बन्ध होता है, इसके अनन्तर कुछ स्थानोंमें नरक आयुको छोड़कर शेष तीन आयुका और कुछ स्थानोंमें नरक तिर्यञ्चको छोड़कर शेष दो आयुका बन्ध होता है । कृष्णलेश्याको छोड़कर पांचलेश्यावाले दूसरे स्थानमें तथा कृष्ण नीललेश्याको छोड़कर शेष चार लेश्या

वाले तृतीयस्थानमे केवल देव आयुका बन्ध होता है । अन्तकी तीन लेश्यावाले चौथे भेदके कुछ स्थानोंमें देवायुका बन्ध होता है और कुछ स्थानोंमें आयुका अबन्ध है ।

सुष्णं दुग्दृग्दिठाणे जलमिह सुष्णं असंखभजिदकमा ।

चउचोदसवीसपदा असंखलोगा हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥

शून्यं द्विकैकस्थाने जले शून्यमसंख्यभजितक्रमा : ।

चतुश्चतुर्दशविंशतिपदा असंख्यलोका हि प्रत्येकम् ॥ २९४ ॥

अर्थ—इस हीके (धूलिभेदगतहीके) पद्म और शुक्लेश्यावाले पांचमे स्थानमें और केवल शुक्लेश्यावाले छठे स्थानमें आयुका अबन्ध है, तथा जलभेदगत केवल शुक्लेश्यावाले एक स्थानमे भी आयुका अबन्ध है । इस प्रकार कषायोंके शक्तिकी अपेक्षा चार भेद, लेश्याओंकी अपेक्षा चौदह भेद, आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा बीस भेद है । इनमें प्रत्येकके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है । तथा अपने २ उत्कृष्टसे अपने २ जघन्यपर्यन्त क्रमसे असंख्यातगुणे २ हीन है ।

कषायमार्गणामें तीन गाथाओद्वारा जीवोंकी संख्या बताते हैं ।

पुह पुह कसायकालो गिरये अंतोमुहुत्तपरिमाणो ।

लोहादी संखगुणो देवेषु य कोहपहुदीदो ॥ २९५ ॥

पृथक् पृथक् कषायकालः निरये अन्तर्मुहूर्तपरिमाणः ।

लोभादिः संख्यगुणो देवेषु च क्रोधप्रभृतितः ॥ २९५ ॥

अर्थ—नरकमे नारकियोंके लोभादि कषायका काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्त मात्र होनेपर भी पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायका काल पृथक् २ संख्यातगुणा २ है । और देवोंमे क्रोधादिक लोभपर्यन्त कषायोंका काल सामान्यसे अन्तर्मुहूर्त; किन्तु विशेषरूपसे पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका संख्यातगुणा २ काल है । **भावार्थ**—यद्यपि सामान्यसे प्रत्येक कषायका काल अन्तर्मुहूर्त है, तथापि नारकियोंके जितना लोभका काल है उससे सख्यातगुणा मायाका काल है, और जितना मायाका काल है उससे संख्यातगुणा मानका काल है, मानके कालसे भी संख्यातगुणा क्रोधका काल है । किन्तु देवोंमें इससे विपरीत है । अर्थात् जितना क्रोधका काल है उससे संख्यातगुणा मानका काल है, मानसे संख्यातगुणा मायाका और मायासे संख्यातगुणा लोभका काल है ।

सञ्चसमासेणवाहिदसगसगरासी पुणोवि संगुणिदे ।

मगसगगुणगारेहिं य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥

सर्वममामेनावहितन्वकम्बकराशौ पुनरपि संगुणिते ।

स्वकम्बकगुणकामेश्च स्वकम्बकगणीना परिमाणम् ॥ २९६ ॥

अर्थ—अपनी २ गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कषायोंके उदयकालके जोड़का भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी २ राशिका परिमाण निकलता है । **भावार्थ**—कल्पना क्रीजिये कि देवगतिमें देव राशिका प्रमाण १७०० है और क्रोधादिकके उदयका काल क्रमसे ४, १६, ६४, २५६ है । इस लिये समस्त कषायोदयके कालका जोड़ ३४० हुआ । इसका उक्त देवराशिमें भाग देनेसे लब्ध ९ आते है । इस लब्ध राशिका अपने कषायोदयकालसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण निकलता है । यदि क्रोधकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो ४ से गुणा करने पर वीस निकलता है, यदि मानकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो १६ से गुणा करनेपर ८० प्रमाण निकलता है । इस ही प्रकार आगे भी समझना । जिस तरह यह देवोंकी अङ्कसं-दृष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकी भी समझना, किन्तु अङ्कसंदृष्टिको ही अर्थसंदृष्टि नहीं समझना । क्रोधादि कषायवाले जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल देव तथा नरक-गतिमें ही समझना ।

मनुष्य तथा तिर्यञ्चोंमें कषायवाले जीवोंका प्रमाण बताते है ।

णरतिरिय लोहमायाकोहो माणो विइंदियादिब्व ।


। आवलिअसंखभज्जा सगकालं वा समासेज्ज ॥ २९७ ॥

नरतिरश्चोः लोभमायाक्रोधो मानो द्वीन्द्रियादिवत् ।

आवलयसंख्यभाज्याः स्वककालं वा समासाद्य ॥ २९७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवोंकी संख्या पहले निकाली है उसही क्रमसे मनुष्य तथा तिर्यञ्चोंके लोभ माया क्रोध और मानवाले जीवोंका प्रमाण आवलीके असंख्यातमे भाग क्रमसे निकालना चाहिये । अथवा अपने २ कालकी अपेक्षासे उक्त कषायवाले जीवोंका प्रमाण निकालना चाहिये । **भावार्थ**—चारो कषायोंका जितना प्रमाण है उसमे आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसके बहुभागको चारों जगह समान रूपसे विभक्त करना और शेष एक भागका “ बहुभागे समभागो ” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे चारो कषायवालोंका प्रमाण निकलता है । अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते है तो इतने कालमें कितने रहेंगे इस त्रैराशिक विधानसे भी कषायवालोंका प्रमाण निकलता है ।

इति कषायमार्गणाधिकारः ॥



क्रमप्राप्त ज्ञानमार्गणाके प्रारम्भमे ज्ञानका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण कहते हैं ।

जाणइ तिकालविसए दव्वगुणे पज्जए च बहुभेदे ।

पञ्चक्खं च परोक्खं अणेण णाणेत्ति णं वेत्ति ॥ २९८ ॥

जानाति त्रिकालविषयान् द्रव्यगुणान् पर्यायांश्च बहुभेदान् ।

प्रत्यक्षं च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ २९८ ॥

अर्थ—जिसके द्वारा जीव त्रिकालविषयक (भूत भविष्यत् वर्तमान) समस्त द्रव्य और उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकारकी पर्यायोको जाने उसको ज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष ।

ज्ञानके भेदोको दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक और क्षायिकरूपसे विभाग करते हैं ।

पंचैव ह्येति णाणा मद्दिंसुदओहीमणं च केवल्यं ।

खयउवसमिया चउरो केवलणाणं हवे खइयं ॥ २९९ ॥

पञ्चैव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रुतावधिमनश्च केवलम् ।

क्षायोपशमिकानि चत्वारि केवलज्ञानं भवेत् क्षायिकम् ॥ २९९ ॥

अर्थ—ज्ञानके पांच भेद हैं । मति श्रुत अवधि मनःपर्यय तथा केवल । इनमें आदिके चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, और केवलज्ञान क्षायिक है ।

मिथ्याज्ञानका कारण और स्वामी बताते हैं ।

अण्णाणत्तिर्यं होदि हु सण्णाणत्तिर्यं खु मिच्छअणउदये ।

णवरि विभंगं णाणं पंचिदियसण्णिणुण्णेव ॥ ३०० ॥

अज्ञानत्रिकं भवति हि सदज्ञानत्रिकं खलु मिथ्यात्वानोदये ।

नवरि विभङ्गं ज्ञानं पञ्चेन्द्रियसंज्ञिपूर्ण एव ॥ ३०० ॥

अर्थ—आदिके तीन (मति श्रुत अवधि) ज्ञान समीचीन भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं । ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरङ्ग कारण मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है । मिथ्या अवधिको विभंग भी कहते हैं । इसमें यह विशेषता है कि यह विभंग ज्ञान संज्ञी पर्याप्तक पंचेन्द्रियके ही होता है ।

मिश्रज्ञानका कारण और मनःपर्ययज्ञानका स्वामी बताते हैं ।

मिस्सुदये सम्मिस्सं अण्णाणत्तियेण णाणत्तियमेव ।

संजमविसेससहिए मणपज्जवणाणमुद्धिं ॥ ३०१ ॥

मिश्रोदये समिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयेमेव ।

संयमविशेषसहिते मनःपर्ययज्ञानमुद्धिष्ट ॥ ३०१ ॥

अर्थ—मिश्र प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानोंमें समीचीनता तथा मिथ्यापना दोनों ही पाये जाते हैं, इसलिये इनको मिश्र ज्ञान कहते हैं । मनःपर्ययज्ञान जिनके विशेष संयम होता है उनके होता है । भावार्थ—मनःपर्यय ज्ञान प्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय

गुणस्थानपर्यन्त सात गुणस्थानोंमें होता है; परन्तु इनमें भी जिनका चारित्र उत्तरोत्तर वर्धमान होता है उनहीके होता है ।

तीन गाथाओंमें दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंको स्पष्ट करते है ।

विशजंतकूडपंजरबंधादिसु विणुवएसकरणेण ।

जा खलु पवट्टइ मई मइअण्णाणंत्तिणं बेत्ति ॥ ३०२ ॥

विषयन्त्रकूटपञ्जरबंधादिषु विनोपदेशकरणेन ।

या खलु प्रवर्तते मतिः मत्यज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०२ ॥

अर्थ—दूसरेके उपदेशके विना जो विषय यन्त्र कूट पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते है । **भावार्थ**—जिसके खानेसे जीव मर सके उस द्रव्यको विष कहते है । भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बन्द होजाय, और जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता है उसको यन्त्र कहते है । जिससे मूसे वगैरह पकड़े जाते है उसको कूट कहते है । रस्सीमें गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है उसको पंजर कहते है । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो गड्डे आदिक बनाये जाते है उनको बंध कहते है । इत्यादिक पदार्थोंमें दूसरेके उपदेशके विना जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते है; क्योंकि उपदेशपूर्वक होनेसे वह ज्ञान श्रुतज्ञान कहा जायगा ।

आभीयमासुरक्खं भारहरामायणादिउवएसा ।

तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणंत्ति णं बेत्ति ॥ ३०३ ॥

आभीतमासुरक्षं भारतरामायणाद्युपदेशाः ।

तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०३ ॥

अर्थ—चौरशास्त्र, तथा हिंसाशास्त्र, भारत, रामायण आदिके परमार्थशून्य अत एव अनादरणीय उपदेशोको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते है ।

वित्ररीयमोहिणाणं खओवसमियं च कम्मवीजं च ।

वेभंगोत्ति पउच्चइ समत्तणाणीण समयम्हि ॥ ३०४ ॥

विपरीतमवधिज्ञानं क्षायोपशमिकं च कर्मवीजं च ।

विभङ्ग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिना समये ॥ ३०४ ॥

अर्थ—सर्वज्ञोंके उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभङ्ग कहते है । इसके दो भेद हैं, एक क्षायोपशमिक दूसरा भवप्रत्यय । **भावार्थ**—देव नारकियोंके विपरीत अवधि-ज्ञानको भवप्रत्यय विभङ्ग कहते है, और मनुष्य तथा तिर्यज्जोंके विपरीत अवधिज्ञानको क्षायोपशमिक विभंग कहते है । इस विभङ्गका अन्तरङ्ग कारण मिथ्यात्व आदिक कर्म है ।

इसके निमित्तसे विशिष्ट (समीचीन) अवधिज्ञानके मङ्ग होनेको (विपरीत होनेको) विभङ्ग कहते हैं । यह इसका (विभङ्गका) निरुक्तिसिद्ध अर्थ है ।

मतिज्ञानका स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद, विषय नौ गाथाओंमें दिखाते हैं ।

अहिमुहणियमिथबोहणमाभिणिबोहियमणिंदिइंदियजम् ।

अवग्रहईहावायाधारणगा होंति पत्तेयं ॥ ३०५ ॥

अभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधिकमानिन्द्रियेन्द्रियजम् ।

अवग्रहेहावायधारणका भवन्ति प्रत्येकम् ॥ ३०५ ॥

अर्थ—इन्द्रिय और अनिन्द्रिय (मन) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदार्थका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक कहते हैं । इसमें प्रत्येकके अवग्रह ईहा अवाय धारणा ये चार २ भेद हैं । **भावार्थ**—स्थूल वर्तमान यांग्य क्षेत्रमें अवस्थित पदार्थको अभिमुख कहते हैं । और जैसे चक्षुका रूप विषय है इस ही तरह जिस इन्द्रियका जो विषय निश्चित है उसको नियमित कहते हैं । इस तरहके पदार्थोंका मन अथवा स्पर्शन आदिक पाच इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । इस प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह भेद हुए । इसमें भी प्रत्येकके अवग्रह ईहा अवाय धारणा ये चार २ भेद होते हैं । प्रत्येकके चार २ भेद होते हैं इसलिये छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चौबीस भेद होते हैं ।

अवग्रहके भी भेद आदिक दिखाते हैं ।

वेज्जणअत्थअवग्रहभेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे ।

कमसो ते वावरिदा पढमं ण हि चक्खुमणसाणं ॥ ३०६ ॥

व्यञ्जनार्थावग्रहभेदौ हि भवतः प्राप्ताप्राप्तार्थे ।

क्रमशस्तौ व्यापृतौ प्रथमो नहि चक्षुर्मनसोः ॥ ३०६ ॥

अर्थ—अवग्रहके दो भेद हैं, एक व्यञ्जनावग्रह दूसरा अर्थावग्रह । जो प्राप्त अर्थके विषयमें होता है उसको व्यञ्जनावग्रह कहते हैं, और जो अप्राप्त अर्थके विषयमें होता है उसको अर्थावग्रह कहते हैं । और ये पहले व्यञ्जनावग्रह पीछे अर्थावग्रह इस क्रमसे होते हैं । तथा व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता । **भावार्थ**—इन्द्रियोंसे प्राप्त—सम्बद्ध अर्थको व्यञ्जन कहते हैं, और अप्राप्त=असम्बद्ध पदार्थको अर्थ कहते हैं । और इनके ज्ञानको क्रमसे व्यञ्जनावग्रह, अर्थावग्रह कहते हैं । (शङ्का) राजवार्तिकादिकमें व्यञ्जन शब्दका अर्थ अव्यक्त किया है, और यहा पर प्राप्त अर्थ किया है, इस लिये परस्पर विरोध आता है । (उत्तर) व्यञ्जन शब्दके अनभिष्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अर्थ होते हैं । इसलिये इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रकट न

हो तब तक उसको व्यञ्जन कहते हैं, प्रकट होनेपर अर्थ कहते हैं। अत एव चक्षु और मनके द्वारा व्यञ्जनावग्रह नहीं होता; क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मट्टीके सकोरा आदिपर एक दो पानीकी बूंद पड़नेसे वह व्यक्त नहीं होती; किन्तु अधिक बूंद पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती है। इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादिकके ग्रहणको व्यंजनावग्रह, और पीछे उसहीको प्रकटरूपसे ग्रहण करनेपर अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन पदार्थका अवग्रह ही होता है, ईहा आदिक नहीं होते, इसलिये चार इन्द्रियोकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद हैं। पूर्वोक्त चौबीस भेदोंमें इन चार भेदोंको मिलानेसे मतिज्ञानके अट्ठाईस भेद होते हैं।

विसयाणं विसर्इणं संजोगाणंतरं हवे णियमा ।

अवग्रहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ॥ ३०७ ॥

विषयाणा विषयिणा संयोगानन्तरं भवेत् नियमात् ।

अवग्रहज्ञानं गृहीते विशेषाकांक्षा भवेदाहा ॥ ३०७ ॥

अर्थ—पदार्थ और इन्द्रियोका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका अवलोकन करनेवाला दर्शन होता है। और इसके अनन्तर विशेष आकार आदिकको ग्रहण करनेवाला अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनन्तर जिस पदार्थको अवग्रहने ग्रहण किया है उसहीके किसी विशेष अंशको ग्रहण करनेवाला ईहा ज्ञान होता है। भावार्थ—जिस तरह किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावलोकनको दर्शन कहते हैं। इसके अनन्तर ‘यह पुरुष है’ इस तरहके ज्ञानको अवग्रह कहते हैं। और इसके अनन्तर ‘यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये’ इस तरहके विशेष ज्ञानको ईहा कहते हैं।

ईहणकरणेण जदा सुणिण्णओ होदि सो अवाओ दु ।

कालांतरेवि णिण्णिद्वत्थुसमरणस्स कारणं तुरियं ॥ ३०८ ॥

ईहनकरणेन यदा सुनिर्णयो भवति स अवायस्तु ।

कालान्तरेऽपि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारणं तुर्यम् ॥ ३०८ ॥

अर्थ—ईहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिह्नोंको देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं। जैसे भाषा वेप विन्यास आदिको देखकर ‘यह दाक्षिणात्य ही है’ इस तरहके निश्चयको अत्राय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णीत वस्तुका कालान्तरमें भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं।

उक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विषय दिखते हैं ।

बहु बहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्तं धुवं च इदरं च ।

तत्थेक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयभेदं तु ॥ ३०९ ॥

बहु बहुविधं च क्षिप्रानिःसृदनुक्तं ध्रुवं च इतरच्च ।

तत्रैकैकस्मिन् जाते षट्त्रिंशत् त्रिंशतभेदं तु ॥ ३०९ ॥

अर्थ—उक्त मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थके बारह भेद हैं । बहु, अल्प, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृत, निसृत, अनुक्त, उक्त । इनमेसे प्रत्येक विषयमे मतिज्ञानके उक्त अट्ठाईस भेदोंकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये बारहको अट्ठाईससे गुणा करनेपर मतिज्ञानके तीससौ छत्तीस भेद होते हैं ।

बहुवृत्तिजादिग्रहणे बहुबहुविहामियरामियरग्रहणम्हि ।

सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तथा ॥ ३१० ॥

बहुव्यक्तिजातिग्रहणे बहु बहुविधमितरदितरग्रहणे ।

स्वकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतराश्च तथा ॥ ३१० ॥

अर्थ—एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंको बहु कहते हैं । अनेक जातिके बहुत पदार्थोंको बहुविध कहते हैं । एक जातिकी एक दो व्यक्तिको अल्प (एक) कहते हैं । एक जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते हैं । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोंका उनके नामसे ही अर्थ सिद्ध है । भावार्थ—शीघ्र पदार्थको क्षिप्र कहते हैं, जैसे तेजीसे बहता हुआ जलप्रवाह । मन्द पदार्थको अक्षिप्र कहते हैं, जैसे कछुआ, धीरे २ चलनेवाला घोडा मनुष्य आदि । छिपे हुएको (अप्रकट) अनिसृत कहते हैं, जैसे जलमें डूबा हुआ हस्ती आदि । प्रकट पदार्थको निसृत कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ अभिप्रायसे समझा जाय उसको अनुक्त कहते हैं । जैसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करनेपर किसी कामके विषयमें हा या ना समझना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त कहते हैं, जैसे यह वृत्त है । स्थिर पदार्थको ध्रुव कहते हैं, जैसे पर्वत आदि, क्षणस्थायी (अस्थिर) पदार्थको अध्रुव कहते हैं, जैसे विजली आदि ।

अनिसृत ज्ञानविशेषको दिखाने हैं ।

वत्थुत्स पदेसादो वत्थुग्रहणं तु वत्थुदेसं वा ।

सकलं वा अवलंबिय अपिस्सिद्धं अणवत्थुगई ॥ ३११ ॥

वस्तुनः प्रदेशात् वस्तुग्रहणं तु वस्तुदेशं वा ।

सकलं वा अवलम्ब्य अनिसृतमन्यवस्तुगतिः ॥ ३११ ॥

अर्थ—वस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना, अथवा वस्तुके एकदेश या पूर्ण वस्तुका ग्रहण करके उसके निमित्तमे किसी दूसरी वस्तुके होनेवाले ज्ञानको भी अनिसृत कहते हैं ।

इसका दृष्टान्त दिखाते है ।

**पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा ।
वत्थंतरचंदस्स य धेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥**

पुष्करग्रहणे काले हस्तिनश्च वदनगवयग्रहणे वा ।

वस्त्वन्तरचन्द्रस्य च धेनोश्च बोधन च भवेत् ॥ ३१२ ॥

अर्थ—जलमें डूबे हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उस ही समयमें जलमय हस्तीका ज्ञान होना, अथवा मुखको देखकर उस ही समय उससे भिन्न किन्तु उसके सदृश चन्द्रमाका ज्ञान होना, अथवा गवयको देखकर उसके सदृश गौका ज्ञान होना । इनको अनिस्तृत ज्ञान कहते है ।

सामान्य विषय अर्ध विषय और पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानोंको गिनाते है ।

एकचउक्कं चउवीसट्ठावीसं च तिप्पडिं किच्चा ।

इगिच्छव्वारसगुणिदे मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३१३ ॥

एकचतुष्कं चतुर्विंशत्यष्टाविंशतिश्च त्रिःप्रतिं कृत्वा ।

एकषड्द्वादशगुणिते मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि ॥ ३१३ ॥

अर्थ—मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्रह ईहा अवाय धारणाकी अपेक्षा चार भेद, पाच इन्द्रिय और छट्टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चौबीस भेद, अर्थावग्रह व्यञ्जनावग्रहकी अपेक्षासे अट्टाईस भेद मतिज्ञानके होते है । इनको क्रमसे तीन पंक्तियोंमें स्थापन करके एक छह और बारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके सामान्य अर्ध और पूर्ण स्थान होते है । **भावार्थ**—विषयसामान्यसे यदि इन चारका गुणा किया जाय तो क्रमसे एक चार चौबीस और अट्टाईस स्थान होते है । और यदि इन चार ही का बहु आदिक छहसे गुणा किया जाय तो मतिज्ञानके अर्ध स्थान होते है । और बहु आदिक बारहसे यदि गुणा किया जाय तो पूर्ण स्थान होते है ।

क्रमप्राप्त श्रुत ज्ञानका विशेष वर्णन करनेसे पहले उसका सामान्य लक्षण कहते है ।

अत्थादो अत्थंतरमुवलंभंतं भणंति सुदणाणं ।

आभिणिबोहियपुव्वं णियमेणिह सद्वजं पमुहं ॥ ३१४ ॥

अर्थादर्यान्तरमुपलभमानं भणन्ति श्रुतज्ञानम् ।

आभिनिबोधिकपूर्वं नियमेनेह शब्दज्ञं प्रमुखम् ॥ ३१४ ॥

अर्थ—मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थमें भिन्न पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते है । यह ज्ञान नियमसे मतिज्ञानपूर्वक होता है । इस श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक अनन्तगन्मक इम तरह,

अथवा शब्दजन्य और लिङ्गजन्य इस तरहसे दो भेद है, इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है ।
श्रुतज्ञानके भेद गिनाते है ।

लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे हवन्ति छट्ठाणा ।

वेरूवच्छट्ठवर्गप्रमाणं रूऊणमक्खरगं ॥ ३१५ ॥

लोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति षट् स्थानानि ।

द्विरूपषष्ठवर्गप्रमाणं रूपोनमक्षरगम् ॥ ३१५ ॥

अर्थ—अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि इन षट्स्थानपतित वृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके सबसे जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त असंख्यातलोकप्रमाण भेद होते है । द्विरूपवर्गधारामें छठे वर्गका जितना प्रमाण है (एकट्ठी) उसमें एक कम करनेसे जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का प्रमाण है । **भावार्थ—**अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद है । अपुनरुक्त अक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद है, और पुनरुक्त अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है ।

दूसरी तरहसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाथाओंमें गिनाते है ।

पज्जायक्खरपदसंघादं पडिपत्तियाणिजोगं च ।

दुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुव्वं च ॥ ३१६ ॥

तेसिं च समासेहि य वीसविहं वा हु होदि सुदणार्णं ।

आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवन्ति ॥ ३१७ ॥

पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च ।

द्विकवारप्राभृतं च च प्राभृतकं वस्तु पूर्वं च ॥ ३१६ ॥

तेषां च समासैश्च विंशविधं वा हि भवति श्रुतज्ञानम् ।

आवरणस्यापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति इति ॥ ३१७ ॥

अर्थ—पर्याय पर्यायसमास अक्षर अक्षरसमास पद पदसमास संघात संघातसमास प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राभृतप्राभृत प्राभृतप्राभृतसमास प्राभृत प्राभृतसमास वस्तु वस्तुसमास पूर्व पूर्वसमास, इस तरह श्रुतज्ञानके वीस भेद है । इस ही लिये श्रुतज्ञानावरण कर्मके भी वीस भेद होते है । किन्तु पर्यायावरण कर्मके विषयमें कुछ भेद है उनको आगेके गाथामें बतावेंगे ।

चार गाथाओंमें पर्याय ज्ञानका स्वरूप दिखाते है ।

णवरि विसेसं जाणे सुहमजहणण तु पज्जयं णार्णं ।

पज्जायावरणं पुण तदणंतरणाणमेदमिह ॥ ३१८ ॥

नवरि विशेषं जानीहि सूक्ष्मजघन्यं तु पर्यायं ज्ञानम् ।

पर्यायावरणं पुनः तदनन्तरज्ञानभेदे ॥ ३१८ ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं । इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करनेवाले कर्मके उदयका फल इसमें (पर्याय ज्ञानमें) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके (पर्यायसमाप्त) प्रथम भेदमें होता है । **भावार्थ**—यदि पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्यायज्ञानमें होजाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवका भी अभाव होजाय, इसलिये पर्यायावरण कर्मका फल उसके आगेके प्रथम ज्ञानके भेद में ही होता है । इसीलिये कमसे कम पर्यायरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है ।

सुहमणिगोदपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि ।

हवदि हु सव्वजहणं णिञ्चुग्घाडं णिरावरणम् ॥ ३१९ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य प्रथमसमये ।

भवति हि सर्वजघन्यं नित्योद्धाटं निरावरणम् ॥ ३१९ ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे जघन्य ज्ञान होता है । इसीको पर्याय ज्ञान कहते हैं । इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथा प्रकाशमान रहता है ।

पर्याय ज्ञानके स्वामीकी विशेषता दिखाते हैं ।

सुहमणिगोदपज्जत्तगेषु सगसंभवेसु भमिऊण ।

चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कट्टियेव हवे ॥ ३२० ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तगेषु स्वकसम्भवेषु भ्रमित्वा ।

चरमापूर्णत्रिवक्काणामादिमवक्कस्थिते एव भवेत् ॥ ३२० ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके अपने २ जितने भव (छह हजार वारह) सम्भव है उनमें भ्रमण करके अन्तके अपर्याप्त शरीरको तीन मोडाओंके द्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोडाके समयमें सर्वजघन्य ज्ञान होता है ।

सुहमणिगोदपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि ।

फासिंदियमादिपुव्वं सुदणाणं लद्धिअक्खरयं ॥ ३२१ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य प्रथमसमये ।

स्पर्शेन्द्रियमतिपूर्वं श्रुतज्ञानं लब्ध्यक्षरकम् ॥ ३२१ ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है । **भावार्थ**—लद्धि नाम श्रुत-ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका है, और अक्खर नाम अग्निधरका है; इन्द्रिये इस ज्ञानको

लब्धक्षर कहते हैं; क्योंकि इस क्षयोपक्षमका कभी विनाश नहीं होता, कमसे कम इतना क्षयोपक्षम तो जीवके रहता ही है।

पर्यायसमाप्त ज्ञानका निरूपण करते हैं।

अवरुवरिम्मि अणंतससंखं संखं च भागवड्डीए ।

संखमसंखमणंतं गुणवड्डी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥

अवरोपरि अनन्तमसंख्यं संख्यं च भागवृद्धयः ।

संख्यमसंख्यमनन्त गुणवृद्धयो भवन्ति हि क्रमेण ॥ ३२२ ॥

अर्थ—सर्वजघन्य पर्याय ज्ञानके उपर क्रमसे अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि होती है।

जीवाणं च य रासी असंखलोगा वरं खु सखेज्जं ।

भागगुणमिह य कमसो अवड्ढिदा होंति छट्ठाणा ॥ ३२३ ॥

जीवानाच च राशिः असंख्यलोका वरं खलु संख्यातम् ।

भागगुणयोश्च क्रमशः अवस्थिता भवन्ति षट्स्थाने ॥ ३२३ ॥

अर्थ—समस्त जीवराशि, असंख्यातलोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि ये तीन राशि, पूर्वोक्त अनन्तभागवृद्धि आदि छह स्थानोंमें भागहार अथवा गुणाकारकी क्रमसे अवस्थित राशि है। भावार्थ—अनन्तभागवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार समस्त जीवराशिप्रमाण अवस्थित है, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार असंख्यातलोकप्रमाण अवस्थित है। संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात अवस्थित है।

त्यावकके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते हैं।

उच्चकं चउरकं पणछस्सत्तकं अट्ठअंकं च ।

छव्वड्ढीणं सण्णा कमसो संदिट्ठिकरणट्ठं ॥ ३२४ ॥

उर्वद्वश्चतुरद्व. पञ्चपट्सप्ताड्ढः अष्टाड्ढश्च ।

पट्टवृद्धीना संज्ञा क्रमशः सदृष्टिकरणार्थम् ॥ ३२४ ॥

अर्थ—उच्चरूप मट्टिकेकेलिये क्रमसे छह वृद्धियोंकी ये छह संज्ञा है। अनन्तभागवृद्धि उर्वद्व, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरद्व, संख्यातभागवृद्धिकी पञ्चाड्ढ, संख्यातगुणवृद्धिकी पट्ट, असंख्यातगुणवृद्धिकी सप्ताड्ढ, अनन्तगुणवृद्धिकी अष्टाड्ढ ।

अट्टलअसंखभागे पुच्चगवड्ढीगदे हु परवड्ढी ।

एकं वारं होदि हु पुणो पुणो चरिमउड्ढिती ॥ ३२५ ॥

अङ्गुलासंख्यातभागे पूर्वगवृद्धिगते तु परवृद्धिः ।

एकं वारं भवति हि पुनः पुनः चमरवृद्धिरिति ॥ ३२५ ॥

अर्थ—सूच्यङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि होती है । यह नियम अंतकी वृद्धि पर्यन्त समझना चाहिये । भावार्थ—सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है, इसके अनन्तर सूच्यङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर फिर एकवार असंख्यात-भागवृद्धि होती है । इसी क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भी जब सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण होजाय तब सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार संख्यात-भागवृद्धि होती है । इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपर्यन्त जानना ।

आदिमछट्टाणमिह य पंच य वड्डी हवंति सेसेसु ।

छव्वड्डीओ होंति हु सरिसा सव्वत्थ पदसंखा ॥ ३२६ ॥

आदिमषट्स्थाने च पञ्च च वृद्धयो भवन्ति शेषेषु ।

षड्वृद्धयो भवन्ति हि सदशा सर्वत्र पदसंख्या ॥ ३२६ ॥

अर्थ—असंख्यातलोकप्रमाण षट्स्थानोमेंसे प्रथम षट्स्थानमें पाच ही वृद्धि होती है; अष्टाङ्क वृद्धि नहीं होती । शेष सम्पूर्ण षट्स्थानोंमें अष्टाङ्कसहित छह वृद्धि होती है । सूच्यङ्गुलका असंख्यातमा भाग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सदश ही समझनी चाहिये ।

प्रथम षट्स्थानमें अष्टाङ्कवृद्धि क्यों नहीं होती ? इसका हेतु लिखते हैं ।

छट्टाणाणं आदी अट्ठकं होदि चरिमसुव्वकं ।

जम्हा जहण्णणाणं अट्ठकं होदि जिणदिट्ठं ॥ ३२७ ॥

षट्स्थानानामादिरष्टाङ्कं भवति चरममूर्वङ्कम् ।

यस्माज्जघ्न्यज्ञानमष्टाङ्कं भवति जिनदृष्टम् ॥ ३२७ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण षट्स्थानोंमें आदिके स्थानको अष्टाङ्क और अन्तके स्थानको उर्वङ्क कहते हैं, क्योंकि जघ्न्य पर्यय ज्ञान भी अगुरुल्लघु गुणके अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अष्टाङ्क हो सकता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है ।

एकं खलु अट्ठकं सत्तकं कंडयं तदो हेट्टा ।

ख्वहियकंडएण य गुणितकमा जावमुव्वकं ॥ ३२८ ॥

एक खलु अष्टाङ्कं सप्ताङ्क काण्टक ततोऽयः ।

रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा यावदुर्वङ्कः ॥ ३२८ ॥

अर्थ—एक षट्स्थानमें एक ही अष्टाङ्क होता है । और सप्ताङ्क सूच्यंगुलके

असंख्यातमे भागमात्र होते है । इसके नीचे षडंक पञ्चांक चतुरंक उर्वक ये एक २ अधिकवार सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित कम हैं । भावार्थ—षडंक दो वार सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित है, और पञ्चांक तीन वार सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित है । इस ही तरह चतुरंकमें चार वार और उर्वकमें पाच वार सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागका गुणाकार होता है ।

सम्पूर्ण षड्वृद्धियोंका जोड बताते हैं ।

सव्वसमासो णियमा रूवाहियकंडयस्स वग्गस्स ।

विंदस्स य संवग्गो होदित्ति जिणेहिं णिद्धिं ॥ ३२९ ॥

सर्वसमासो नियमात् रूपाधिककाण्डकस्य वर्गस्य ।

वृन्दस्य च संवर्गो भवतीतिजिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ३२९ ॥

अर्थ—एक अधिक काण्डकके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्ध आवे उतना ही एक षट्स्थानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । भावार्थ—एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागको पांच जगह रख कर परस्पर गुणा करनेसे जो लब्ध आवे उतनी वार एक षट्स्थानमें अनन्तभागवृद्धि आदि होते है ।

उक्कस्ससंखमेत्तं तत्तिचउत्थेकदालछप्पणं ।

सत्तदसमं च भागं गंतूणय लद्धिअक्खरं दुगुणं ॥ ३३० ॥

उत्कृष्टसंख्यातमात्रं तत्रिचतुर्थैकचत्वारिंशत्षट्पञ्चाशत् ।

सप्तदशमं च भागं गत्वा लब्धयक्षरं द्विगुणम् ॥ ३३० ॥

अर्थ—एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धिके स्थान, और सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिके स्थान, इन दो वृद्धियोंको जघन्य ज्ञानके उपर होजानेपर एक वार संख्यातभागवृद्धिका स्थान होता है । इसके आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोंके होजानेपर उसमें प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लब्धयक्षरका प्रमाण दूना होजाता है । परन्तु प्रक्षेपककी वृद्धि कहा २ पर त्रिनी २ होती है यह बताते है । उत्कृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त संख्यातभागवृद्धिके स्थानोंमेंसे तीन-चौ-पाई भागप्रमाण स्थानोंके होजानेपर प्रक्षेपक और प्रक्षेपकप्रक्षेपक इन दो वृद्धियोंको जघन्य ज्ञानके उपर होजानेसे लब्धयक्षरका प्रमाण दूना होजाता है । पूर्वोक्त संख्यात-भागवृद्धियुक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानोंके छप्पन भागोंमेंसे इकतालीस भागोंके वीतजानेपर प्रक्षेपक और प्रक्षेपकप्रक्षेपककी वृद्धि होनेसे साधिक (कुछ अधिक) जघन्यका दूना प्रमाण होजाता है । अथवा संख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानोंमेंसे सत्रह स्थानोंके अनन्तर

प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षपके तथा पिशूलि इन तीन वृद्धियोंको साधिक जघन्यके ऊपर करनेसे साधिक जघन्यका प्रमाण दूना होता है ।

एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छाट्टणा ।

ते पज्जायसमासा अक्खरगं उवरि वोच्छामि ॥ ३३१ ॥

एवमसंख्यलोका अनक्षरात्मके षट्स्थानानि ।

ते पर्यायसमासा अक्षरगमुपरि वक्ष्यामि ॥ ३३१ ॥

अर्थ—इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान होते हैं । ये सब ही पर्यायसमास ज्ञानके भेद हैं । अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञानका वर्णन करेंगे ।

अर्थाक्षर श्रुत ज्ञानको बताते हैं ।

चरिमुव्वंकेणवाहिदअत्थक्खरगुणिदचरिममुव्वकं ।

अत्थक्खरं तु णाणं होदित्ति जिणेहिं णिद्विट्ठं ॥ ३३२ ॥

चरमोव्वंकेणावहितार्थाक्षरगुणितचरमोव्वङ्गम् ।

अर्थाक्षरं तु ज्ञानं भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ३३२ ॥

अर्थ—अन्तके उर्वकका अर्थाक्षरसमूहमे भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके उर्वकसे गुणा करनेपर अर्थाक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । भावार्थ—असंख्यात—लोकप्रमाण षट्स्थानोमें अन्तके षट्स्थानकी अन्तिम उर्वक—वृद्धिसे युक्त उत्कृष्ट पर्यायसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अर्थाक्षर ज्ञान होता है । यह अर्थाक्षर सम्पूर्ण श्रुत-केवल ज्ञानरूप है । इसमें एक कम एकट्टीका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही अर्थाक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है ।

श्रुतनिवद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं ।

पण्णवाणिज्जा भावा अणंतभागो ट्ठु अणभिलप्पाणं ।

पण्णवाणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो ॥ ३३३ ॥

प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिलप्यानाम् ।

प्रज्ञापनीयानां पुनः अनन्तभागः श्रुतनिवद्धः ॥ ३३३ ॥

अर्थ—अनभिलप्य पदार्थोंके अनन्तमे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं । और प्रज्ञापनीय पदार्थोंके अनन्तमे भाग प्रमाण श्रुतमें निवद्ध हैं । भावार्थ—जो केवल केवल-ज्ञानके द्वारा जाने जासकते हैं; किन्तु जिनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जानकता ऐसे पदार्थ अनन्तानन्त हैं । इस तरहके पदार्थोंसे अनन्तमें भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं कि

जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता है, उनको प्रज्ञापनीय भाव कहते हैं। जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं उनका भी अनन्तमा भाग श्रुतमे निरूपित है।

अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका स्वरूप बताते हैं।

एयक्खरादु उवरिं एगेगेणक्खरेण वहुंतो ।

संखेज्जे खलु उहे पदणामं होदि सुदणामं ॥ ३३४ ॥

एकाक्षरान्तुपरि एकैकेनाक्षरेण वर्धमानाः ।

संख्येये खलु वृद्धे पदनाम भवति श्रुतज्ञानम् ॥ ३३४ ॥

अर्थ—अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात अक्षरोंकी वृद्धि होजाय तब पदनामक श्रुतज्ञान होता है। अक्षर ज्ञानके ऊपर और पदज्ञानके पूर्व तक जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब अक्षरसमास ज्ञानके भेद हैं।

एक पदके अक्षरोंका प्रमाण बताते हैं।

सोलससयचउतीसा कोडी तिथसीदिलक्खयं चेव ।

सत्तसहस्साहसया अठासीदी य पदवण्णा ॥ ३३५ ॥

षोडशशतचतुस्त्रिंशत्कोट्यः त्र्यशीतिलक्षकं चैव ।

सप्तसहस्राण्यष्टशतानि अष्टाशीतिश्च पदवर्णाः ॥ ३३५ ॥

अर्थ—सोलहसौ चौतीस कोटि तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठासी (१६३४८३०७८८८) एक पदमें अक्षर होते हैं। **भावार्थ**—पद तीन तरहके होते हैं, अर्थपद प्रमाण पद मध्यम पद। इनमेंसे “ सफेद गौको रसीसे बांधो ” “ अग्निको लाओ ” इत्यादि अनियत अक्षरोंके समूहरूप किसी अर्थविशेषके बोधक वाक्यको अर्थपद कहते हैं। आठ आदिक अक्षरोंके समूहको प्रमाणपद कहते हैं, जैसे श्लोकके एक पादमें आठ अक्षर होते हैं। इस ही तरह दूसरे छन्दोंके पदोंमें भी अक्षरोंका न्यूनाधिक प्रमाण होता है। परन्तु गायामें कहे हुए पदके अक्षरोंका प्रमाण सर्वदाकेलिये निश्चित है, इस ही को मध्यमपद कहते हैं।

संघात श्रुतज्ञानको बताते हैं।

एयपदादो उवरिं एगेगेणक्खरेण वहुंतो ।

संखेज्जसहस्सपदे उहे संघादणाम सुदं ॥ ३३६ ॥

एकपदादुपरि एकैकेनाक्षरेण वर्धमानाः ।

संख्यातसहस्रपदे वृद्धे संघातनाम श्रुतम् ॥ ३३६ ॥

अर्थ—एक पदके आगे भी क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार २३३ वृद्धि होजाय उसको संघातनामक श्रुत ज्ञान कहते हैं। एक पदके ऊपर और संघा-

तं ज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके भेद है वे सब पदसमासके भेद है । यह संघात नामक श्रुतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके स्वरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोंका समूहरूप है ।

प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञानका स्वरूप बताते हैं ।

**एकद्वरगदिणिरूवयसंघादसुदादु उवरि पुवं वा ।
वण्णे संखेज्जे संघादे उड्ढमिह पडिवत्ती ॥ ३३७ ॥**

एकतरगतिनिरूपकसंघातश्रुतादुपरि पूर्व वा ।

वर्णे संख्येये संघाते वृद्धे प्रतिपत्तिः ॥ ३३७ ॥

अर्थ—चार गतिमेंसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात श्रुतज्ञानके ऊपर पूर्वकी तरह क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार संघातकी वृद्धि होजाय तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है । संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमें जितने ज्ञानके विकल्प है उतने ही संघातसमासके भेद है । यह ज्ञान नरकादिक चार गतियोंका विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है ।

अनुयोग श्रुतज्ञानका स्वरूप बताते हैं ।

**चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि पुवं वा ।
वण्णे संखेज्जे पडिवत्तीउड्ढमिह अणियोगं ॥ ३३८ ॥**

चतुर्गतिस्वरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्व वा ।

वर्णे संख्याते प्रतिपत्तिवृद्धे अनुयोगम् ॥ ३३८ ॥

अर्थ—चारों गतियोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर क्रमसे पूर्वकी तरह एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार प्रतिपत्तिकी वृद्धि होजाय तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इसके पहले और प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूर्ण प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद है । अन्तिम प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चौदह मार्गणाओंका विस्तृत स्वरूप जाना जाता है ।

प्राभृतप्राभृतकका स्वरूप दो गाथाओं द्वारा बताते हैं ।

**चोइसमग्गणसंजुदअणियोगादुवरि वड्ढिदे वण्णे ।
चउरादीअणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥ ३३९ ॥**

चतुर्दशमार्गणासंयुतानुयोगादुपरि वर्धित वर्णे ।

चतुराद्यनुयोगे द्विकवारं प्राभृतं भवति ॥ ३३९ ॥

अर्थ—चौदह मार्गणाओका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमके अनुसार एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगकी वृद्धि होजाय तब प्राभृत-प्राभृतक श्रुतज्ञान होता है । इसके पहले और अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प है वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना ।

अहियारो पाहुडयं एयद्वो पाहुडस्स अहियारो ।

पाहुडपाहुडणामं होदिच्चि जिणेहिं णिद्विडुं ॥ ३४० ॥

अधिकारः प्राभृतमेकार्थः प्राभृतस्याधिकारः ।

प्राभृतप्राभृतनामा भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ३४० ॥

अर्थ—प्राभृत और अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैं । अत एव प्राभृतके अधिकारको प्राभृतप्राभृत कहते हैं, ऐसा जिनैन्द्रदेवने कहा है । भावार्थ—वस्तुनाम श्रुतज्ञानके एक अधिकारको प्राभृत और अधिकारके अधिकारको प्राभृतप्राभृत कहते हैं ।

प्राभृतका स्वरूप बताते हैं ।

दुगवारपाहुडादो उवरिं वण्णे कमेण चउवीसे ।

दुगवारपाहुडे संउड्ढे खलु होदि पाहुडयं ॥ ३४१ ॥

द्विकवारप्राभृतादुपरि वर्षे क्रमेण चतुर्विंशतौ ।

द्विकवारप्राभृते संवृद्धे खलु भवति प्राभृतकम् ॥ ३४१ ॥

अर्थ—प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चौबीस प्राभृतप्राभृतककी वृद्धि होजाय तब एक प्राभृतक श्रुत ज्ञान होता है । प्राभृतके पहले और प्राभृतप्राभृतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब ही प्राभृतप्राभृतसमासके भेद जानना । उक्त प्राभृतप्राभृतसमासके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत ज्ञान होता है ।

वस्तु श्रुतज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं ।

वीसं वीसं पाहुडअहियारे एकवत्थुअहियारो ।

एकैक्कवणउड्ढी कमेण सब्वत्थ णायव्वा ॥ ३४२ ॥

विंशतौ विंशतौ प्राभृताधिकारे एको वस्त्वधिकारः ।

एकैक्कवर्णवृद्धिः क्रमेण सर्वत्र ज्ञातव्या ॥ ३४२ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभृत ज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब बीस वीस प्राभृतकी वृद्धि होजाय तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है । वस्तु ज्ञानके पहले और प्राभृत ज्ञानके ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्राभृतसमास ज्ञानके भेद हैं । उक्त प्राभृतसमासमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे वस्तुनामक श्रुतज्ञान पूर्ण होता है ।

भावार्थ—एक २ वस्तु अधिकारमें बीस २ प्राभृत होते हैं और एक २ प्राभृतमें चौबीस २ प्राभृतप्राभृत होते हैं ।

पूर्व ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं ।

दस चोदसद्वृ अट्टारसयं वारं च वार सोलं च ।

वीसं तीसं पण्णारसं च दस चटुसु वत्थूणं ॥ ३४३ ॥

दश चतुर्दशाष्ट अष्टादशकं द्वादश च द्वादश षोडश च ।

विंशतिः त्रिंशत् पञ्चदश च दश चतुर्षु वस्तुनाम् ॥ ३४३ ॥

अर्थ—पूर्व ज्ञानके चौदह भेद हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें क्रमसे दश, चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पंद्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं ।

चौदह पूर्वके नाम गिनाते हैं ।

उत्पायपुव्वगाणियविरियपवादत्थिणत्थियपवादे ।

णाणासच्चपवादे आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥

पच्चक्खाणे विज्जाणुवाद्कल्लाणपाणवादे य ।

किरियाविसालपुव्वे कमसोथ तिलोयविंदुसारं य ॥ ३४५ ॥

उत्पादपूर्वाग्रायणीयवीर्यप्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि ।

ज्ञानसत्यप्रवादे आत्मकर्मप्रवादे च ॥ ३४४ ॥

प्रत्याख्यानं वीर्यानुवादकल्याणप्राणवादानि च ।

क्रियाविशालपूर्वं क्रमशः अथ त्रिलोकविन्दुसारं च ॥ ३४५ ॥

अर्थ—उत्पादपूर्व, आग्रायणीयपूर्व, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाल, त्रिलोकविन्दुसार, इस तरहसे ये क्रमसे पूर्वज्ञानके चौदह भेद हैं । **भावार्थ—**वस्तुज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे पदसंघातआदिकी वृद्धि होते २ जब क्रमसे दश वस्तुकी वृद्धि होजाय तब पहला उत्पादपूर्व होता है । इसके आगे क्रमसे अक्षर पद संघात आदिककी वृद्धि होते २ जब चौदह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब दूसरा आग्रायणीय पूर्व होता है । इसके आगे भी क्रमसे अक्षर पद संघात आदिकी वृद्धि होते २ जब क्रमसे आठ वस्तुकी वृद्धि होजाय तब तीसरा वीर्यप्रवाद होता है । इसके आगे क्रमसे अक्षरादिककी वृद्धि होते २ जब अठारह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद होता है । इस ही तरह आगेके पांचमें आदिक पूर्व भी क्रमसे बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश, वस्तुकी वृद्धिके होनेसे होते हैं । अर्थात् अस्तिनास्तिप्रवादके ऊपर क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि

होनेसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, और ज्ञानप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे सत्यप्रवाद होता है। इस ही तरह आगेके आत्मप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये। चौदह पूर्वके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकारभूत समस्त प्राभृतोंके जोड़का प्रमाण व ताते है।

षण्णडदिसया वत्थु पाहुडया तियसहस्सणवयसया ।

एदेसु चोदसेसु वि पुव्वेसु हवन्ति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥

पञ्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राभृतकानि त्रिसहस्रनवशतानि ।

एतेषु चतुर्दशस्वपि पूर्वेषु भवन्ति मिलितानि ॥ ३४६ ॥

अर्थ—इन चौदह पूर्वोंके सम्पूर्ण वस्तुओंका जोड़ एकसौ पचानवे (१९५) होता है। और एक २ वस्तुमें बीस २ प्राभृत होते है इस लिये सम्पूर्ण प्राभृतोंका प्रमाण तीन हजार नौ सौ (३९००) होता है।

पहले बीसप्रकारका जो श्रुतज्ञान बताया था उसहीका दो गाथाओंमें उपसंहार करते है।

अत्थक्खरं च पदसंघातं पड्वित्तियाणिजोगं च ।

डुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुव्वं च ॥ ३४७ ॥

कमवण्णुत्तरवड्ढिय ताण समासा य अक्खरगदाणि ।

णाणवियप्पे वीसं गंथे वारस य चोदसयं ॥ ३४८ ॥

अर्थाक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च ।

द्विकवारप्राभृतं च च प्राभृतकं वस्तु पूर्वं च ॥ ३४७ ॥

क्रमवणोत्तरवर्धिते तेषा समासाश्च अक्षरगताः ।

ज्ञानविकल्पे विंशतिः ग्रन्थे द्वादश च चतुर्दशकम् ॥ ३४८ ॥

अर्थ—अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतप्राभृत, प्राभृत, वस्तु, पूर्व, ये नव तथा क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते है। पर्याय और पर्यायसमासके मिलनेसे बीस भेद ज्ञानरूप श्रुतके होते है। यदि ग्रन्थरूप श्रुतकी विवक्षा की जाय तो आचाराङ्ग आदि बारह और उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद होते है।

द्वादशाङ्गके समस्त पदोंकी संख्या बताते है।

वारुत्तरसयकोडी तेसीदी तहय होंति लक्खाणं ।

अट्ठावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाणं ॥ ३४९ ॥

द्वादशोत्तरशतकोट्यः त्र्यशीतिस्तथा भवन्ति लक्षानाम् ।

अष्टापञ्चाशत्सहस्राणि पञ्चैव पदानि अङ्गानाम् ॥ ३४९ ॥

अर्थ—द्वादशाङ्गके समस्त पद एक सौ बारह करोड़ ज्यासी लाख अठ्ठावन हजार पांच (११२८३९८००५) होते हैं ।

अङ्गत्राह्य अक्षर कितने हैं उनका प्रमाण बताते हैं ।

अडकोडिएयलक्खा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च ।

पणत्तरि वण्णाओ पइण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५० ॥

अष्टकोट्येकलक्षाणि अष्टसहस्राणि च एकशतकं च ।

पञ्चसप्ततिः वर्णाः प्रकीर्णकाना प्रमाणं तु ॥ ३५० ॥

अर्थ—आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसौ पचहत्तर (८०१०८१७९) प्रकीर्णक (अङ्गत्राह्य) अक्षरोका प्रमाण है ।

चार गाथाओद्वारा उक्त अर्थको समझनेकी प्रक्रिया बताते हैं ।

तेतीस वेंजणाइं सत्तावीसा सरा तथा भणिया ।

चत्तारि य जोगवहा चउसट्टी मूलवण्णाओ ॥ ३५१ ॥

त्रयास्त्रिंशत् व्यंजनानि सप्तविंशतिः स्वरास्तथा भाणिताः ।

चत्वारश्च योगवहाः चतुःषष्टिः मूलवर्णाः ॥ ३५१ ॥

अर्थ—तेतीस व्यंजन सत्ताईस स्वर चार योगवाह इस तरह कुल चौसठ मूलवर्ण होते हैं । भावार्थ—स्वरके बिना जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे अधक्षिरोको व्यंजन कहते हैं । उनके क् ख् से लेकर ह् पर्यन्त तेतीस भेद हैं । अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ ये नव स्वर हैं, इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुतकी अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं । अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय ये चार योगवाह हैं । सब मिलकर चौसठ अनादिनिधन मूलवर्ण हैं ।

यद्यपि दीर्घ लृ वर्ण संस्कृतमें नहीं हैं तत्र भी अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भाषामें आता है इसलिये चौसठ वर्णोंमें इसका भी पाठ है ।

चउसट्टिपदं विरलिय दुगं च दाउण संगुणं किञ्चा ।

रुऊणं च कए पुण सुदण्णाणस्सक्खरा होंति ॥ ३५२ ॥

चतुःषष्टिपदं विरलयित्वा द्विकं च दत्त्वा संगुणं कृत्वा ।

रूपोने च वृत्ते पुन. श्रुतज्ञानस्याक्षराणि भवन्ति ॥ ३५२ ॥

अर्थ—उक्त चौसठ अक्षरोंका विरलन करके प्रत्येकके ऊपर दोका अङ्क देकर परस्पर सम्पूर्ण दोके अङ्गोंका गुणा करनेसे लब्ध राशिमें एक घटा देनेसे जो प्रमाण रहता है उतने ही श्रुत ज्ञानके अक्षर होते हैं ।

वे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं ।

एकह च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता ।
सुण्णं णव पण पंच य एकं छक्केक्कगो य पणमं च ॥ ३५३ ॥

एकाष्ट च च च पट्सप्तकं च च च शून्यसप्तत्रिकसप्त ।

शून्यं नव पञ्च पञ्च च एकं पट्कैककश्च पञ्चकं च ॥ ३५३ ॥

अर्थ—परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण यह है । एक आठ चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पाच एक छह एक पांच । भावार्थ—१८४४६७४४०७३७०९५९१६१९ इतने अङ्गप्रविष्ट और अङ्गवाह्य श्रुतके समस्त अपुनरुक्त अक्षर है । पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं है ।

इन अक्षरोंमेंसे अङ्गप्रविष्ट और अङ्गवाह्य श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते हैं ।

मज्झिमपदक्खरवहिद्वण्णा ते अंगपुव्वगपदाणि ।

सेसक्खरसंखा ओ पइण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५४ ॥

मध्यमपदाक्षरावहितवर्णीस्ते अङ्गपूर्वगपदानि ।

शेषाक्षरसंख्या अहो प्रकीर्णकाना प्रमाणं तु ॥ ३५४ ॥

अर्थ—मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने अंग और पूर्वगत मध्यम पद होते हैं । शेष जितने अक्षर रहें उतना अङ्गवाह्य अक्षरोंका प्रमाण है । भावार्थ—पहले मध्यम पदके अक्षरोंका प्रमाण बताया है कि एक मध्यम पदमें सोलहसौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठासी अक्षर होते हैं । जब इतने अक्षरोंका एक पद होता है तब समस्त अक्षरोंके कितने पद होंगे इस तरह त्रैराशिक करनेसे—अर्थात् फलराशि (एक मध्यम पद) और इच्छा-राशिका (समस्त अक्षरोंका) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका (एक मध्यम पदके समस्त अक्षरोंके प्रमाणका) भाग देनेसे जो लब्ध आवे वह समस्त मध्यम पदोंका प्रमाण है । इन समस्त मध्यम पदोंके जितने अक्षर हुए वे अङ्गप्रविष्ट अक्षर हैं और जो शेष अक्षर रहे वे अङ्गवाह्य अक्षर हैं ।

तेरह गाथाओमें अङ्गोंके और पूर्वोंके पदोंकी संख्या बताते हैं ।

आयारे सुद्वयडे ठाणे समवायणामगे अंगे ।

तत्तो विक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥

तोवासयअज्झयणे अंतयडे णुत्तरोववाद्दसे ।

पण्णहारं वायरणे विवायसुत्ते य पदसंखा ॥ ३५६ ॥

आचारे सूत्रकृते स्थाने समवायनामके अङ्गो ।

ततो व्याख्याप्रज्ञप्तौ नाथस्य धर्मकथाया ॥ ३५६ ॥

तत उपासकाध्ययने अन्तकृते अनुत्तरौपपाददशे ।

प्रश्नाना व्याकरणे विपाकसूत्रे च पदसंख्या ॥ ३५६ ॥

अर्थ—आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, धर्मकथाङ्ग, उपासकाध्ययनाङ्ग, अन्तःकृद्दशाङ्ग, अनुत्तरौपपादिकदशाङ्ग, प्रश्नव्याकरण, और विपाकसूत्र इन ग्यारह अङ्गोंके पदोंकी संख्या क्रमसे निम्नलिखित है ।

अट्टारस छत्तीसं बादालं अडकडी अडबि छप्पणं ।

सत्तरि अट्टावीसं चउदालं सोलससहस्सा ॥ ३५७ ॥

इगिदुगपंचेयारं तिवीसदुतिणउदिलक्ख तुरियादी ।

चुलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसूत्तम्हि ॥ ३५८ ॥

अष्टादश षट्त्रिंशत् द्वाचत्वारिंशत् अष्टकृतिः अष्टद्वि षट्पञ्चाशत् ।

सप्ततिः अष्टाविंशतिः चतुश्चत्वारिंशत् षोडशसहस्राणि ॥ ३५७ ॥

एकद्विपञ्चैकादशत्रयोविंशतिद्वित्रिनवतिलक्षं चतुर्थादिपु ।

चतुरशीतिलक्षमेका कोटिश्च विपाकसूत्रे ॥ ३५८ ॥

अर्थ—आचाराङ्गमें अठारह हजार पद है, सूत्रकृताङ्गमें छत्तीस हजार, स्थानाङ्गमें वियालीस हजार, समवायाङ्गमें एक लाख चौसठ हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें दो लाख अट्टाईस हजार, धर्मकथाङ्गमें पाच लाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाङ्गमें ग्यारह लाख सत्तर हजार, अन्तःकृद्दशाङ्गमें तेईस लाख अट्टाई हजार, अनुत्तरौपपादिक दशाङ्गमें बानवे लाख चत्रालीस हजार, प्रश्नव्याकरण अङ्गमें तिरानवे लाख सोलह हजार पद है । तथा ग्यारहमें विपाकसूत्र अङ्गमें एक करोड चौरासी लाख पद है ।

सम्पूर्ण पदोंका जोड बताते हैं ।

वापणनरनोनानं एयारंगे जुदी हु वादम्हि ।

कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा ॥ ३५९ ॥

वापणनरनोनान एकादशाङ्गे युतिर्हि वादे ।

कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाह्ये वर्णाः ॥ ३५९ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त ग्यारह अङ्गोंके पदोंका जोड चार करोड पन्ध्रह लाख दो हजार (४१ ९०२०००) होता है । बारहमें दृष्टिवाद अङ्गमें सम्पूर्ण पद १०८६८९६००९ होते हैं । और अङ्गनाम अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (८०१०८१७९) है ।

बारहमें अङ्गके भेद और उनके पदोंका प्रमाण बताते हैं ।

चंद्रविजंबुदीवयदीवसमुद्दयवियाहपणत्ती ।
परियक्ष्मं पंचविहं सुत्तं पढ्माणिजोगमदो ॥ ३६० ॥
पुब्बं जलथलमाया आगासयरूवगयसिमा पंच ।
भेदा हु चूलियाए तेषु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥

चन्द्रविजम्बूद्वीपकद्वीपसमुद्रकव्याख्याप्रज्ञप्तयः ।

परिकर्म पञ्चविधं सूत्रं प्रथमानुयोगमतः ॥ ३६० ॥

पूर्वं जलस्थलमायाकाशकरूपगता इमे पञ्च ।

भेदा हि चूलिकायाः तेषु प्रमाणमिदं क्रमशः ॥ ३६१ ॥

अर्थ—वारहमें दृष्टिवाद अङ्गके पांच भेद हैं—परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलिका । इसमें परिकर्मके पांच भेद हैं—चन्द्रप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति द्वीपसागरप्रज्ञप्ति व्याख्याप्रज्ञप्ति । पूर्वगतके चौदह भेद हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे । चूलिकाके पांच भेद हैं जलगता स्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता । अब इनके पदोंका प्रमाण क्रमसे बताते हैं ।

गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलक्खा ।

मननन धममननोनननामं रनधजधराननजलादी ॥ ३६२ ॥

याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्मे ।

कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६३ ॥

गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलक्षाणि ।

मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादिषु ॥ ३६२ ॥

याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकर्मणि ।

कानवधिवाचनाननमेपः पुनः चूलिकायोगः ॥ ३६३ ॥

अर्थ—क्रमसे चन्द्रप्रज्ञप्तिमें छत्तीस लाख पांच हजार; सूर्यप्रज्ञप्तिमें पांच लाख तीन हजार, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमें तीन लाख पच्चीस हजार, द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमें बावन लाख छत्तीस हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें चौरासी लाख छत्तीस हजार पद है । सूत्रमें अठासी लाख पद है । प्रथमानुयोगमें पांच हजार पद है । चौदह पूर्वोंमें पचानवे करोड़ पचास लाख पाच पद हैं । पाचो चूलिकाओंमेंसे प्रत्येकमें दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पद है । चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि पाचप्रकारके परिकर्मके पदोंका जोड़ एक करोड़ इक्कासी लाख पांच हजार है । पांच प्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ दश करोड़ उनंचास लाख छ्यालीस हजार (१०४९४६०००) है । भावार्थ—यहा पर जो अक्षर तथा पदोंका प्रमाण बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर तथा पदोंका प्रमाण समझना ।

चौदह पूर्वोंसे प्रत्येक पूर्वके पदोंका प्रमाण बताते हैं ।

पणहदाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं ।

णउदी दुदाल पुव्वे पणवण्णा तेरससयाइं ॥ ३६४ ॥

छस्सय पण्णासाइं चउसयपण्णास छसयपणुवीसा ।

बिहि लक्खेहि दु गुणिया पंचम रूऊण छज्जुदा छट्ठे ॥ ३६५ ॥

पञ्चाशदष्टचत्वारिंशत् पञ्चत्रिंशत् त्रिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् त्रयोदशशतम् ।

नवतिः द्वाचत्वारिंशत् पूर्वे पञ्चपञ्चाशत् त्रयोदशशतानि ॥ ३६४ ॥

षट्छतपञ्चाशानि चतुःशतपञ्चाशत् षट्छतपञ्चविंशतिः ।

द्वाभ्या लक्षाभ्या तु गुणितानि पञ्चमं रूपोनं षट्स्युतानि षष्ठे ॥ ३६५ ॥

अर्थ—चौदह पूर्वोंसे क्रमसे प्रथम उत्पाद पूर्वमें एक करोड़ पद है । दूसरे आग्रा-
यणीय पूर्वमें छद्यानेवे लाख पद है । तीसरे वीर्यप्रवादमें सत्तर लाख पद है । चतुर्थ अस्तिना-
स्तिप्रवाद पूर्वमें साठ लाख पद है । पाचमे ज्ञानप्रवादमे एक कम एक करोड़ (९९९९९९९)
पद है । छठे सत्यप्रवाद पूर्वमें एक करोड़ छह (१००००००६) पद है । सातमे आत्म-
प्रवादमें छवीस करोड़ पद है । आठमे कर्मप्रवाद पूर्वमें एक करोड़ अस्सी लाख पद है । नौमे
प्रत्याख्यान पूर्वमें चउरासी लाख पद है । दशमे विद्यानुवाद पूर्वमें एक करोड़ दश लाख पद
है । ग्यारहमे कल्याणवाद पूर्वमे छवीस करोड़ पद है । बारहमे प्राणावाद पूर्वमें तेरह करोड़
पद है । तेरहमे क्रियाविशाल पूर्वमें नौ करोड़ पद है । चौदहमे त्रिलोकत्रिन्दुसारमें बारह
करोड़ पचास लाख पद है । भावार्थ—चौदह पूर्वोंसे किस २ पूर्वमें कितने २ पद हैं यह
इन दो गाथाओंमें बता दिया है । अब प्रकरण पाकर यहांपर द्वादशज्ञ तथा चौदह पूर्वोंमें किस
२ विषयका वर्णन है यह सक्षेपसे विशेष बताया जाता है । प्रथम आचाराङ्गमें ' किस तरह
आचरण करै ? किस तरह खड़ा हो ? किस तरह बैठे । किस तरह शयन करै । किस तरह भाषण
करै ? किस तरह भोजन करै ? पापका बन्ध किस तरह से नहीं होता ?' इत्यादि प्रश्नोंके अनुसार
'यत्नपूर्वक आचरण करै, यत्नपूर्वक खड़ा हो, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक शयन करै, यत्नपूर्वक भाषण करै,
यत्नपूर्वक भोजन करै, इस तरहसे पापका बन्ध नहीं होता' इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोंके
समस्त आचारणका वर्णन है । दूसरे मूत्रकृताङ्गमें ज्ञानविनय आदि निर्विघ्न अध्ययनक्रियाका
अथवा प्रज्ञापना कल्पाकल्प छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधर्मक्रियाका, तथा स्वममय और परम-
मयका स्वरूप सूत्रोंके द्वारा बताया है । तीसरे स्थानाङ्गमें सम्पूर्ण द्रव्योंके एकमे लेकर कितने

१ कथं चरे कथं चिद्रे कथमासे कथं नए, कथं नुकीच भानेच जजे पाव न बंरई ' इत्येदं ज्ञाने " जडे
चरे जद चिरे जइमने जद नये जडे नुकीच भानेच पव पाव न बंरई ' इत्यादि ॥

विकल्प हो सकते हैं उन विकल्पोंका वर्णन किया है । जैसे सामान्यकी अपेक्षासे जीवद्रव्यका एक ही स्थान (विकल्प=भेद) है, संसारी और मुक्तकी अपेक्षासे दो भेद हैं, उत्पाद द्रव्य श्रौच्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद है । इत्यादि । इस ही तरह पुद्गल आदिक द्रव्योंके भी विकल्प समझना । चौथे समवायाङ्गमें सम्पूर्ण द्रव्योंमें परस्पर किस २ धर्मकी अपेक्षासे सादृश्य है यह बताया है । पाचमे व्याख्याप्रज्ञप्ति अङ्गमें जीव है या नहीं ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ? नित्य है या अनित्य है ? एक है या अनेक है ? इत्यादि साठ हजार प्रश्नोंका व्याख्यान है । छठे नाथधर्मकथा अथवा ज्ञातृधर्मकथा अङ्गमें जीवादि वस्तुओंका स्वभाव, तीर्थकरों का माहात्म्य, तीर्थकरोंकी दिव्यध्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमा आदि दश धर्म, सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयधर्मका स्वरूप बताया है । तथा गणधर इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी कथा उपकथाओंका वर्णन है । सातमे उपासकाध्ययन अङ्गमें उपासकोंकी (श्रावकोंकी) सम्यग्दर्शनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी व्रत गुण शील आचार तथा दूसरे क्रिया काण्ड और उनके मन्त्रादिकोंका सविस्तर वर्णन किया है । आठमें अन्तःकृद्दशाङ्गमें प्रत्येक तीर्थकरके तीर्थमें^१ जो दश २ मुनि चार प्रकारका तीव्र उपसर्ग सहन करके संसारके अन्तको प्राप्त हुए उनका वर्णन है । नौमे अनुत्तरौपदादिकदशाङ्गमें प्रत्येक तीर्थकरके तीर्थमें होनेवाले उन दश २ दक्ष मुनियोंका वर्णन है जो कि घोर उपसर्गको सहन करके अन्तमे समाधिके द्वारा अपने प्राणोंका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न हुए । दशमे प्रश्नव्याकरण अङ्गमें दूतवाक्य नष्ट मुष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकारके प्रश्नोंके अनुसार तीन कालसम्बन्धी धन धान्यादिका लाभालाभ सुख दुःख जीवन मरण जय पराजय आदि फलका वर्णन है । और प्रश्नके अनुसार आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी इन चार प्रकारकी कथाओंका वर्णन है । ग्यारहमे त्रिपाकसूत्रमें द्रव्यक्षेत्र काल भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मोंकी तीव्र मंद मध्यम आदि अनेक प्रकारकी अनुभाग—शक्तिके फल देनेरूप विषयका वर्णन है । बाहरमे दृष्टिवाद अङ्गमें तीन सौ त्रैसठ मिथ्या मतों का वर्णन और उनका निराकरण है । दृष्टिवाद अङ्गके पाच भेद है—परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलिका । परिकर्ममें गणित के करणसूत्रोंका वर्णन है । इसके (परिकर्मके) पांच भेद है, चन्द्रप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति द्वीपसागरप्रज्ञप्ति व्याख्याप्रज्ञप्ति । चन्द्र-प्रज्ञप्तिमें चन्द्रमासम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पूर्ण ग्रहण अर्ध ग्रहण त्रतुर्थांश ग्रहण आदिका वर्णन है । इस ही प्रकार सूर्यप्रज्ञप्तिमें सूर्यसम्बन्धी आयु परिवार गमन ग्रहण आदिका वर्णन है । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमें जम्बूद्वीपसम्बन्धी मेरु

एक तीर्थकरके अनन्तर जब तक दूसरा तीर्थकर उत्पन्न न हो तब तकके समयको प्रथम तीर्थकरका तीर्थ धरने है ।

कुलाचल महाहृद (तलाव) क्षेत्र कुंड वेदिका वन व्यन्तरोके आवास महानदी आदिका वर्णन है । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमें असंख्यात द्वीप और समुद्रोंका स्वरूप तथा वहांपर होनेवाले अकृत्रिम चैत्यालयोंका वर्णन है । व्याख्याप्रज्ञप्तिमें भव्य अभव्य—भेद प्रमाण लक्षण रूपी अरूपी जीव अजीव द्रव्योंका और अनन्तरसिद्ध परंपरासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओंका भी वर्णन है । दृष्टि-वादके दूसरे भेद—सूत्रमे तीनसौ त्रेसठ मिथ्यादृष्टियोंका पूर्वपक्षपूर्वक निराकरण है । तीसरे भेद प्रथमानुयोगमें त्रेसठ शलाका पुरुषोका वर्णन है । चौथे पूर्वके चौदह भेद है । उनमें किस २ विषयका वर्णन है यह संक्षेपसे क्रमसे बताते है । उत्पादपूर्वमें प्रत्येक द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्य और उनके संयोगी धर्मोंका वर्णन है । आग्रायणीय पूर्वमें द्वादशाङ्गमे प्रधानभूत सातसौ सुनय तथा दुर्णय पञ्चास्तिकाय षड्द्रव्य सप्त तत्त्व नव पदार्थ आदिका वर्णन है । वीर्यानुवादमें आत्मवीर्य परवीर्य उभयवीर्य कालवीर्य तपोवीर्य द्रव्यवीर्य गुणवीर्य पर्यायवीर्य आदि अनेकप्रकारके वीर्य (सामर्थ्य) का वर्णन है । अस्तित्वास्तित्प्रवादमें स्यादस्ति स्याच्चास्ति आदि सप्तभंगीका वर्णन है । ज्ञानप्रवादमें मति श्रुत अवाधि मनःपर्यय केवल रूप प्रमाण—ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभङ्ग रूप अप्रमाण ज्ञानके स्वरूप संख्या विषय फलका वर्णन है । सत्यप्रवादमें आठ प्रकारके शब्दोच्चारणके स्थान, पाच प्रयत्न, वाक्यसंस्कारके कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, लक्षण, वचनके भेद, वारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके असत्यवचन, दशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गुप्ति, मौन आदिका वर्णन है । आत्मप्रवादमें आत्माके कर्तृत्व आदि अनेक धर्मोंका वर्णन है । कर्मप्रवादमें मूलोत्तर प्रकृति तथा बंध उदय उदीरणा आदि कर्मकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है । प्रत्याख्यानपूर्वमें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पुरुषके संहनन आदिकी अपेक्षासे सटोप वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन है । विद्यानुवादमें अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसौ अल्पविद्या, तथा रोहिणी आदि पांचसौ महा विद्याओंका स्वरूप सामर्थ्य मन्त्र तन्त्र पूजा--विधान आदिका, तथा सिद्ध विद्याओंका फल और अन्तरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यजन छिन्न इन आठ महा-निमित्तोंका वर्णन है । कल्याणवादमे तीर्थकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पुण्य-कर्म षोडश भावना आदिका, तथा चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्रोंके चारका, ग्रहण शकून आदिके फलका वर्णन है । प्राणावादमें कायचिकित्सा आदि आठ प्रकारके आयुर्वेदका, इडा पिंगला आदिका, दश प्राणोंके उपकारक अपकारक द्रव्योंका गतियोंके अनुसारसे वर्णन किया है । क्रियाविशालमे संगीत छद्म अलङ्कार पुरुषोंकी बहत्तर कला स्त्रीके चौसठ गुण, शिल्पादिविज्ञान, गर्भाधानादि क्रिया, नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका वर्णन है । त्रिलोकविन्दुसारमें लोकक मन्त्र-प, उत्तीम परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, मोक्षका स्वरूप, उसके गमनका कारण, क्रिया, मोक्षसुराके स्वरूपका वर्णन है । दृष्टिवादानामक वारहमे अंगका पाचमा भेद नृत्तिका है । उसके

पाच भेद है, जलगता स्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता । इनमेंसे जलगतार्थे जलामन अग्निस्तम्भन अग्निभक्षण अग्निका आसन अग्निप्रवेश आदिके मन्त्र तन्त्र तपश्चर्या आदिका वर्णन है । स्थलगतार्थे मेरु कुलाचल भूमि आदिमें प्रवेश शीघ्रगमन आदिके कारण मन्त्र तन्त्र आदिका वर्णन है । मायागतार्थे इन्द्रजाल सम्बन्धी मन्त्रादिका वर्णन है । आकाशगतार्थे आकाशगमनके कारण मन्त्र तन्त्र आदिका वर्णन है । रूपगतार्थे सिंहादिक अनेक प्रकारके रूप बनानेके कारण-भूत मन्त्रादिका वर्णन है ।

अङ्गवाह्य श्रुतके भेद गिनाते है ।

सामाह्वयचउवीसत्थयं तदो बंदणा पडिक्कमणं ।

वेणइयं किदियम्मं दसवेयालं च उत्तरज्जयणं ॥ ३६६ ॥

कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकप्पियं च पुंडरियं ।

महपुंडरीयणिसिहियमिदि चोदसमंगवाहिरयं ॥ ३६७ ॥

सामायिकचतुर्विंशत्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणम् ।

वैनयिकं कृतिकर्म दशवैकालिकं च उत्तराध्ययनम् ॥ ३६६ ॥

कल्प्यव्यवहार—कल्पाकल्प्यक—महाकल्पं च पुंडरीकम् ।

महापुंडरीकनिषिद्धिके इति चतुर्दशाङ्गवाह्यम् ॥ ३६७ ॥

अर्थ—सामायिक, चतुर्विंशत्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प्य, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका ये अङ्गवाह्यश्रुतके चौदह भेद है ।

श्रुतज्ञानका माहात्म्य वताते है ।

सुदकेवलं च णाणं दोण्णिणवि सरिसाणि होंति बोहादो ।

सुदणाणं तु परोक्खं पच्चक्खं केवलं णाणं ॥ ३६८ ॥

श्रुतं केवलं च ज्ञानं द्वेऽपि सदृशे भवतो बोधात् ।

श्रुतज्ञानं तु परोक्षं प्रत्यक्षं केवलं ज्ञानम् ॥ ३६८ ॥

अर्थ—ज्ञानकी अपेक्षा श्रुत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनो ही सदृश है । परन्तु दोनोमें अन्तर यही है कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है । भावार्थ—जिस तरह श्रुत ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंको जानता है उस ही तरह केवल ज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य और पर्यायोंको जानता है । विशेषता इतनी ही है कि श्रुत ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होता है इसलिये इसकी अमूर्त पदार्थोंमें और उनकी अर्थपर्याय तथा दूसरे सूक्ष्म अंशोंमें स्पष्टरूपसे प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होनेके कारण समस्त पदार्थोंको स्पष्टरूपसे विषय करता है ।

क्रमप्राप्त अवधि ज्ञानका निरूपण करते हैं ।

**अवहीयदिति ओही सीमाणाणेत्ति वणिणयं समये ।
भवगुणपञ्चयविहियं जमोहिणाणेत्ति णं वेत्ति ॥ ३६९ ॥**

अवधीयते इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये ।

भवगुणप्रत्ययविधिकं यदवधिज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३६९ ॥

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं । इस ही लिये परमागममे इसको सीमाज्ञान कहा है । तथा इसके जिनेन्द्रदेवने दो भेद कहे हैं, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय । **भावार्थ**—नारकादि भवकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर जो अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय अवधि कहते हैं । जो सम्यग्दर्शनादि कारणोकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञान होता है उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं । इसके विषयको परिमित होनेसे इस ज्ञानको अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हैं । यद्यपि दूसरे मतिज्ञानादिके विषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंको भी अवधिज्ञान कहना चाहिये; तथापि समभिरूढनयकी अपेक्षासे ज्ञानविशेषको ही अवधि ज्ञान कहते हैं ।

दोनोंप्रकारके अवधि ज्ञानका स्वामी तथा स्वरूप बताते हैं ।

**भवपञ्चङ्गो सुरणिरयाणं तित्थेवि सच्चअंगुत्थो ।
गुणपञ्चङ्गो णरतिरियाणं संखादिचिह्नभवो ॥ ३७० ॥**

भवप्रत्ययकं सुरनारकाणां तीर्थेऽपि सर्वाङ्गेत्यम् ।

गुणप्रत्ययकं नरतिरश्वां संखादिचिह्नभवम् ॥ ३७० ॥

अर्थ—भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीर्थकरोंके होता है । और यह ज्ञान सम्पूर्ण अङ्गसे उत्पन्न होता है । गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पचेन्द्रिय तीर्थचोकके भी होता है । और यह ज्ञान शखादि चिह्नोंसे होता है । **भावार्थ**—नाभिके उपर शंख पद्म वज्र स्वास्तिक कलश आदि जो शुभ चिह्न होते हैं; उस जगह के आत्मप्रदेशोंमें होनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है । किन्तु भवप्रत्यय अवधि सम्पूर्ण आत्मप्रदेशोंसे होता है ।

उत्तरार्धमें प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पूर्वार्धमें गुणप्रत्यय अवधिके भेदोंको गिनाते हैं ।

**गुणपञ्चङ्गो छन्दो अणुगावट्टिवपवट्टमाणिदरा ।
दसोही परमोही सच्चोहित्ति य तिधा ओही ॥ ३७१ ॥**

गुणप्रत्ययकः षोढा अनुगावस्थितप्रवर्धमानेतरै ।

देशावधिः परमावधिः सर्वावधिरिति च त्रिधा अवधिः ॥ ३७१ ॥

अर्थ—गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवस्थित अनवस्थित वर्धमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सर्वावधि इसतरहसे तीन भेद भी होते हैं । भावार्थ—जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवके साथ जाय उसको अनुगामी कहते हैं । इसके तीन भेद हैं, क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी । जो दूसरे क्षेत्रमें अपने स्वामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं । जो दूसरे भवमें साथ जाय उसको भवानुगामी कहते हैं । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनोंमें साथ जाय उसको उभयानुगामी कहते हैं । जो अपने स्वामी जीवके साथ न जाय उसको अननुगामी कहते हैं, इसके भी तीन भेद हैं क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी । जो सूर्यमण्डलके समान न घटे न बढ़े उसको अवस्थित कहते हैं । जो चन्द्रमण्डलकी तरह कभी कम हो कभी अधिक हो उसको अनवस्थित कहते हैं । जो शुक्लपक्षके चन्द्रकी तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय उसको वर्धमान अवधि कहते हैं । जो कृष्णपक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक घटता जाय उसको हीयमान कहते हैं ।

भवपञ्चङ्गो ओही देसोही होदि परमसव्वोही ।

गुणपञ्चङ्गो गियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥ ३७२ ॥

भवप्रत्ययकोऽवधिः देशावधिः भवति परमसर्वावधी ।

गुणप्रत्ययकौ नियमात् देशावधिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥

अर्थ—भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है । और दर्शनविशुद्धि आदि गुणोंके निमित्तसे होनेवाला गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि सर्वावधि इस तरह तीनों प्रकारका होता है ।

देसोहिस्स य अवरं णरतिरिये होदि संजदम्हि वरं ।

परमोही सव्वोही चरमशरीरस्स विरदस्स ॥ ३७३ ॥

देशावधेश्च अवरं नरतिरश्चोः भवति संयते वरम् ।

परमावधिः सर्वावधिः चरमशरीरस्य विरतस्य ॥ ३७३ ॥

अर्थ—जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा तिर्यकोंके होता है । उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवोंके ही होता है । किन्तु परमावधि और सर्वावधि चरमशरीरी और महान्त्रीके ही होता है ।

पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हवन्ति सेसा ओ ।

मिच्छत्तं अविरमणं ण य पडिवज्जन्ति चरिमहुगे ॥ ३७४ ॥

प्रतिपाती देशावधिः अप्रतिपातिनौ भवतः शेषौ अहो ।

मिथ्यात्वमविरमणं न च प्रतिपद्येते चरमद्विके ॥ ३७४ ॥

अर्थ—देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है । और परमावधि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं । तथा परमावधि और सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अत्रत अवस्थाको प्राप्त नहीं होते । **भावार्थ**—सम्यक्त्व और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयमकी प्राप्तिको प्रतिपात कहते हैं । यह प्रतिपात देशावधिवालेका ही होता है । परमावधि और सर्वावधिवालेका नहीं होता ।

अवधि ज्ञानका द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं ।

द्ववं खेत्तं कालं भावं पडि रूवि जाणदे ओही ।

अवरादुक्कस्सोत्ति य वियप्परहिदो तु सव्वोही ॥ ३७५ ॥

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रति रूपि जानीते अवधिः ।

अवरादुत्कृष्ट इति च विकल्परहितस्तु सर्वावधिः ॥ ३७५ ॥

अर्थ—जघन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेदपर्यन्त सब ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे रूपि (पुद्गल) द्रव्यको ही जानता है । तथा उसके सम्बन्धसे संसारी जीव द्रव्यको भी जानता है । किन्तु सर्वावधि ज्ञानमें जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं है—वह निर्विकल्प है ।

अवधि ज्ञानके विषयभूत सबसे जघन्य द्रव्यका प्रमाण बताते हैं ।

णोकम्मुरालसंचं मज्झिमजोगज्जियं सविस्सचयं ।

लोयविभत्तं जाणदि अवरोही दव्वदो णियमा ॥ ३७६ ॥

नोकमौरालसचय मध्यमयोगार्जित सवित्तसोपचयम् ।

लोकविभक्त जानाति अवरावधिः द्रव्यतः नियमात् ॥ ३७६ ॥

अर्थ—मध्यम योगके द्वारा सचित वित्तसोपचयसहित नोकर्म औदारिक वर्गणाके संचयमें लोकका भाग देनेसे जितना द्रव्य लब्ध आवे उतनेको नियमसे जघन्य अवधि ज्ञान द्रव्यकी अपेक्षासे जानता है । **भावार्थ**—वित्तसोपचयसहित और जिसका मध्यम योगके द्वारा सचय हुआ हो ऐसे डेढगुणहानिमात्र समयप्रवद्धरूप औदारिक नोकर्मके समूहमें लोक-प्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य लब्ध आवे उतने द्रव्यको जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे क्षेत्रका जानता है ।

अवधि ज्ञानके विषयभूत जघन्य प्रमाण बताते हैं ।

सुहमाणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि ।

अवरोगाहणमाणं जहण्णय ओहिरवेत्त तु ॥ ३७७ ॥

सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये ।

अवरावगाहनमानं जघन्यकमवधिक्षेत्रं तु ॥ ३७७ ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तककी उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें जो जघन्य अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञानके जघन्य क्षेत्रका प्रमाण है । **भावार्थ**—इतने क्षेत्रमें जितने जघन्य द्रव्य होंगे जिसका कि प्रमाण पहले बताया गया है उनको जघन्य देशावधिवाला जान सकता है—इसके बाहर नहीं ।

जघन्य क्षेत्रके विषयमें विशेष कथन करते हैं ।

अवरोहिखेत्तदीहं वित्थारुस्सेहयं ण जाणामो ।

अण्णं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥ ३७८ ॥

अवरावधिक्षेत्रदीर्घं विस्तारोत्सेधकं न जानामिः ।

अन्यत् पुनः समीकरणे अवरावगाहनाप्रमाणं तु ॥ ३७८ ॥

अर्थ—जघन्य अवधि ज्ञानके क्षेत्रकी उंचाई लम्बाई चौड़ाईका भिन्न २ प्रमाण हम नहीं जानते । तथापि यह मालुम है कि समीकरण करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र है ।

अवरोगाहणमाणं उत्सेहंगुलअसंखभागस्स ।

सूहस्स य घणपदर होदि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७९ ॥

अवरावगाहनमानमुत्सेधाङ्गुलासख्यभागस्य ।

सूचेश्च घनप्रतरं भवति हि तत्क्षेत्रसमीकरणे ॥ ३७९ ॥

अर्थ—उत्सेधाङ्गुलकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवहार सूच्यङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण—मुजा कोटी और वेधमें परस्पर गुणा करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है उतना ही समीकरण करनेसे जघन्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र होता है । **भावार्थ**—गुणा करनेसे अङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवधिका क्षेत्र होता है ।

अवरं तु ओहिखेत्तं उत्सेहं अंगुलं हवे जम्हा ।

सुहमोगाहणमाणं उवरि पमाणं तु अंगुलयं ॥ ३८० ॥

अवर तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमङ्गुलं भवेद्यस्मात् ।

सूमावगाहनमानमुपरि प्रमाणं तु अङ्गुलकम् ॥ ३८० ॥

अर्थ—जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी उत्सेधाङ्गुल ही है; क्योंकि वह सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना प्रमाण है । परन्तु आगे अङ्गुलके प्रमाणाङ्गुलका ग्रहण करना । **भावार्थ**—जघन्य अवगाहनाके समान अङ्गुलके असंख्यातमे भाग जो जघन्य अवधिका क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधाङ्गुलकी अपेक्षासे ही है

ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिके प्रमाण उत्सेधाङ्गुलसे ही लिये जाते हैं । परन्तु आगे अङ्गुलशब्दसे प्रमाणाङ्गुल लेना चाहिये ।

अवरोहिखेत्तमज्ज्ञो अवरोही अवरद्वयमवगमदि ।

तद्द्वयस्सवगाहो उत्सेधासंखघणपदरा ॥ ३८१ ॥

अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधिः अवरद्वयमवगच्छति ।

तद्द्वयस्यावगाहः उत्सेधासंख्यघनप्रतरः ॥ ३८१ ॥

अर्थ—जघन्य अवधि अपने जघन्य क्षेत्रमें जितने जघन्य द्रव्य हैं उन सबको जानता है । उस द्रव्यका अवगाह उत्सेधाङ्गुलके असंख्यातमे भागका घनप्रतर होता है ।

भावार्थ—यद्यपि जघन्य अवधिके क्षेत्रसे जघन्य द्रव्यके अवगाह—क्षेत्रका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन है, तथापि घनरूप उत्सेधाङ्गुलके असंख्यातमे भागमात्र है । इसकी भुजा कोटी तथा वेधका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातमे भाग है ।

आवलिअसंखभागं तीदभविस्सं च कालदो अवरं ।

ओही जाणदि भावे कालअसंखेज्जभागं तु ॥ ३८२ ॥

आवलयसंख्यभागमतीतभविष्यच्च कालतः अवरम् ।

अवधिः जानाति भावे कालसंख्यातभागं तु ॥ ३८२ ॥

अर्थ—जघन्य अवधि ज्ञान कालकी अपेक्षासे आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण द्रव्यकी व्यंजन पर्यायोको जानता है । तथा जितनी पर्यायोको कालकी अपेक्षासे जानता है उसके असंख्यातमें भागप्रमाण वर्तमान कालकी पर्यायोको भावकी अपेक्षासे जानता है ।

इस प्रकार जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावकी सीमाको बताकर द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके विकल्पोंका वर्णन करते हैं ।

अवरद्ववाटुवरिमद्ववियप्पाय होदि धुवहारो ।

सिद्धाणंतिमभागो अभव्वसिद्धादणंतगुणो ॥ ३८३ ॥

अवरद्वयाटुपरिमद्रव्यविकल्पाय भवति ध्रुवहारः ।

सिद्धानन्तिमभागः अभव्यसिद्धादनन्तगुणः ॥ ३८३ ॥

अर्थ—जघन्य द्रव्यके ऊपर द्रव्यके दूसरे भेद निकालनेके लिये ध्रुवहार होता है । इसका (ध्रुवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है ।

अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रवद्धका प्रमाण बताते हैं ।

ध्रुवहारकम्मवग्गणगुणगारं कम्मवग्गणं गुणिदे ।

समयपबद्धपमाणं जाणिज्जो ओहिविसयाम्हि ॥ ३८४ ॥

ध्रुवहारकर्मणवर्गणागुणकारं कर्मणवर्गणां गुणिते ।

समयप्रवद्धप्रमाणं ज्ञातव्यमवधिविषये ॥ ३८४ ॥

अर्थ—ध्रुवहाररूप कर्मण वर्गणाके गुणाकारका और कर्मण वर्गणाका परस्पर गुणा करनेसे अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रवद्धका प्रमाण निकलता है ।

ध्रुवहारका प्रमाण विशेषतासे बताते हैं ।

सणद्ववर्गणाण वियप्पाणंतिमसमं खु ध्रुवहारो ।

अवरुक्कस्सविसेसा ख्वहिया तव्वियप्पा हु ॥ ३८५ ॥

मनोद्रव्यवर्गणानां विकल्पानन्तिमसमं खलु ध्रुवहारः ।

अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपाधिकास्तद्विकल्पा हि ॥ ३८५ ॥

अर्थ—मनोद्रव्य—वर्गणाके उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे जघन्य प्रमाणके घटानेसे जो शेष रहे उसमें एक मिलानेसे मनोद्रव्य—वर्गणाके विकल्पोका प्रमाण होता है । इन विकल्पोका जितना प्रमाण हो उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यके ध्रुवहारका प्रमाण होता है ।

मनोद्रव्य—वर्गणाके जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणको बताते हैं ।

अवरं होदि अणंतं अणंतभागेण अहियमुक्कस्सं ।

इदि मणभेदाणंतिमभागो दव्वम्मि ध्रुवहारो ॥ ३८६ ॥

अवरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकमुत्कृष्टम् ।

इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये ध्रुवहारः ॥ ३८६ ॥

अर्थ—मनोद्रव्यवर्गणाका जघन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके (जघन्यके) अनन्त भागोंमेंसे एक भाग मिलानेसे मनोवर्गणाका उत्कृष्ट प्रमाण होता है । इस प्रकार जितने मनोवर्गणाके भेद हुए उसके अनन्त भागोंमेंसे एकभाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यके विषयमें ध्रुवहारका प्रमाण होता है ।

प्रकारान्तरसे फिर भी ध्रुवहारका प्रमाण बताते हैं ।

ध्रुवहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि ।

समयपवद्धाणिमित्तं कम्मणवर्गणागुणादो हु ॥ ३८७ ॥

होदि अणंतिमभागो तग्गुणगारो वि देसओहिस्स ।

दोऊणदव्वभेदपमाणध्रुवहारसंवग्गो ॥ ३८८ ॥

ध्रुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि ।

समयप्रवद्धनिमित्तं कर्मणवर्गणागुणतस्तु ॥ ३८७ ॥

भग्न्यनन्तिमभागस्तद्वर्णकारो पि देशावधेः ।

मनोद्रव्यभेदप्रमाणध्रुवहारसंवर्गः ॥ ३८८ ॥

अर्थ—यद्यपि ध्रुवहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि—ज्ञान—विषयक समयप्रवद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तभूत कार्मण वर्गणाके गुणकारसे अनन्तमें भाग समझना चाहिये । द्रव्यकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके जितने भेद है उनमें दो कम करनेसे जो प्रमाण शेष रहे उसका ध्रुवहारप्रमाण परस्पर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाके गुणकारका प्रमाण निकलता है ।

देशावधि ज्ञानके द्रव्यकी अपेक्षा कितने भेद हैं यह बताते हैं ।

अंगुलअसंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दव्वभेदा हु ।

खेत्तवियप्पा अवरुक्कस्सविसेसं हवे एत्थ ॥ ३८९ ॥

अङ्गुलासंख्यगुणिताः क्षेत्रविकल्पाश्च द्रव्यभेदा हि ।

क्षेत्रविकल्पा अवरुक्कृष्टविशेषो भवेदत्र ॥ ३८९ ॥

अर्थ—देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद है उनको सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणा करनेपर, द्रव्यकी अपेक्षासे देशावधिके भेदोंका प्रमाण निकलता है । क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे सर्व—जघन्य प्रमाणको घटाने और एक मिलानेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके विकल्प होते हैं ।

क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते हैं ।

अंगुलअसंखभागं अवरं उक्कस्सयं हवे लो गो ।

इदि वग्गणगुणगारो असंखध्रुवहारसंवग्गो ॥ ३९० ॥

अङ्गुलासंख्यभागमवरमुत्कृष्टकं भवेत्लोकः ।

इति वर्गणागुणकारोऽसंख्यध्रुवहारसंवर्गः ॥ ३९० ॥

अर्थ—देशावधिका पूर्वोक्त लब्ध्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाप्रमाण, अर्थात् घनाङ्गुलके असंख्यातमे भागस्वरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य क्षेत्रका प्रमाण है । सम्पूर्ण लोकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है । इसलिये असंख्यात ध्रुवहारोंका परस्पर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाका गुणकार निष्पन्न होता है ।

वर्गणाका प्रमाण बताते हैं ।

वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि ।

दुगसहियपरमभेदपमाणवहाराण संवग्गो ॥ ३९१ ॥

वर्गणाराशिप्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि ।

द्विकसहितपमभेदप्रमाणावहाराणा सवर्मा ॥ ३९१ ॥

अर्थ—कार्मण वर्गणाका प्रमाण यद्यपि सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है; तथापि परमा-

वधिके भेदोंमें दो मिलानेसे जो प्रमाण हो उतनी जगह ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करनेसे लब्धराशिप्रमाण कर्मण वर्गणाका प्रमाण होता है ।

परमावधिके कितने भेद है यह बताते हैं ।

परमावहिस्स भेदा सगओगाहणवियप्पहदतेऊ ।

इदि ध्रुवहारं वग्गणगुणमारं वग्गणं जाणे ॥ ३९२ ॥

परमावधेभेदाः स्वकावगाहनविकल्पहततेजसः ।

इति ध्रुवहारं वर्गणागुणकारं वर्गणां जानीहि ॥ ३९२ ॥

अर्थ—तेजस्कायिक जीवोंकी अवगाहनाके जितने विकल्प है उसका और तेजस्कायिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लब्ध आवे उतना ही परमावधि ज्ञानके द्रव्यकी अपेक्षासे भेदोंका प्रमाण होता है । इस प्रकार ध्रुवहार, वर्गणाका गुणकार, और वर्गणाका स्वरूप समझना चाहिये ।

देशोहिअवरदब्बं ध्रुवहारेणवहिदे हवे विदियं ।

तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कम्मो ॥ ३९३ ॥

देशावध्यवरद्रव्यं ध्रुवहारेणावहिते भवेत् द्वितीयम् ।

तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवार इत्येषः क्रमः ॥ ३९३ ॥

अर्थ—देशावधि ज्ञानके जघन्य द्रव्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमें ध्रुवहारका एक वार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण निकलता है । दूसरे विकल्पके द्रव्यमें ध्रुवहारका एक वार भाग देनेसे तीसरे विकल्पके द्रव्यका और तीसरे विकल्पके द्रव्यमें ध्रुवहारका भाग देनेसे चौथे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण निकलता है । इसी तरह आगेके विकल्पोंके द्रव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये क्रमसे असंख्यात वार ध्रुवहारका भाग देना चाहिये ।

देशोहिमज्झभेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं ।

तेजोभासमणाणं वग्गणयं केवलं जत्थ ॥ ३९४ ॥

पस्सदि ओही तत्थ असंखेज्जाओ हवन्ति दीउवही ।

वासाणि असंखेज्जा होंति असंखेज्जगुणिदकमा ॥ ३९५ ॥

देशावधिमध्यभेदे सविस्रसोपचयतेजःकर्माङ्गम् ।

तेजोभासमणाणां वर्गणां केवला यत्र ॥ ३९४ ॥

पट्यत्यवधिस्तत्र असंख्येया भवन्ति द्वीपोदधयः ।

वर्षाणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यातगुणितक्रमाणि ॥ ३९५ ॥

अर्थ—इस प्रकार असंख्यात वार ध्रुवहारका भाग देते २ देशावधि ज्ञानके मध्य भेदोंमेंसे जहां पर प्रथम भेद विस्त्रसोपचयसहित तैजस शरीरको विषय करता है, अथवा इसके आगेका दूसरा मध्यभेद विस्त्रसोपचयसहित कर्मण शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा भेद विस्त्रसोपचयरहित तैजस वर्गणाको विषय करता है, अथवा चौथा भेद विस्त्रसोपचयरहित भाषा वर्गणाको विषय करता है, अथवा पांचमा भेद विस्त्रसोपचयरहित मनोवर्गणाको विषय करता है, वहां पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पांचो ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र और कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है । परंतु विशेषताकी अपेक्षासे पूर्व २ भेदके क्षेत्र और कालके प्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र और कालका प्रमाण असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते है ।

तत्तो कम्मइयस्सिगिसमयपवद्धं विविस्ससोवचयं ।

ध्रुवहारस्स विभज्जं सव्वोही जाव ताव हवे ॥ ३९६ ॥

ततः कर्मणस्य एकसमयप्रवद्धं विविस्त्रसोपचयम् ।

ध्रुवहारस्य विभाज्यं सर्वावधिः यावत् तावत् भवेत् ॥ ३९६ ॥

अर्थ—इसके अनन्तर मनोवर्गणामें ध्रुवहारका भाग देना चाहिये । इस तरह भाग देते २ विस्त्रसोपचयरहित कर्मणके एक समयप्रवद्धको विषय करता है । उक्त क्रमानुसार इसमें भी सर्वावधिके विषयपर्यन्त ध्रुवहारका भाग देते जाना चाहिये ।

एदम्मिह विभज्जंते दुचरिमदेशावहिम्मि वग्गणयं ।

चरिमे कम्मइयस्सिगिवग्गणमिगिवारमज्जिदं तु ॥ ३९७ ॥

एतस्मिन् विभज्यमाने द्विचरमदेशावधौ वर्गणा ।

चरमे कर्मणस्यैकवर्गणा एकवारभक्ता तु ॥ ३९७ ॥

अर्थ—इस समयप्रवद्धमें भी ध्रुवहारका भाग देनेसे देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके विषयभूत द्रव्यका कर्मण वर्गणारूप प्रमाण निकलता है । इस एक कर्मण वर्गणामें भी एकवार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण निकलता है ।

अंगुलअसंखभागे द्द्ववियप्पे गदे दु खेत्तम्मिह ।

एगागासपदेशो वड्ढुदि संपुण्णलोगोत्ति ॥ ३९८ ॥

अङ्गुलसंख्यभागे द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्रे ।

एकाकागप्रदेशो वर्धते संपूर्णं लोक इति ॥ ३९८ ॥

अर्थ—सूत्र्यंगुलके असंख्यातमे भाग प्रमाण जब द्रव्यके विकल्प होजाय तब क्षेत्रकी

अपेक्षा एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है । इस ही क्रमसे एक २ आकाशके प्रदेशकी वृद्धि वहातक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सर्वलोक हो जाय ।

आवलिअसंखभागो जहण्णकालो क्रमेण समयेण ।

वड्ढि देसोहिवरं पल्लं समऊणयं जाव ॥ ३९९ ॥

आवलयसंख्यभागो जघन्यकालः क्रमेण समयेन ।

वर्धते देशावधिवरं पल्यं समयोनकं यावत् ॥ ३९९ ॥

अर्थ—जघन्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवलीका असंख्यातमा भाग है । इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पल्यप्रमाण काल पर्यन्त, ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धिरूप क्रमसे एक एक समयकी वृद्धि होती है ।

उक्त दोनों क्रमोंको उन्नीस काण्डकोंमें कहनेकी इच्छासे आचार्य पहले प्रथम काण्डकमें उनका ढाई गाथाओंद्वारा वर्णन करते हैं ।

अंगुलअसंखभागं ध्रुवरूपेण य असंखवारं तु ।

असंखसंखं भागं असंखवारं तु अद्भुवगे ॥ ४०० ॥

अङ्गुलासंख्यभागं ध्रुवरूपेण च असंख्यवारं तु ।

असंख्यसंख्यं भागमसंख्यवरं तु अध्रुवगे ॥ ४०० ॥

अर्थ—प्रथम काण्डकमें चरम विकल्पपर्यन्त असंख्यात वार घनाङ्गुलके असंख्यात भागप्रमाण ध्रुव वृद्धि होती है । और इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाङ्गुलके असंख्यातमें और संख्यातमे भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती है ।

ध्रुवअद्भुवरूपेण य अवरं खेत्तमिह वड्ढिदे खेत्ते ।

अवरं, कालमिह पुणो एक्केक्कं वड्ढे समयं ॥ ४०१ ॥

ध्रुवाध्रुवरूपेण च अवरं क्षेत्रे वर्द्धिते क्षेत्रे ।

अवरं काले पुनः एकैको वर्धते समयः ॥ ४०१ ॥

अर्थ—जघन्य देशावधिके विषयभूत क्षेत्रके ऊपर ध्रुवरूपसे अथवा अध्रुवरूपसे क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर जघन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है ।

संखातीदा समया पढमे पव्वम्मि उभयदो वड्ढी ।

खेत्तं कालं अस्सिय पढमादी कंडये वोच्छं ॥ ४०२ ॥

संख्यातीता समयाः प्रथमे पर्वे उभयतो वृद्धिः ।

क्षेत्र कालमाश्रित्य प्रथमादीनि काण्डकानि वक्ष्ये ॥ ४०२ ॥

अर्थ—प्रथम काण्डकमें ध्रुवरूपसे और अध्रुवरूपसे असंख्यात समयकी वृद्धि होती है । इसके आगे प्रथमादि काण्डकोंका क्षेत्र और कालके आश्रयसे वर्णन करते हैं ।

अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदोवि संखेज्जो ।

अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधत्तं ॥ ४०३ ॥

अङ्गुलावल्योः भागोऽसंख्येयोऽपि संख्येयः ।

अङ्गुलमावलयन्त आवलिकश्चाङ्गुलपृथक्त्वम् ॥ ४०३ ॥

अर्थ—प्रथम काण्डकमें जघन्य क्षेत्रका प्रमाण घनाङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, और उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण घनाङ्गुलके संख्यातमे भाग प्रमाण है । और जघन्य कालका प्रमाण आवलीका असंख्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलीका संख्यातमा भाग है, दूसरे काण्डकमें क्षेत्र घनाङ्गुलप्रमाण और काल कुछ कम एक आवली प्रमाण है । तीसरे काण्डकमें क्षेत्र घनाङ्गुल—पृथक्त्व और काल आवली—पृथक्त्व—प्रमाण है ।

आवलियपुधत्तं पुण हत्थं तह गाउयं मुहुत्तं तु ।

जोयणभिण्णमुहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं तु ॥ ४०४ ॥

आवलपृथक्त्वं पुनः हस्तस्तथा गध्यतिः मुहूर्तस्तु ।

योजनं भिन्नमुहूर्तःदिवसान्तः पञ्चविंशतिस्तु ॥ ४०४ ॥

अर्थ—चतुर्थ काण्डकमें काल आवलीपृथक्त्व और क्षेत्र हस्तप्रमाण है । पाचमे काण्डकमें क्षेत्र एक कोश और काल अन्तर्मुहूर्त है । छठे काण्डकमें क्षेत्र एक योजन और काल भिन्नमुहूर्त है । सातमे काण्डकमें काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पच्चीस योजन है ।

भरहम्मि अन्द्रमासं साहियमासं च जम्बुदीवम्मि ।

वासं च मणुवलोए वासपुधत्तं च रुचगम्मि ॥ ४०५ ॥

भस्ते अर्धमासः साधिकमासश्च जम्बुद्वीपे ।

वर्षश्च मनुजलोके वर्षपृथक्त्वं च रुचके ॥ ४०५ ॥

अर्थ—आठमे काण्डकमें क्षेत्र भरतक्षेत्र प्रमाण और काल अर्धमास (पक्ष) प्रमाण है । नौमे काण्डकमें क्षेत्र जम्बुद्वीप प्रमाण और काल एक माससे कुछ अधिक है । दशमे काण्डकमें क्षेत्र मनुष्यलोक प्रमाण और काल एक वर्षप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकमें क्षेत्र रुचक द्वीप और काल वर्षपृथक्त्व प्रमाण है ।

संखेज्जपमे वासे दीवसमुद्दा हवंति संखेज्जा ।

वासम्मि असंखेज्जे दीवसमुद्दा असंखेज्जा ॥ ४०६ ॥

संख्यातप्रमे वर्षे द्वीपसमुद्रा भवन्ति संग्न्याताः ।

वर्षे असंख्येये द्वीपसमुद्रा अमंख्येयाः ॥ ४०६ ॥

अर्थ—बारहमे काण्डकमें संख्यात वर्ष प्रमाण काल और संख्यात द्वीपसमुद्रप्रमाण क्षेत्र है । इसके आगे तेरहमे से लेकर उन्नीसमे काण्डक पर्यन्त असंख्यात वर्ष—प्रमाण काल और असंख्यात द्वीपसमुद्र—प्रमाण क्षेत्र है ।

कालविसेसेणवह्निद्विखेत्तविसेसो ध्रुवा हवे वड्डी ।

अध्रुववड्डीवि पुणो अविरोद्धं इडुकंडम्मि ॥ ४०७ ॥

कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषो ध्रुवा भवेत् वृद्धिः ।

अध्रुववृद्धिरपि पुनः अविरोद्धा इष्टकाण्डे ॥ ४०७ ॥

अर्थ—किसी विवक्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें कालविशेषका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है । इस ही तरह आविरोधरूपसे इष्ट काण्डकमें अध्रुव वृद्धिका भी प्रमाण समझना चाहिये । इस अध्रुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामे कहेंगे । भावार्थ—विवक्षित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जघन्य क्षेत्रप्रमाणको घटाने पर जो शेष रहे उसको क्षेत्रविशेष कहते हैं । और उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जघन्य कालके प्रमाणको घटानेपर जो शेष रहे उसको कालविशेष कहते हैं । किसी विवक्षित क्षेत्रविशेषमें उसके कालविशेषका भाग देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है । तथा अध्रुव वृद्धिका क्रम किसी भी विवक्षित काण्डकमें आविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये ।

अध्रुव वृद्धिका क्रम बताते हैं ।

अंगुलअसंखभागं संखं वा अंगुलं च तस्सेव ।

संखमसंखं एवं सेढीपदरस्स अध्रुवगे ॥ ४०८ ॥

अंगुलासंख्यभागः संख्यं वा अङ्गुलं तस्यैव ।

संख्यमसंख्यमेवं श्रेणीप्रतरयोः अध्रुवगायाम् ॥ ४०८ ॥

अर्थ—घनाङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, वा घनाङ्गुलके संख्यातमे भागप्रमाण वा घनाङ्गुलमात्र, वा संख्यात घनाङ्गुलमात्र, वा असंख्यात घनाङ्गुलमात्र, वा श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीके संख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात श्रेणीप्रमाण, वा असंख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे भाग—प्रमाण, वा प्रतरके संख्यातमे भाग—प्रमाण, वा प्रतरप्रमाण, वा संख्यात प्रतर—प्रमाण, वा असंख्यात प्रतर-प्रमाण प्रदेशोंकी वृद्धि होने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है । यही अध्रुव वृद्धिका क्रम है । भावार्थ—जहां पर नितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव हो, वहां पर उतने प्रकारकी वृद्धियोंमेंसे कभी किसी प्रकारकी और कभी किसी प्रकारकी प्रदेश वृद्धिके होने पर एक एक समयकी वृद्धिका होना यही अध्रुव वृद्धिका क्रम है ।

उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाण वताते है ।

कम्मइयवग्गणं ध्रुवहारेणिगिवारभाजिदे दव्वं ।

उक्कस्सं खेत्तं पुण लो गो संपुण्णओ होदि ॥ ४०९ ॥

कार्मणवर्गणा ध्रुवहारेणैकवारभाजिते द्रव्यम् ।

उत्कृष्टं क्षेत्र पुनः लोकः संपूर्णो भवति ॥ ४०९ ॥

अर्थ—कार्मण वर्गणामें एकवार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है । तथा सम्पूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है ।

पल्लसमऊण काले भावेण असंखलोगमेत्ता हु ।

दव्वस्स य पज्जाया वरदेशोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥

पल्यं समयोनं काले भावेनासंख्यलोकमात्रा हि ।

द्रव्यस्य च पर्याया वरदेशावधेर्विषया हि ॥ ४१० ॥

अर्थ—कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, और भावकी अपेक्षा असंख्यात-लोकप्रमाण द्रव्यकी पर्याय उत्कृष्ट देशावधिका विषय है । भावार्थ—काल और भाव शब्दके द्वारा द्रव्यकी पर्यायोका ग्रहण किया जाता है । इसलिये कालकी अपेक्षा एक समय कम पल्य-प्रमाण और भावकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण द्रव्यकी पर्यायोको उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान विषय करता है ।

काले चउण्ण उड्डी कालो भजिदव्व खेत्तउड्डी य ।

उड्डीए दव्वपज्जय भजिदव्वा खेत्तकाला हु ॥ ४११ ॥

काले चतुण्णा वृद्धिः कालो भजितव्यः क्षेत्रवृद्धिश्च ।

वृद्ध्या द्रव्यपर्याययो भजितव्यौ क्षेत्रकालौ हि ॥ ४११ ॥

अर्थ—कालकी वृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वृद्धि होती है । क्षेत्रकी वृद्धि होने पर कालकी वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती है । इस ही तरह द्रव्य और भावकी अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र और कालकी वृद्धि होती भी है और नहीं भी होती है । परन्तु क्षेत्र और कालकी वृद्धि होने पर द्रव्य और भावकी वृद्धि अवश्य होती है ।

देशावधिका निरूपण समाप्त हुआ, अतः क्रमप्राप्त परमावधिका निरूपण करते हैं ।

देशावहिवरदव्वं ध्रुवहारेणवहिदे हवे णियमा ।

परमावहिस्स अवरं दव्वपमाणं तु जिणदिट्ठम् ॥ ४१२ ॥

देशावधिवरद्रव्यं ध्रुवहारेणावहितं भवेत् नियमान् ।

परमाधेवर द्रव्यप्रमाणं तु जिनदिष्टम् ॥ ४१२ ॥

अर्थ—देशावधिका जो उत्कृष्ट द्रव्य—प्रमाण है उसमें ध्रुवहारका भाग देनेसे निय-
मसे परमावधिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण निकलता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ।

परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण बताते हैं ।

परमावहिस्स भेदा सगउग्गाहणवियप्पहदतेऊ ।

चरमे हारपमाणं जेडुस्स य होदि द्दव्वं तु ॥ ४१३ ॥

परमावधेर्भेदाः स्वकावगाहनविकल्पहततेजाः ।

चरमे हारप्रमाणं ज्येष्ठस्य च भवति द्रव्यं तु ॥ ४१३ ॥

अर्थ—अपनी (तेजस्कायिक जीवराशि) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण है,
उसका तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव-
धिके भेद है । इनमेंसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमें द्रव्य ध्रुवहारप्रमाण होता है ।

सव्वावहिस्स एको परमाणू होदि णिव्वियप्पो सो ।

गंगामहाणइस्स पचाहोव्व ध्रुवो हवे हारो ॥ ४१४ ॥

सर्वावधेरेकः परमाणुर्भवति निर्विकल्पः सः ।

गंगामहानद्याः प्रवाह इव ध्रुवो भवेत् हारः ॥ ४१४ ॥

अर्थ—परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें ध्रुवहारका एकवार भाग देनेसे लब्ध एक
परमाणु—मात्र द्रव्य सर्वावधिका विषय होता है । यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु
निर्विकल्पक है । भागहार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह ध्रुव है । भावार्थ—जिसतरह गंगा
महानदीका प्रवाह हिमाचलसे निकलकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा वहता हुआ पूर्व समुद्रमें
जाकर अवस्थित होगया है । उसी तरह यह भागहार जघन्य देशावधि द्रव्यप्रमा-
णसे आगे परमावधिके सर्वोत्कृष्ट द्रव्यपर्यन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुपर जाकर
अवस्थित होगया है ।

परमोहिद्दव्वभेदा जेतियमेत्ता हु तेत्तिया होंति ।

तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिदकमा ॥ ४१५ ॥

परमावधिद्रव्यभेदा यावन्मात्रा हि तावन्मात्रा भवन्ति ।

तस्यैव क्षेत्रकालविकल्पा विषया असंख्यगुणितक्रमाः ॥ ४१५ ॥

अर्थ—परमावधिके जितने द्रव्यकी अपेक्षासे भेद हैं उतने ही भेद क्षेत्र और
कालकी अपेक्षासे हैं । परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है ।

असंख्यातगुणितक्रम किस तरहसे है यह बताते हैं ।

आवलिअसंखमागा इच्छिदग्गच्छधणमाणमेत्ताओ ।

देशावहिस्स सेत्ते काले वि य होंति संवग्गे ॥ ४१६ ॥

आवलयसंख्यभागा इच्छितगच्छधनमानमात्राः ।

देशावधेः क्षेत्रे कालेऽपि च भवन्ति संवर्गो ॥ ४१६ ॥

अर्थ—किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पमें अथवा विवक्षित कालके विकल्पमें संकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके असंख्यातमे भागोको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें गुणकारका प्रमाण होता है । **भावार्थ**—परमावधिके प्रथम विकल्पमे संकल्पित धनका प्रमाण एक और दूसरे विकल्पमें तीन तथा तीसरे विकल्पमें छह चौथे विकल्पमें दश पांचमे विकल्पमें पन्द्रह छठे विकल्पमें इक्कीस सातमे विकल्पमें अट्ठाईस होता है । इसी तरह आगे भी संकल्पित धनका प्रमाण समझना चाहिये । परमावधिके जिस विकल्पके क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो, उस विकल्पके संकल्पित धनके प्रमाणकी बराबर आवलीके असंख्यातमे भागोको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसका देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके विवक्षित विकल्पके क्षेत्र और कालका प्रमाण निकलता है ।

जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां पर्यन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अङ्क रखकर सबको जोडनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता है । जैसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छह, इत्यादि ।

प्रकारान्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते हैं ।

गच्छसमा तक्कालियतीदे रूऊणगच्छधणमेत्ता ।

उभये वि य गच्छस्स य धणमेत्ता होंति गुणगारा ॥ ४१७ ॥

गच्छसमाः तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः ।

उभयेऽपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकाराः ॥ ४१७ ॥

अर्थ—विवक्षित गच्छकी जो सख्या हो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छसे अव्यवहित पूर्वके गच्छके प्रमाणमें मिला कर एक कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित गच्छकी संख्या मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है । यही गुणकारका प्रमाण है । **भावार्थ**—जैसे चौथा भेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको अव्यवहित पूर्वके भेद तीनमें मिलाकर एक कम करनेसे छह होते हैं, इसमें विवक्षित गच्छके प्रमाण चारको मिलानेसे दश होते हैं, यही गुणकारका प्रमाण है । तथा यही विवक्षित भेदका संकल्पितधन है ।

परमावहिवरखेत्तेणवहिदुक्कस्सओहिसेत्तं तु ।

सव्वावहिगुणगारो काले वि असंखलोगो दु ॥ ४१८ ॥

परमावधिवरक्षेत्रेणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्रं तु ।

सर्वावधिगुणकारः कालेऽपि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१८ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट अवधि ज्ञानके क्षेत्रमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना सर्वावधिसम्बन्धी क्षेत्रकेलिये गुणकार है । तथा सर्वावधिसम्बन्धी कालका प्रमाण लानेके लिये असंख्यात लोकका गुणकार है । **भावार्थ**—असंख्यात लोकके प्रमाणको पाचवार लोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि ज्ञानके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । इसमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे सर्वावधिके क्षेत्रसम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकलता है । अर्थात् इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है । और इस ही तरह सर्वावधिके कालका प्रमाण निकालनेकेलिये असंख्यातलोकका गुणकार है । अर्थात् असंख्यातलोकका परमावधिके उत्कृष्ट कालप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कालका प्रमाण निकलता है ।

परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण निकालनेकेलिये दो करणसूत्रोंको कहते हैं ।

इच्छिदरासिच्छेदं दिग्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्थ ।

लद्धमिददिग्णरासीणब्भासे इच्छिदो रासी ॥ ४१९ ॥

इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदैर्भाजिते तत्र ।

लब्धमितदेयराशीनामभ्यासे इच्छितो राशिः ॥ ४१९ ॥

अर्थ—विवक्षित राशिके अर्धच्छेदोंमें देय राशिके अर्धच्छेदोंका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण निकलता है ।

दिग्णच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेण पदधणे भजिदे ।

लद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरिमगुणगारो ॥ ४२० ॥

देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पदधने भजिते ।

लब्धमितलोकगुणनं परमावधिचरमगुणकारः ॥ ४२० ॥

अर्थ—देयराशिके अर्धच्छेदोंका लोकके अर्धच्छेदोंमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका विवक्षित संकल्पित धनमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतनी जगह लोकप्रमाणको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह विवक्षित पदमें क्षेत्र या कालका गुणकार होता है । ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदमें भी गुणकार जानना ।

आवलिअसंखमागा जहण्णद्वस्स होंति पज्जाया ।

कालस्स जहण्णादो असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४२१ ॥

आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यस्य भवन्ति पर्यायाः ।

कालस्य जघन्यतः असंख्यगुणहीनमात्रा हि ॥ ४२१ ॥

अर्थ—जघन्य देशावधिके विषयभूत द्रव्यकी पर्याय आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण है । और जघन्य देशावधिके विषयभूत कालका जितना प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा हीन जघन्य देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है ।

सर्वोहित्ति य कमसो आवलिअसंखभागगुणिदकमा ।

दव्वाणं भावाणं पदसंखा सरिसगा होंति ॥ ४२२ ॥

सर्वावधिरिति च क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः ।

द्रव्याना भावानां पदसंख्या. सदृशकाः भवन्ति ॥ ४२२ ॥

अर्थ—देशावधिके जघन्य द्रव्यकी पर्यायरूप भाव, जघन्य देशावधिसे सर्वावधिपर्यन्त आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणितक्रम है । अत एव द्रव्य तथा भावके पदोंकी संख्या सदृश है । भावार्थ—जहा पर देशावधिके विषयभूत द्रव्यकी अपेक्षा जघन्य भेद है वहा पर भावकी अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातमे भाग प्रमाण जघन्य भेद होता है । और जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहा भावकी अपेक्षा भी प्रथम भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा दूसरा भेद होता है । जहा पर द्रव्यकी अपेक्षा तीसरा भेद होता है वहां पर भावकी अपेक्षा दूसरे भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा भेद होता है । इस ही क्रमसे सर्वावधिपर्यन्त जानना । अवधि ज्ञानके द्रव्यकी अपेक्षासे जितने भेद है उतने ही भेद भावकी अपेक्षासे है । अत एव द्रव्य तथा भावकी पदसंख्या सदृश है ।

नरक गतिमें अवधिके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं ।

सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवडुदे ताव ।

जाव य पढमे णिरये जोरणमेक्कं हवे पुण्णं ॥ ४२३ ॥

सप्तमन्वितौ क्रोशं क्रोशम्यार्धार्धं प्रवर्धते तावत् ।

यावच्च प्रथमे निरये योजनमेक भवेत् पूर्णम् ॥ ४२३ ॥

अर्थ—सातमी भूमिमें अवधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है । इसके ऊपर आध २ कोस की वृद्धि तब तक होती है जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण पूर्ण एक योजन हो । भावार्थ—सातमी पृथ्वीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है । इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि—क्षेत्र पर्यन्त क्रमसे आध २ कोसकी वृद्धि होती है । प्रथम भूमिमें अवधि—क्षेत्रका प्रमाण एक योजन है ।

तिर्यग्गति और मनस्यगतिमें अवधिके बताते हैं ।

तिरिच्ये अवरं ओघो तेजोयंते य होदि उक्कस्सं ।

मणुए ओघं देवे जहाकमं सुणह वोच्छामि ॥ ४२४ ॥

तिरिश्चि अवरमोघः तेजोऽन्ते च भवति उत्कृष्टम् ।

मनुजे ओघः देवे यथाक्रमं शृणुत वट्यामि ॥ ४२४ ॥

अर्थ—तिर्यञ्चोके अवाधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टताकी अपेक्षा उस भेदपर्यन्त होता है कि जो देशावधिका भेद तैजस शरीरको विषय करता है । मनुष्य गतिमें अवाधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टतया सर्वावधिपर्यन्त होता है । देवगतिमें अवाधि ज्ञानको यथाक्रमसे कहूंगा सो सुनो ।

प्रतिज्ञाके अनुसार देवगतिमें अवाधिके क्षेत्रादिका वर्णन करते हैं ।

पणुवीसजोयणाइं दिवसंतं च य कुमारभोम्माणं ।

संखेज्जगुणं खेत्तं बहुगं कालं तु जोइसिगे ॥ ४२५ ॥

पञ्चविशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभौमयोः ।

संख्यातगुणं क्षेत्रं बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२५ ॥

अर्थ—भवनवासी और व्यन्तरोकी अवाधिके क्षेत्रका जघन्य प्रमाण पच्चीस योजन और जघन्य काल कुछ कम एक दिन है । और ज्योतिषी देवोकी अवाधिका क्षेत्र इससे संख्यातगुणा है और काल इससे बहुत अधिक है ।

असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोइसंताणं ।

संखातीदसहस्सा उक्कस्सोहीण विसओ हु ॥ ४२६ ॥

असुराणामसंख्येयाः कोट्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम् ।

संख्यातीतसहस्रा उत्कृष्टावधीना विषयस्तु ॥ ४२६ ॥

अर्थ—असुरकुमारोंकी अवाधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है । शेष नौ प्रकारके भवनवासी तथा व्यन्तर और ज्योतिषी इनकी अवाधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात हजार योजन है ।

असुराणमसंखेज्जा वस्सा पुण सेसजोइसंताणं ।

तरसंखेज्जादिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥ ४२७ ॥

असुराणामसंख्येयानि वर्षाणि पुनः शेषज्योतिष्कान्तानाम् ।

तत्संख्यातभागं कालेन च भवति नियमेन ॥ ४२७ ॥

अर्थ—असुरकुमारोंकी अवाधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है । और शेष नौ प्रकारके भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवाधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असुरोकी अवाधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातमें भागमात्र है ।

भवणतियाणमधोधो थोवं तिरिथेण होदि बहुगं तु ।
उड्ढेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ ४२८ ॥

भवनत्रिकाणामधोऽधः स्तोके तिरश्चा भवति बहुकं तु ।

ऊर्ध्वेन भवनवासिनः सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥ ४२८ ॥

अर्थ—भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता है और तिर्यग् रूपसे अधिक होता है । तथा भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थानसे सुरगिरिके (मेरुके) शिखरपर्यन्त अवधिदर्शनके द्वारा देखते हैं ।

सक्कीसाणा पढमं विदियं तु सणक्कुमारमाहिंदा ।
तदियं तु बम्हलांतव सुक्कसहस्सारया तुरियं ॥ ४२९ ॥

शकैशानाः प्रथमं द्वितीयं तु सनत्कुमारमाहेन्द्राः ।

तृतीयं तु ब्रह्मलान्तवाः शुक्कसहस्वारकाः तुरियम् ॥ ४२९ ॥

अर्थ—सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपर्यन्त देखते हैं । सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देव दूसरी पृथ्वीतक देखते हैं । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातव कापिष्ठ स्वर्गवाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं । शुक्क महाशुक्क शतार सहस्वार स्वर्गके देव चौथी भूमि तक देखते हैं ।

आणदपाणदवासी आरण तह अच्चुदा य पस्संति ।
पंचमखिदिपेरंतं छट्ठिं गेवेज्जगा देवा ॥ ४३० ॥

आनतप्राणतवासिनः आरणास्तथा अच्युताश्च पश्यन्ति ।

पञ्चमक्षितिपर्यन्तं षष्ठीं त्रैवेयका देवाः ॥ ४३० ॥

अर्थ—आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्गके देव पाचमी भूमि तक अवधिके द्वारा देखते हैं । और त्रैवेयकवासी देव छठी भूमि तक देखते हैं ।

सव्वं च लोयणालिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा ।
सक्खेत्ते य सकम्मे रुव्वगदमणंतभागं च ॥ ४३१ ॥

सर्वा च लोकनाली पश्यन्ति अनुत्तरेषु ये देवाः ।

स्वक्षेत्रे च स्वकर्मणि रूपगतमनन्तभाग च ॥ ४३१ ॥

अर्थ—अनुत्तरवासी देव सम्पूर्ण लोकनालीको अवधिद्वारा देखते हैं । अवधिके विषयभूत क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमें से एक २ कम करते जाना चाहिये और अवधिज्ञानावरण कर्मका जितना द्रव्य है उसमें ध्रुवहारका भाग देने जाना चाहिये । अवधिके क्षेत्ररूप प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहा तक कम करना चाहिये । और अवधिज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्यमें ध्रुवहारका भाग कहा तक देने जाना चाहिये ! इमीको आंग स्पष्ट करते हैंः—

कल्पसुराणं सगसगओहीखेत्तं विविस्ससोवचयं ।

ओहीद्व्वपमाणं संठाविय ध्रुवहरेण हरे ॥ ४३२ ॥

सगसगखेत्तपदेससलायपमाणं समप्पदे जाव ।

तत्थतणचरिमखंडं तत्थतणोहिस्स द्दव्वं तु ॥ ४३३ ॥

कल्पसुराणा स्वकस्वकावधिकेत्तं विविस्ससोपचयम् ।

अवधिद्रव्यप्रमाणं सस्थाप्य ध्रुवहरेण हरेत् ॥ ४३२ ॥

स्वकस्वकक्षेत्रप्रदेशशलाकाप्रमाणं समाप्यते यावत् ।

तत्रतनचरमखण्डं तत्रतनावधेद्रव्यं तु ॥ ४३३ ॥

अर्थ—कल्पवासी देवोमे अपनी २ अवधिके क्षेत्रका जितना २ प्रमाण है उसका एक जगह स्थापन कर, और दूसरी जगह विस्त्रसोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्यका स्थापन कर, द्रव्यप्रमाणमे ध्रुवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रमाणमें एक कम करना चाहिये । द्रव्यप्रमाणमे ध्रुवहारका एकवार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमें दूसरीवार ध्रुवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयमे एक और कम करना चाहिये । दूसरी वार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमें तीसरी वार ध्रुवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयमें तीसरी वार एक कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें ध्रुवहारका भाग, एक २ प्रदेश कम करते २ जब सम्पूर्ण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त होजाय वहा तक देना चाहिये । इसतरह प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कम करते २ और द्रव्यप्रमाणमे ध्रुवहारका भाग देते २ जहा पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहा पर द्रव्यका जो स्कन्ध शेष रहे उतने स्कन्धको अवधिके द्वारा वे कल्पवासी देव जानते है कि जिनकी अवधिके विषयभूत क्षेत्रका प्रदेशप्रचय विवक्षित हो । भावार्थ—जैसे सौधर्म और ईशानकल्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथम नरक पर्यंत है । ईशान कल्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक डेढ़ राजू है । इसलिये एक राजू लम्बे चौड़े और डेढ़ राजू ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हो उनको एक जगह रखना, और दूसरी जगह अवधि जानावरण कर्मके द्रव्यका स्थापन करना । द्रव्यप्रमाणमें एक वार ध्रुवहारका भागदेना और प्रदेशप्रमाणमेसे एक कम करना । इस पहली वार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आया उस द्रव्यप्रमाणमे दूसरीवार ध्रुवहारका भाग देना और प्रदेशप्रमाणमेसे दूसरा एक और कम करना । इस तरह प्रदेशप्रमाणमेसे एक २ कम करते २ तथा उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें ध्रुवहारका भाग देते २ प्रदेशप्रचय समाप्त होनेपर द्रव्यका जो परिमाण शेष रहे उतने प्रमाणोंके सूक्ष्म पदलस्कन्धको सौधर्म और ईशान कल्पवासी देव अवधिके द्वारा जानते हैं । उतने सूक्ष्मको तो जानने ही है, किन्तु इससे सूक्ष्मको नहीं जानते । इस ही तरह अगे भी समझना ।

सौधर्म ईशान कल्पवासी देवोंका क्षेत्र डेढ़राजू, सनत्कुमार माहेन्द्रवाल्लोंका चार राजू, ब्रह्म ब्रह्मोत्तरवाल्लोंका साढ़े पांच राजू, लांतव कापिष्ठवाल्लोंका छह राजू, शुक्र महाशुक्रवाल्लोंका साढ़े सात राजू, सतार सहस्वारवाल्लोंका आठ राजू, अनात प्राणतवाल्लोंका साढ़े नव-राजू, आरण अच्युतवाल्लोंका दश राजू, त्रैवेयकवाल्लोंका ग्यारह राजू, अनुदिश विमानवाल्लोंका कुछ अधिक तेरह राजू, अनुत्तरविमानवाल्लोंका कुछ कम चौदह राजू क्षेत्र है। इस क्षेत्रप्रमाणके अनुसार ही उनकी (कल्पवासी देवों की) अवधिके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण उक्त क्रमानुसार निकलता है।

सौहर्मीसाणाणमसंखेज्जाओ हु वस्सकोडीओ ।

उवरिमकप्पचउक्के पल्लासंखेज्जभागो हु ॥ ४३४ ॥

ततो लांतवकप्पप्पहुदी सव्वत्थसिद्धिपेरंतं ।

किंचूणपल्लमेत्तं कालप्रमाणं जहाजोग्गम् ॥ ४३५ ॥

सौधर्मैशानानामसंख्येया हि वर्षकोट्यः ।

उपरिमकल्पचतुष्के पल्यासंख्यातभागस्तु ॥ ४३४ ॥

ततो लान्तवकल्पप्रभृति सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तम् ।

किञ्चिदूनपल्यमात्रं कालप्रमाणं यथायोग्यम् ॥ ४३५ ॥

अर्थ—सौधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंकी अवधिका काल असंख्यात कोटि वर्ष है। इसके ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवाले देवोंकी अवधिका काल यथायोग्य पल्यका असंख्यातमा भाग है। इसके ऊपर लान्तव स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त वाले देवोंकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है।

जोइसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ण होंति वणपदरा ।

कप्पसुराणं च पुणो विसरित्थ आयदं होदि ॥ ४३६ ॥

ज्योतिष्कान्तानामवाधिक्षेत्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि ।

कल्पसुराणां च पुनः विसदशमायतं भवति ॥ ४३६ ॥

अर्थ—भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बराबर घनरूप नहीं है। कल्पवासी देवोंकी अवधिका क्षेत्र आयतचतुरस्र (चौकोर; किन्तु लम्बईमें अधिक और चौड़ाईमें थोड़ा) है। शेष मनुष्य तिर्यंच नारकी इनकी अवधिका विषयभूत क्षेत्र बराबर घनरूप है।

॥ इति अवाधिज्ञानप्ररूपणा ॥

मनःपर्यय ज्ञानका स्वरूप व्रतते है ।

चित्तियमचित्तियं वा अद्भ्रंचित्तियमणेयभेयगयं ।

मणपज्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णरलोए ॥ ४३७ ॥

चिन्तितमचिन्तितं वा अर्धं चिन्तितमनेकभेदगतम् ।

मनःपर्यय इत्युच्यते यज्जानाति तत्खलु नरलोके ॥ ४३७ ॥

अर्थ—जिसका भूत कालमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत् कालमें चिन्तवन किया जायगा, अथवा वर्तमानमें जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक भेदस्वरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं । यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है, बाहर नहीं ।

मनःपर्ययके भेदोंको गिनाते हैं ।

मणपञ्जवं च दुविहं उजुविडलमदिति उजुमदी तिविहा ।

उजुमणवयणे काए गदत्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥

मनःपर्ययश्च द्विविधः ऋजुविपुलमतीति ऋजुमतिस्त्रिविधा ।

ऋजुमनोवचने काये गतार्थविषया इति नियमेन ॥ ४३८ ॥

अर्थ—सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्यय एक प्रकारका है । और विशेष भेदोंकी अपेक्षा दो प्रकारका है । एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति । ऋजुमतिके भी तीन भेद हैं । ऋजुमनोगतार्थ-विषयक, ऋजुवचनगतार्थविषयक, ऋजुकायगतार्थविषयक । परकीयमनोगत होने पर भी जो सरलतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थको विषय करनेवाले ज्ञानको ऋजुमति कहते हैं । अतएव सरल मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदार्थको विषय करनेकी अपेक्षा ऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं ।

विडलमदीवि य छद्धा उजुगाणुजुवयणकायचित्तगयं ।

अत्थं जाणदि जम्हा सदत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥

विपुलमतिरपि च षोढा ऋजुगानृजुवचनकायचित्तगतम् ।

अर्थ जानाति यस्मात् शब्दार्थगता हि तेषामर्थाः ॥ ४३९ ॥

अर्थ—विपुलमतिके छह भेद हैं । ऋजु मन वचन कायगत पदार्थको विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद, और कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदार्थको विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपर्ययके विषय शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकारके होते हैं ।

तियकालविसयरूविं चिंतितं वट्टमाणजीवेण ।

उजुमदिणाणं जाणदि भूदभविस्सं च विडलमदी ॥ ४४० ॥

त्रिकालविषयरूपि चिंतितं वर्तमानजीवेन ।

ऋजुमतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यच्च विपुलमतिः ॥ ४४० ॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्य त्रिकालविषयक है । उसमें वर्तमान जीवके द्वारा चिन्त्यमान (वर्तमानमें जिसका चिंतवन किया जा रहा है) पदार्थको ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है । और विपुलमतिज्ञान भूत भविष्यत्को भी जानता है । **भावार्थ**—जिसका मूतकालमें चिन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यत्में चिन्तवन किया जायगा यद्वा वर्तमानमें जिसका चिन्तवन होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थको विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है ।

सव्वंगअंगसंभवचिण्हादुप्पज्जदे जहा ओही ।

मणपज्जवं च दव्वमणादो उप्पज्जदे णियमा ॥ ४४१ ॥

सर्वाङ्गाङ्गसम्भवचिह्नादुत्पद्यते यथावधिः ।

मनःपर्ययं च द्रव्यमनस्त उत्पद्यते नियमात् ॥ ४४१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अवधिज्ञान शंखादि शुभ चिह्नोंसे युक्त समस्त अङ्गसे उत्पन्न होता है । उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहांपर द्रव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है । **भावार्थ**—जहांपर द्रव्य मन होता है उस स्थानपर जो आत्माके प्रदेश है वहीं मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता और वहीसे मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है । किन्तु अवधि सर्वाङ्गसे होती है; क्योंकि यद्यपि अवधि शंखादि चिह्नों के स्थानसे ही होती है तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्यमन की तरह निश्चित नहीं है । यह उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा अवधि और मनःपर्यय ज्ञानमें अंतर है ।

हिदि होदि हु दव्वमणं वियसियअट्टच्छदारविदं वा ।

अङ्गोबंगुदयादो मणवग्गणखंधदो णियमा ॥ ४४२ ॥

हृदि भवति हि द्रव्यमनः विकसिताष्टद्वारविदवत् ।

आङ्गोपाङ्गोदयात् मनोवर्गणास्कन्धतो नियमात् ॥ ४४२ ॥

अर्थ—आङ्गोपाङ्गनामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धोंके द्वारा हृदयस्थानमें नियमसे विकसित आठ पाखडीके कमलके आकारमें द्रव्यमन उत्पन्न होता है ।

णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदियाणं वा ।

वत्तत्ताभावादो मणमणपज्जं च तत्थ हवे ॥ ४४३ ॥

नेइन्द्रियमिति संज्ञा तस्य भवेत् शेषेन्द्रियाणा वा ।

व्यक्तत्वाभावात् मनो मन पर्ययश्च तत्र भवेत् ॥ ४४३ ॥

अर्थ—इस द्रव्यमनकी नेइन्द्रिय संज्ञा भी है; क्योंकि दूसरी इन्द्रियोंकी तरह यह व्यक्त नहीं है । इस द्रव्यमन के होनेपर ही भावमन तथा मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है ।

मनःपर्यय ज्ञान का स्वामी बताते हैं ।

मणपज्जवं च णाणं सत्तसु विरदेसु सत्तइड्डीणं ।

एगादिजुदेसु हवे वड्ढंतविसिद्धचरणेसु ॥ ४४४ ॥

मनःपर्ययश्च ज्ञानं सत्तसु विरतेषु सत्तर्धानाम् ।

एकादियुतेषु भवेत् वर्धमानविशिष्टाचरणेषु ॥ ४४४ ॥

अर्थ—प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानवालेके, इस पर भी सात ऋद्धियोंमेंसे किसी एक ऋद्धिको धारण करनेवालेके, ऋद्धिप्राप्तमें भी वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रको धारणकरनेवालेके ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है ।

इंद्रियणोइंद्रियजोगादिं पेक्खित्तु उज्जुमदी होदि ।

णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥

इन्द्रियनोइन्द्रिययोगादिमपेक्ष्य ऋजुमतिर्भवति ।

निरपेक्ष्य विपुलमतिः अवाधिर्वा भवति नियमेन ॥ ४४५ ॥

अर्थ—अपने तथा परके स्पर्शनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग काययोग वचन-योगकी अपेक्षासे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है । अर्थात् वर्तमानमें विचार-प्राप्त स्पर्शनादिके विषयोंको ऋजुमति जानता है । किन्तु विपुलमति अवधिकी तरह इनकी अपेक्षाके बिना ही नियमसे होता है ।

पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया हु ।

सुद्धो पढमो बोहो सुद्धतरो विदियबोहो हु ॥ ४४६ ॥

प्रतिपाती पुनः प्रथमः अप्रतिपाती हि भवति द्वितीयो हि ।

शुद्धः प्रथमो बोधः शुद्धतरो द्वितीयबोधस्तु ॥ ४४६ ॥

अर्थ—ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि ऋजुमतिवाला उपशमक तथा क्षपक दोनों श्रेणियोंपर चढ़ता है । उसमें यद्यपि क्षपककी अपेक्षा ऋजुमतिवालेका पतन नहीं होता; तथापि उपशम श्रेणीकी अपेक्षा पतन सम्भव है । विपुलमति सर्वथा अप्रतिपाती है । तथा ऋजुमति शुद्ध है, और विपुलमति इससे भी शुद्ध होता है ।

परमणांसिट्ठियमद्वं ईहामदिणा उज्जुट्ठियं लहिय ।

पच्छा पच्चक्खेण य उज्जुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥

परमनसिस्थितमर्थमीहामत्या ऋजुस्थितं लब्ध्वा ।

पश्चात् प्रत्यक्षेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात् ॥ ४४७ ॥

अर्थ—ऋजुमतिवाला दूसरेके मनमें सरलताके साथ स्थित पदार्थको पहले ईहामति-ज्ञानके द्वारा जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूपसे नियमसे ऋजुमति ज्ञानके द्वारा जानता है ।

चिंतियमचिंतियं वा अद्धं चिंतियमणेयमेयगयं ।

ओहिं वा विउलमदी लहिऊण विजाणए पच्छा ॥ ४४८ ॥

चिन्तितमचिन्तितं वा अद्धं चिन्तितमनेकभेदगतम् ।

अवधिर्वा विपुलमतिः लब्ध्वा विजानाति पश्चात् ॥ ४४८ ॥

अर्थ—चिन्तित अचिन्तित अर्धचिन्तित इस तरह अनेक भेदोंको प्राप्त दूसरेके मनोगत पदार्थको अवधिकी तरह विपुलमति प्रत्यक्षरूपसे जानता है ।

द्व्वं खेत्तं कालं भावं पडि जीवलक्खियं रूपिं ।

उजुविउलमदी जाणदि अवरवरं मज्झिमं च तथा ॥ ४४९ ॥

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रति जीवलक्षितं रूपि ।

ऋजुविपुलमती जानीतः अवरवरं मध्यमं च तथा ॥ ४४९ ॥

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे रूपि (पुद्गल) द्रव्यको तथा उसके सम्बन्धसे जीवद्रव्यको भी ऋजुमति और विपुलमति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन प्रकारसे जानते हैं ।

ऋजुमतिकी जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं ।

अवरं द्द्वमुदालियसरीरणिज्जिण्णसमयवद्धं तु ।

चक्खिदियणिज्जण्णं उक्कस्सं उजुमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥

अवरं द्रव्यमौरालिकशरीरनिर्जीर्णसमयप्रवद्धं तु ।

चक्षुरिन्द्रियनिर्जीर्णमुत्कृष्टमृजुमतेर्भवेत् ॥ ४५० ॥

अर्थ—औदारिक शरीरके निर्जीर्ण समयप्रवद्धप्रमाण ऋजुमतिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण है । तथा चक्षुरिन्द्रियकी निर्जरा—द्रव्य—प्रमाण उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है ।

विपुलमतिके द्रव्यका प्रमाण बताते हैं ।

मणद्व्ववग्गणाणमणंतिमभागेण उजुगउक्कस्सं ।

खंडिदमेत्तं होदि हु विउलमदिस्सावरं द्द्वं ॥ ४५१ ॥

मनोद्रव्यवर्गणानामनन्तिमभागेण ऋजुगोत्कृष्टम् ।

खण्डितमात्र भवति हि विपुलमतेरवर द्रव्यम् ॥ ४५१ ॥

अर्थ—मनोद्रव्यवर्गणाके जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे लब्ध एक भागप्रमाण ध्रुवहारका, ऋजुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमे भाग देनेसे जो लब्ध आते उतने द्रव्यस्वरूपको विपुलमति जघन्यकी अपेक्षासे जानना है ।

अदृण्हं कम्ममाणं समयपवद्धं विविस्ससोवचयम् ।

ध्रुवहारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे द्द्वं ॥ ४५२ ॥

अष्टानां कर्मणां समयप्रवद्धं विविक्सोपचयम् ।

ध्रुवहारेणैकवारं भजिते द्वितीयं भवेत् द्रव्यम् ॥ ४९२ ॥

अर्थ—विक्सोपचयसे रहित आठ कर्मोंके समयप्रवद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना विपुलमतिके द्वितीय द्रव्यका प्रमाण होता है ।

तद्विदियं कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं ।

ध्रुवहारेणवहरिदे होदि हु उक्कस्सयं द्दवं ॥ ४५३ ॥

तद्वितीयं कल्पानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमम् ।

ध्रुवहारेणावहृते भवति हि उत्कृष्टकं द्रव्यम् ॥ ४९३ ॥

अर्थ—असंख्यात कल्पों के जितने समय है उतनी वार विपुलमतिके द्वितीय द्रव्यमें ध्रुवहारका भाग देनेसे विपुलमतिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण निकलता है ।

गाउयपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं ।

विउलमदिसस य अवरं तस्स पुधत्तं वरं खु णरलोयं ॥ ४५४ ॥

गव्यूतिपृथक्त्वमवरमुत्कृष्टं भवति योजनपृथक्त्वम् ।

विपुलमतेश्च अवरं तस्य पृथक्त्वं वरं खलु नरलोकः ॥ ४९४ ॥

अर्थ—ऋजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है । विपुलमतिका जघन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट मनुष्यलोकप्रमाण है ।

णरलीएत्ति य वयणं विक्खंभणियामयं ण वड्डस्स ।

जम्हा तग्घणपदरं मणपज्जवखेत्तमुद्धिं ॥ ४५५ ॥

नरलोक इति च वचनं विष्कम्भनियामकं न वृत्तस्य ।

यस्मात् तद्धनप्रतरं मनःपर्ययक्षेत्रमुद्धिम् ॥ ४९५ ॥

अर्थ—मनःपर्ययके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण जो नरलोकप्रमाण कहा है सो नरलोक इस शब्दसे मनुष्यलोकका विष्कम्भ ग्रहण करना चाहिये नकि वृत्त; क्योंकि दूसरेके द्वारा चिंतित और मानुषोत्तर पर्वतके बाहर स्थित पदार्थको भी विपुलमति जानता है; क्योंकि मनःपर्यय ज्ञानका उत्कृष्ट क्षेत्र समचतुरस्र घनप्रतररूप पैतालीस लाख योजनप्रमाण है ।

दुगतिगभवा हु अवरं सत्तद्दुभवा हवंति उक्कस्सं ।

अडणवभवा हु अवरमसंखेज्जं विउलउक्कस्सं ॥ ४५६ ॥

द्विकत्रिकभवा हि अवरं सप्ताष्टभवा भवन्ति उत्कृष्टम् ।

अष्टनवभवा हि अवरमसंख्येयं विपुलोत्कृष्टम् ॥ ४९६ ॥

अर्थ—कालकी अपेक्षासे ऋजुमतिका विषयभूत जघन्य काल दो तीन भव और उत्कृष्ट सात आठ भव, तथा विपुलमतिका जघन्य आठ नौ भव और उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण है ।

आवलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं ।
तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥ ४५७ ॥

आवलयसंख्यभागमवरं च वरं च वरमसंख्यगुणम् ।

ततःअसंख्यगुणितमसंख्यलोक तु विपुलमतिः ॥ ४५७ ॥

अर्थ—भावकी अपेक्षासे ऋजुमत्तिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवलीके असंख्या-
तमे भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है । विपुलमत्तिका
जघन्यप्रमाण ऋजुमत्तिके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, और उत्कृष्ट विषय असंख्यात
लोकप्रमाण है ।

मज्झिमद्ववं खेतं कालं भावं च मज्झिमं णाणं ।

जाणादि इदि मणपज्जवणाणं कहिदं समासेण ॥ ४५८ ॥

मध्यमद्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं च मध्यमं ज्ञानम् ।

जानातीति मनःपर्ययज्ञानं कथितं समासेन ॥ ४५८ ॥

अर्थ—इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भावका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके
मध्यके जितने भेद है उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते है । इस तरह
संक्षेपसे मनःपर्यय ज्ञानका निरूपण किया ।

केवलज्ञानका निरूपण करते है ।

संपुण्णं तु समग्रं केवलमसपत्तं सव्वभावगयं ।

लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेद्ववं ॥ ४५९ ॥

सम्पूर्णं तु समग्रं केवलमसपत्तं सर्वभावगतम् ।

लोकालोकवितिमिरं केवलज्ञानं मन्तव्यम् ॥ ४५९ ॥

अर्थ—यह केवलज्ञान, सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपदार्थगत, और लोका-
लोकमें अन्धकार रहित होता है । भावार्थ—यह ज्ञान समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला
है और लोकालोकके विषयमें आवरण रहित है । तथा जीवद्रव्यकी ज्ञान शक्तिके जितने अंश
है वे यहापर सम्पूर्ण व्यक्त होगये है इसलिये उसको (केवल ज्ञानको) सम्पूर्ण कहते है ।
मोहनीय और अन्तरायका सर्वथा क्षय होजानेके कारण वह अप्रतिहतशक्ति युक्त है, अत
एव उसको समग्र कहते है । इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये केवल
कहते है । समस्त पदार्थोंके विषयकरनेमें उसका कोई बाधक नहीं है इसलिये उसको असपत्त
(प्रतिपक्षरहित) कहते है ।

ज्ञानमार्गणामें जीवसंख्याका निरूपण करते है ।

चट्टुगदिमदिनुदबोहा पल्लासंखेज्जया हु मणपज्जा ।

संखेज्जा केवलिणो सिद्धादो होंति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥

चतुर्गतिमतिश्रुतबोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्ययाः ।

संख्येयाः केवलिनः सिद्धात् भवन्ति अतिरिक्ताः ॥ ४६० ॥

अर्थ—चारो गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्रुतज्ञानियोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण है । और मनःपर्ययवाले कुल संख्यात है । तथा केवलियोंका प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ अधिक है । भावार्थ—सिद्धराशिमे जिनकी (अर्हन्तोंकी) संख्या मिलानेसे केवलियोंका प्रमाण होता है ।

ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणिअसंखभागगा मणुगा ।

संखेज्जा हु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं ॥ ४६१ ॥

अवधिरहिताः तिर्यञ्चः मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजाः ।

संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिनः परिमाणम् ॥ ४६१ ॥

अर्थ—अवधिज्ञानरहित तिर्यञ्च-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग, और अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंको मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण है ।

पल्लासंखघणंगुलहदसेठितिरिक्खगदिविभङ्गजुदा ।

णरसहिदा किंचूणा चदुगदिवेभङ्गपरिमाणम् ॥ ४६२ ॥

पल्यासंख्यघनाङ्गुलहतश्रेणितिर्यग्गतिविभगयुताः ।

नरसहिताःकिञ्चिदूनाः चतुर्गतिवैभङ्गपरिमाणम् ॥ ४६२ ॥

अर्थ—पल्यके असंख्यातमे भागसे गुणित घनाङ्गुलका और जगच्छ्रेणीका गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने तिर्यञ्च, और संख्यात मनुष्य, घनाङ्गुलके द्वितीय वर्गमूलसे गुणित जगच्छ्रेणी प्रमाण नारकी^१, तथा सम्यग्दृष्टियोंके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशि, इन चारों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने विभङ्गज्ञानी है ।

सण्णाणरासिपंचयपरिहीणो सव्वजीवरासी हु ।

मदिसुदअण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाणं ॥ ४६३ ॥

सदूज्ञानराशिपञ्चकपरिहीनः सर्वजीवराशिर्हि ।

मतिश्रुताज्ञानिना प्रत्येक भवति परिमाणम् ॥ ४६३ ॥

अर्थ—पांच सम्यग्ज्ञानी जीवोंके प्रमाणको (केवलियोंके प्रमाणसे कुछ अधिक) सम्पूर्ण जीवराशिके प्रमाणमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने कुमतिज्ञानी तथा उतने ही कुश्रु तज्ञानी जीव है ।

इति ज्ञानमार्गणाधिकारः ॥

॥ अथ संयममार्गणाधिकारः ।

वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं ।

धारणपालणणिग्गहचागजओ संजमो भणिओ ॥ ४६४ ॥

व्रतसमितिकषायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणा पञ्चानाम् ।

धारणपालननिग्रहत्यागजयः संयमो भणितः ॥ ४६४ ॥

अर्थ—अहिंसा अचौर्य सत्य शील (ब्रह्मचर्य) अपरिग्रह इन पांच महाव्रतोंका धारण करना, इर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेण उत्सर्ग इन पांच समितियोंका पालना, चारप्रकारकी कषायोंका निग्रह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियोंका जय, इसको संयम कहते हैं । अतएव संयमके पांच भेद हैं ।

संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं ।

बादरसंजलणुदये सुहुमुदये समखये य मोहस्स ।

संजमभावो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिट्ठिं ॥ ४६५ ॥

बादरसंज्वलनोदये सूक्ष्मोदये शमक्षययोश्च मोहस्य ।

संयमभावो नियमात् भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ४६५ ॥

अर्थ—बादर संज्वलनके उदयसे अथवा सूक्ष्मलोभके उदयसे और मोहनीय कर्मके उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । इसी अर्थको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं ।

बादरसंजलणुदये बादरसंजमतियं खु परिहारो ।

पमदिदरे सुहुमुदये सुहुमो संजमगुणो होदि ॥ ४६६ ॥

बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रिकं खलु परिहारः ।

प्रमत्तेतरस्मिन् सूक्ष्मोदये सूक्ष्म संयमगुणो भवति ॥ ४६६ ॥

अर्थ—जो संयमके विरोधी नहीं है ऐसे बादर संज्वलन कषायके देशघाति स्पर्धकोंके उदयसे सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तान चारित्र होते हैं । इनमेंसे परिहारविशुद्धि संयम तो प्रमत्त और अप्रमत्तमें ही होता है, किन्तु सामायिक और छेदोपस्थापना प्रमत्तादि अनिवृत्तिकरणपर्यन्त होते हैं । मूष्मकृष्टिको प्राप्त सज्वलन लोभके उदयसे मूष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती संयम होता है ।

जहरखादसंजमो पुण उवसमदो होदि मोहणीयस्स ।

खयदो वि च सो णियमा होदित्ति जिणेहिं णिट्ठिं ॥ ४६७ ॥

यथाख्यातसंयमः पुनः उपशमतो भवति मोहनीयन्य ।

क्षयतोऽपि च स नियमात् भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ४६७ ॥

अर्थ—यथाख्यात संयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशम तथा क्षयसे भी होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

तद्विद्यकसायुदयेण य विरदाविरदो गुणो हवे जुगवं ।

विद्विद्यकसायुदयेण य असंजमो होदि णियमेण ॥ ४६८ ॥

तृतीयकषायोदयेन च विरताविरतो गुणो भवेत् युगपत् ।

द्वितीयकषायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन ॥ ४६८ ॥

अर्थ—तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे विरताविरत=देशविरत=मिश्रविरत पांचमा गुणस्थान होता है । और दूसरी अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे असंयम (संयमका अभाव) होता है ।

सामायिक संयमका निरूपण करते हैं ।

संगहिय सयलसंजमयेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं ।

जीवो समुव्वहंतो सामाइयसंजमो होदि ॥ ४६९ ॥

संगृह्य सकलसंयममेकयममनुत्तरं दुरवगम्यम् ।

जीवः समुद्रहन् सामायिकसंयमो भवति ॥ ४६९ ॥

अर्थ—उक्त व्रतधारण आदिक पांच प्रकारके संयममे संग्रह नयकी अपेक्षासे अभेद करके “ मैं सर्व सावद्यका त्यागी हूँ ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावद्यका त्याग करना इसको सामायिक संयम कहते हैं । यह संयम अनुपम तथा दुर्धर्ष है । इसके पालन करने वालेको सामायिकसंयम (मी) कहते हैं ।

छेदोपस्थापना संयमका निरूपण कहते हैं ।

छेत्तूण य परिचायं पोरणं जो ठवेइ अप्पाणं ।

पंचजमे धम्मे सो छेदोवहावगो जीवो ॥ ४७० ॥

छित्त्वा च पर्यायं पुराण यः स्थापयति आत्मानम् ।

पंचयमे धर्मे सः छेदोपस्थापको जीवः ॥ ४७० ॥

अर्थ—प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावद्य क्रियाके करनेरूप सावद्यपर्याय होती है, उसका प्रायश्चित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी आत्माको व्रतधारणादिक पांचप्रकारके संयमरूप धर्ममें स्थापन करता है उसको छेदोपस्थापनसंयमी कहते हैं ।

परिहारविशुद्धिसंयमीका स्वरूप बताते हैं ।

पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावज्जं ।

पंचेक्कजमो पुरिसो परिहारयसंजदो सो हु ॥ ४७१ ॥

पञ्चसमितः त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि सावद्यम् ।

पञ्चैकयमः पुरुषः परिहारकसंयतः स हि ॥ ४७१ ॥

अर्थ—पांच प्रकारके संयमियोंमेंसे जो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा सावद्यका त्याग करता है उस पुरुषको परिहारविशुद्धिसंयमी कहते हैं ।
इसीका विशेष स्वरूप कहते हैं ।

तीसं वासो जम्मे वासपुधत्तं खु तित्थयरमूले ।

पञ्चक्खाणं पठिदो संझूणदुगाउयविहारो ॥ ४७२ ॥

त्रिंशद्द्वार्षो जन्मनि वर्षपृथक्त्वं खलु तीर्थकरमूले ।

प्रत्याख्यानं पठितः संध्योन्द्धिगव्यूतिविहारः ॥ ४७२ ॥

अर्थ—जन्मसे तीस वर्षतक सुखी रहकर दीक्षा ग्रहण करके श्री तीर्थकरके पादमूलमे आठ वर्षतक प्रत्याख्यान नामक नौमे पूर्वका अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता है । इस संयमवाला जीव तीन संध्याकालोंको छोड़कर दो कोस पर्यन्त गमन करता है; किन्तु रात्रिको गमन नहीं करता । और वर्षकालमें गमन करनेका नियम नहीं है ।
भावार्थ—जिस संयममें परिहारके साथ विशुद्धि हो उसको परिहारविशुद्धि संयम कहते हैं । प्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते हैं । इस संयमवाला जीव जीवराशिमें विहार करता हुआ भी जलसे कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नहीं होता ।

सूक्ष्मसाम्पराय संयमवालेका स्वरूप बताते हैं ।

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो व खवगो वा ।

सो सुहुमसांपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ ४७३ ॥

अणुलोभं विदन् जीवः उपशामको वा क्षपको वा ।

स सूक्ष्मसाम्परायः यथाख्येतेनोनः किञ्चित् ॥ ४७३ ॥

अर्थ—जिस उपशामश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणीवाले जीवके सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त लोभक-पायका उदय होता है, उसको सूक्ष्मसाम्परायसंयमी कहते हैं । इसके परिणाम यथाख्यात चारित्र्यवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम होते हैं । क्योंकि यह संयम दशमे गुणस्थानमें होता है, और यथाख्यात संयम न्यारहमेसे शुरू होता है ।

यथाख्यात संयमका स्वरूप बताते हैं ।

उवसंते स्त्रीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयम्मि ।

छट्टुमट्टो व जिणो वा जहखादो संजदो सो दु ॥ ४७४ ॥

उपशान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मणि मोहनीये ।

छद्मस्थो वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स तु ॥ ४७४ ॥

अर्थ—अशुभरूप मोहनीय कर्मके सर्वथा उपशम होजानेसे ग्यारहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके, और सर्वथा क्षीण होजानेसे वारहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके, तथा तेरहमे चौदहमे गुणस्थानवालोंके यथाख्यात संयम होता है । भावार्थ—यथावस्थित आत्मस्वभावकी उपलब्धिको यथाख्यात संयम कहते हैं । यह संयम ग्यारहमेसे लेकर चौदहमे तक चार गुणस्थानोंमें होता है । ग्यारहमेमें चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और ऊपरके तीन गुणस्थानोंमें क्षयसे यह संयम होता है ।

दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं ।

पंचतिहिचहुविहेहिं य अणुगुणसिक्खावयेहिं संजुत्ता ।

उच्चंति देसविरया सम्माइड्डी झलियकम्मा ॥ ४७५ ॥

पञ्चत्रिचतुर्विधैश्च अणुगुणशिक्षाव्रतैः संयुक्ताः ।

उच्यन्ते देशविरताः सम्यग्दृष्टयः व्रितकर्मणः ॥ ४७५ ॥

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी जीव पाच अणुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रतसे युक्त है उनको देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं । इस देश संयमके द्वारा जीवोंके असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

देशसंयमीके ग्यारह वेदोंको गिनाते हैं ।

दंसणवयसामाइय पोसहसच्चित्तरायभत्ते य ।

बम्हारंभपरिग्गह अणुमणमुच्छिद्धुदेसविरदेदे ॥ ४७६ ॥

दर्शनव्रतसामायिका प्रोषधसच्चित्तरात्रिभक्ताश्च ।

ब्रह्मारम्भपरिग्रहानुमतोद्दिष्टदेशविरता एते ॥ ४७६ ॥

अर्थ—दर्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, सच्चित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्दिष्टविरत ये देशविरत (पांचमे गुणस्थान) के ग्यारह भेद हैं ।

असंयतका स्वरूप बताते हैं ।

जीवा चोद्दसभेया इंदियविसया तहडुवीसं तु ।

जे तेसु णेव विरया असंजदा ते मुणेदच्चा ॥ ४७७ ॥

जीवाश्चतुर्दशभेदा इन्द्रियविषयाः तथाष्टाविंशतिस्तु ।

ये तेषु नैव विरता असंयताः ते मन्तव्याः ॥ ४७७ ॥

अर्थ—चौदह प्रकारके जीवसमास और अट्टाईस प्रकारके इन्द्रियोंके विषय इनसे जो विरक्त नहीं है उनको असंयत कहते हैं ।

अट्टाईस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं ।

पंचरसपंचवर्णा दो गंधा अट्टाससत्तसरा ।

मणसहिदृष्टावीसा इन्द्रियविसया मुणेद्ववा ॥ ४७८ ॥

पञ्चरसपञ्चवर्णाः द्वौ गन्धौ अष्टस्पर्शसप्तस्वराः ।

मनःसहिताः अष्टाविंशतिः इन्द्रियविषयाः मन्तव्याः ॥ ४७८ ॥

अर्थ—पांच रस (मीठा खट्टा कषायला कडुआ चरपरा) पांच वर्ण (सफेद पीला हरा लाल काला) दो गंध (सुगंध दुर्गंध) आठ स्पर्श (कोमल कठोर हलका भारी शीत उष्ण रूखा चिकना) आठ स्वर (षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद) और एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अट्टाईस विषय हैं ।

संयममार्गणामें जीवसंख्या बताते हैं ।

पमदादिचउण्हजुदी सामयियदुगं क्रमेण सेसतियं ।

सत्तसहस्सा णवसय णवलक्खा तीहिं परिहीणा ॥ ४७९ ॥

प्रमत्तादिचतुर्णां युतिः सामायिकद्विकं क्रमेण शेषत्रिकम् ।

सप्त सहस्राणि नव शतानि नव लक्षाणि त्रिभिः परिहीनानि ॥ ४७९ ॥

अर्थ—प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जिवोका जितना प्रमाण है उतने सामायिकसंयमी होते हैं । और उतने ही छेदोपस्थापनासयमी होते हैं । परिहारविशुद्धि संयमवाले तीन कम सात हजार (६९९७), सूक्ष्मसापराय संयमवाले तीन कम नौ सौ (८९७), यथाख्यात संयमवाले तीन कम नौ लाख (८९९९७) होते हैं ।

पह्लासंखेज्जदिमं विरदाविरदाण द्दव्वपरिमाणं ।

पुट्टवुत्तरासिहीणा संसारी अविरदाण पमा ॥ ४८० ॥

पल्यासंख्येयं विरताविरताना द्रव्यपरिमाणम् ।

पूर्वोक्तराशिहीना संसारिणः अविरतानां प्रमा ॥ ४८० ॥

अर्थ—पल्याके असंख्यातमे भाग देशसयमी जीवद्रव्यका प्रमाण है । उक्त संयमियोंकी राशियोंको संसारी जीवराशिमसे घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियोंका प्रमाण है ।

॥ इति संयममार्गणाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त दर्शनमार्गणाका निरूपण करते हैं ।

जं सामण्यं ग्रहणं भावाणं णेव कहुमायारं ।

अविसेसदूण अट्टे दंसणमिदि भण्णदे समये ॥ ४८१ ॥

यत् सामान्यं ग्रहणं भावानां नैव कृत्वाकारम् ।

अविशेष्यार्थान् दर्शनमिति भण्यते समये ॥ ४८१ ॥

अर्थ—सामान्यविशेषात्मक पदार्थके विशेष अंशका ग्रहण न करके केवल सामान्य अंशका जो निर्विकल्परूपसे ग्रहण होता है उसको परमागममें दर्शन कहते हैं ।

उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं ।

भावाणं सामण्यविसेसयाणं स्वरूपमेत्तं जं ।

वण्णणहीणग्गहणं जीवेण च दंसणं होदि ॥ ४८२ ॥

भावाना सामान्यविशेषकानां स्वरूपमात्रं यत् ।

वर्णनहीनग्रहणं जीवेन च दर्शनं भवति ॥ ४८२ ॥

अर्थ—निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविशेषात्मक पदार्थोंकी स्वपरसत्ताका अवभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं । भावार्थ—पदार्थोंमें सामान्य विशेष दोनों ही धर्म रहते हैं; किन्तु केवल सामान्य धर्मकी अपेक्षासे जो स्वपरसत्ताका अभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं । इसका शब्दोंके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । इसके चारभेद हैं चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अवधिदर्शन केवलदर्शन ।

प्रथम चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शनका स्वरूप कहते हैं:—

चक्खूण जं पयासइ दिस्सइ तं चक्खुदंसणं वेत्ति ।

सेसिंदियप्पयासो णायव्वो सो अचक्खूत्ति ॥ ४८३ ॥

चक्षुषोः यत् प्रकाशते पश्यति तत् चक्षुदर्शनं ब्रुवन्ति ।

शेषेन्द्रियप्रकाशो ज्ञातव्यः स अचक्षुरिति ॥ ४८३ ॥

अर्थ—जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रियका विषय है उसका देखना, अथवा वह जिसके द्वारा देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवालेको चक्षुदर्शन कहते हैं । और चक्षुके सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयभूत पदार्थका सामान्य ग्रहण होता है उसको अचक्षुदर्शन कहते हैं ।

अवधिदर्शनका स्वरूप बताते हैं ।

परमाणुआदियाइं अंतिमखंधत्ति मुत्तिदव्वाइं ।

तं ओहिदंसणं पुण जं पस्सइ ताइं पच्चक्खं ॥ ४८४ ॥

परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूर्तद्रव्याणि ।

तदवधिदर्शनं पुनः यत् पश्यति तानि प्रत्यक्षम् ॥ ४८४ ॥

अर्थ—अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्कन्धपर्यन्त मूर्तद्रव्यको जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं । इस अवधिदर्शनके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है ।

केवलदर्शनको कहते हैं ।

बहुविहबहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि ।

लोगालोगवितिमिरो जो केवलदंसणुज्जोओ ॥ ४८५ ॥

बहुविधबहुप्रकारा उद्योताः परिमिते क्षेत्रे ।

लोकालोकवितिमिरो यः केवलदर्शनोद्योतः ॥ ४८५ ॥

अर्थ—तत्रि मंद मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य आदि पदार्थोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगत्में परिमित क्षेत्रमें रहते हैं; किन्तु जो लोक और अलोक दोनो जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशको केवलदर्शन कहते हैं । भावार्थ—समस्त पदार्थोंका जो सामान्य दर्शन होता है उसको केवल दर्शन कहते हैं ।

दर्शनमार्गणमें दो गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं ।

योगे चतुरक्ष्णाणं पंचक्ष्णाणं च खीणचरिमाणं ।

चक्षुणामोहिकेवलपरिमाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥

योगे चतुरक्षाणा पञ्चाक्षाणा च क्षीणचरमाणाम् ।

चक्षुषामवधिकेवलपरिमाणं तेषा ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥

अर्थ—क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पञ्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीवों की संख्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चक्षुर्दर्शनी जीव हैं । और अवधिज्ञानी तथा केवलज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदर्शनी तथा केवलदर्शनवालोंका प्रमाण है । भावार्थ—चक्षुदर्शन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप दूसरा व्यक्तिरूप । चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक जीवोंके शक्तिरूप चक्षुदर्शन होता है, और पर्याप्त जीवोंके व्यक्तिरूप चक्षुदर्शन होता है । इनमेंसे प्रथम शक्तिरूप चक्षुदर्शनवालोंका प्रमाण बताते हैं । आवलीके असंख्यातमे भागका प्रतराङ्गुलमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका भी जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतनी राशिप्रमाण त्रमराशि है । उममेंसे त्रैराशिक द्वारा लब्ध चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियोंके प्रमाणमेंसे कुछ कम करना; क्योंकि त्रिन्द्रियादि जीवोंका प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ कम २ होता गया है । तथा लब्ध राशिमेंसे पर्याप्त जीवोंका प्रमाण घटाना । शेष शक्तिरूप चक्षुदर्शनवाले जीवोंका प्रमाण है । उस ही तरह पर्याप्त त्रम राशिमें चारका भाग देकर दोमे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उममेंसे कुछ कम व्यक्तिरूप

है। इसके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं।

छप्पयणीलकवोदसुहेमवुजसंखसण्णिहा वण्णे ।

संखेज्जासंखेज्जाणंतवियप्पा य पत्तेयं ॥ ४९४ ॥

षट्पदनीलकपोतसुहेमाम्बुजशङ्खसन्निभाः वर्ण ।

संख्येयासंख्येयानन्तविकल्पाश्च प्रत्येकम् ॥ ४९४ ॥

अर्थ—वर्णकी अपेक्षासे भ्रमरके समान कृष्णलेख्या, नीलमणिके (नीलमके) समान नीललेख्या, कबूतरके समान कापोतलेख्या, सुवर्णके समान पीतलेख्या, कमलके समान पद्मलेख्या, शंखके समान शुक्ललेख्या होती है। इनमेंसे प्रत्येकके इन्द्रियोंसे प्रकट होनेकी अपेक्षा संख्यात भेद है, तथा स्कन्धकी अपेक्षा असंख्यात और परमाणुभेदकी अपेक्षा अनन्त भेद है।

किस गतिमें कोनसी लेख्या होती है यह बताते हैं।

णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिसुरणरतिरिये ।

उत्तरदेहे छकं भोगे रविचंद्रहरिदंगा ॥ ४९५ ॥

निरयाः कृष्णाः कल्पाः भावानुगता हि तिसुरनरतिरश्चि ।

उत्तरदेहे षट्कं भोगे रविचन्द्रहरिताङ्गा ॥ ४९५ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण नारकी कृष्णवर्ण है। कल्पवासी देवोंकी द्रव्यलेख्या (शरीरका वर्ण) भावलेख्याके सदृश होता है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तिर्यञ्च इनकी द्रव्यलेख्या छहो होती है। तथा विक्रियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले शरीरका वर्ण भी छह प्रकारमेंसे किसी एक प्रकारका होता है। उत्तम भोगभूमिवालोंका सूर्यसमान, मध्यम भोगभूमिवालोंका चन्द्रसमान, तथा जघन्य भोगभूमिवालोंका हरितवर्ण शरीर होता है।

वादरआऊतेऊ सुक्कातेऊय वाउकायाणं ।

गोमुत्तमुग्गवण्णा कमसो अव्वत्तवण्णो य ॥ ४९६ ॥

वादरासैजसौ शुक्लतेजसौ वायुकायानाम् ।

गोमूत्रमुद्गवर्णौ क्रमशः अव्यक्तवर्णश्च ॥ ४९६ ॥

अर्थ—क्रमसे वादर जलकायिककी द्रव्यलेख्या शुक्ल और वादर तेजस्कायिककी पीत होती है। वायुकायके तीन भेद हैं, घनोद्धिवात, घनवात, तनुवात। इनमेंसे प्रथमका शरीर गोमूत्रवर्ण, दूसरेका शरीर मूंगसमान, और तीसरेके शरीरका वर्ण अव्यक्त है।

सव्वेसिं सुहुमाणं कावोदा सव्व विग्गहे सुक्का ।

सव्वो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥ ४९७ ॥

सर्वेषां सक्षमाना कापोताः सर्वे विग्रहे शुक्लाः ।

सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णो भवेन्नियमात् ॥ ४९७ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण सक्षम जीवोकी देह कपोतवर्ण है । विग्रहगतिमें सम्पूर्ण जीवोका शरीर शुक्लवर्ण होता है । तथा अपनी २ पर्याप्तिके प्रारम्भ समयसे शरीरपर्याप्तिपर्यन्त समस्त जीवोका शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है ।

इस तरह वर्णाधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंमें परिणामाधिकारको कहते हैं ।

लोगाणमसंखेज्जा उदयट्टाणा कसायगा होंति ।

तत्थ किलिट्ठा असुहा सुहा विसुद्धा तदालावा ॥ ४९८ ॥

लोकानामसंख्येयान्युदयस्थानानि कषायगाणि भवन्ति ।

तत्र क्लिष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापात् ॥ ४९८ ॥

अर्थ—कषायोंके उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण है । इसमेंसे अशुभ लेश्याओंके संक्लेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे असंख्यात लोकप्रमाण है; तथापि विशेषताकी अपेक्षा असंख्यातलोक प्रमाणमें असंख्यात लोकप्रमाण राशिका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसके बहुभाग प्रमाण संक्लेशरूप स्थान है । और एक भागप्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्ध स्थान-है । परन्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लोकप्रमाण ही है ।

तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा असुहा सुहा तहा मंदा ।

मंदतरा मंदतमा छट्टाणगया हु पत्तेयं ॥ ४९९ ॥

तीव्रतमास्तीव्रतराम्तीव्रा अशुभाः शुभास्तथा मन्दाः ।

मन्दतरा मन्दतमाः पट्स्थानगता हि प्रत्येकम् ॥ ४९९ ॥

अर्थ—अशुभ लेश्यासम्बन्धी तीव्रतम तीव्रतर तीव्र ये तीन स्थान, और शुभलेश्या-सम्बन्धी मन्द मन्दतर मन्दतम ये तीन स्थान होते हैं; क्योंकि कृष्ण लेश्यादि छह लेश्याओंके शुभ स्थानोंमें जघन्यसे उत्कृष्टपर्यन्त और अशुभ स्थानोंमें उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त प्रत्येकमे पट्स्थानपतित हानिवृद्धि होती है ।

असुहाणं वरमज्झिमअवरंसे किण्हणीलकाडतिए ।

परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदो किलेसस्स ॥ ५०० ॥

अशुभाना वरमध्यनावराशे कृष्णनीलकापोतत्रिकानाम् ।

परिणमति कमेणत्मा परिहानिनः लेश्याः ॥ ५०० ॥

अर्थ—कृष्ण नील कपोत इन तीन अशुभ लेश्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अशुभ-रूपमें यह आत्मा क्रमसे संक्लेशकी रानि होनेमें परिणमन करता है । भावार्थ—इस आत्माकी जिन २ तरह संक्लेशपरिणति कम होती जाती है उसी २ तरह यह आत्मा

अशुभ लेश्याओंमेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नील लेश्यारूपमें और नीलको छोड़कर कापोतरूपमें परिणमन करता है ।

काऊ णीलं किण्हं परिणमदि किलेसवड्ढिदो अप्पा ।

एवं किलेसहाणीवड्ढीदो होदि असुहतियं ॥ ५०१ ॥

कापोतं नीलं कृष्णं परिणमति क्लेशवृद्धित आत्मा ।

एव क्लेशहानिवृद्धितः भवति अशुभत्रिकम् ॥ ५०१ ॥

अर्थ—उत्तरोत्तर संक्लेशपरिणामोकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा कापोतसे नील और नीलसे कृष्णलेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह यह जीव संक्लेशकी हानि और वृद्धिकी अपेक्षासे तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है ।

तेऊ पडमे सुक्के सुहाणमवरादिअंसगे अप्पा ।

सुद्धिस्स य वड्ढीदो हाणीदो अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥

तेजसि पद्मे शुक्के शुभानामवराद्यंशगे आत्मा ।

शुद्धेश्च वृद्धितो हानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥

अर्थ—उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्ल इन तीन शुभ लेश्याओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । तथा विशुद्धिकी हानि होनेसे उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त शुक्ल पद्म पीत लेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह शुद्धिकी हानि वृद्धि होनेसे शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है ।

उक्त परिणामाधिकारको मनमें रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैं ।

संक्रमणं सट्ठाणपरट्ठाणं होदि किण्हसुक्काणं ।

वड्ढीसु हि सट्ठाणं उभयं हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥

संक्रमणं स्वस्थानपरस्थानं भवति कृष्णशुक्लयो ।

वृद्धिषु हि स्वस्थानमुभय हानौ शेषस्योभयेऽपि ॥ ५०३ ॥

अर्थ—परिणामोकी पलटनको संक्रमण कहते हैं । उसके दो भेद हैं, एक स्वस्थान-संक्रमण दूसरा परस्थान-संक्रमण । किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर उस ही लेश्यारूप जब दूसरा परिणाम होता है, वहा स्वस्थान-संक्रमण होता है । और किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर किसी दूसरी लेश्या (विवक्षित लेश्यासे भिन्न) का जब कोई परिणाम होता है वहां परस्थान-संक्रमण होता है ।

कृष्ण और शुक्ललेश्यामें वृद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान-संक्रमण ही होता है । और हानिकी अपेक्षा स्वस्थान परस्थान दोनों ही संक्रमण होते हैं । तथा शेष चार लेश्याओंमें हानि तथा वृद्धि दोनों अपेक्षाओंमें स्वस्थान परस्थान दोनों संक्रमणोंके होनेकी सम्भावना है ।

भावार्थ—कृष्णलेश्या अशुभलेश्या है, इस लिये उसमें यदि संकलेशताकी वृद्धि होगी । तो कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त ही होगी । तथा शुक्ललेश्या शुभलेश्या है इस लिये शुक्ललेश्यामें यदि शुभपरिणामोकी वृद्धि होगी तो शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त ही होगी । इस लिये वृद्धिकी अपेक्षा कृष्ण और शुक्ललेश्यामें स्वस्थानसंक्रमण ही है । तथा कृष्णलेश्यामें संकलेशताकी यदि हानि हो तो कृष्णलेश्याके जघन्य अंशपर्यन्त भी होसकती है, और इसके नीचे नील कापोत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये कृष्णलेश्यामें हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण संभव है । इस ही तरह शुक्ललेश्यामें यदि विशुद्धताकी हानि होय तो शुक्ललेश्याके जघन्य अंशपर्यन्त भी होसकती है, और उसके नीचे पद्म पीत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव है । किन्तु मध्यकी चारलेश्याओंमेंसे अशुभलेश्याओंमें संकलेशताकी हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण होसकता है । तथा शुभलेश्याओंमें विशुद्धताकी हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है । जैसे पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुई तो वह पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त भी हो सकती है इसलिये स्वस्थानसंक्रमण, और शुक्ललेश्यारूप भी परिणाम होसकता है इसलिये परस्थान संक्रमण भी सम्भव है । इसीप्रकार पीत तथा नील और कापोतलेश्यामें भी समझना चाहिये ।

लेस्साणुक्कस्सादोवरहाणी अवरगादवरवड्डी ।

सट्टाणे अवरदो हाणी णियमा परट्टाणे ॥ ५०४ ॥

लेश्यानामुत्कृष्टादवरहानिः अवरकादवरवृद्धिः ।

स्वस्थाने अवरात् हानिर्नियमात् परस्थाने ॥ ५०४ ॥

अर्थ—स्वस्थानकी अपेक्षा लेश्याओके उत्कृष्टस्थानके समीपवर्ती स्थानका परिणाम उत्कृष्ट स्थानके परिणामसे अनन्तभागहानिरूप है । तथा स्वस्थानकी अपेक्षासे ही जघन्यस्थानके समीपवर्ती स्थानका परिणाम जघन्य स्थानसे अनन्तभागवृद्धिरूप है । सम्पूर्ण लेश्याओंके जघन्य स्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परस्थान संक्रमण ही होता है । **भावार्थ**—किसी विवक्षित लेश्याके जघन्य स्थानमें हानि होकर उसके समीपवर्ती लेश्याके उत्कृष्ट स्थानरूप यदि परिणाम हो तो वहापर परस्थान संक्रमण ही होता है, और यह स्थान अनन्तगुणहानिरूप होता है । जैसे कृष्णलेश्याके जघन्यस्थानके समीप नीललेश्याका उत्कृष्ट स्थान है, वह कृष्णलेश्याके जघन्यस्थानमें अनन्तगुणहानिरूप है ।

उपर्युक्त निरूपणका कारण क्या है यह बताते हैं ।

संकमणे छट्टाणा हाणिनु वड्डीसु होंति तण्णामा ।

परिमाणं च य पुच्चं उत्तकमं होदि सुट्टाणे ॥ ५०५ ॥

संक्रमणे षट्स्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवन्ति तन्नामानि ।
परिमाणं च च पूर्वमुक्तक्रमं भवति श्रुतज्ञाने ॥ ५०५ ॥

अर्थ—संक्रमणाधिकारमें हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओंमें षट्स्थान होते हैं । इन षट्स्थानोंके नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमार्गणामे जो कहे हैं वेही यहापर भी समझना ।
भावार्थ—षट्स्थानोंके नाम ये हैं अनन्तभाग असंख्यातभाग संख्यातभाग संख्यातगुण असंख्यातगुण अनन्तगुण । इन षट्स्थानोंकी सहनानी क्रमसे उर्वक चतुरंक पञ्चाङ्क षडङ्क सप्ताङ्क अष्टाङ्क है । और यहापर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्यातका प्रमाण असंख्यातलोकमात्र, और संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात है ।

लेश्याओंके कर्माधिकारको कहते हैं ।

पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारणमज्झदेसम्हि ।
फलभरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विचिंतंति ॥ ५०६ ॥
णिम्मूलखंधसाहुवसाहं छित्तुं चिणित्तु पडिदाइं ।
खाउं फलाइं इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥ ५०७ ॥

पथिका ये षट् पुरुषाः परिभ्रष्टा अरण्यमध्यदेशे ।

फलभरितवृक्षमेकं प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति ॥ ५०६ ॥

निर्मूलस्कन्धशाखोपशाखं छित्वा चित्वा पतितानि ।

खादित्तुं फलानि इति यन्मनसा वचनं भवेत् कर्म ॥ ५०७ ॥

अर्थ—कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यमें मार्गसे भ्रष्ट होकर फलोसे पूर्ण किसी वृक्षको देखकर अपने २ मनमें इस प्रकार विचार करते हैं, और उसके अनुसार वचन कहते हैं ।—कृष्णलेश्यावाला विचार करता है और कहता है कि मैं इस वृक्षको मूलसे उखाडकर इसके फलोंका भक्षण करूंगा । और नीललेश्यावाला विचारता है और कहता है कि मैं इस वृक्षको स्कन्धसे काटकर इसके फल खाऊंगा । कापोतलेश्यावाला विचारता है और कहता है कि मैं इस वृक्षकी बडी २ शाखाओंको काटकर इसके फलोंको खाऊंगा । पीतलेश्यावाला विचारता है और कहता है कि मैं इस वृक्षकी छोटी २ शाखाओंको काटकर इसके फलोंको खाऊंगा । पद्मलेश्यावाला विचारता है और कहता है कि मैं इस वृक्षके फलोंको तोड़कर खाऊंगा । शुरुलेश्यावाला विचारता है और कहता है कि मैं इस वृक्षसे स्वयं टूट कर पडे हुए फलोंको खाऊंगा । इस तरह जो मनपूर्वक वचनादिकी प्रवृत्ति होती है वह लेश्याका कर्म है । यहा पर यह एक दृष्टान्तमात्र दियागया है इसलिये इस ही तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये ।

लेश्याओंके लक्षणाधिकारका निरूपण करते हैं ।

चंडो ण मुचइ वैरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ ।

दुट्ठो ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥ ५०८ ॥

चण्डो न मुञ्चति वैरं भण्डनशीलश्च धर्मदयारहितः ।

दुष्टो न चैति वशं लक्षणमेतत्तु कृष्णस्य ॥ ५०८ ॥

अर्थ—तीव्र क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, युद्धकरनेका (लड़नेका) जिसका स्वभाव हो, धर्म और दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश न हो ये सब कृष्णलेश्यावालेके चिह्न (लक्षण) हैं ।

नीललेश्यावालेके चिह्न बताते हैं ।

मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य ।

माणी मायी य तथा आलस्सो चैव भेज्जो य ॥ ५०९ ॥

णिद्दावच्चणवहुलो धनधण्णे होदि तिव्वसण्णा य ।

लक्खणमेयं भणियं समासदो णील्लेश्यस्स ॥ ५१० ॥

मन्दो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयलोलश्च ।

मानी मायी च तथा आलस्यश्चैव भेद्यश्च ॥ ५०९ ॥

निद्रावच्चनवहुलो धनधान्ये भवति तीव्रसंज्ञश्च ।

लक्षणमेतद्भणितं समासतो नीललेश्यस्य ॥ ५१० ॥

अर्थ—कामकरनेमें मन्द हो, अथवा स्वच्छन्द हो, वर्तमान कार्य करनेमें विवेकरहित हो, कला चातुर्यसे रहित हो, स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोंके विषयोंके लम्पट हो, मानी हो, मायाचारी हो, आलसी हो, दूसरे लोग जिसके अभिप्रायको सहसा न जान सकें, तथा जो अति निद्रालु और दूसरोको ठगनेमें अतिदक्ष हो, और धनधान्यके विषयमें जिसकी अतितीव्र लालसा हो, ये नीललेश्यावालेके सक्षेपसे चिह्न बताये हैं ।

तीन गाथाओंमें कपोतलेश्यावालेका लक्षण कहते हैं ।

रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ वहुसो य सोयमयवहुलो ।

असुयइ परिभवइ परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ५११ ॥

ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो ।

थूसइ अभित्थुवंतो ण य जाणइ हाणिवट्ठिं वा ॥ ५१२ ॥

मरणं पत्थेइ रणे देइ सुवहुमं वि थुच्चमाणो इ ।

ण गणट्ठ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥ ५१३ ॥

रुष्यति निन्दति अन्यं दुष्यति बहुशश्च शोकभयबहुलः ।
 असूयति परिभवति परं प्रशंसति आत्मानं बहुशः ॥ ९११ ॥
 न च प्रत्येति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः ।
 तुष्यति अभिष्टुवतो न च जानाति हानिवृद्धी वा ॥ ९१२ ॥
 मरणं प्रार्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तूयमानस्तु ।
 न गणयति कार्याकार्यं लक्षणमेतत्तु कपोतस्य ॥ ९१३ ॥

अर्थ—दूसरेके ऊपर क्रोध करना, दूसरेकी निन्दा करना, अनेक प्रकारसे दूसरोंको दुःख देना अथवा औरोंसे वैर करना, शोकाकुलित तथा भयग्रस्त होना, दूसरोंके ऐश्वर्यादिको सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनी नानाप्रकारसे प्रशंसा करना, दूसरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान दूसरोको भी मानना, स्तुति करनेवाले पर संतुष्ट होजाना, अपनी हानि वृद्धिको कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी प्रार्थना करना, स्तुति करनेवालेको खूब धन दे डालना, अपने कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना न करना, ये सब कपोतले-
 श्यावालेके चिन्ह है ।

पीतलेश्यावालेके चिन्ह बताते हैं ।

**जाणइ कज्जाकज्जं सेयमसेयं च सव्वसमपासी ।
 दयदानरदो य मिदू लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ ५१४ ॥**
 जानाति कार्याकार्यं सेव्यमसेव्यं च सर्वसमदर्शी ।
 दयादानरतश्च मृदुः लक्षणमेतत्तु तेजसः ॥ ५१४ ॥

अर्थ—अपने कार्य अकार्य सेव्य असेव्यको समझनेवाला हो, सबके विषयमें समदर्शी हो, दया और दानमें तत्पर हो, कोमलपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिन्ह है ।
 पद्मलेश्यावालेके लक्षण बताते हैं ।

**चागी भद्दो चोक्खो उज्जवकम्मो य खमदि बहुगं पि ।
 साहुगुरुपूजणरदो लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१५ ॥**
 त्यागी भद्रः सुकरः उद्युक्तकर्मा च क्षमते बहुकमपि ।
 साधुगुरुपूजनरतो लक्षणमेतत्तु पद्मस्य ॥ ५१५ ॥

अर्थ—दान देनेवाला हो, भद्रपरिणामी हो, जिसका उत्तम कार्य करनेका स्वभाव हा इष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवोंको सहन करनेवाला हो, मुनि गुरु आदिकी पूजामें प्रीतियुक्त हे ये सब पद्मलेश्यावालेके लक्षण है ।

शुक्लेश्यावालेके लक्षण वताते है ।

ण य कुण्ड पक्खवायं णवि य णिदाणं समो य सव्वेसिं ।

णत्थि य रायद्दोसा णेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५१६ ॥

न च करोति पक्षपातं नापि च निदानं समश्च सर्वेषाम् ।

नास्ति च रागद्वेषौ स्नेहोऽपि च शुक्लेश्यस्य ॥ ५१६ ॥

अर्थ—पक्षपात न करना, निदानको न बांधना, सब जीवोंमें समदर्शी होना, इष्टसे राग और अनिष्टसे द्वेष न करना, स्त्री पुत्र मित्र आदिमें स्नेहरहित होना, ये सब शुक्लेश्यावालेके लक्षण है ।

क्रमप्राप्त गति अधिकारका वर्णन करते है ।

लेस्साणं खलु अंसा छव्वीसा होंति तत्थ मज्झिमया ।

आउगबंधणजोगा अट्टव्वगरिसकालभवा ॥ ५१७ ॥

लेश्यानां खलु अंशाः षड्विंशतिः भवन्ति तत्र मध्यमकाः ।

आयुष्कवन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकर्षकालभवाः ॥ ५१७ ॥

अर्थ—लेश्याओंके कुल छव्वीस अंश है, इनमेंसे मध्यके आठ अंश जो कि आठ अपकर्ष कालमें होते है वे ही आयुर्कर्मके बन्धके योग्य होते है । भावार्थ—जैसे किसी कर्मभूमिया मनुष्य या तिर्यचकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छह हजार इकसठ है । इसके तीन भागमेंसे दो भाग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर, इस एक भागके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त प्रथम अपकर्षका काल कहा जाता है । इस अपकर्ष कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । यदि यहां पर भी बन्ध न हो तो अवशिष्ट एक त्रितीय भागमेंसे भी दो भाग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त द्वितीय अपकर्ष कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । यदि यहां पर भी बंध न हो तो तीसरे अपकर्षमें होता है । और तीसरेमें भी न हो तो चौथे पाचमे छठे सातमे आठमे अपकर्षमेंसे किसी भी अपकर्षमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । यदि किसी भी अपकर्षमें बन्ध न हो तो असंक्षेपाद्धा (भुज्यमान आयुका अन्तिम आयुके असंख्यातमे भागप्रमाण काल) से पूर्वके अन्तर्मुहूर्तमें अवश्य ही आयुका बन्ध होता है ।

भुज्यमान आयुके तीन भागोंमेंसे दो भाग बीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालको अपकर्ष कहते है । इस अपकर्ष कालमें लेश्याओंके आठ मध्य माशोंमें जो अंश होगा उसके अनुमार आयुका बन्ध होगा । तथा आयुर्बन्धके योग्य आठ मध्यमाशोंमेंसे कोई अंश जिन अपकर्षमें होगा उस ही अपकर्षमें आयुका बन्ध होगा, दूसरे कालमें नहीं ।

जीवोंके दो भेद हैं एक सोपक्रमायुष्क दूसरा अनुपक्रमायुष्क । जिनका विषमस्रणादि निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपक्रमायुष्क कहते हैं । और इससे जो रहित है उनको अनुपक्रमायुष्क कहते हैं । जो सोपक्रमायुष्क हैं उनके तो उक्त रीतिसे ही परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है । किन्तु अनुपक्रमायुष्कोमें कुछ भेद है, वह यह है कि अनुपक्रमायुष्कोमें जो देव और नारकी है वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना शेष रहने पर आयुके बन्ध करनेके योग्य होते हैं । इसमें भी छह महीनाके आठ अपकर्षकालमें ही आयुका बंध करते हैं—दूसरे कालमें नहीं । जो भोगभूमिया मनुष्य या तिर्यच हैं वे अपनी आयुके नौ महीना शेष रहने पर नौ महीनाके आठ अपकर्षोंमेंसे किसी भी अपकर्षमें आयुका बन्ध करते हैं । इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अंश आयुबन्धको कारण हैं । जिस अपकर्षमें जैसा जो अंश हो उसके अनुसार आयुका बन्ध होता है ।

शेष अठारह अशोका कार्य वताते हैं ।

सेसद्वारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति ।

सुक्कुक्कन्संसमुदा सव्वट्ठं जांति खलु जीवा ॥ ५१८ ॥

शेषाष्टादशाशाश्रतुर्गतिगमनस्य कारणानि भवन्ति ।

शुक्लोत्कृष्टाशमृता सर्वार्थं यान्ति खलु जीवाः ॥ ५१८ ॥

अर्थ—अपकर्षकालमें होनेवाले लेश्याओंके आठ मध्यमाशोंको छोड़कर बाकीके अठारह अंश चारो गतियोंके गमनको कारण होते हैं । तथा शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे संयुक्त जीव मरकर नियमसे सर्वार्थसिद्धिको जाते हैं ।

अवरंसमुदा होंति सदारदुगे मज्झिमंसगेण मुदा ।

आणदकप्पाहुवरिं सवट्ठाइल्लगे होंति ॥ ५१९ ॥

अवरांशमृता भवन्ति शतारद्विके मध्यमाशकेन मृताः ।

आनतकल्पादुपरि सर्वार्थादिमे भवन्ति ॥ ५१९ ॥

अर्थ—शुक्ललेश्याके जघन्य अंशोंसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहस्रार स्वर्गपर्यन्त जाते हैं । और मध्यमाशोंके सहित मरा हुआ जीव सर्वार्थसिद्धिसे पूर्वपूर्वके तथा आनत स्वर्गसे ऊपरके समस्त विमानोंमेंसे यथा सम्भव विमानमें उत्पन्न होता है । और आनत स्वर्गमें भी उत्पन्न होता है ।

पम्मुक्कस्संसमुदा जीवा उवजांति खलु सहस्सरं ।

अवरंसमुदा जीवा सणक्कुमारं च माहिदं ॥ ५२० ॥

पद्मोत्कृष्टाशमृता जीवा उपयाति खलु सहस्वारम् ।

अवराशमृता जीवाः सनत्कुमारं च माहेन्द्रम् ॥ ५२० ॥

अर्थ—पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहस्रार स्वर्गको प्राप्त होते हैं । और पद्म लेश्याके जघन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गको प्राप्त होते हैं ।

**मज्झिमअंशेण मुदा तम्मज्झं जांति तेउजेडमुदा ।
साणकुमारमाहिंदंतिमचक्किंदसेठिमि ॥ ५२१ ॥**

मध्यमांशेन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्येष्ठमृताः ।

सनत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचक्रेन्द्रश्रेण्याम् ॥ ५२१ ॥

अर्थ—पद्मलेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके ऊपर और सहस्रार स्वर्गके नीचे २ के विमानोंमें उत्पन्न होते हैं । पीतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके अन्तिम पटलमे चक्रनामक इन्द्रकसम्बन्धी श्रेणीवद्ध विमानमे उत्पन्न होते हैं ।

अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडमि सेठिमि ।

मज्झिमअंसेण मुदा विमलविमाणादिवलभद्दे ॥ ५२२ ॥

अवराशमृताः सौधर्मैशानादिमर्तौ श्रेण्याम् ।

मध्यमांशेन मृताः विमलविमानादिवलभद्दे ॥ ५२२ ॥

अर्थ—पीतलेश्याके जघन्य अंशोंके साथ मरा हुआ जीव सौधर्म ईशान स्वर्गके ऋतु (जु) नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीवद्ध विमानमें उत्पन्न होता है । पीत लेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरा हुआ जीव सौधर्म ईशान् स्वर्गके दूसरे पटलके विमल नामक इन्द्रक विमानसे लेकर सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके द्विचरम पटलके (अन्तिम पटलसे पूर्वका पटल) बलभद्रनामक इन्द्रक विमानपर्यन्त उत्पन्न होता है ।

किण्हवरंसेण मुदा अवाधिट्टाणमि अवरअंसमुदा ।

पंचमचरिसातिमिस्से मज्झे मज्झेण जायंते ॥ ५२३ ॥

कृष्णवर्गणेन मृता अवाधिस्थाने अवरागमृताः ।

पञ्चमचरिसातिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२३ ॥

अर्थ—कृष्णनेत्र्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव सातमी पृथ्वीके अवाधिस्यान नामक इन्द्रक बिल्में उत्पन्न होते हैं । जघन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव पाचमी पृथ्वीके अन्तिम पटलके तिमिथ्रनामक इन्द्रक बिल्में उत्पन्न होते हैं । कृष्णनेत्र्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए जीव दोनोके (सातमी पृथ्वीका अवाधिस्यान नामक इन्द्रकबिल और पांचमी पृथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी तिमिथ्र वित्र) मध्यस्थानमे यथागम्य उत्पन्न होते हैं ।

नीलुकसंसमुदा पंचम अंधिदयम्मि अवरमुदा ।

वालुकसंपज्जलिदे मज्झे मज्झेण जायंते ॥ ५२४ ॥

नीलोत्कृष्टाशमृताः पञ्चमान्ध्रेन्द्रके अवरमृताः ।

वालुकासंप्रज्वलिते मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२४ ॥

अर्थ—नील्लेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव पाचमी पृथ्वीके द्विचरम पटलसम्बन्धी अन्ध्रनामक इन्द्रकविलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ पांचमे पटलमें भी उत्पन्न होते हैं । इतना विशेष और भी है कि कृष्णलेश्याके जघन्य अंशवाले भी जीव मरकर पाचमी पृथ्वीके अन्तिम पटलमें उत्पन्न होते हैं । नील्लेश्याके जघन्य अंशवाले जीव मरकर तीसरी पृथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकविलमें उत्पन्न होते हैं । नील्लेश्याके मध्यम अंशोंवाले जीव मरकर तीसरी पृथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रकविलके आगे और पाचमी पृथ्वीके अन्ध्रनामक इन्द्रकविलके पहले पहले जितने पटल और इन्द्रक हैं उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं ।

वरकाओदंसमुदा संजलिदं जांति तदियणिरयस्स ।

सीमंतं अवरमुदा मज्झे मज्झेण जायंते ॥ ५२५ ॥

वरकापोतांशमृताः संज्वलितं यान्ति तृतीयनिरयस्य ।

सीमन्तमवरमृता मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२५ ॥

अर्थ—कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी पृथ्वीके द्विचरम पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रकविलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ अन्तिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकविलमें भी उत्पन्न होते हैं । कापोतलेश्याके जघन्य अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम पृथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकविलमें उत्पन्न होते हैं । और मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम पृथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकविलसे आगे और तीसरी पृथ्वीके द्विचरम पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रकविलके पहले तीसरी पृथ्वीके सात पटल, दूसरी पृथ्वीके ग्यारह पटल और प्रथम पृथ्वीके बारह पटलमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं ।

किण्हचउक्काणं पुण मज्झंसमुदा हु भवणगादित्तिये ।

पुट्टवीआउवणप्फादिजीवेसु हवांति खलु जीवा ॥ ५२६ ॥

कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यांशमृता हि भवनकादित्रये ।

पृथिव्यन्वनस्पतिजीवेषु भवन्ति खलु जीवाः ॥ ५२६ ॥

अर्थ—कृष्ण नील कपोत इन तीन लेश्याओके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए कर्म-भूमिया मिथ्यादृष्टि तिर्यच वा मनुष्य, और पीतलेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए

भोगभूमियां मिथ्यादृष्टि तिर्यच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवोंमें उत्पन्न होते हैं । तथा कृष्ण नील कापोत पीत लेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए तिर्यच वा मनुष्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सौधर्म ईशान स्वर्गके मिथ्यादृष्टि देव, वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जलकायिक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्पन्न होते हैं ।

किण्हतियाणं मज्झिमअंसमुदा तेउवाउवियलेसु ।

सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरियं जांति सगजोगं ॥ ५२७ ॥

कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृतास्तेजोवायुविकलेषु ।

सुरनिरयाः स्वकलेश्याभिः नरतिर्यञ्चं यान्ति स्वकयोग्यम् ॥ ५२७ ॥

अर्थ—कृष्ण नील कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए तिर्यच या मनुष्य, तेजकायिक वातकायिक विकलत्रय असंज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण—वनस्पति इनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । और भवनत्रय आदि सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तके देव तथा सातो पृथ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेश्याके अनुसार मनुष्यगति या तिर्यचगतिकी प्राप्त होते हैं । **भावार्थ—**जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरण समयपर होनेवाली लेश्याके अनुसार उत्पन्न होता है । जैसे मनुष्यअवस्थामें किसीने देवायुका बन्ध किया और मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्या हुई तो वह मरण करके भवनत्रिकमें उत्पन्न होगा—उत्कृष्ट देवोंमें नहीं होगा । यदि शुभ लेश्या हुई तो यथायोग्य कल्पवासरियोंमें भी उत्पन्न होगा ।

क्रमप्राप्त स्वामी अधिकारका वर्णन करते हैं ।

काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य ।

किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपुढवीणं ॥ ५२८ ॥

कापोता कापोता कापोता नीला नीला च नीलकृष्णे च ।

कृष्णा च परमकृष्णा लेश्या प्रथमादिपृथिवीनाम् ॥ ५२८ ॥

अर्थ—प्रथम पृथ्वीमें कपोतलेश्याका जघन्य अंश है । दूसरी पृथ्वीमें कपोतलेश्याका मध्यम अंश है । तीसरी पृथ्वीमें कपोतलेश्याका उत्कृष्ट अंश और नीललेश्याका जघन्य अंश है । चौथी पृथ्वीमें नीललेश्याका मध्यम अंश है । पाचमी पृथ्वीमें नीललेश्याका उत्कृष्ट अंश और कृष्णलेश्याका जघन्य अंश है । छठी पृथ्वीमें कृष्णलेश्याका मध्यम अंश है । सातमी पृथ्वीमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अंश है । **भावार्थ—**स्वामी अधिकारमें भावलेश्याकी अपेक्षा ही कथन है, इस लिये उपर्युक्त प्रकारसे नरकोंमें भी भावलेश्या ही समवना ।

णरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चउ असण्णिस्स ।

सण्णिअपुण्णगमिच्छे सामणम्ममेवि अनुत्तियं ॥ ५२९ ॥

नरातिरश्चामोघ एकविकले तिस्रः चतस्रः असंज्ञिनः ।

संज्ञ्यपूर्णकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेपि अशुभत्रिकम् ॥ ५२९ ॥

अर्थ—मनुष्य और तिर्यचोके सामान्यसे छहों लेश्या होती है। एकेन्द्रिय और विकलत्रय (द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय) जीवोंके कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कृष्ण आदि चार लेश्या होती है; क्योंकि असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय कपोतलेश्यावाला जीव मरणकर पहले नरकको जाता है। तथा तेजो-लेश्यासहित मरनेसे भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है। कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यासहित मरनेसे यथायोग्य मनुष्य या तिर्यचोमें उत्पन्न होता है। संज्ञी लब्ध-पर्याप्तक तथा अपि शब्दसे असंज्ञी लब्धपर्याप्तक और सासादन गुणस्थानवर्ती निर्वृत्यप-र्याप्त तथा भवनत्रिक जीवोंमें कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। उपशम सम्य-क्त्वकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपर्याप्त अवस्थामे तीन अशुभ लेश्या ही होती है।

भोगा पुण्णगंसम्मे काउस्स जहणियं हवे णियमा ।

सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ ५३० ॥

भोगापूर्णकसम्यक्त्वे कापोतस्य जघन्यकं भवेत् नियमात् ।

सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पर्याप्ते तिस्रः शुभलेश्याः ॥ ५३० ॥

अर्थ—भोगभूमियां निर्वृत्यपर्याप्तक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कापोतलेश्याका जघन्य अंश होता है। तथा भोगभूमिया सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवोंके पर्याप्त अवस्थामें पीत आदि तीन शुभ लेश्या ही होती है। भावार्थ—पहले मनुष्य या तिर्यच आयुका बंध करके पीछे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वको स्वीकार करके यदि कोई कर्मभूमिज मनुष्य या तिर्यच सम्यक्त्वसहित मरण करे तो वह भोगभूमिमें उत्पन्न होता है, वहां पर उसके कापोत लेश्याके जघन्य अंशरूप सक्केश परिणाम होते हैं। परन्तु पर्याप्त अवस्थामे सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके शुभ लेश्या ही होती है।

अयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये ।

तत्तो सुक्का लेस्सा अजोगिटाण अलेस्सं तु ॥ ५३१ ॥

अमंयत इति पद् लेश्या.शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्रये ।

तत. शुक्ला लेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५३१ ॥

अर्थ—चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त छहों लेश्या होती है। तथा देशविरत प्रमत्तविरत प्रमत्त विग्न इन तीन गुणस्थानोंमें तीन शुभलेश्या ही होती है। किन्तु इसके आगे

अपूर्वकरणसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त एक शुक्लेश्या ही होती है । और अयोगकेवली गुणस्थान लेश्यारहित है ।

णट्टकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुव्वगदिणाया ।

अहवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२ ॥

नष्टकषाये लेश्या उच्यते सा भूतपूर्वगतिन्यायात् ।

अथवा योगप्रवृत्तिः मुख्येति तत्र भवेल्लेश्या ॥ ५३२ ॥

अर्थ—अकषाय जीवोंके जो लेश्या बताई है वह भूतपूर्वप्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे बताई है । अथवा, योगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं, इस अपेक्षासे वहा पर मुख्यरूपसे भी लेश्या है, क्योंकि वहा पर योगका सद्भाव है ।

तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च ।

एत्तो य चोद्दसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५३३ ॥

तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुक्का य ।

सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे असुहा ॥ ५३४ ॥

त्रयाणा द्वयोर्द्वयोः षण्णा द्वयोश्च त्रयोदशाना च ।

एतस्माच्च चतुर्दशाना लेश्या भवनादिदेवानाम् ॥ ५३३ ॥

तेजस्तेजस्तेजः पद्मा पद्मा च पद्मशुक्ले च ।

शुक्ला च परमशुक्ला भवनत्रिका अपूर्णके अशुभा. ॥ ५३४ ॥

अर्थ—भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोंके पीतलेश्याका जघन्य अंश है । सौधर्म ईशान स्वर्गवाले देवोंके पीतलेश्याका मध्यम अंश है । सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गवालोके पीतलेश्याका उत्कृष्ट अंश और पद्मलेश्याका जघन्य अंश है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इन छह स्वर्गवालोके पद्मलेश्याका मध्यम अंश है । गतार सहस्त्रार स्वर्गवालोके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंश और शुक्ललेश्याका जघन्य अंश है । आनत प्राणत आरण अच्युत तथा नव त्रैवेयक इन तेरह स्वर्गवाले देवोंके शुक्ललेश्याका मध्यम अंश है । इसके ऊपर नव अनुदिश तथा पाच अनुत्तर इन चौदह विमानवाले देवोंके शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है । भवनवासी आदि तीन देवोंके अपर्याप्त अवस्थामें कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती हैं । **भावार्थ—**जब भवनत्रिक देवोंके अपर्याप्त अवस्थामें अशुभ तीन लेश्या और पर्याप्त अवस्थामें पीत लेश्याका जघन्य अंश नताया इसमें मालूम होता है कि शेष वैमानिक देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें लेश्या मग्न ही होती है ।

इस प्रकार स्वामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका वर्णन करते हैं ।

वर्णोदयसंपादितशरीरवर्णो दु द्रव्यतो लेख्या ।

मोहोदयखओवसमोवसमखयजजीवफंदणं भावो ॥ ५३५ ॥

वर्णोदयसंपादितशरीरवर्णस्तु द्रव्यतो लेख्या ।

मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दो भावः ॥ ५३५ ॥

अर्थ—वर्णनामकर्मके उदयसे जो शरीरका वर्ण (रंग) होता है उसको द्रव्यलेख्या कहते हैं । मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो जीवके प्रवेशकी चंचलता होती है उसको भावलेख्या कहते हैं । **भावार्थ**—द्रव्यलेख्याका साधन वर्णनामकर्मका उदय है । भावलेख्याका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें मोहनीय कर्मका उदय, और देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीय कर्मका क्षयोपशम, उपशमश्रेणिमें मोहनीय कर्मका उपशम, तथा क्षपकश्रेणिमें मोहनीय कर्मका क्षय होता है ।

क्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वर्णन करते हैं ।

किण्हादिराशिमावलिअसंखभागेण भजिय पविमत्ते ।

हीणकमा कालं वा अस्सिय दव्वा दु भजिदव्वा ॥ ५३६ ॥

कृष्णादिराशिमावलयसंख्यभागेण भक्त्वा पविमत्ते ।

हीनक्रमाः कालं वा आश्रित्य द्रव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ ५३६ ॥

अर्थ—संसारी जीवराशिमेंसे तीन शुभ लेख्यावाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहै उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेख्यावाले जीवोंका प्रमाण है । यह प्रमाण संसारी जीवराशिसे कुछ कम होता है । इस राशिमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर एक भागको अलग रखकर शेष बहुभागके तीन समान भाग करना । तथा शेष—अलग रखे हुए एक भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे एक भागमें मिलानेसे कृष्णलेख्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । और शेष एक भागमें फिर आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेसे नीललेख्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । और अवशिष्ट एक भागको तीसरे भागमें मिलानेसे कापोतलेख्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । इस प्रकार अशुभ लेख्यावालोंका द्रव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा । यह प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ घटता २ है । अत्र कालकी अपेक्षामें प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नील कापोत तीन लेख्याओंका काल मिलानेसे जो अन्तर्मुहूर्तमात्र काल होता है, उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देना । इसमें एक भागको जुड़ा रखना और बहुभागके तीन समान भाग करना । तथा अवशिष्ट एक भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना । लब्ध एक भागको

अलग रखकर बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे एक भागमे मिलानेसे जो प्रमाण हो वह कृष्णलेश्याका काल है । लब्ध एक भागमें फिर आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेमे जो प्रमाण हो वह नीललेश्याका काल है । अवाशिष्ट एक भागको अवाशिष्ट तिसरे समान भागमे मिलानेसे जो प्रमाण हो वह कापोतलेश्याका काल है । इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओके कालका प्रमाण भी उत्तरोत्तर अल्प २ समझना चाहिये ।

खेत्तादो असुहतिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा ।

कालादोतीदादो अणंतगुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥

क्षेत्रतः अशुभत्रिका अनन्तलोकाः क्रमेण परिहीनाः ।

कालदतीतादनन्तगुणिताः क्रमाद्धीनाः ॥ ५३७ ॥

अर्थ—क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुभलेश्यावाले जीव लोकाकाशके प्रदेशोंसे अनन्तगुणे है; परन्तु उत्तरोत्तर क्रमसे हीन २ है । कृष्ण लेश्यावालोंसे कुछ कम नील लेश्यावाले जीव हैं और नीललेश्यावालोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाले जीव हैं । तथा कालकी अपेक्षा अशुभ लेश्यावालोका प्रमाण, भूतकालके जितने समय है उससे अनन्तगुणा है । यह प्रमाण भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये ।

केवलणाणाणंतिमभागा भावाद्दु किण्हतियजीवा ।

तेउतिया संखेज्जा संखासंखेज्जभागकमा ॥ ५३८ ॥

केवलज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु कृष्णत्रिकजीवाः ।

तेजस्विका असंख्येयाः संख्यासंख्येयभागक्रमाः ॥ ५३८ ॥

अर्थ—भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केवलज्ञानके जितने अविभाग-प्रतिच्छेद है उसके अनन्तमे भागप्रमाण है । यहा पर भी पूर्ववत् उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये । पीत आदि तीन शुभ लेश्यावालोका प्रमाण सामान्यसे असंख्यात है । तथापि पीत-लेश्यावालोंसे संख्यातमे भाग पद्मलेश्यावाले हैं । और पद्मलेश्यावालोंसे असंख्यातमे भाग शुक्ल-लेश्यावाले जीव हैं ।

क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन शुभ लेश्यावालोका प्रमाण बताते हैं ।

जोइसियादो आहिया तिरिक्खसणिस्स संखभागो दु ।

सुइस्स अंगुलस्स च असंखभागं तु तेउतियं ॥ ५३९ ॥

ज्योतिष्कतः अधिकाः तिर्यकमंजिन सन्ध्यामास्तु ।

सूनेरङ्गुलस्य च असंख्यभागं तु तेजन्त्रयम् ॥ ५३९ ॥

अर्थ—ज्योतिषी त्रयोंके प्रमाणमे कुछ अधिक तेजोन्द्यावाले जीव हैं । और तेजो-

लेख्यावाले संज्ञी तिर्यच जीवोके प्रमाणसे संख्यातगुणे कम पद्मलेख्यावाले जीव है । और सूच्य-
ङ्गुलके असंख्यातमे भाग शुक्ललेख्यावाले जीव है । भावार्थ—पैसठ हजार पाचसौ छत्तीस
प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरको देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव है । और पाच
वार संख्यातसे गुणित पण्णट्ठी प्रमाण प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरको देनेसे जो प्रमाण रहे
उतने तिर्यच, और संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने तेजो-
लेख्यावाले जीव है । तथा तेजोलेख्यावालोंसे संख्यातगुणे कम पद्मलेख्यावाले और सूच्यङ्गुलके
असंख्यातमे भाग शुक्ललेख्यावाले जीव है ।

उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं ।

वेसदछप्पणंगुलकदिहिदपदरं तु जोइसियमाणं ।

तस्स य संखेज्जदिमं तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥ ५४० ॥

द्विशतषट्पञ्चाशदङ्गुलकृतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम् ।

तस्य च संख्येयतमं तिर्यक्संज्ञिनां परिमाणम् ॥ ५४० ॥

अर्थ—दो सौ छप्पन अंगुलके वर्गप्रमाण (पण्णट्ठीप्रमाण=६९९३६) प्रतराङ्गु-
लका भाग जगत्प्रतरमे देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव है । और इसके संख्यातमे
भागप्रमाण संज्ञी तिर्यच जीव है ।

तेउदु असंखकप्पा पल्लासंखेज्जभागया सुक्का ।

ओहिअसंखेज्जदिमा तेउतिया भावदो होंति ॥ ५४१ ॥

तेजोद्वया असंख्यकल्पाः पल्यासंख्येयभागकाः शुक्लाः ।

अवध्यसंख्येयाः तेजस्त्रिका भावतो भवन्ति ॥ ५४१ ॥

अर्थ—असख्यात कल्पकालके जितने समय है उतने ही सामान्यसे तेजोलेख्यावाले
और उतने ही पद्मलेख्यावाले जीव है । तथापि तेजोलेख्यावालोंसे पद्मलेख्यावाले संख्या-
तमे भाग है । पत्यके असंख्यातमे भागप्रमाण शुक्ललेख्यावाले जीव है । इस प्रकार कालकी
अपेक्षासे तीन शुभलेख्याओंका प्रमाण समझना चाहिये । तथा अविज्ञानके जितने
विकल्प हैं उसके असंख्यातमे भाग सामान्यसे प्रत्येक शुभलेख्यावाले जीव है । तथापि
तेजोलेख्यावालोंसे संख्यातमे भाग पद्मलेख्यावाले और पद्मलेख्यावालोंसे शुक्ललेख्यावाले असं-
ख्यातमे भाग मात्र है ।

क्षेत्राधिकारके द्वारा लेख्याओंका वर्णन करते हैं ।

सट्ठाणसमुग्घादे उववादे सच्चलयमसुहापां ।

लोयस्सासंखेज्जदिमागं खेत्तं तु तेउतिये ॥ ५४२ ॥

स्वस्थानसमुद्घाते उपपादे सर्वलोकमशुभानाम् ।
लोकस्यासंख्येयभागं क्षेत्रं तु तेजस्विके ॥ १४२ ॥

अर्थ—तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे स्वस्थान तथा समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण क्षेत्र है । और तीन शुभ लेश्याओंका क्षेत्र लोकप्रमाणके असंख्यातमे भागमात्र है । **भावार्थ**—यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओके क्षेत्रका विशेष वर्णन, स्वस्थानस्वस्थान विहारवत्स्वस्थान सात प्रकारका समुद्घात और एक प्रकारका उपपाद इस तरह दश कारणोंकी अपेक्षासे किया है । सो विशेषजिज्ञासुओको वह बड़ी टीकामें देखना चाहिये ।

उपपादक्षेत्रके निकालनेके लिये सूत्र कहते हैं ।

मरादि असंखेज्जदिमं तस्सासंखा य विग्गहे होंति ।
तस्सासंखं दूरे उववादे तस्स खु असंखं ॥ १४३ ॥

म्रियते असंख्येयं तस्यासंख्याश्च विग्रहे भवन्ति ।

तस्यासंख्यं दूरे उपपादे तस्य खलु असंख्यम् ॥ १४३ ॥

अर्थ—घनाङ्गुलके तृतीय वर्गमूलका जगच्छ्रेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सौधर्म और ईशान स्वर्गके जीवोंका प्रमाण है । इसमे पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं । मरनेवाले जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो बहुभागका प्रमाण हो उतने विग्रहगति करनेवाले जीव हैं । विग्रहगतिवाले जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो बहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक समुद्घातवाले जीव हैं । इसमें भी पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्घातवाले जीव हैं । इसमे भी पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध एक भागप्रमाण उपपाद जीव है । यहां पर तिर्यचोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे एक जीवसम्बन्धी प्रदेश फैलनेकी अपेक्षा डेट् राजू लम्बा सख्यात सूच्यंगुलप्रमाण चौड़ा वा ऊंचा क्षेत्र है, इसके घन—क्षेत्रफलको उपपाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका प्रमाण है । **भावार्थ**—जिस स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र निकालना हो उस स्थानवाले जीवोंकी सख्याका अपनी २ एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणसे अथवा जहां तक एक जीव गमन कर सकता है उस क्षेत्रप्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यमें उतना ही उनका क्षेत्र कहा जाता है । यहांपर पित्तनेत्र्यामम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण बताया है । पद्म नेत्र्यामं तथा शुक्ल लेश्यामें भी क्षेत्रका प्रमाण इस ही प्रकारसे होता है कृप विशेषता है सो बड़ी टीकामें देखना ।

सुक्कस्स समुग्घादे असंखलोगा य सब्वलोगो य ।

शुक्लायाः समुद्घाते असंख्यलोकाश्च सर्वलोकश्च ।

अर्थ—इस सूत्रके पूर्वार्धमें शुक्ललेश्याका क्षेत्र लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण वा सर्व लोक बताया है सो केवल समुद्घातकी अपेक्षासे है ।

भावार्थ—शुक्ल लेश्याका क्षेत्र दूसरे स्थानोंमें उक्त रीतिसे ही समझना ।

क्रमप्राप्त स्पर्शाधिकारका वर्णन करते हैं ।

फासं सब्वं लोयं तिट्ठाणे असुहलेस्साणं ॥ ५४४ ॥

स्पर्शः सर्वो लोकस्त्रिस्थाने अशुभलेश्यानाम् ॥ ५४४ ॥

अर्थ—कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका स्पर्श स्वस्थान, समुद्धात, उपपाद, इन तीन स्थानोंमें सामान्यसे सर्व लोक है । **भावार्थ—**वर्तमानमें जितने प्रदेशोंमें जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं । और भूत तथा वर्तमान कालमें जितने प्रदेशोंमें जीव रहे उतनेको स्पर्श कहते हैं । सो तीन अशुभलेश्यावाले जीवोंका स्पर्श उक्त तीन स्थानोंमें सामान्यसे सर्वलोक है । विशेषकी अपेक्षासे कृष्णलेश्यावालोंका दश स्थानोंमेंसे स्वस्थानस्वस्थान, वेदना कषाय मारणान्तिक समुद्घात, तथा उपपादस्थानमें सर्वलोकप्रमाण स्पर्श है । संख्यात सूच्यंगुलको जगत्प्रतरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना विहारवत्स्वस्थानमे स्पर्श है । तथा वैक्रियिक समुद्धातमें लोकके सख्यातमे भागप्रमाण स्पर्श है । और इस लेश्यामें तैजस आहारक केवल समुद्धात नहीं होता । कृष्णलेश्याके समान ही नील तथा कापोतलेश्याका भी स्पर्श समझना ।

तेजोलेश्यामें स्पर्शका वर्णन करते हैं ।

तेउस्स य सट्ठाणे लोगस्स असंखभागमेत्तं तु ।

अट्ठचोद्दसभागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४५ ॥

तेजसश्च स्वस्थाने लोकस्य असंख्यभागमात्रं तु ।

अष्ट चतुर्दशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४५ ॥

अर्थ—पीतलेश्याका स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण स्पर्श है । और विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है ।

एवं तु समुग्घाटे णव चोदसभागयं च किंचूणं ।

उववादे पटमपदं दिवड्ढचोदस य किंचूणं ॥ ५४६ ॥

एवं तु समुद्घाते नव चतुर्दशभागश्च किञ्चिदूनः ।

उपवादे प्रथमपदं न्यर्धचतुर्दश च किञ्चिदूनम् ॥ ५४६ ॥

अर्थ—विहारवत्स्वस्थानकी तरह समुद्रघातमे भी त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है । तथा मारणान्तिक समुद्रघातकी अपेक्षा चौदह भागोंमेंसे कुछ कम नव भागप्रमाण स्पर्श है । और उपपाद स्थानमे चौदह भागमेंसे कुछ कम डेढ़ भागप्रमाण स्पर्श है । इस प्रकार यह पीत लेश्याका स्पर्श सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है ।

डेढ़ २ गाथामें पद्म तथा शुक्लेश्याका स्पर्श बताते हैं ।

पम्मस्स य सट्ठाणसमुग्घादद्दुगेसु होदि पढमपदं ।

अड चोदस भागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४७ ॥

पद्मायाश्च स्वस्थानसमुद्धातद्विक्रयोः भवति प्रथमपदम् ।

अष्ट चतुर्दश भागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४७ ॥

अर्थ—पद्मलेश्याका विहारवत्स्वस्थान, वेदाना कषाय वैक्रियिक तथा मारणान्तिक समुद्रघातमें चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्श है । तैजस तथा आहार समुद्रघातमें संख्यात घनाङ्गुल प्रमाण स्पर्श है । यहां पर च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये स्वस्थानस्वस्थानमें लोकके असंख्यातभागोंमेंसे एक भाग प्रमाण स्पर्श है ।

उववादे पढमपदं पणचोदसभागयं च देसूणं ।

सुक्कस्स य तिट्ठाणे पढमो छच्चोदसा हीणा ॥ ५४८ ॥

उपपादे प्रथमपदं पञ्चचतुर्दशभागकश्च देशोनः ।

शुक्लायाश्च त्रिस्थाने प्रथमः पट्चतुर्दश हीनाः ॥ ५४८ ॥

अर्थ—पद्मलेश्या शतार सहस्रार स्वर्गपर्यन्त सम्भव है । इसलिये उपपादकी अपेक्षासे पद्मलेश्याका स्पर्श त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पाच भागप्रमाण है । शुक्लेश्यावाले जीवोंका स्वस्थानस्वस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण स्पर्श है । और विहारवत्स्वस्थान, तथा वेदाना कषाय वैक्रियिक मारणान्तिक समुद्रघात और उपपाद, इन तीन स्थानोंमें चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पर्श है । तैजस आहारक समुद्रघातमें संख्यातघनाङ्गुल स्पर्श है ।

णवरि समुग्घादम्मि य संखातीदा हवांति भागा वा ।

सच्चो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिट्ठो ॥ ५४९ ॥

नवरि समुद्रघाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा ।

मर्षो वा खलु लोकः स्पर्शा भवतीति निर्दिष्टः ॥ ५४९ ॥

अर्थ—केवल-समुद्रघातमें विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दण्ड समुद्रघातमें स्पर्श क्षेत्रकी तरह संख्यात प्रतराङ्गुलसे गुणित जगच्छ्रेणी प्रमाण है । और स्थित या उपविष्ट कपाट समुद्रघातमें संख्यातसूच्यङ्गुलान्न जगत्प्रतर प्रमाण है । प्रतर समुद्रघातमें लोकके

असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहु भागप्रमाण स्पर्श है । लोकपूर्ण समुद्रघातमे सर्वलोकप्रमाण स्पर्श है । भावार्थ—केवलसमुद्रघातके चार भेद है । दण्ड कपाट प्रतर लोकपूर्ण । दण्ड समुद्रघातके भी दो भेद है, एक स्थित दूसरा उपविष्ट । और स्थित तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद है । कपाट समुद्रघात के चार भेद है पूर्वाभिमुख स्थित उत्तराभिमुख स्थित पूर्वाभिमुख-उपविष्ट उत्तराभिमुख-उपविष्ट । इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद है । तथा प्रतर लोकपूर्णका एक २ ही भेद है ।

यहा पर जो दण्ड और कपाट समुद्रघातका स्पर्श बताया है वह आरोहक और अवरोहककी अपेक्षा दो भेदोंमेंसे एक ही भेद का है, क्योंकि एक जीव समुद्रघात अवस्थामें जितने क्षेत्रका आरोहण अवस्थामे स्पर्श करता है उतने ही क्षेत्रका अवरोहण अवस्थामें भी स्पर्श करता है । इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओका सामान्य स्पर्श जानना हो तो दण्ड और कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दूना २ स्पर्श समझना चाहिये । प्रतर समुद्रघातमे लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवलयका स्थान छूट जाता है इसलिये यहा पर लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण स्पर्श है ।

॥ इति स्पर्शाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त कालाधिकारका वर्णन करते हैं ।

कालो छलेस्साणं णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।

अंतोमुहुत्तमवरं एवं जीवं पडुच्च हवे ॥ ५५० ॥

कालः षड्लेश्यानां नानाजीवं प्रतीत्य सर्वाद्धा ।

अन्तर्मुहूतोऽवर एकं जीवं प्रतीत्य भवेत् ॥ ५५० ॥

अर्थ—नाना जीवोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओंका सर्व काल है । तथा एक जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओका जघन्य काल अन्तर्मुहूतमात्र है ।

अवहीणं तेत्तीसं सत्तर सत्तेव होंति दो चेव ।

अट्टारस तेत्तीसा उक्कस्सा होंति अदिरेया ॥ ५५१ ॥

उद्धीनां त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्तैव भवन्ति द्वौ चैव ।

अष्टादश त्रयस्त्रिंशत् उत्कृष्टा भवन्ति अतिरेकाः ॥ ५५१ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याका तेतीस सागर, नीललेश्याका सत्रह सागर, कापोतलेश्याका सातसागर, पीतलेश्याका दो सागर, पद्म लेश्याका अठारह सागर, शुक्ल लेश्याका तेतीस सागर से कुछ अधिक है । भावार्थ—यह अधिकका सम्बन्ध छहों लेश्याओंके उत्कृष्ट कालके साथ २ करना चाहिये; क्योंकि यह उत्कृष्ट कालका वर्णन देव और नार-

कियोंकी अपेक्षासे है । सो जिस पर्यायको छोड़कर देव या नारकी उत्पन्न हो उस पर्यायके अन्तके अन्तर्मुहूर्तमें तथा देव नारक पर्यायको छोड़कर जिस पर्यायमें उत्पन्न हो उस पर्यायके आदिके अन्तर्मुहूर्तमें वही लेश्या होती है । इस ही लिये छहों लेश्याओंके उक्त उत्कृष्ट कालप्रमाणमें दो २ अन्तर्मुहूर्तका काल अधिक २ समझना । तथा पीत और पद्मलेश्याके कालमें कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है । जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्गमें दो सागरकी आयु है । परन्तु यदि कोई घातायुष्क सम्यग्दृष्टि सौधर्म या ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हो तो उसकी अन्तर्मुहूर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है । इस ही तरह घातायुष्क मिथ्यादृष्टिकी पत्न्यके असंख्यातमे भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती है । परन्तु यह अधिकपना सौधर्म स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ही है । क्योंकि आगे घातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होता ।

॥ इति कालाधिकारः ॥

दो गाथाओंमें अन्तर अधिकारका वर्णन करते हैं ।

अंतरमवरुक्कस्सं किण्हतियाणं मुहुत्तअंतं तु ।

उवहीणं तेत्तीसं अहियं होदित्ति णिद्विट्ठं ॥ ५५२ ॥

तेउतियाणं एवं णवरि य उक्कस्स विरहकालो डु ।

पोग्गलवरिवट्ठा हु असंखेज्जा होंति णियमेण ॥ ५५३ ॥

अन्तरमवरोत्कृष्टं कृष्णत्रयाणां मुहूर्तान्तस्तु ।

उद्धीनां त्रयस्त्रिंशदधिकं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ ५५२ ॥


तेजस्त्रयाणामेव नवरि च उत्कृष्टविरहकालस्तु ।

पुद्गलपरिवर्ता हि असंख्येया भवन्ति नियमेन ॥ ५५३ ॥

अर्थ—कृष्ण आदि तीन अशुभलेश्याओंका जघन्य अंतर अन्तर्मुहूर्तमात्र है । और उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है । पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अंतर भी इस ही प्रकार है, परन्तु कुछ विशेषता है । शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर नियमसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है । भावार्थ—किसी विवक्षित एक लेश्याको छोड़कर दूसरी लेश्यारूप परिणमन करके जितने कालमें फिरसे विवक्षित लेश्यारूप परिणमन करे उतने कालको विवक्षित लेश्याका विरहकाल या अन्तर कहते हैं । इस प्रकारका अंतर कृष्णलेश्याका जघन्य अन्तर्मुहूर्तमात्र है । उत्कृष्ट अंतर दश अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्ष कम एक कोटिपूर्व वर्ष अधिक तेतीस सागर प्रमाण है । इस ही प्रकार नीच तथा कापोत्तलेश्याका भी अंतर जानना । परन्तु इतनी विशेषता है कि नीच लेश्याके अन्तर्में आठ अन्तर्मुहूर्त और कापोत्तलेश्याके अन्तर्में छह अन्तर्मुहूर्त ही अधिक है । अब शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर दृष्टान्तद्वारा बताने हैं ।

कोई जीव पीत लेश्याको छोड़कर क्रमसे एक २ अन्तर्मुहूर्तमात्रतक कपोत नील कृष्ण लेश्याको प्राप्त हुआ, कृष्ण लेश्याको प्राप्त होकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलद्रव्यपरिवर्तनोका जितना काल हो उतने काल पर्यन्त भ्रमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहा पर भी उत्कृष्टतासे संख्यात हजार वर्ष तक भ्रमण किया । पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक २ अंतर्मुहूर्तमें क्रमसे कृष्ण नील कपोत लेश्याको प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ । इस प्रकारके जीवके पीत लेश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतर्मुहूर्त और संख्यात हजार वर्ष अधिक आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलद्रव्यपरावर्तन है । पद्म लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई पद्मलेश्यावाला जीव पद्मलेश्याको छोड़कर अंतर्मुहूर्त तक पीत लेश्यामे रह कर पल्यके असंख्यातमेभाग अधिक दो सागरकी आयुसे सौधर्म ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हुआ, वहांसे चयकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलपरावर्तनोके कालका जितना प्रमाण है उतने काल तक भ्रमण किया । पीछे विकलेन्द्रिय होकर संख्यात हजार वर्ष तक भ्रमण किया । पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे लेकर एक २ अन्तर्मुहूर्ततक क्रमसे कृष्ण नील कपोत पीत लेश्याको प्राप्त होकर पद्मलेश्याको प्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पाच अंतर्मुहूर्त और पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वर्ष अधिक आवली के असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलपरावर्तनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई शुक्ल लेश्यावाला जीव शुक्ललेश्याको छोड़कर क्रमसे एक २ अन्तर्मुहूर्ततक पद्म पीत लेश्याको प्राप्त होकर सौधर्म ईशान स्वर्गमें होकर तथा वहां पर पूर्वोक्त प्रमाण कालतक रह कर पीछे एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्वोक्त प्रमाण काल तक भ्रमण कर पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण काल तक भ्रमण करके क्रमसे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे लेकर एक २ अन्तर्मुहूर्त तक क्रमसे कृष्ण नील कपोत पीत पद्म लेश्याको प्राप्त होकर शुक्ल लेश्याको प्राप्त हुआ इसतरहके जीवके सात अंतर्मुहूर्त संख्यात हजार वर्ष और पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्गलपरावर्तनमात्र शुक्ललेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है ।

॥ इति अंतराधिकारः ॥



क्रमप्राप्त मात्र और अन्यबहुत्व अधिकारका वर्णन करते हैं ।

भावादो छलेन्सा ओदयिया होंति अप्पवहुगं तु
इत्थपमाणं सिद्धं इदि लेस्सा वाणिणदा होंति ॥ ५५४ ॥

भावतः षड्लेश्या औदयिका भवन्ति अल्पबहुकं तु ।

द्रव्यप्रमाणे सिद्धमिति लेश्या वर्णिता भवन्ति ॥ १९४ ॥

अर्थ—भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक है; क्योंकि योग और कषायके संयोगको ही लेश्या कहते हैं, और ये दोनो अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते हैं । तथा लेश्याओंका अल्पबहुत्व, पहले लेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रमाण बताया है उसीसे सिद्ध है । इनमें सबसे अल्प शुक्ललेश्यावाले हैं, इनसे असंख्यातगुणे पद्मलेश्यावाले और इनसे भी संख्यातगुणे पीतलेश्यावाले जीव हैं । पीत लेश्यावालोसे अनन्तानंतगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे कुछ अधिक नील लेश्यावाले और इनसे भी कुछ अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हैं ।

॥ इति अल्पबहुत्वाधिकारः ॥

इस प्रकार सोलह अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका वर्णन करके अब लेश्यारहित जीवोंका वर्णन करते हैं ।

किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसुहा ।

सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुण्येव्वा ॥ ५५५ ॥

कृष्णादिलेश्यारहिताः संसारविनिर्गता अनंतसुखाः ।

सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यास्ते ज्ञातव्याः ॥ १९५ ॥

अर्थ—जो कृष्ण आदि छहों लेश्याओंसे रहित हैं, अतएव जो पंचपरिवर्तनरूप संसारसमुद्रके पारको प्राप्त होगये हैं; तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे तृप्त हैं, और आत्मोपलब्धिरूप सिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीवोंको अयोगकेवली या सिद्धभगवान् कहते हैं । भावार्थ—जो अनंत सुखको प्राप्तकर संसारसे सर्वथा रहित होकर सिद्धि पुरको प्राप्त होगये हैं वे जीव सर्वथा लेश्याओंसे रहित होते हैं; अत एव उनको अलेश्य-सिद्ध कहते हैं ।

॥ इति लेश्याप्ररूपणा समाप्ता ॥

क्रमप्राप्त भव्यमार्गणाका वर्णन करते हैं ।

भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा ।

तच्चिवरीयाऽभव्वा संसारादो ण सिज्झंति ॥ ५५६ ॥

भव्या सिद्धियेषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा ।

तच्चिपरीया अभव्याः संसारात् सिज्झन्ति ॥ १९६ ॥

अर्थ—जिन जीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके योग्य हों उनको भव्यसिद्ध कहते हैं । जिनमें इन दोनोमेंसे कोई भी लक्षण घटित न हो उन जीवोंको अभव्यसिद्ध कहते हैं । **भावार्थ**—कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मुक्तिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु कभी मुक्त न होंगे; जैसे बन्ध्यापनेके दोषसे रहित विधवा सती स्त्रीमें पुत्रोत्पत्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा । कोई भव्य ऐसे हैं जो नियमसे मुक्त होंगे । जैसे बन्ध्यापनेसे रहित स्त्रीके निमित्त मिलने पर नियमसे पुत्र उत्पन्न होगा । इन दोनो स्वभावोंसे जो रहित है उनको अभव्य कहते हैं । जैसे बन्ध्या स्त्रीके निमित्त मिले चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

जिनमें मुक्तिप्राप्तिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते हैं इस अर्थको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं ।

भवत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवन्ति भवसिद्धा ।

ण हु मलविगमे णियमा ताणं कणओवलाणमिव ॥ ५५७ ॥

भव्यत्वस्य योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा ।

न हि मलविगमे नियमात् तेषा कनकोपलानामिव ॥ ५५७ ॥

अर्थ—जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु उस सिद्धिको कभी प्राप्त न होंगे उनको भवसिद्ध कहते हैं । इसप्रकारके जीवोंका कर्ममल नियमसे दूर नहीं हो सकता । जैसे कनकोपलका । **भावार्थ**—ऐसे बहुतसे कनकोपल हैं जिनमें निमित्त मिलनेपर शुद्ध स्वर्णरूप होनेकी योग्यता है, परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होगी । अथवा जिसतरह अहमिन्द्र देवोंमें नरकादि में गमन करनेकी शक्ति है परन्तु उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवोंमें अनन्तचतुष्टयको प्राप्त करनेकी योग्यता है परन्तु उनको वह कभी प्राप्त नहीं होगी उनको भवसिद्ध कहते हैं । ये जीव सदा संसारमें ही रहते हैं ।

ण य जे भव्वाभव्वा मुत्तिसुहातीदणंतसंसारा ।

ते जीवा णायव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥ ५५८ ॥

न च ये भव्या अभव्या मुत्तिसुखा अतीतानन्तसंसाराः ।

ते जीवा ज्ञातव्या नैव च भव्या अभव्याश्च ॥ ५५८ ॥

अर्थ—जिनका पाच परिवर्तनरूप अनन्त संसार सर्वथा छूट गया है, और जो मुक्तिसुखके भोक्ता हैं उन जीवोंको न तो भव्य समझना चाहिये और न अभव्य समझना चाहिये; क्योंकि अब उनको कोई नवीन अवस्था प्राप्त करना शेष नहीं रहा है इसलिये वे भव्य भी नहीं हैं । और अनन्त चतुष्टयको प्राप्त हो चुके हैं इसलिये अभव्य भी

नहीं है । **भावार्थ**—जिसमें अनंत चतुष्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यता ही न हो उसको अभव्य कहते हैं । अतः ये अभव्य भी नहीं हैं; क्योंकि इन्होंने अनंत चतुष्टयको प्राप्त कर लिया है । और भव्यत्वका परिपाक हो चुका अतः अपरिपक्व अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य भी नहीं है ।

भव्यमार्गणामे जीवोंकी संख्या बताते हैं ।

अवरो जुत्ताणंतो अभव्वरासिस्स होदि परिमाणं ।

तेण विहीणो सव्वो संसारी भव्वरासिस्स ॥ ५५९ ॥

अवरो युक्तानन्तः अभव्यराशेर्भवति परिमाणम् ।

तेन विहीनः सर्वः संसारी भव्यराशेः ॥ ५५९ ॥

अर्थ—जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है । और सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे अभव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है । **भावार्थ**—भव्यराशि बहुत अधिक है और अभव्य राशि बहुत थोड़ी है । अभव्य जीव सदा पांच परिवर्तन रूप संसारसे युक्त ही रहते हैं । एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका प्राप्त होना इसको संसार—परिवर्तन कहते हैं । इस संसार अर्थात् परिवर्तनके पांच भेद है । द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव । द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद है, एक नोर्कर्मद्रव्यपरिवर्तन दूसरा कर्मद्रव्यपरिवर्तन । यहां पर इन परिवर्तनोंका क्रमसे स्वरूप बताते हैं । किसी जीवने, स्निग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीव्र मंद मध्यम भावोंमेंसे यथासम्भव भावोंसे युक्त, औदारिकादि तीन शरीरोंमेंसे किसी शरीर सम्बन्धी छह पर्याप्तिरूप परिणमनेके योग्य पुद्गलोंका एक समयमें ग्रहण किया । पीछे द्वितीयादि समयोंमें उस द्रव्यकी निर्जरा करदी । तथा पीछे अनन्तवार अग्रहीत पुद्गलोंको ग्रहण करके छोड़ दिया, अनन्तवार मिश्रद्रव्यको ग्रहण करके छोड़दिया, अनन्तवार ग्रहीतको भी ग्रहण करके छोड़ दिया । जब वही जीव उन ही स्निग्ध रूक्षादि भावोंसे युक्त उनही पुद्गलोंको जितने समयमें ग्रहण करे उतने कालसमुदायको नोर्कर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं ।

पूर्वमें ग्रहण किये हुए परमाणु जिस समयप्रवद्धरूप स्कन्धमें हों उसको ग्रहीत कहते हैं । जिस समयप्रवद्धमें ऐसे परमाणु हो कि जिनका जीवने पहले ग्रहण नहीं किया हो उसको अग्रहीत कहते हैं । जिस समयप्रवद्धमें दोनोंप्रकारके परमाणु हों उनको मिश्र कहते हैं । अग्रहीत परमाणु भी लोकमें अनन्तानन्त हैं; क्योंकि सम्पूर्ण जीवराशिका समयप्रवद्धके प्रमाणमे गुणा करने पर जो लब्ध आवे उनका अतीतकाटके समस्त समयप्रमाणमे गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उससे भी अनन्तगुणा पुद्गलद्रव्य है ।

इन परिवर्तनका काल अग्रहीतग्रहण ग्रहीतग्रहण मिश्रग्रहणके भेदमे तीन प्रकारका है । इसकी घटना विलम्ब होती है अतः अनुक्रम गन्धहास बताते हैं ।

द्रव्यपरिवर्तन यन्त्र.					
००×	००×	००१	००×	००×	००१
××०	××०	××१	××०	××०	××१
××१	××१	××०	××१	××१	××०
११×	११×	११०	११×	११×	११०

इस यन्त्रमें शून्यसे अग्रहीत, हंसपदसे (× इस चिह्नसे) मिश्र और एकके अंकसे ग्रहीत समझना चाहिये । तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चाहिये । इस यन्त्रके देखनेसे स्पष्ट होता है कि निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होचुकनेपर एक वार मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है । इस ही क्रमसे अनन्तवार मिश्रका ग्रहण हो चुकने पर अग्रहीतग्रहणके अनंतर एक वार ग्रहीतका ग्रहण होता है । इसके बाद फिर उस ही तरह अनंत वार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर एक वार मिश्रका ग्रहण और मिश्रग्रहणके बाद फिर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर एकवार मिश्रका ग्रहण होता । तथा मिश्रका ग्रहण अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण करके एकवार फिर ग्रहीतका ग्रहण होता है । इस ही क्रमसे अनन्तवार ग्रहीतका ग्रहण होता है । यह अभिप्राय सूचित करनेके लिये ही प्रथम पङ्क्तिमें पहले तीन कोठोंके समान दूसरे भी तीन कोठे किये हैं । अर्थात् इस क्रमसे अनंतवार ग्रहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकर्मपुद्गलपरिवर्तनके चार भेदोंमेंसे प्रथम भेद समाप्त होता है । इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है । यहा पर अनन्तवार मिश्रका ग्रहण होनेपर एकवार अग्रहीतका ग्रहण, फिर अनंतवार मिश्रका ग्रहण होने पर एक वार अग्रहीतका ग्रहण इस ही क्रमसे अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर अनंत वार मिश्रका ग्रहण करके एक वार ग्रहीतका ग्रहण होता है । जिस क्रमसे एकवार ग्रहीतका ग्रहण किया उस ही क्रमसे अनंतवार ग्रहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकर्मपुद्गलपरिवर्तनका दूसरा भेद समाप्त होता है । इसके बाद तीसरे भेदमें अनन्तवार मिश्रका ग्रहण करके एकवार ग्रहीतका ग्रहण होता है, फिर अनन्तवार मिश्रका ग्रहण करके एकवार ग्रहीतका ग्रहण इस । क्रमसे अनंतवार ग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर अनंतवार मिश्रका ग्रहण करके एकवार अग्रहीतका ग्रहण होता है । जिस तरह एकवार अग्रहीतका ग्रहण किया उस ही तरह अनंतवार अग्रहीतका ग्रहण होनेपर नोकर्मपुद्गलपरिवर्तनका तीसरा भेद समाप्त होता है । इसके बाद चौथे भेदका प्रारम्भ होता है, इसमें प्रथम ही अनन्तवार ग्रहीतका ग्रहण करके एकवार मिश्रका ग्रहण होता है, इसकेबाद फिर अनंतवार ग्रही-

तका ग्रहण होनेपर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है । इस तरह अनंतवार मिश्रका ग्रहण होकर पीछे अनंतवार ग्रहीतका ग्रहण करके एकवार अग्रहीतका ग्रहण होता है । जिस तरह एकवार अग्रहीतका ग्रहण किया उस ही क्रमसे अनंतवार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर नोकर्मपुद्गलपरिवर्तनका चौथा भेद समाप्त होता है । इस चतुर्थ भेदके समाप्त होचुकने पर, नोकर्मपुद्गलपरिवर्तनके प्रारम्भके प्रथम समयमें वर्ण गन्ध आदिके जिस भावसे युक्त जिस पुद्गलद्रव्यको ग्रहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध ग्रहीतरूप पुद्गलद्रव्यको जीव ग्रहण करता है । इस सबके समुदायको नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । तथा इसमें जितना काल लगे उसको नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनका काल कहते हैं ।

इस ही तरह दूसरा कर्मपुद्गलपरिवर्तन भी होता है । विशेषता इतनी ही है कि जिस तरह नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनमें नोकर्मपुद्गलोंका ग्रहण होता है उस ही तरह यहा पर कर्मपुद्गलोंका ग्रहण होता है । परन्तु क्रममें कुछ भी विशेषता नहीं है । जिस तरहके चार भेद नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनमें होते हैं उस ही तरह कर्मद्रव्यपरिवर्तनमें भी चार भेद होते हैं । इन चार भेदोंमें भी अग्रहीतग्रहणका काल सबसे अल्प है, इससे अनंतगुणा काल मिश्रग्रहणका है । इससे भी अनंतगुणा ग्रहीतग्रहणका जघन्यकाल है, इससे अनंतगुणा ग्रहीतग्रहणका उत्कृष्ट काल है । क्योंकि प्रायःकरके उस ही पुद्गलद्रव्यका ग्रहण होता है कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र काल भावका संस्कार हो चुका है । इस ही अभिप्रायसे यह सूत्र कहा है किः—

सुहमद्विदिसंजुत्तं आसर्णं कम्मणिज्जरामुक्कं ।

पाएण एदि गहणं दव्वमणिद्विद्वसंठाणं ॥ १ ॥

सूक्ष्मस्थितिसंयुक्तमासन्न कर्मनिर्जरामुक्तम् ।

प्रायेणैति ग्रहणं द्रव्यमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ १ ॥

अर्थ—जिन कर्मरूप परिणत पुद्गलोंकी स्थिति अल्प थी अत एव पीछे निर्जार्ण होकर जिनकी कर्मरहित अवस्था होगई हो परन्तु जीवके प्रदेशोंके साथ जिनका एकक्षेत्रावगाह हो तथा जिनका संस्थान (आकार) कहा नहीं जा सकता इस तरहके पुद्गल द्रव्यका ही प्रायः— करके जीव ग्रहण करता है । भावार्थ—यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके पुद्गलका जीव ग्रहण करे तथापि बहुधा इस ही तरहके पुद्गलका ग्रहण करता है; क्योंकि यह द्रव्य क्षेत्र काल भावसे संस्कारित है ।

द्रव्यपरिवर्तनके उक्त चार भेदोंका इस गायामें निरूपण किया है—।

अगहिदमिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च ।

मिस्सं गहिदमगहिदं गहिदं मिस्सं अगहिदं च ॥ २ ॥

अग्रहीतं मिश्रं ग्रहीतं मिश्रमग्रहीतं तथैव ग्रहीतं च ।

मिश्रं ग्रहीतमग्रहीतं ग्रहीतं मिश्रमग्रहीतं च ॥ २ ॥

अर्थ—पहला अग्रहीत मिश्र ग्रहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत ग्रहीत, तीसरा मिश्र ग्रहीत अग्रहीत, चौथा ग्रहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुद्गलोंका ग्रहण होनेपर परिवर्तनके प्रारम्भ समयमें ग्रहण किये हुए पुद्गलोंका ग्रहण होता है । और तब ही एक द्रव्यपरिवर्तन पूरा होता है । इसका विशेष स्वरूप पहले लिख चुके हैं । **भावार्थ**—यहां पर प्रकरणके अनुसार शेष चार परिवर्तनोंका भी स्वरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवर्तनके दो भेद हैं, एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन दूसरा परक्षेत्रपरिवर्तन । एक जीव सर्व जघन्य अवगाहनाओंको जितने उसके प्रदेश हो उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की अवगाहनाओंको धारण करते २ महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्त अवगाहनाओंको जितने समयमें धारण करसके उतने काल समुदायको एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव लोकके अष्ट मध्य—प्रदेशोंको अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी वार भी उत्पन्न हुआ । इसी तरह घनाङ्गुलके असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं उतनीवार उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और श्वासके अठारहमे भागप्रमाण क्षुद्र आयुको भोग २ कर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक २ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कालमें सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायको एक परक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं ।

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें पहलीवार उत्पन्न हुआ, इस ही तरह दूसरीवार दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें तीसरीवार उत्पन्न हुआ । इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके वीस कोड़ाकोड़ी सागरके जितने समय हैं उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसही क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ, इसमें जितना काल लगे उतने कालसमुदायको एक कालपरिवर्तन कहते हैं ।

कोई जीव दशहजार वर्षके जितने समय हैं उतनीवार जघन्य दश हजार वर्षकी आयुसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, पीछे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको क्रमसे पूर्ण कर, अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हैं उतनीवार जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी आयुसे तिर्यग्गतिमें उत्पन्न होकर यहांपर भी नरगतिकीतरह एक २ समयके अधिकक्रमसे तिर्यग्गतिसम्बन्धी तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । पीछे तिर्यग्गतिकी तरह मनुष्यगतिको पूर्ण किया, क्योंकि मनुष्यगतिकी भी जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी तथा उत्कृष्ट तीन पल्यकी आयु है । मनुष्यगतिके बाद दश हजार वर्षके जितने समय हैं उतनीवार जघन्य दश हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमें उत्पन्न होकर पीछे एक २ समयके

अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया, क्योंकि यद्यपि देवगतिसम्बन्धी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि मिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतक ही होती है । और इन परिवर्तनोंका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे ही है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि संसारमे अर्धपुद्गल परिवर्तनका जितना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता । इस क्रमसे चारों गतियोमे भ्रमण करनेमे जितना काल लगे उतने कालको एक भवपरिवर्तनका काल कहते हैं । तथा इतने कालमें जितना भ्रमण किया जाय उसको एक भवपरिवर्तन कहते हैं ।


योगस्थान अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कषायाध्यवसायस्थान स्थितिस्थान इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । प्रकृति और प्रदेशबन्धको कारणभूत आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । जिन कषायके तरतमरूप स्थानोंसे अनुभागबंध होता है उनको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिवन्धको कारणभूत कषाय-परिणामोंको कषायाध्यवसायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । बन्धरूप कर्मकी जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते हैं । इनका परिवर्तन किस तरह होता है यह दृष्टान्तद्वारा नीचे लिखते हैं ।

श्रेणिके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके होजानेपर एक अनुभागबंधाध्यवसाय-स्थान होता है, और असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंके होजानेपर एक कषायाध्यवसायस्थान होता है, तथा असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंके होजाने पर एक स्थितिस्थान होता है । इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूलप्रकृति वा उत्तर-प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । जैसे किसी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि संज्ञी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अंतःकोडाकोड़ी सागरप्रमाण जघन्य स्थितिका बंध होता है । यही यहापर जघन्य स्थितिस्थान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही कषायाध्यवसायस्थान और जघन्य ही योगस्थान होते हैं । यहासे ही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है । अर्थात् इसके आगे श्रेणिके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे होजानेपर दूसरा अनुभागबन्धाध्य-वसायस्थान होता है । इसके बाद फिर श्रेणिके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे होजानेपर तीसरा अनुभागबंधाध्यवसायस्थान होता है । इसही क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोंके होजानेपर दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है । जिस क्रमसे दूसरा कषायाध्यवसायस्थान हुआ उसही क्रमसे असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंके

१ एक ही समयपरिवर्तनसे अनेक स्थितिके भ्रमण हो सके हैं । एक ही समयमें अनेक कर्मोंके भ्रमण होनेसे अनेक स्थितिके भ्रमण हो सके हैं । इनमें से एक ही समयमें भ्रमण होकर अनेक कर्मोंके भ्रमण हो सके हैं ।

होजानेपर जघन्य स्थितिस्थान होता है । जो क्रम जघन्य स्थितिस्थानमें बताया वही क्रम एक २ समय अधिक द्वितीयादि स्थितिस्थानोमे समझना चाहिये । तथा इसी क्रमसे ज्ञानावरणके जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति स्थानोंके हो जानेपर, और ज्ञानावरणके स्थिति स्थानोंकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थितिस्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । तथा इस परिवर्तनमें जितना काल लगे उसको एक भावपरिवर्तनका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे इन पाच परिवर्तनोका स्वरूप यहाँपर कहा है । इनका काल उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है । नानाप्रकारके दुःखोंसे आकुलित पाच परिवर्तनरूप संसारमे यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तसे अनतकालसे भ्रमण कर रहा है । इस परिभ्रमणके कारणभूत कर्मोंको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं है उनको अभव्य कहते हैं । और जिनमें कर्मोंको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता है उनको भव्य कहते हैं ।

॥ इति भव्यत्वमार्गणाधिकारः समाप्त ॥



क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मार्गणाका वर्णन करते हैं ।

छप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोवइट्ठाणं ।

आणाए अहिगमेण य सद्वहणं होइ सम्मत्तं ॥ ५६० ॥

षट्पञ्चनवविधानामर्थानां जिनदरोपदिष्टानाम् ।

आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम् ॥ ५६० ॥

अर्थः—छह द्रव्य पाच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं । यह दो प्रकारसे होता है एक तो केवल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे । **भावार्थ**—जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये छह द्रव्य हैं । तथा कालको छोड़कर शेष ये ही पाच अस्तिकाय कहे जाते हैं । और जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके पदार्थ हैं । इनका ' जिनेन्द्रदेवने जैसा स्वरूप कहा है वास्तवमें वही सत्य है, ' इस तरह विना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्त्व कहते हैं । तथा इनके विषयमें प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्रव्यार्थिक आदि नय, नाम स्थापना आदि निक्षेप इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं ।

छह द्रव्योंके अधिकारोंका वर्णन करते हैं ।

छट्ठवेसु य णामं उवलकखणुवाय अत्थणे कालो ।

अत्थणखेत्तं संखाटाणसरूवं फलं च हवे ॥ ५६१ ॥

१ सभी परिवर्तनोंमें जहा क्रमभंग होगा वह गणनामें नहीं आवेगा ।

षड्द्रव्येषु च नाम उपलक्षणानुवादः अस्तित्वकालः ।

अस्तित्वक्षेत्रं संख्या स्थानस्वरूपं फलं च भवेत् ॥ ५६१ ॥

अर्थ—छह द्रव्योंके निरूपण करनेमें ये सात अधिकार हैं ।—नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानस्वरूप, फल ।

प्रथमही नाम अधिकारको कहते हैं ।

जीवाजीवं द्रव्यं रूपाख्यवित्ति होदि पत्तयं ।

संसारस्था रूपा कम्मविमुक्ता अरूपगया ॥ ५६२ ॥

जीवाजीवं द्रव्यं रूप्यरूपीति भवति प्रत्येकम् ।

संसारस्था रूपिणः कर्मविमुक्ता अरूपगताः ॥ ५६२ ॥

अर्थ—द्रव्य सामान्यके दो भेद है । एक जीवद्रव्य दूसरा अजीव द्रव्य । जीवद्रव्यके भी दो भेद है । एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैं वे सब रूपी हैं; क्योंकि उनका कर्म—पुद्गलके साथ एकक्षेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं वे सब अरूपी हैं; क्योंकि उनसे कर्मपुद्गलका सम्बन्ध सर्वथा छूट गया है ।

अजीव द्रव्यमें भी रूपी अरूपीका भेद गिनाते हैं ।

अज्जीवेसु य रूवी पुग्गलदव्वाणि धम्म इदरोवि ।

आगासं कालोवि य चत्तारि अरूविणो होंति ॥ ५६३ ॥

अजीवेषु च रूपीणि पुद्गलद्रव्याणि धर्म इतरोऽपि ।

आकाशं कालोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ५६३ ॥

अर्थ—अजीव द्रव्यके पांच भेद है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल । इनमें एक पुद्गल द्रव्य रूपी है । और शेष धर्म अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अरूपी हैं ।

उपलक्षणानुवाद अधिकारको कहते हैं ।

उवजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोग्गलाणं तु ।

गदिठाणोग्गहवत्तणकिरियुवयारो तु धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥

उपयोगो वर्णचतुष्कं लक्षणमिह जीवपुद्गलानां तु ।

गतिस्थानावगाहवर्तनक्रियोपकारस्तु धर्मचतुर्णाम् ॥ ५६४ ॥

अर्थ—ज्ञानदर्शनरूप उपयोग जीवद्रव्यका लक्षण है । वर्ण गन्ध रस स्पर्श यह पुद्गलद्रव्यका लक्षण है । जो जीव और पुद्गलद्रव्यको गमन करनेमें सहकारी हो उसको धर्म-द्रव्य कहते हैं । जो जीव तथा पुद्गलद्रव्यको ठहरनेमें सहकारी हो उसको अधर्मद्रव्य कहते हैं । जो सम्पूर्ण द्रव्योंके ध्यान देनेमें सहायक हो उसको आकाश कहते हैं । जो समस्त द्रव्योंके अपने-अपने रूपावयवमें वर्तनेका सहकारी हो उसको कालद्रव्य कहते हैं ।

गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाणं पुग्गलाणमेव हवे ।

धम्मतिथे णहि किरिया मुक्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५ ॥

गतिस्थानावगाहक्रिया जीवानां पुद्गलनामेव भवेत् ।

धर्मत्रिके नहि क्रिया मुख्याः पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥

अर्थ—गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्रव्य या पुद्गलद्रव्यकी ही होती है । धर्म अधर्म आकाशमें ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि न तो इनके स्थान चलायमान होते हैं, और न प्रदेश ही चलायमान होते हैं । किन्तु ये तीनों ही द्रव्य जीव पुद्गलकी उक्त तीनों क्रियाओके मुख्य साधक हैं । **भावार्थ**—मुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि धर्मादि द्रव्य जीव पुद्गलको गमन आदि करनेमें प्रेरक है; किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्गल गति आदिमें परिणत हो उस समय उनकी गति आदिमें सहकारी होना धर्मादि द्रव्यका मुख्य कार्य है ।

गति आदिमें धर्मादि द्रव्य किसतरह सहायक होते हैं यह दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं ।

जत्तस्स प्हं ठत्तस्स आसणं णिवसगस्स वसदी वा ।

गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतिथं साधगं होदि ॥ ५६६ ॥

यातस्य पन्थाः तिष्ठतः आसनं निवसकस्य वसतिर्वा ।

गतिस्थानावगाहकरणे धर्मत्रयं साधकं भवति ॥ ५६६ ॥

अर्थ—गमन करनेवालेको मार्गकी तरह धर्म द्रव्य जीवपुद्गलकी गतिमें सहकारी होता है । ठहरनेवालेको आसनकी तरह अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलकी स्थितिमें सहकारी होता है । निवासकरनेवालेको मकानकी तरह आकाशद्रव्य जीव पुद्गल आदिको अवगाह देनेमें सहकारी साधक होता है ।

वत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमविय द्दव्वणिचयेसु ।

कालाधारेणेव य वट्ठंति हु सव्वदव्वाणि ॥ ५६७ ॥

वर्तनाहेतुः कालो वर्तनागुणमवेहि द्रव्यनिचयेषु ।

कालाधारेणैव च वर्तन्ते हि सर्वद्रव्याणि ॥ ५६७ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण द्रव्योंका यह स्वभाव है कि वे अपने २ स्वभावमें सदा ही वर्तते । परन्तु उनका यह वर्तना किसी बाह्य सहकारीके विना नहीं हो सकता इसलिये इनको वर्तानेवाला सहकारी कारणरूप वर्तनागुण जिसमें पाया जाय उसको काल कहते हैं, क्योंकि कालके आश्रयमें ही नमस्त द्रव्य वर्तते हैं ।

मूर्त्तिक जीव पुद्गलके वर्तनेका सहकारी कारण होना काल द्रव्यमें सम्भव है, परन्तु धर्मद्रिक अमूर्त्तिक तथा व्यापक द्रव्योंमें किसतरह घटित होसकता है? इस शङ्काका समाधान करते हैं ।

धम्माधम्मादीणं अगुरुगुलहुगं तु छहिं वि वड्डीहिं ।
हाणीहिं वि वड्ढंतो हायंतो वड्ढे जह्मा ॥ ५६८ ॥

धर्माधर्मादीनामगुरुकलघुकं तु षड्भिरपि वृद्धिभिः ।

हानिभिरपि वर्धमानं हीयमानं वर्तते यस्मात् ॥ ५६८ ॥

अर्थ—धर्मादिक द्रव्योंमें अगुरुलघु नामका एक गुण है । इस गुणमें तथा इसके निमित्तसे धर्मादिक द्रव्यके शेष गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि होती है । और इन वृद्धि हानिके निमित्तसे वर्धमान तथा हीयमान धर्मादि द्रव्योंमें वर्तना सम्भव है । भावार्थ—धर्मादि द्रव्योंमें स्वसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुलघु गुण है । इसके अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंमें अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि, तथा अन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानि होती हैं । तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे गुणोंमें भी ये हानि वृद्धि होती है । इसलिये धर्मादि द्रव्योंके इस परिणमनका भी बाह्य सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य ही है ।

वर्तनाका कारण कालद्रव्य किसतरह है यह स्पष्ट करते हैं ।

ण य परिणमदि सयं सो ण य परिणामेइ अणमण्णेहिं ।

विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सयं हेडु ॥ ५६९ ॥

न च परिणमति स्वयं स नच परिणामयति अन्यदन्वैः ।

विविधपरिणामिकानां भवति हि कालः स्वय हेतुः ॥ ५६९ ॥

अर्थ—परिणामी होनेसे कालद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है, वह न तो स्वयं दूसरे द्रव्यरूप परिणत होता है, और न दूसरे द्रव्योंको अपने स्वरूप अथवा भिन्नद्रव्यस्वरूप परणमाता है; किन्तु अपने स्वभावसे ही अपने २ योग्य पर्यायोंसे परिणत होनेवाले द्रव्योंके परिणमनमें कालद्रव्य उदासीनतासे स्वयं बाह्य सहकारी होजाता है ।

कालं अस्सिय दव्वं सगसगपज्जायपरिणदं होदि ।

पज्जायावडाणं सुद्धणये होदि खणमेत्तं ॥ ५७० ॥

कालमाश्रित्य द्रव्यं स्वस्वरूपपर्यायपरिणतं भवति ।

पर्यायावस्थानं शुद्धनयनं भवति क्षणमात्रम् ॥ ५७० ॥

अर्थ—कालके आश्रयसे प्रत्येक द्रव्य अपने २ योग्य पर्यायोंमें परिणत होता है । इन पर्यायोंकी स्थिति शुद्धनयने एक क्षण मात्र रहती है ।

ववहारो य वियप्पो भेदो तह पज्जओत्ति एयड्डो ।
ववहारअवट्ठाणट्ठिदी हु ववहारकालो दु ॥ ५७१ ॥

व्यवहारश्च विकल्पो भेदस्तथा पर्याय इत्येकार्थः ।

व्यवहारावस्थानस्थितिर्हि व्यवहारकालस्तु ॥ ५७१ ॥

अर्थ—व्यवहार विकल्प भेद पर्याय इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । व्यंजनपर्यायके ठहरनेका जितना काल है उतने कालको व्यवहारकाल कहते हैं ।

अवरा पज्जायठिदी खणमेत्तं होदि तं च समओत्ति ।

दोण्हमणूणमदिक्रमकालप्रमाणं हवे सो दु ॥ ५७२ ॥

अवरा पर्यायस्थितिः क्षणमात्रं भवति सा च समय इति ।

द्वयोरण्वोरतिक्रमकालप्रमाणं भवेत् स तु ॥ ५७२ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण द्रव्योंकी पर्यायकी जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीको समय भी कहते हैं । दो परमाणुओके अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण है उसको समय कहते हैं । भावार्थ—समीपमें स्थित दो परमाणुओंमेंसे मंद गमनरूप परिणत होकर जितने कालमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उलंघन करै उतने कालको एक समय कहते हैं । इतनी ही प्रत्येक पर्यायकी जघन्य स्थिति है ।

प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बताते हैं ।

णमएयपयेसत्थो परमाणु मंदगइपवडुंतो ।

वीयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि तं समयकालो ॥ १ ॥

नभएकप्रदेशस्थः परमाणुर्मन्दगतिप्रवर्तमानः ।

द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावत् याति सः समयकालः ॥ १ ॥

अर्थ—आकाशके एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके दूसरे अनन्तर प्रदेशपर जितने कालमें प्राप्त हो उतने कालको एक समय कहते हैं ।

प्रदेशका प्रमाण बताते हैं ।

जेत्तीवि खेत्तमेत्तं अणुणा रुद्धं खु गयणद्व्वं च ।

तं च पदेसं भणियं अचरावरकारणं जस्स ॥ २ ॥

यावदपि क्षेत्रमात्रमणुना रुद्धं खलु गगनद्रव्यं च ।

स च प्रदेशो भणितः अपरपरकारण यस्य ॥ २ ॥

अर्थ—जितने आकाशद्रव्यमें पुट्टलका एक अविभागी परमाणु आजाय उतने क्षेत्र-मात्रके एक प्रदेश कहते हैं । इस प्रदेशके निमित्तसे ही आगे पीछेका अथवा दूर समी-

पका व्यवहार सिद्ध होता है । **भावार्थ**—अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और अमुक पदार्थ पीछे है । अथवा अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदार्थसे दूर है इस व्यवहारको सिद्ध करनेवाला प्रदेशविभाग ही है ।

व्यवहारकालका निरूपण करते हैं ।

आवलिअसंखसमया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो ।

सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्थोवा लवो भणियो ॥ ५७३ ॥

आवलिरसंख्यसमया संख्येयावलिसमूह उच्छ्वासः ।

सप्तोच्छ्वासः स्तोकाः सप्तस्तोको लवो भणितः ॥ ५७३ ॥

अर्थ—असंख्यातसमयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीका एक उच्छ्वास होता है । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका एक लव होता है ।

उच्छ्वासका स्वरूप क्षेपक गाथाद्वारा बताते हैं ।

अड्डस्स अणलस्स य णिरुवहदस्स य हवेज्ज जीवस्स ।

उस्सासाणिस्सासो एसो पाणोत्ति आहीदो ॥ १ ॥

आढ्यस्यानलसस्य च निरुपहतस्य च भवेत् जीवस्य ।

उच्छ्वासनिःश्वास एकः प्राण इति आख्यातः ॥ १ ॥

अर्थ—सुखी, आलस्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात-आवलीके समूहरूप एक श्वासोच्छ्वास प्राण होता है । **भावार्थ**—दुःखी आदि जीवके संख्यात आवलीप्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छ्वास हो जाता है । इसलिये यहां पर सुखी आदि विशेषणोंसे युक्त जीवका ग्रहण किया है ।

अट्टत्तीसद्धलवा नाली वेनालिया मुहुत्तं तु ।

एगसमयेण हीणं भिण्णमुहुत्तं तदो सेसं ॥ ५७४ ॥

अष्टत्रिंशदर्धलवा नाली द्विनालिको मुहूर्तस्तु ।

एकसमयेन हीनो भिन्नमुहूर्तस्ततः शेषः ॥ ५७४ ॥

अर्थ—साढ़े अठतीस लवकी एक नाली (घड़ी) होती है । दो घड़ीका एक मुहूर्त होता है । इसमें एक समय कम करनेसे भिन्नमुहूर्त अथवा अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा इसके आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तर्मुहूर्तके भेद होते हैं ।

जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं ।

ससमयमावलि अवरं समऊणमुहुत्तयं तु उक्कम्मं ।

मज्झासंसवियप्प वियाण अंतोमुहुत्तमिणं ॥ १ ॥

ससमय आवलिरवरः समयोनमुहूर्तकस्तु उत्कृष्टः ।

मध्यासंख्यविकल्पः विजानीहि अन्तर्मुहूर्तमिमम् ॥ १ ॥

अर्थ—एक समयसहित आवलीप्रमाण कालको जवन्य अन्तर्मुहूर्त कहते हैं । एक समय कम मुहूर्तको उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहते हैं । इन दोनोंके मध्यके असंख्यात भेद हैं । उन सबको भी अन्तर्मुहूर्त ही जानना चाहिये ।

दिवसो पक्षो मासो उड्डु अयणं वस्समेवमादी हु ।

संखेज्जासंखेज्जाणंताओ होदि ववहारो ॥ ५७५ ॥

दिवसः पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिर्हि ।

संख्येयासंख्येयानन्ता भवन्ति व्यवहाराः ॥ ५७५ ॥

अर्थ—तीस मुहूर्तका एक दिवस (अहोरात्र) पन्द्रह अहोरात्रका एक पक्ष, दो पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एक वर्ष इत्यादि व्यवहार कालके आवलीसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद होते हैं ।

ववहारो पुण कालो माणुसखेत्तमिह जाणिद्ववो दु ।

जोइसियाणं चारे ववहारो खलु समाणोत्ति ॥ ५७६ ॥

व्यवहारः पुनः कालः मानुषक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु ।

ज्योतिष्काणां चारे व्यवहारः खलु समान इति ॥ ५७६ ॥

अर्थ—परन्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमे ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य-क्षेत्रके ही ज्योतिषी देवोके विमान गमन करते हैं, और इनके गमनका काल तथा व्यवहार काल दोनों समान हैं ।

प्रकारान्तरसे व्यवहारकालका प्रमाण बताते हैं ।

ववहारो पुण तिविहो तीदो वडंतगो भविस्सो दु ।

तीदो संखेज्जावलिहदसिद्धाणं पमाणं तु ॥ ५७७ ॥

व्यवहारः पुनस्त्रिविधोऽतीतो वर्तमानो भविष्यस्तु ।

अतीतः संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥ ५७७ ॥

अर्थ—व्यवहार कालके तीन भेद हैं । भूत वर्तमान भविष्यत् । सिद्धराशिका संख्यात आवलीके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत कालका प्रमाण है ।

समओ हु वडमाणो जीवादो सव्वपुग्गलादो वि ।

भावी अणंतगुणिदो इदि ववहारो हवे कालो ॥ ५७८ ॥

समयो हि वर्तमानो जीवात् सर्वपुद्गलादपि ।

भावी अनंतगुणित इति व्यवहारो भवेत्कालः ॥ ५७८ ॥

अर्थ—वर्तमान कालका प्रमाण एक समय है । सम्पूर्ण जीवराशि तथा समस्त पुद्गलद्र-
न्यराशिसे अनंतगुणा भविष्यत् कालका प्रमाण है । इस प्रकार व्यवहार कालके तीन भेद
होते हैं ।

कालोविय ववएसो सवभावपरूवओ हवदि णिच्चो ।

उत्पण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतरट्टाई ॥ ५७९ ॥

कालोऽपि च व्यपदेशः सद्भावप्ररूपको भवति नित्यः ।

उत्पन्नप्रध्वंसी अपरो दीर्घान्तरस्थायी ॥ ५७९ ॥

अर्थ—काल यह व्यपदेश (संज्ञा) मुख्यकालका बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके
गौण अथवा व्यवहारकी भी प्रवृत्ति नहीं होसकती । यह मुख्य काल द्रव्यार्थिक नयकी
अपेक्षा नित्य है तथा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है । तथा व्यवहारकाल वर्त-
नकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है और भूत भविष्यत्की अपेक्षा दीर्घान्तरस्थायी है ।

क्रमप्राप्त स्थिति अधिकारका वर्णन करते हैं ।

छद्दव्वावट्टाणं सरिसं तियकालअत्थपज्जाये ।

व्यंजणपज्जाये वा मिलिदे ताणं ठिदितादो ॥ ५८० ॥

षड्द्रव्यावस्थानं सदृशं त्रिकालार्थपर्याये ।

व्यंजनपर्याये वा मिलिते तेषां स्थितित्वात् ॥ ५८० ॥

अर्थ—अवस्थान=स्थिति छहों द्रव्योकी समान है । क्योंकि त्रिकालसम्बन्धी अर्थपर्याय
वा व्यंजनपर्यायके मिलनेसे ही उनकी स्थिति होती है । भावार्थ छहों द्रव्य अनादिनि-
धन है; क्योंकि कथंचित् द्रव्य पर्यायोंसे भिन्न कुछ भी चीज नहीं है । और इन पर्यायोंके
दो भेद हैं, एक व्यंजनपर्याय दूसरी अर्थपर्याय । वागोचर—वचनके विषयभूत स्थूलपर्यायको
व्यंजनपर्याय कहते हैं, और वचनके अगोचर सूक्ष्म पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं । ये
दोनोंही पर्याय पर्यायत्वकी अपेक्षा त्रिकालवर्ती अर्थात् अनादिनिधन है ।

इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं ।

एयदवियम्मि जे अत्थपज्जया वियणपज्जया चावि ।

तीदाणागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ॥ ५८१ ॥

एकद्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यंजनपर्यायाश्चापि ।

अतीतानागतभूता तावत्तत् भवति द्रव्यम् ॥ ५८१ ॥

अर्थ—एक द्रव्यमें जितनी त्रिकालसम्बन्धी अर्थपर्याय या व्यंजनपर्याय हैं उतना ही
द्रव्य है । भावार्थ—त्रिकाल सम्बन्धी सम्भानस्वरूप (आकाररूप) प्रदेशवत्त्वगुणकी
पर्याय—व्यंजनपर्याय, तथा प्रदेशवत्त्वगुणको छोड़कर शेषगुणोंकी त्रिकालसम्बन्धी

समस्तपर्याय (अर्थपर्याय) इनका जो समूह है वही द्रव्य है । त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है ।

इस प्रकार स्थिति अधिकारका वर्णन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वर्णन करते हैं ।

आगासं वज्जित्ता सव्वे लोगम्मि चैव णत्थि वहिं ।

वावी धम्माधम्मा अवट्ठिदा अचलिदा णिच्चा ॥ ५८२ ॥

आकाशं वर्जयित्वा सर्वाणि लोके चैव न सन्ति बहिः ।

व्यापिनौ धर्माधर्मौ अवस्थितावचलितौ नित्यौ ॥ ५८२ ॥

अर्थ—आकाशको छोड़कर शेष समस्तद्रव्य लोकमे ही है—बाहर नहीं है । तथा धर्म और अधर्मद्रव्य व्यापक है, अवस्थित है, अचलित है, और नित्य है । **भावार्थ**—आकाश-द्रव्यके दो भेद है, एक लोक दूसरा अलोक । जितने आकाशमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल पाया जाय उतने आकाशको लोक कहते हैं । इसके बाहर जितना अनन्त आकाशद्रव्य है उसको अलोक कहते हैं । धर्म अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकमें तिलमे तैलकी तरह व्याप्त है । तथा ये दोनो ही द्रव्य आकाशके जिन प्रदेशोंमें स्थित है उनही प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं । जीवा-दिकी तरह एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमे गमन नहीं करते । और अपने स्थानपर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकल्लोलकी तरह सकम्प नहीं होते हैं और न ये दोनों द्रव्य कभी अपने स्वरूपसे च्युत होते हैं । अर्थात् न तो इनमे विभाव पर्याय होती है और न इनका कभी सर्वथा अभाव ही होता है ।

लोगस्स असंखेज्जदिभागप्पहुदिं तु सव्वलोगोत्ति ।

अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावड्ढो जीवो ॥ ५८३ ॥

लोकस्यासंख्येयादिभागप्रभृतिस्तु सर्वलोक इति ।

आत्मप्रदेशविसर्पणसंहारे व्यापृतो जीवः ॥ ५८३ ॥

अर्थ—एक जीव अपने प्रदेशोंके संहारविसर्पकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भागसे लेकर सम्पूर्ण लोकतकमें व्याप्त होकर रहता है । **भावार्थ**—आत्मामें प्रदेशसंहारविसर्पत्व गुण है । इसके निमित्तसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते हैं । इसलिये एक जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अङ्गुलके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार योजन तकका होता है । इसके आगे समुद्रातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भाग, संख्यातमे भाग, तथा सम्पूर्ण लोकप्रमाण भी होता है ।

पोगलदव्वाणं पुण एचपदेसादि होंति भजणिज्जा ।

एक्केक्को दु पदेसे कालाणूणं धुवो होदि ॥ ५८४ ॥

अपने स्थानसे कभी चलायमान नहीं होते, तथा एक स्थान पर ही रहते हुए भी इनके प्रदेश कभी सकम्प नहीं होते । किन्तु संसारी जीवोंके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । चल भी होते हैं, अचल भी होते हैं, तथा चलाचल भी होते हैं । विग्रहगतिवाले जीवोंके प्रदेश चल ही होते हैं । अयोगकेवलियोंके प्रदेश अचल ही होते हैं । और शेष जीवोंके प्रदेश चलाचल होते हैं ।

पोग्गलद्व्वम्हि अणू संखेज्जादी हवंति चलिदा हु ।

चरिममहक्खंधम्मि य चलाचल। होंति हु पदेसा ॥ ५९२ ॥

पुद्गलद्रव्येऽणवः संख्यातादयो भवंति चलिता हि ।

चरममहास्कन्धे च चलाचला भवन्ति हि प्रदेशाः ॥ ५९२ ॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यमे परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध है वे सभी चल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचल है, क्योंकि उसमे कोई परमाणु चल है और कोई परमाणु अचल है ।

परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्गलद्रव्यके तेईस भेदोंको दो गाथाओंमें गिनाते हैं ।

अणुसंखासंखेज्जाणंता य अगेज्जगेहिं अंतरिया ।

आहारतेजभासामणकम्मइया ध्रुवक्खंधा ॥ ५९३ ॥

सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेहध्रुवसुण्णा ।

वाटरणिगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णभो महक्खंधा ॥ ५९४ ॥

अणुसंख्यासंख्यातानन्ताश्च अग्राह्यकाभिरन्तरिताः ।

आहारतेजोभापामनःकर्मणा ध्रुवस्कन्धाः ॥ ५९३ ॥

सान्तरनिरन्तरया च शून्या प्रत्येकदेहध्रुवशून्या ।

वाटरनिगोदशून्याः सूक्ष्मनिगोदा नभो महास्कन्धाः ॥ ५९४ ॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यके तेईस भेद हैं । अणुवर्गणा, संख्याताणुवर्गणा, असंख्याताणुवर्गणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, तैजसवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, कर्मणवर्गणा, ध्रुववर्गणा, सांतरनिरन्तरवर्गणा, शून्यवर्गणा, प्रत्येकदेहरीरवर्गणा, ध्रुवशून्यवर्गणा, वाटरनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवर्गणा, महास्कन्धवर्गणा ।

इन वर्गणाओंके जपन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अन्यत्रहुत्व बताने हैं ।

परमाणुवर्गणम्मि ण अवरुक्कस्सं च सेसगे अत्थि ।

गेज्जमहक्खंधाणं चरमहियं सेसगं गुणियं ॥ ५९५ ॥

परमाणुवर्गणायां नावरोत्कृष्टं च शेषके अस्ति ।

ग्राह्यमहास्कन्धाना वरमधिकं शेषकं गुणितम् ॥ ५९५ ॥

अर्थ—तेईस प्रकारकी वर्गणाओंमेंसे अणुवर्गणामें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है । शेष वाईस जातिकी वर्गणाओंमें जघन्य उत्कृष्ट भेद है । तथा इन वाईस जातिकी वर्गणाओंमें भी आहारवर्गणा, तैजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कर्मणवर्गणा, ये पांच ग्राह्य वर्गणा और एक महास्कन्ध वर्गणा इन छह वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद प्रतिभागकी अपेक्षासे हैं । किन्तु शेष सोलह जातिकी वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद गुणकारकी अपेक्षासे हैं ।

पांच ग्राह्यवर्गणाओंका तथा अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये प्रतिभागका प्रमाण बताते हैं ।

सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेज्झगाण जेड्डुं ।

पल्लासंखेज्जदियं अंतिमखंधस्स जेड्डुं ॥ ५९६ ॥

सिद्धानन्तिमभागः प्रतिभागो ग्राह्याणां ज्येष्ठार्थम् ।

पल्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्ठार्थम् ॥ ५९६ ॥

अर्थ—पाच ग्राह्यवर्गणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है । और अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण पल्यके असंख्यातमे भाग है । भावार्थ—सिद्धराशिके अनन्तमे भागका अपने २ जघन्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अपने २ जघन्यमे मिलानेसे पांच ग्राह्य वर्गणाओंके अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । और अन्तिम महास्कन्धके जघन्य भेदमे पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको जघन्यके प्रमाणमे मिलानेसे महास्कन्धके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है ।

संखेजासंखेजे गुणगारो सो दु होदि हु अणंते ।

चत्तारि अगेज्जेसु वि सिद्धाणमणंतिमो भागो ॥ ५९७ ॥

संख्यातासख्याताया गुणकारः स तु भवति हि अनन्तायाम् ।

चतमूपु अग्राह्यास्वपि सिद्धानामनन्तिमो भागः ॥ ५९७ ॥

अर्थ—संख्याताणुवर्गणा और असंख्याताणुवर्गणामें गुणकारका प्रमाण अपने २ उत्कृष्टमें अपने २ जघन्यका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है । इस गुणकारके साथ अपने २ जघन्यका गुणा करनेमे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है । और अनन्ताणुवर्गणा तथा चार अग्राह्यवर्गणाओंके गुणकारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तमे भागमात्र है । इस गुणकारके साथ अपने २ जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है ।

पुद्गलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीयाः ।

एकैकस्तु प्रदेशः कालाणूनां ध्रुवो भवति ॥ १८४ ॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये—जैसे परमाणुका एक प्रदेशप्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, व्यणुकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश क्षेत्र है, इत्यादि । किन्तु एक २ कालाणुका क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है । **भावार्थ**—कालद्रव्य अणुरूप ही है । कालाणुके पुद्गलद्रव्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते । जितने लोकाकाशके प्रदेश है उतनी ही कालाणु है । इस लिये रत्नराशिकी तरह एक २ कालाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा स्थित रहती है । तथा जो कालाणु जिस प्रदेशपर स्थित है वह उसी प्रदेशपर सदा स्थित रहती है । किन्तु पुद्गल द्रव्यके स्कन्ध होते हैं अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते हैं ।

संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होति पोग्गलपदेसा ।

लोगागासेव ठिदी एगपदेसो अणुस्स हवे ॥ ५८५ ॥

संख्येयासंख्येयानन्ता वा भवन्ति पुद्गलप्रदेशाः ।

लोकाकाश एव स्थितिरैकप्रदेशोऽणोर्भवेत् ॥ १८५ ॥

अर्थ—पुद्गल द्रव्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओंके हैं, परन्तु उन सबकी स्थिति लोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता है । **भावार्थ**—जिस तरह जलसे अच्छीतरह भरे हुए पात्रमें लवण आदि कई पदार्थ आसकते हैं उसी तरह असंख्यातप्रदेशी लोकमें अनंतप्रदेशी स्कन्ध आदि समा सकते हैं ।

लोगागासपदेसा छद्द्वेहिं फुडा सदा होंति ।

सव्वमलोगागासं अण्णेहिं विवज्जियं होदि ॥ ५८६ ॥

लोकाकाशप्रदेशाः पङ्कज्यैः स्फुटाः सदा भवन्ति ।

सर्वमलोकाकाशमन्यैर्विवर्जितं भवति ॥ १८६ ॥

अर्थ—लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें छहो द्रव्य व्याप्त है । और अलोकाकाश आकाशको छोड़कर शेषद्रव्योंसे सर्वथा रहित है ।

इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके सत्या अधिकारको कहते हैं ।

जीवा अणंतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो द्दु ।

धम्मतिर्यं एक्केकं लोगपदेसप्पमा कालो ॥ ५८७ ॥

जीव अनन्तसंख्या अनन्तगुणाः पुद्गला हि ततम् ।

धर्माधिकारैर्हं लोकप्रदेशप्रमाणं कालः ॥ १८७ ॥

अर्थ—जीव द्रव्य अनन्त है । उससे अनन्तगुणे पुद्गलद्रव्य है । धर्म अधर्म आकाश ये एक २ द्रव्य है । तथा लोकाकाशके जितने प्रदेश है उतने ही कालद्रव्य है ।

लोगागासपदेसे एक्केके जेठिया हु एक्केका ।

रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेयव्वा ॥ ५८८ ॥

लोकाकाशप्रदेशे एकैकस्मिन् ये स्थिता हि एकैके ।

रत्नाना राशिरिव ते कालाणवो मन्तव्याः ॥ ५८८ ॥

अर्थ—वे कालाणु रत्नराशिकी तरह लोकाशके एक २ प्रदेशमें एक २ स्थित है, ऐसा समझना चाहिये । भावार्थ—जिसतरह रत्नोकी राशि भिन्न २ स्थित रहती है उसी तरह प्रत्येक कालाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर भिन्न २ स्थित है । इसी लिये जितने लोकाकाशके प्रदेश है उतने ही कालद्रव्य है ।

ववहारो पुण कालो पोग्गलद्व्वादणंतगुणमेत्तो ।

तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९ ॥

व्यवहारः पुनः कालः पुद्गलद्रव्यादनन्तगुणमात्रः ।

ततः अनन्तगुणिता आकाशप्रदेशपरिसंख्या ॥ ५८९ ॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है । तथा व्यवहार कालके प्रमाणसे अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है ।

लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा ।

सरिसा हु पदेसो पुण परमाणुअवट्टिदं खेत्तं ॥ ५९० ॥

लोकाकाशप्रदेशा धर्माधर्मैकजीवगप्रदेशाः ।

सदृशा हि प्रदेशः पुनः परमाण्ववस्थितं क्षेत्रम् ॥ ५९० ॥

अर्थ—धर्म, अधर्म, एक जीवद्रव्य, तथा लोकाकाश, इनकी प्रदेशसंख्या परस्परमें समान है । जितने क्षेत्रको एक पुद्गलका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं । स्थानस्वरूपाधिकारका वर्णन करते हैं ।

सव्वमरूवी दव्वं अवट्टिदं अचलिआ पदेसा वि ।

रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥ ५९१ ॥

सर्वमरूपि द्रव्यमवस्थितमचलिता. प्रदेशा अपि ।

रूपिणो जीवाश्चलितास्त्रिविकल्पा भवन्ति हि प्रदेशाः ॥ ५९१ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण अरूपी द्रव्य जहा स्थित है वहा ही सदा स्थित रहते हैं, तथा इनके प्रदेश भी चलायमान नहीं होते । किन्तु रूपी (संसारी) जीवद्रव्य चल है, तथा इनके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । भावार्थ—धर्म, अधर्म आकाश काल और मुक्त जीव ये

अर्थ—जो सर्वाशमें पूर्ण है उसको स्कन्ध कहते हैं । उसके आधेको देश और आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं । जो अविभागी है उसको परमाणु कहते हैं ।

॥ इति स्थानस्वरूपाधिकारः ॥

क्रमप्राप्त फलाधिकारको कहते हैं ।

गदिठाणोग्गहकिरियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं ।
वत्तणकिरियासाहणभूदो णियमेण कालो दु ॥ ६०४ ॥

गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत खलु भवति धर्मत्रयम् ।

वर्तनाक्रियासाधनभूतो नियमेन कालस्तु ॥ ६०४ ॥

अर्थ—गति, स्थिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन क्रमसे धर्म, अधर्म, आकाश-द्रव्य है । और वर्तना क्रियाका साधन काल द्रव्य है । भावार्थ—क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति-की कारणभूत जीव पुद्गलकी पर्यायविशेषको गति कहते हैं । इस गतिक्रियाका साधन (उदा-सीन निमित्त) धर्मद्रव्य है । जैसे जलमें मच्छियोंकी गतिक्रिया जलके निमित्तसे होती है । गतिविरुद्ध पर्यायको स्थिति कहते हैं । यह पर्याय जीव पुद्गलकी होती है । तथा यह स्थिति-क्रिया अधर्मद्रव्यके निमित्तसे ही होती है । कहीं पर भी रहनेको अवगाह कहते हैं । यह अवगाहक्रिया आकाशद्रव्यके निमित्तसे ही होती है । तथा प्रत्येक पदार्थकी वर्तना क्रिया कालद्रव्यके निमित्तसे होती है । (शब्दका) सूक्ष्म पुद्गलादिक भी एक दूसरेको अव-काश देते हैं, इसलिये अवगाहहेतुत्व आकाशका ही असाधारण लक्षण क्यों कहा ? (समाधान) यद्यपि सूक्ष्म पुद्गलादिक एक दूसरेको अवगाह देते हैं तथापि ये सम्पूर्ण द्रव्योंको अवगाह नहीं दे सकते । समस्त द्रव्योंको अवगाह देनेकी सामर्थ्य आकाशमें ही है । इसलिये आकाशकाही अवगाहहेतुत्व यह असाधारण लक्षण युक्त है । यद्यपि अलो-काकाश किसी द्रव्यको अवगाह नहीं देता, तथापि उसका अवगाह देनेका स्वभाव वहा पर भी है । किन्तु धर्मद्रव्यका निमित्त न मिलनेसे जीवादि अवगाह्य पदार्थ अलोकाकाशमें गमन नहीं करते इसलिये अलोकाकाश किसीको अवगाह नहीं देता ।

जीव और पुद्गलका उपकार (फल) बताते हैं ।

अण्णोण्णुवघारेण च जीवा वट्टंति पुग्गलाणि पुणो ।
देहादीणिवत्तणकारणभूदा ङ्गु णियमेण ॥ ६०५ ॥

अन्योन्योपकारेण च जीवा वर्तन्ते पुद्गला पुन ।

देहादिनिर्वर्तनकारणभूता हि नियमेन ॥ ६०५ ॥

अर्थ—जीव परस्परमें उपकार करते हैं । जैसे मेवक स्वामीकी हितमिच्छिमें प्रवृत्त होता है, और स्वामी मेवकमें पनादि देकर संतुष्ट करता है । तथा पुद्गल शरीरदि उत्पन्न

करनेमें कारण है । **भावार्थ**—शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छ्वास आदिके द्वारा पुद्गलद्रव्य जीवका उपकार करता है । तथा पुद्गलद्रव्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु परस्परमे भी उपकार करता है । जैसे शास्त्रका उपकार गत्ता वेष्टन करते हैं । यहां पर चकारका ग्रहण किया है इसलिये जिस तरह परस्परमें या एक दूसरेको जीव पुद्गल उपकार करते हैं उस ही तरह अपकार भी करते हैं ।

इसी अर्थको दो गाथाओमें स्पष्ट करते हैं ।

**आहारवर्गणादो तिष्ठिण शरीराणि होंति उस्सासो ।
णिस्सासोवि य तेजोवर्गणखंधादु तेजंगं ॥ ६०६ ॥**

आहारवर्गणातः त्रीणि शरीराणि भवन्ति उच्छ्वासः ।

निश्वासोपि च तेजोवर्गणास्कन्धात्तु तेजोऽङ्गम् ॥ ६०६ ॥

अर्थ—तेईस जातिकी वर्गणाओमेंसे आहारवर्गणाके द्वारा औदारिक वैक्रियिक आहारक ये तीन शरीर और श्वासोच्छ्वास होते हैं । तथा तेजोवर्गणारूप स्कन्धके द्वारा तैजस शरीर बनता है ।

**भासमणवर्गणादो क्रमेण भासा मणं च कम्मादो ।
अट्टविहकम्मद्ववं होदित्ति जिणोहिं णिद्धिद्वं ॥ ६०७ ॥**

भाषामनोवर्गणातः क्रमेण भाषा मनश्च कर्मणतः ।

अष्टविधकर्मद्रव्यं भवतीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ६०७ ॥

अर्थ—भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा हृदयस्थानमें अष्ट दल कमलके आकार द्रव्यमन, तथा कर्मण वर्गणाके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बनते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

अविभागी पुद्गल परमाणु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती है, इसका कारण बताते हैं ।

**णिद्धत्तं लुक्खत्तं बंधस्स य कारणं तु एयादी ।
संखेज्जासंखेज्जाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ॥ ६०८ ॥**

स्निग्धत्वं रुक्षत्वं बन्धस्य च कारणं तु एकादयः ।

सख्येयासख्येयानन्तविधा स्निग्धरुक्षगुणाः ॥ ६०८ ॥

अर्थ—बन्धका कारण स्निग्धत्व या रुक्षत्व है । इस स्निग्धत्व या रुक्षत्व गुणके एकसे लेकर सख्यात असख्यात अनन्त भेद हैं । **भावार्थ**—एक किमी गुणाविशेषकी स्निग्धत्व अथ रुक्षत्व ये दो पर्याय हैं । ये ही बन्धकी कारण है । इन पर्यायोंके आविभागप्रतिच्छेदोंकी (शक्तिके निम्न अंग) अपेक्षा एकसे लेकर सख्यात असख्यात अनन्त भेद हैं ।

जीवादोणंतगुणो ध्रुवादितिणहं असंखभागो दु ।

पल्लस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥ ५९८ ॥

जीवादनन्तगुणो ध्रुवादितिसृणामसंख्यभागस्तु ।

पल्यस्य ततस्ततः असंख्यलोकावहिता मिथ्या ॥ ५९८ ॥

अर्थ—ध्रुववर्गणा, सांतरनिरंतरवर्गणा, शून्यवर्गणा, इन तीन वर्गणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है । तथा प्रत्येकशरीर वर्गणाका गुणाकार पल्यके असंख्यातमे भाग है । और ध्रुवशून्यवर्गणाका गुणकार, मिथ्यादृष्टि जीवराशिमे असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है । इस गुणकारके साथ जघन्य भेदका गुणा करनेसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है ।

सेढी सूई पल्ला जगपदरा संखभागगुणगारा ।

अप्पप्पणअवरादो उक्कस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥

श्रेणी सूची पल्यजगत्प्रतरासंख्यभागगुणकाराः ।

आत्मात्मनोवरादुत्कृष्टे भवन्ति नियमेन ॥ ५९९ ॥

अर्थ—बादरनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवर्गणा इन चार वर्गणाओंके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छ्रेणीका असंख्यातमा भाग, सूच्यंगुलका असंख्यातमा भाग, पल्यका असंख्यातमा भाग, जगत्प्रतरका असंख्यातमा भाग है । अपने २ गुणकारके प्रमाणसे अपने २ जघन्यका गुणा करनेसे अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । भावार्थ—यहा पर पुद्गलद्रव्यकी तेईस वर्गणाओंका एकपङ्क्तिकी अपेक्षा वर्णन किया है । जिनको नानापङ्क्तिकी अपेक्षा इन वर्गणाओंका स्वरूप जानना हो वे बड़ी टीकामें देख लें । किसी भी वर्तमान एक कालमें उक्त तेईस वर्गणाओंमेंसे कौन २ सी वर्गणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पङ्क्तिकी अपेक्षा वर्णन कहते हैं ।

हेट्ठिमउक्कस्सं पुण रूवहियं उवरिमं जहणं खु ।

इदि तेवीसविचप्पा पुग्गलदव्वा हु जिणदिट्ठा ॥ ६०० ॥

अधस्तनोत्कृष्ट पुनः रूपाधिकमुपरिमं जघन्यं खलु ।

इति त्रयोविंशतिविकल्पानि पुद्गलद्रव्याणि हि जिनदिष्टानि ॥ ६०० ॥

अर्थ—तेईस वर्गणाओंमेंसे अणुवर्गणाको छोडकर शेष चार्दस वर्गणाओंमें नीचेकी वर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे आगे की वर्गणाके जघन्य भेदका प्रमाण होता है । जैसे संख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे अनख्याताणुवर्गणाका जघन्य भेद होता है । और अमन्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदमें एक मिलानेसे

अनन्ताणुवर्गणाका जघन्य भेद होता है । इसी तरह आगे भी समझना । इसी क्रमसे पुद्गल-द्रव्यके बाईस भेद होते हैं, किन्तु एक अणुवर्गणाको मिलानेसे पुद्गलद्रव्यके तेईस भेद होते हैं यह जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

प्रकारान्तरसे होनेवाले पुद्गलद्रव्यके छह भेदोंके दृष्टान्त दिखाते हैं ।

**पृथ्वी जलं च छाया चउरिन्द्रियविषयकम्मपरमाणू ।
छव्विहभेयं भणियं पोग्गलद्ववं जिणवरैहिं ॥ ६०१ ॥**

पृथ्वी जलं च छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणवः ।

षड्विभेदं भणितं पुद्गलद्रव्यं जिनवरैः ॥ ६०१ ॥

अर्थ—पुद्गलद्रव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया है । जैसे १ पृथ्वी २ जल ३ छाया, ४ नेत्रको छोडकर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ५ कर्म, ६ परमाणु ।

इन छह भेदोंकी क्या २ संज्ञा है यह बताते हैं ।

**वादरवादर वादर वादरसूहमं च सुहमस्थूलं च ।
सूहमं च सुहमसूहमं च धरादियं होदि छव्वभेयं ॥ ६०२ ॥**

वादरवादरं वादरं वादरसूक्ष्मं च सूक्ष्मस्थूलं च ।

सूक्ष्मं च सूक्ष्मसूक्ष्म धरादिकं भवति षड्भेदम् ॥ ६०२ ॥

अर्थ—वादरवादर, वादर, वादरसूक्ष्म, सूक्ष्मवादर, सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म, इस तरह पुद्गल-द्रव्यके छह भेद हैं, जैसे उक्त पृथ्वी आदि । भावार्थ—जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको वादरवादर कहते हैं, पृथ्वी काष्ठ पाषाण आदि । जिसका छेदन भेदन न हो सके किन्तु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको वादर कहते हैं जैसे जल तैल आदि । जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण कुछ भी न हो सके ऐसे नेत्रसे देखने-योग्य स्कन्धको वादरसूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, आतप, चादनी आदि । नेत्रको छोडकर शेष चार इन्द्रियोंके विषयभूत पुद्गलस्कन्धको सूक्ष्मस्थूल कहते हैं, जैसे शब्द गन्ध रस आदि । जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गलस्कन्धको सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कर्म । जो स्कन्धरूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओंको सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं ।

**खंधं सयलसमत्थं तस्स य अद्धं भणांति देसोत्ति ।
अद्धद्धं च पदेसो अविभागी चैव परमाणू ॥ ६०३ ॥**

स्कन्ध सकलसमर्थं तस्य चार्थं भणन्ति देशमिति ।

अर्द्धाद्धं च प्रदेशमविभागिन चैव परमाणुम् ॥ ६०३ ॥

जैसे स्निग्ध पर्यायके एक अंश दो अंश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंश होते हैं और इन्हीकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंततक भेद होते हैं । उस ही तरह रूक्षत्व पर्यायके भी एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोंकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंत तक भेद होते हैं । अथवा, बन्ध कमसे कम दो परमाणुओंमें होता है । सो ये दोनो परमाणु स्निग्ध हों अथवा रूक्ष हों या एक स्निग्ध एक रूक्ष हो परन्तु बंध हो सकता है । जिस तरह दो परमाणुओंमें बन्ध होता है उस ही तरह संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओंमें भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण स्निग्धरूक्षत्व है ।

उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं ।

एगुणं तु जहणं णिद्धत्तं विगुणतिगुणसंखेज्जाऽ-

संखेज्जाणंतगुणं होदि तहा रुक्खभावं च ॥ ६०९ ॥

एकगुणं तु जघन्यं स्निग्धत्वं द्विगुणत्रिगुणसंख्येयाऽ-

संख्येयानन्तगुणं भवति तथा रूक्षभावं च ॥ ६०९ ॥

अर्थ—स्निग्धत्वका जो एक निरंश अंश है उसकोही जघन्य कहते हैं । इसके आगे स्निग्धत्वके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं । इस ही तरह रूक्षत्वके भी एक अंशको जघन्य कहते हैं । और इसके आगे दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं ।

एवं गुणसंयुक्ता परमाणू आदिवर्गणम्मि ठिया ।

जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥ ६१० ॥

एवं गुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवर्गणाया स्थिताः ।

योग्यद्विकयोः बंधे द्वयोर्वन्धो भवेन्नियमात् ॥ ६१० ॥

• अर्थ—इस प्रकार स्निग्ध या रूक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवर्गणामें ही हैं । इसके आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोका बन्ध भी तब ही होता है जब कि दोनों नियमसे बन्धके योग्य हों ।

जब कि सामान्यसे बन्धका कारण स्निग्धरूक्षत्व वतादिया तब उसमें योग्यता ओर अयोग्यता क्या है ? यह बताते हैं ।

णिद्धणिद्धा ण बज्झंति रुक्खरुक्खा य पोग्गला ।

णिद्धलुक्खा य बज्झंति रुवारूवी य पोग्गला ॥ ६११ ॥

स्निग्धास्निग्धा न बध्यन्ते रूक्षरूक्षाश्च पुद्गलाः ।

स्निग्धरूक्षाश्च बध्यन्ते रूप्यरूपिणश्च पुद्गलाः ॥ ६११ ॥

अर्थ—स्निग्ध स्निग्ध पुद्गला और रूक्ष रूक्ष पुद्गला परस्परमें बन्ध नहीं होता ।

किन्तु स्निग्ध रूक्ष और रूपी अरूपी पुद्गलोंका परस्परमे बन्ध होता है । भावार्थ—
यद्यपि यहां पर यह कहा है कि स्निग्धस्निग्ध और रूक्षरूक्षका बन्ध नहीं होता । तथापि
यह कथन सामान्य है; क्योंकि आगे चलकर विशेष कथनके द्वारा स्वयं ग्रन्थकार इस बातको
स्पष्ट कर देंगे कि स्निग्धस्निग्ध और रूक्षरूक्षका भी बन्ध होता है । और इस ही लिये यहां-
पर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है ।

रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं ।

णिन्द्रिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एकं ।

रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥ ६१२ ॥

स्निग्धेतरावलीमध्ये विसदशजातेः समगुण एकः ।

रूपीति भवति संज्ञा शेषाणा ते अरूपिण इति ॥ ६१२ ॥

अर्थ—स्निग्ध और रूक्षकी श्रेणिमे जो विसदश जातिका एक समगुण है उसकी
रूपी संज्ञा है । और समगुणको छोड़कर अवाशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है । भावार्थ—जब
कि विसदश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है और शेषकी अरूपी, और रूपी अरू-
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध है कि स्निग्धस्निग्ध और रूक्षरूक्षका भी बन्ध होता है ।
स्निग्धकी अपेक्षा रूक्ष और रूक्षकी अपेक्षा स्निग्ध विसदश होता है ।

रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं ।

दोगुणणिन्द्राणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी ।

इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंव इदि जाणे ॥ ६१३ ॥

द्विगुणस्निग्धाणोश्च द्विगुणरूक्षाणुको भवेत् रूपी ।

एकत्रिगुणादिः अरूपी रूक्षस्यापि तद्व इति जानीहि ॥ ६१३ ॥

अर्थ—स्निग्धके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका दोगुण युक्त परमाणु
रूपी है शेष एक तीन चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरूपी है । इस ही तरह
रूक्षका भी समझना चाहिये । भावार्थ—रूक्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा
स्निग्धके दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी है और शेष एक तीन आदि गुणोंके धारक
परमाणु अरूपी है ।

णिन्द्रस्स णिन्द्रेण दुराहिण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण ।

णिन्द्रस्स लुक्खेण हवेज्ज बंधो जहणवज्जे विसमे समे वा ॥ ६१४ ॥

स्निग्धस्य स्निग्धेन व्यधिकेन रूक्षस्य रूक्षेण व्यधिकेन ।

स्निग्धस्य रूक्षेण भवेद्वन्धो जघन्यवज्ज्ये विषमे समे वा ॥ ६१४ ॥

अर्थ—एक स्निग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध

होता है । एक रूक्ष परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता है । एक स्निग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता है । सम विषम दोनोका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता ।
भावार्थ—एक गुणवालेका तीनगुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । शेष स्निग्ध या रूक्ष दोनों जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामे दो गुण अधिक होनेपर बन्ध होता है । दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके ऊपर दो दो अंशोंकी अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं । तीन पांच सात नौ ग्यारह इत्यादि जहां पर तीनके ऊपर दो दो अंशोंकी वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं । इन दोनो धाराओंमें जघन्य गुणको छोड़कर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता है औरका नहीं ।

णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुउत्तरा होंति ।

उभयेवि य समविसमा सरिसिदरा होंति पत्तेयं ॥ ६१५ ॥

स्निग्धेतरयोः समविषमा द्वित्रिकादयः व्युत्तरा भवन्ति ।

उभयेऽपि च समविषमाः सदृशेतरे भवन्ति प्रत्येकम् ॥ ६१५ ॥

अर्थ—स्निग्ध और रूक्ष दोनोंमेंही दोगुणके ऊपर जहा दो २ की वृद्धि हो वहां समधारा होती है । और जहां तीन गुणके ऊपर दो २ की वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं । सो स्निग्ध और रूक्ष दोनोंमेंही दोनो ही धारा होती है । तथा प्रत्येक धारामें रूपी और अरूपी होते हैं ।

इस ही अर्थको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं ।

दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु ।

णिद्धे लुक्खे वि तहावि जहण्णुभयेवि सव्वत्थ ॥ ६१६ ॥

द्वित्रिकप्रभवद्वच्यु तरगतेष्वनन्तरद्विकयोः बन्धस्तु ।

स्निग्धे रूक्षे पि तथापि जघन्योभयेऽपि सर्वत्र ॥ ६१६ ॥

अर्थ—स्निग्ध या रूक्ष गुणमें समधारामें दो अंशोंके आगे दो दो अंशोंकी वृद्धि होती है । और विषमधारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है । सो इन दोनोंमें ही अनन्तरद्विकका बन्ध होता है । जैसे दो गुणवाले स्निग्ध या रूक्षका चारगुणवाले स्निग्ध या रूक्षके साथ, तथा तीनगुणवाले स्निग्ध या रूक्षका पांच गुणवाले स्निग्ध या रूक्षके साथ बन्ध होता है । इसी तरह आगे भी समग्रना चाहिये । किन्तु जघन्यका बन्ध नहीं होता । दूसरी सब जगह स्निग्ध और रूक्षमें बंध होता है । **भावार्थ**—स्निग्ध या रूक्ष गुणसे युक्त जिन दो पदार्थोंमें बन्ध होता है उनको स्निग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंमें दो अंशोंका अंतर होना चाहिये । जैसे दो चार, तीन पांच, चार छह, पांच सात इत्यादि । इस तरह दो अंश अधिक

रहनेपर सर्वत्र बंध होता है । इस नियमके अनुसार एकगुणवाले और तीनगुणवालेका भी बंध होना चाहिये, किन्तु सो नहीं होता; क्योंकि यह नियम है कि जघन्य गुणवालेका बंध नहीं होता । अतएव एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ बंध नहीं होता; किन्तु तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तीन गुणवाला जघन्यगुणवाला नहीं है, एक-गुणवालेको ही जघन्य गुणवाला कहते हैं ।

णिद्धिदरवरगुणाणू सपरद्वानेवि णेदि बंधट्टं ।

बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतरं संगदे एदि ॥ ६१७ ॥

स्निग्धेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थानेऽपि नैति बन्धार्थम् ।

बहिरंतरङ्गहेतुभिर्गुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७ ॥

अर्थ—स्निग्ध या रूक्षका जघन्य गुणवाला परमाणु स्वस्थान या परस्थान कहीं भी बन्धको प्राप्त नहीं होता । किन्तु बाह्य और अन्तरङ्ग कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणवाला—अंशवाला होने पर बन्धको प्राप्त होते हैं । **भावार्थ—**स्निग्ध या रूक्ष गुणका जब एक अंश—अविभागप्रतिच्छेद—रूप परिणमन होता है तब उसका न स्वस्थानमें बंध होता है और न परस्थानमें बंध होता है । किन्तु बाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जब जघन्य स्थानको छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तब वे ही स्निग्ध रूक्ष गुण बंधको प्राप्त हो सकते हैं ।

णिद्धिदरगुणा अहिया हीणं परिणामयंति बंधम्मि ।

संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥

स्निग्धेतरगुणा अधिका हीनं परिणामयंति बन्धे ।

संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम् ॥ ६१८ ॥

अर्थ—संख्यात असंख्यात अनंतप्रदेशवाले स्कन्धोंमें स्निग्ध या रूक्षके अधिक गुणवाले परमाणु या स्कन्ध अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कन्धोंको अपनेरूप परणमाते हैं । जैसे एक हजार स्निग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंसे युक्त परमाणु या स्कन्धको एक हजार दो अंशवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है । इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये ।

॥ इति फलाधिकारः ॥

इस तरह सात अधिकारोंके द्वारा छह द्रव्योंका वर्णन करके अब पंचास्तिकायका वर्णन करते हैं ।

दच्चं छक्कमकालं पंचत्थीकायसण्णिदं होदि ।

काले पदेसपचयो जम्हा णत्थित्ति णिद्धिदं ॥ ६१९ ॥

द्रव्यं षड्भूमकालं पञ्चास्तिकायसंज्ञितं भवति ।

काले प्रदेशप्रचयो यस्मात् नास्तीति निर्दिष्टम् ॥ ६१९ ॥

अर्थ—कालमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसलिये कालको छोड़कर शेष द्रव्योंको ही पञ्चास्तिकाय कहते हैं । **भावार्थ**—जो सद्रूप हो उसको अस्ति कहते हैं । और जिनके प्रदेश अनेक हों उनको काय कहते हैं । काय दो प्रकारके होते हैं, एक मुख्य दूसरा उपचरित । जो अखण्डप्रदेशी है उन द्रव्योंको मुख्य काय कहते हैं । जैसे जीव धर्म अधर्म आकाश । जिसके प्रदेश तो खण्डित हो; किन्तु स्निग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे परस्परमें बन्ध होकर जिनमे एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना हो उसको उपचरित काय कहते हैं, जैसे पुद्गल । किन्तु कालद्रव्य स्वयं अनेकप्रदेशी न होनेसे मुख्य काय भी नहीं है । और स्निग्ध रूक्ष गुण न होनेसे बंध होकर एकत्वकी भी उसमें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह (काल) उपचरित काय भी नहीं है । अतः कालद्रव्यको छोड़कर शेष जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश इन पांच द्रव्योंको ही पञ्चास्तिकाय कहते हैं । और कालद्रव्यको कायरूप नहीं किन्तु अस्तिरूप कहते हैं ।

नव पदार्थोंको बताते हैं ।

णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावहुगं ।

आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य होंतित्ति ॥ ६२० ॥

नव च पदार्था जीवाजीवाः तेषा च पुण्यपापद्विकम् ।

आस्रवसंवरनिर्जराबन्धा मोक्षश्च भवन्तीति ॥ ६२० ॥

अर्थ—मूलमें जीव और अजीव ये दो पदार्थ हैं । इन हीके सम्बन्धसे पुण्य और पाप ये दो पदार्थ होते हैं । इसलिये चारपदार्थ हुए । तथा पुण्यपापके आस्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पांच पदार्थ होते हैं । इसलिये सब मिलाकर नव पदार्थ होते हैं । **भावार्थ**—जिसमें ज्ञानदर्शनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं । जिसमें चेतना न हो उसको अजीव कहते हैं । शुभ कर्मोंको पुण्य और अशुभ कर्मोंको पाप कहते हैं । कर्मोंके आनेके द्वारको, या मन वचन कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दको, अथवा बन्धके कारणको आस्रव कहते हैं । अनेक पदार्थोंमें एकत्ववृद्धिके उत्पादक सम्बन्धविशेषको अथवा आत्मा और कर्मके एकदेशवाग्राह्यरूप सम्बन्धविशेषको बन्ध कहते हैं । आस्रवके निरोधको संवर कहते हैं । बद्ध कर्मोंके एकदेश क्षयको निर्जरा कहते हैं । आत्मासे समस्त कर्मोंके नष्ट जानेको मोक्ष कहते हैं । ये ही नव पदार्थ हैं ।

जीवदुगं उत्तुं जीवा पुण्णा हु सम्मगुणसहिदा ।

वदसहिदावि य पावा तच्चिवरीया ह्वंतित्ति ॥ ६२१ ॥

जीवद्विकमुक्तार्थं जीवाः पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः ।

व्रतसहिता अपि च पापास्तद्विपरीता भवन्तीति ॥ ६२१ ॥

अर्थ—जीव और अजीवका अर्थ पहले बता चुके हैं । जीवके भी दो भेद हैं, एक पुण्य और दूसरा पाप । जो सम्यक्त्वगुणसे या व्रतसे युक्त है उनको पुण्य जीव कहते हैं । और इससे जो विपरीत है उनको पाप जीव कहते हैं ।

गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते हैं ।

मिच्छाद्दृष्टी पावा णंताणंता य सासणगुणावि ।

पल्लासंखेज्जदिमा अणअणणदरुदयमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥

मिथ्यादृष्टयः पापा अनन्तानन्ताश्च सासनगुणा अपि ।

पल्यासंख्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्वगुणाः ॥ ६२२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि पाप जीव है ये अनंतानंत है; क्योंकि द्वितीयादि तेरह गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशि मिथ्यादृष्टि ही है । तथा सासादन गुणस्थानवाले जीव पल्यके असंख्यातमे भाग हैं । और ये भी पाप जीव ही है; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायोंमेंसे किसी एक कषायका इसके उदय हो-रहा है । इसलिये यह मिथ्यात्व गुणको प्राप्त है । भावार्थ—सासादन गुणस्थानवालेका पहले यह लक्षण कह आये है कि “किसी एक अनंतानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वतसे तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सन्मुख है—अर्थात् अभी-तक जिसने मिथ्यात्वभूमिको ग्रहण नहीं किया है, किन्तु एक समयसे लेकर छह आवली-तकके कालमें नियमसे वह उस मिथ्यात्व भूमिको ग्रहण करलेगा ऐसे जीवको सासादन-गुणस्थानवाला कहते हैं ।” अतः इस गुणस्थानवाले जीवोंको पुण्य जीव नहीं कह सकते; क्योंकि अनंतानुबंधी कषायके उदयसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हो चुका है और इनके किसी प्रकारका व्रत भी नहीं है । किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होंगे इसलिये इनको मिथ्यादृष्टि—पाप जीव ही कहते हैं । इन जीवोंकी संख्या पल्यके असंख्यातमे भाग है । और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या अनंतानंत है ।

मिच्छा सावयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता य ।

पल्लासंखेज्जदिममसंखगुणं संखसंखगुणं ॥ ६२३ ॥

मिथ्याः श्रावकसासनमिश्राविरता द्विवारानन्ताश्च ।

पल्यासंख्येयमसंख्यगुणं संख्यासंख्यगुणम् ॥ ६२३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि अनंतानंत है । श्रावक पल्यके असंख्यातमे भाग है । सासादन गुण-स्थानवाले श्रावकोंसे असंख्यातगुणे है । मिश्र सासादनवालोंसे संख्यातगुणे है । अव्रतस-

म्यगृष्टि मिश्रजीवोंसे असंख्यातगुणे है । इनमें अन्तके चार स्थानोंमें कुछ २ अधिक समझना चाहिये । **भावार्थ**—मनुष्य और तिर्यच इन दो गतियोमे ही देशसंयम गुणस्थान होता है । इनमें तेरह करोड़ मनुष्य और पल्यके असंख्यातमे भाग तिर्यच है । सासादन गुणस्थान चारों गतियोमें होता है । इनमें बावन करोड़ मनुष्य और श्रावकोसे असंख्यातगुणे इतर तीन गतिके जीव है । मिश्रगुणस्थान भी चारो गतियोमे होता है इनमें एकसौ चार करोड़ मनुष्य और सासादनवालोंने संख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव है । तथा अत्रत गुणस्थान भी चारो गतियोमें होता है । इनमें सातसौ करोड़ मनुष्य है और मिश्रवालोंने असंख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव है ।

तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी ।

पंचेव य तेणउदी णवट्टविसयच्छउत्तरं पमदे ॥ ६२४ ॥

त्र्यधिकशतनवनवतिः पणवतिः अप्रमत्ते द्वे कोटी ।

पञ्चैव च त्रिनवतिः नवाष्टद्विशतपडुत्तरं प्रमत्ते ॥ ६२४ ॥

अर्थ—प्रमत्त गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पाच करोड़ तिगनवे लाख अठानवे हजार दो सौ छह है (५९३९८२०६) । अप्रमत्त गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण दो करोड़ छ्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तनि (२९६९९१०३) है ।

तिसयं भणंति केई चउरुत्तरमत्थपंचयं केई ।

उवसामगपरिमाणं खवमाणं जाण तहुगुणं ॥ ६२५ ॥

त्रिशतं भणन्ति केचित् चतुरुत्तरमस्तपञ्चकं केचित् ।

उपशामकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि तद्विगुणम् ॥ ६२५ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणिवाले आठवें नौमे दशमे ग्यारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण कोई आचार्य तीनसौ कहते है । कोई तिनसौ चार कहते है । कोई दो सौ निन्यानवे कहते है । क्षपकश्रेणिवाले आठमे नौमे दशमे बारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण उपशम श्रेणिवालोसे दूना है ।

उपशमश्रेणिवाले तीनसौ चार जीवोंका निरंतर आठ समयोंमें विभाग करते है ।

सोलसयं चउवीसं तीसं छत्तीस तह य वादालं ।

अडदालं चउवण्णं चउवण्णं होंति उवसमगे ॥ ६२६ ॥

षोडशकं चतुर्विंशतिं त्रिशत् पट्त्रिंशत् तथा च द्वाचत्वारिंशत् ।

अष्टचत्वारिंशत् चतुष्षाशत् चतुष्षाशत् भवन्ति उपशमके ॥ ६२६ ॥

अर्थ—निरंतर आठ समयपर्यन्त उपशमश्रेणि मांडनेवाटे जीवोंमें अविक्से अविक्क प्रथम समयमें १६, द्वितीय समयमें २४, तृतीय समयमें ३०, चतुर्थ समयमें ३६ पान्चमे समयमें ४२, छठे समयमें ४८, सातवेंमें ५४, और आठवेंमें ६४ जीव होते है ।

वत्तीसं अडदालं सट्टी वावत्तरी य चुलसीदी ।
छण्णउदी अट्टत्तरसयमट्टत्तरसयं च खवगेसु ॥ ६२७ ॥

द्वात्रिंशदष्टचत्वारिंशत् पष्टिः द्वासप्ततिश्च चतुरशीतिः ।

षण्णवतिः अष्टोत्तरशतमष्टोत्तरशतं च क्षपकेषु ॥ ६२७ ॥

अर्थ—अंतरायरहित आठ समयपर्यन्त क्षपकश्रेणि माढ़नेवाले जीव अधिकसे अधिक, उपर्युक्त आठ समयोंमें होनेवाले उपशमश्रेणि वालोंसे दूने होते हैं । इनमेंसे प्रथम समयमें ३२, दूसरे समयमें ४८, तीसरे समयमें ६०, चतुर्थ समयमें ७२, पाचमे समयमें ८४, छठे समयमें ९६, सातमे समयमें १०८, आठमे समयमें १०८ होते हैं ।

अट्टेव सयसहस्सा अट्टाणउदी तथा सहस्साणं ।
संख्या जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं वंदे ॥ ६२८ ॥

अष्टैव शतसहस्राणि अष्टानवतिस्तथा सहस्राणाम् ।

संख्या योगिजिनानां पंचशतव्युत्तरं वन्दे ॥ ६२८ ॥

अर्थ—सयोगकेवली जिनोकी संख्या आठ लाख अठानवे हजार पांचसौ दो है । इनकी मैं सदाकाल बन्दना करता हूँ । भावार्थ—निरंतर आठ समयोंमें एकत्रित होनेवाले सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचार्यकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “ छसु सुद्धसमयेसु तिण्णि तिण्णि जीवा केवलमुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवल मुप्पाययंति एवमट्टसमयसंचिद-जीवा वावीसा हवंति ” अर्थात् आठ समयोंमेंसे छह समयोंमें प्रतिसमय तीन तीन जीव केवल-ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, और दो समयोंमें दो दो जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं । इस तरह आठ समयोंमें वाईस सयोगी जिन होते हैं ।

जब केवलज्ञानके उत्पन्न होनेमें छह महीनाका अंतराल होता है तब अन्तराल नपड़नेसे निरंतर आठ समयोंमें वाईस केवली होते हैं । इसके विशेष कथनमें छहप्रकारका त्रैराशिक होता है । प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें वाईस केवली होते हैं । तब आठ लाख अठानवे हजार पांच सौ दो केवली कितने कालमें होंगे । इसका चालीस हजार आठसौ इकतालीसको छह महीना आठ समयोंमें गुणा करनेपर जो कालका प्रमाण लब्ध आवे वही उत्तर होगा । दूसरा छह महीना आठ समयोंमें निरंतर केवलज्ञान उत्पन्न होनेका काल आठ समय है तब पूर्वोक्त प्रमाण कालमें कितने समय होंगे । इसका उत्तर तीन लाख छठ्ठीस हजार सात सौ अठईस है । तथा दूसरे आचार्योंके मतकी अपेक्षा आठ समयोंमें वाईस या चवालीस या अठासी या एकसौ छिहत्तर जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमें या उसके आधेमें या चतुर्थांशमें या अष्टमांशमें कितने जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करेंगे । इन चार प्रकारके त्रैराशिकोंका उत्तर आठ लाख अठानवे हजार पांचसौ दो होता है ।

क्षपक तथा उपशमक जीवोंकी युगपत् संभवती विशेष संख्याको तीन गाथाओंमें कहते हैं ।

होति खवा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य ।
उक्कस्सेणहुत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ॥ ६२९ ॥
पत्तेयबुद्धतित्थयरत्थिणउंसयमणोहिणाणजुदा ।
दसछक्कवीसदसवीसट्ठावीसं जहाकमसो ॥ ६३० ॥
जेट्ठावरबहुमज्झिमओगाहणगा दु चारि अट्ठेव ।
जुगवं हवंति खवगा उवसमगा अद्धमेदेसिं ॥ ६३१ ॥

भवन्ति क्षपका एकसमये बोधितबुद्धाश्च पुरुषवेदाश्च ।
उत्कृष्टेनाष्टोत्तरशतप्रमाः स्वर्गतश्च च्युताः ॥ ६२९ ॥
प्रत्येकबुद्धतीर्थकरस्त्रीपुंनपुंसकमनोवधिज्ञानयुताः ।
दशषट्कविंशतिदशविशत्यष्टाविंशो यथाक्रमशः ॥ ६३० ॥
ज्येष्ठावरबहुमध्यमावगाहा द्वौ चत्वारोऽष्टैव ।
युगपत् भवन्ति क्षपका उपशमका अर्धमेतेषाम् ॥ ६३१ ॥

अर्थ—युगपत्—एक समयमें क्षपकश्रेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हैं तो कितने होते हैं ? उसका हिसाब इस प्रकार है कि बोधितबुद्ध एकसौ आठ, पुरुषवेदी एकसौ आठ, स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्रेणि माडनेवाले एकसौ आठ, प्रत्येकबुद्धि ऋद्धिके धारक दश, तीर्थकर छह, स्त्रीवेदी बीस, नपुंसकवेदी दश, मनःपर्ययज्ञानी बीस, अवधिज्ञानी अट्ठाईस, मुक्त होनेके योग्य शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक दो, जघन्य अवगाहनाके धारक चार, समस्त अवगाहनाओंके मध्यवर्ती अवगाहनाके धारक आठ । ये सब मिलकर चारसौ बत्तीस होते हैं । उपशमश्रेणिवाले इसके आधे (२१६) होते हैं । भावार्थ—पहले तो गुणस्थानमें एकत्रित होनेवाले जीवोंकी संख्या बताई थी, और यहा पर श्रेणिमें युगपत् सम्भवती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है ।

सर्व संयमी जीवोंकी संख्याको बताते हैं ।

सत्तादी अट्ठंता छण्णवमज्झा य संजदा सत्त्वे ।
अंजलिमौलियहत्थो तियरणसुद्धे णमंसामि ॥ ६३२ ॥

सत्तादयोऽष्टान्ताः षण्णवमध्याश्च संयताः सर्वे ।
अजलिमौलिकहस्तग्निकरणशुद्ध्या नेमम्यामि ॥ ६३२ ॥

अर्थ—छठे गुणस्थानसे लेकर चौदहमे गुणस्थानतकके सर्व संयमियोंका प्रमाण तीन कम नव करोड़ है (८९९९९९७) । इनको मैं हाथ जोड़कर शिर नवाकर मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक नमस्कार करता हूँ । भावार्थ—प्रमत्तवाले जीव (५९३९८२०६) अप्रमत्तवाले (२९६९९१०३) उपशमश्रेणीवाले चारो गुणस्थानवर्ती (११९६) क्षपकश्रेणीवाले चार गुणस्थानवर्ती (२३९२) सयोगी जिन (८९८५०२) इन सबका जोड़ (८९९९९३९९) होता है सो इसको सर्वसंयमियोंके प्रमाणमेसे घटाने पर शेष अयोगी जीवोंका प्रमाण (५९८) रहता है । इसको संयमियोंके प्रमाणमे जोड़नेसे संयमियोंका कुल-प्रमाण तीन कम नौ करोड़ होता है ।

चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादृष्टि सासादन मिश्र और अविरत इनकी संख्याके साधकभूत पल्यके भागहारका विशेष वर्णन करते हैं ।

ओघासंजदमिस्सयसासणसम्माणभागहारा जे ।

रूअणावलियासंखेजेणिह भजिय तत्थ णिक्खित्ते ॥ ६३३ ॥

देवाणं अवहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय ।

तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६३४ ॥

ओघा असंयतमिश्रकसासनसमीचा भागहारा ये ।

रूपोनावलिकासंख्यातेनेह भक्त्वा तत्र निक्षिप्ते ॥ ६३३ ॥

देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवहृत्य ।

तत्रैव च प्रक्षिप्ते सौधर्मैशानावहाराः ॥ ६३४ ॥

अर्थ—गुणस्थानसंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोका जो प्रमाण बताया है उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको भागहारके प्रमाणमे मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है । तथा देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणमे मिलानेसे सौधर्म ईशान स्वर्गसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है । भावार्थ—जहा जहाका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया है उस २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने २ ही वहा २ जीव समझने चाहिये । पहले गुणस्थानसंग्रहमे असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण एकवार असंख्यात कहाथा, इसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देवगतिसम्बन्धी असंयत-गुणस्थानवर्ती जीव है । तथा देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण है उनमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको उस

भागहारमें मिलानेसे सौधर्म ईशान स्वर्गसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है । इस भागहारका पत्यमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना सौधर्म ईशान स्वर्गसम्बन्धी असंयत गुणस्थानवर्ती जीवोका प्रमाण है । इसी तरह मिश्र और सासादनके भागहारका प्रमाण भी समझना चाहिये ।

सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बताते हैं ।

सौहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूपसंगुणिदे ।

उवरि असंजदामिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६३५ ॥

सौधर्मेशानहारमसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते ।

उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचामवहाराः ॥ ६३५ ॥

अर्थ—सौधर्म ईशान स्वर्गके सासादन गुणस्थानमें जो भागहारका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । इससे असंख्यातगुणा मिश्र गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है ।

इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते हैं ।

सौहम्मादासारं जोइसिवणभवणतिरियपुढवीसु ।

अविरदामिस्से संखं संखासंखगुण सासणे देसे ॥ ६३६ ॥

सौधर्मादासहस्वारं ज्योतिपिवनभवनतिर्यक्पृथ्वीषु ।

अविरतमिश्रेऽसंख्यं संख्यासख्यगुणं सासने देशे ॥ ६३६ ॥

अर्थ—सौधर्म स्वर्गसे लेकर सहस्वार स्वर्गपर्यन्त, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, तिर्यच, सातो नरकपृथ्वी, इनके अविरत और मिश्र गुणस्थानमें असंख्यातका गुणक्रम है । और सासादन गुणस्थानमें संख्यातका तथा देवसंयम गुणस्थानमें असंख्यातका गुणक्रम समझना चाहिये । **भावार्थ—**सौधर्म ईशान स्वर्गके आगे सानत्कुमार माहेन्द्रके असंयत मिश्र सासादन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण बता चुके हैं । इसमें सासादन गुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तरके असंयत गुणस्थानका भागहार है । इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तरसम्बन्धी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा नानव कापिष्ठके असंयत गुणस्थान सम्बन्धी भागहारका प्रमाण है । और इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है । इसी क्रमके अनुवार शुक्र महाशुकसे लेकर मातंगी पृथ्वीतकके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण समझना चाहिये । विशेष-

पता यह है कि देशसंयम गुणस्थान स्वर्गोंमें तथा नरकोंमें नहीं होता; किन्तु तिर्यञ्चोंमें होता है। इसलिये तिर्यचोंमें जो सासादनके भागहारका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा तिर्यचोंके देशत्रत गुणस्थानका भागहार है। तथा तिर्यचोंके देशसंयम गुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण है वही प्रथम नरकके असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। किन्तु देशत्रतके भागहारका प्रमाण स्वर्ग तथा नरकमें नहीं है।

आनतादिकमें गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओद्वारा बताते हैं।

चरमधरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहुदिं ।

अंतिमगेवेच्चंतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६३७ ॥

चरमधरासानहारादानतसमीचामारणप्रभृति ।

अंतिमत्रैवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहाराः ॥ ६३७ ॥

अर्थ—सप्तम पृथ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नौमें त्रैवेयकपर्यंत दश स्थानोंमें असंयतका भागहार क्रमसे संख्यातगुणा २ है।

तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्विसाण विजयादि ।

सम्माणं संखगुणो आणदमिस्से असंखगणो ॥ ६३८ ॥

ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादि—

समीचां संख्यगुण आनतमिश्रे असंख्यगुणः ॥ ६३८ ॥

अर्थ—इसके अनंतर आनत प्राणतसे लेकर नवम त्रैवेयक पर्यंतके मिथ्यादृष्टि जीवोका भागहार क्रमसे अंतिम त्रैवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। इस अंतिम त्रैवेयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागहारसे क्रमपूर्वक संख्यातगुणा संख्यातगुणा नव अनुदिश और विजय वैजयंत जयंत अपराजितके असंयतोंका भागहार है। विजयादिकसम्बन्धी असंयतके भागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है।

तत्तो संखेज्जगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो ।

उत्तट्ठाणे कमसो पणछस्सत्तट्ठचट्टुरसंदिट्ठी ॥ ६३९ ॥

तत. संख्येयगुणः सासनसमीचा भवति संख्यगुणः ।

उक्तस्थानं क्रमशः पञ्चषट्छप्ताष्टचतुःसंदिष्टिः ॥ ६३९ ॥

१-२-३- इन स्थानोंमें संख्यातकी सहजानी क्रमसे पांच अक छह अक तथा सातका अक है। इस बातको आगेके गाथासे कहेंगे।

अर्थ—आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रके भागहारसे, आरण अच्युतसे लेकर नवम त्रैवे-
यक पर्यंत दश स्थानोंमें मिश्रसम्बन्धी भागहारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है ।
यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है । अंतिम त्रैवेयकसम्बन्धी मिश्रके भागहारसे आनत
प्राणतसे लेकर नवम त्रैवेयकपर्यंत ग्यारह स्थानोंमें सासादनसम्यग्दृष्टीके भागहारका प्रमाण
क्रमसे संख्यातगुणा २ है । यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है । इन पूर्वोक्त पांच
स्थानोंमें संख्यातकी सहनानी क्रमसे पांच, छह, सात, आठ, और चारके अंक है ।

सगसगअवहारेहिं पल्ले भजिदे हवंति सगरासी ।

सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥ ६४० ॥

स्वकस्वकावहारैः पल्ये मक्ते भवन्ति स्वकराशयः ।

स्वकस्वकगुणप्रतिपन्नेषु स्वकस्वकराशिषु अपनीतेषु वामाः ॥ ६४० ॥

अर्थ—अपने २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण
निकलता है । तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशव्रतका प्रमाण
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण रहता है । भावार्थ—यहां पर मनुष्योंके
भागहारका प्रमाण नहीं बताया है, तथा देशव्रत गुणस्थान मनुष्य और नियंच इन दोनों हीके
होता है, इसलिये तिर्थचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशव्रत गुण-
स्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे मिथ्यादृष्टि तिर्थच जीवोंका प्रमाण होता है; किन्तु देव और
नारकियोंकी सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र और सासादन गुणस्थानवाले जीवोंका ही प्रमाण
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां पर मिथ्यादृष्टि आदि
जीव सम्भव हो वहां पर ही इनका (मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंका) प्रमाण निकालना चाहिये,
अन्यत्र नहीं; क्योंकि त्रैवेयकसे ऊपरके सब देव असंयत ही होते हैं ।

मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे जीवोंका प्रमाण बताते हैं ।

तेरसकोडी देसे वावणं सासणे मुणेदव्वा ।

मिस्सावि य तद्दुगुणा असंजदा सत्तकोडिसयं ॥ ६४१ ॥

त्रयोदशकोट्यो देशे द्वापञ्चाशत् सासने मन्तव्याः ।

मिश्रा अपि च तद्दुगुणा असंयताः सप्तकोटिशतम् ॥ ६४१ ॥

अर्थ—त्रैसमंयम गुणस्थानमें तरह करोड़. सासादनमें वावन करोड़, मिश्रमें एकत्रै
चार करोड़. असंयतमें सात करोड़ मनुष्य हैं । प्रसत्तादि गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पूर्व
ही बता चुके हैं । इस प्रकार यह गुणस्थानोंमें मनुष्य जीवोंका प्रमाण है ।

जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावोत्ति होदि पुण्णं तु ।

सुहपयडीणं दव्वं पावं असुहाण दव्वं तु ॥ ६४२ ॥

जीवैतरस्मिन् कर्मचये पुण्यं पापमिति भवति पुण्यं तु ।

शुभप्रकृतीनां द्रव्यं पापमशुभप्रकृतीनां द्रव्यं तु ॥ ६४२ ॥

अर्थ—जीव पदार्थमें सामान्यसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप है । और मिश्र गुणस्थानवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप है । तथा असंयतसे लेकर सब ही पुण्य जीव है । इसके अनंतर अजीव पदार्थका वर्णन करते हैं । अजीव पदार्थमें कर्मण स्कन्धके दो भेद है । एक पुण्य दूसरा पाप । शुभ प्रकृतियोंके द्रव्यको पुण्य और अशुभ प्रकृतियोंके द्रव्यको पाप कहते हैं । **भावार्थ**—कर्मण स्कन्धमें सातावेदनीय, नरकायुको छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इन शुभ प्रकृतियोंके द्रव्यको पुण्य कहते हैं । इनके सिवाय धातिकर्मकी समस्त प्रकृति और असातावेदनीय, नरक आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्रव्यको पाप कहते हैं ।

आसवसंवरदव्वं समयपवद्धं तु णिज्जरादव्वं ।

ततो असंखगुणिदं उक्कस्सं होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥

आस्रवसंवरद्रव्यं समयप्रवद्धं तु निर्जराद्रव्यम् ।

ततोऽसंख्यगुणितमुत्कृष्टं भवति नियमेन ॥ ६४३ ॥

अर्थ—आस्रव और संवरका द्रव्यप्रमाण समयप्रवद्धप्रमाण है । और उत्कृष्ट निर्जरा-द्रव्य समयप्रवद्धसे असंख्यातगुणा है । **भावार्थ**—एक समयमें समयप्रवद्धप्रमाण कर्मपुद्गलका ही आस्रव होता है, इसलिये आस्रवको समयप्रवद्धप्रमाण कहा है । और आस्रवके निरोधरूप संवर है । सो यह संवर भी एकसमयमें उतने ही द्रव्यका होगा, इसलिये द्रव्य—संवरको भी समयप्रवद्ध प्रमाण कहा है । गुणश्रेणिनिर्जरामे असंख्यात समयप्रवद्धोकी निर्जरा एक ही समयमें हो जाती है, इसलिये उत्कृष्ट निर्जराद्रव्यको असंख्यात समयप्रवद्ध-प्रमाण कहा है ।

बंधो समयपवद्धो किंचुणदिवड्डमेत्तगुणहाणी ।

मोक्खो य होदि एवं सद्धहिदव्वा तु तच्चट्ठा ॥ ६४४ ॥

बन्धः समयप्रवद्धः किञ्चिदूनव्यर्धमात्रगुणहानिः ।

मोक्षश्च भवत्येव श्रद्धातव्यास्त तत्त्वार्थाः ॥ ६४४ ॥

अर्थ—बन्धद्रव्य समयप्रवद्धप्रमाण है; क्योंकि एक समयमें समयप्रवद्धप्रमाण ही कर्म-प्रकृतियोंका बंध होता है । तथा मोक्षद्रव्यका प्रमाण व्यर्धगुणहानिगुणितसमयप्रवद्ध प्रमाण

है; क्योंकि अयोगि गुणस्थानके अन्तमें जितनी कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही मोक्षद्रव्यका प्रमाण है । तथा यहा पर (अयोगि गुणस्थानके अंत समयमें) कर्मोंकी सत्ता द्व्यर्धगुणहानिगुणित समयप्रवद्धप्रमाण है । इसलिये मोक्षद्रव्यका प्रमाण भी द्व्यर्धगुणहानिगुणित-समयप्रवद्धप्रमाण ही है । इस प्रकार इन सात तत्त्वोंका श्रद्धान करना चाहिये । **भावार्थ**— पूर्वमें जो छह द्रव्य पञ्चास्तिकाय नव पदार्थोंका स्वरूप बताया है उसके अनुसार ही उनका श्रद्धान करना चाहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं ।

सम्यक्त्वके भेदोंको गिनानेके पहले क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप बताते हैं ।

क्षीणे दर्शनमोहे जं सद्वहणं सुणिम्मलं होई ।

तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेदु ॥ ६४५ ॥

क्षीणे दर्शनमोहे यच्छ्रद्धानं सुनिर्मलं भवति ।

तत्क्षायिकसम्यक्त्वं नित्यं कर्मक्षपणहेतु ॥ ६४५ ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व नित्य और कर्मोंके क्षय होनेका कारण है । **भावार्थ**—यद्यपि दर्शनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति ये तीन ही भेद हैं । तथापि अनंतानुबंधी कषाय भी दर्शन गुणको विपरति करता है इसलिये इसको भी दर्शन-मोहनीय कहते हैं । इसी लिये आचार्योंने पञ्चाध्यायीमें कहा है कि 'सप्तैते दृष्टिमोहनम्' । अतएव इन सात प्रकृतियोंके सर्वथा क्षीण होजानेसे दर्शन गुणकी जो अत्यन्त निर्मल अवस्था होती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । इसके प्रतिपक्षी कर्मका एकदेश भी अवशिष्ट नहीं रहा है इस ही लिये यह दूसरे सम्यक्त्वोंकी तरह सात नहीं है । तथा इसके होनेपर असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है इसलिये यह कर्मक्षयका हेतु है । इसी अभिप्रायका बोधक दूसरा क्षेपक गाथा भी है । वह इसप्रकार है कि—

दर्शनमोहे खविदे सिज्झदि एक्केव तदियतुरियभवे ।

णादिक्कदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥ १ ॥

दर्शनमोहे क्षपिते सिद्धयति एकस्मिन्नेव तृतीयतुरीयभवे ।

नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेषसम्यक्त्वं व ॥ १ ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीय कर्मका क्षय होजाने पर उस ही भवमें या तीसरे चौथे भवमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होता है, किन्तु चौथे भवका उलंघन नहीं करता, तथा दूसरे सम्यक्त्वोंकी तरह यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता । **भावार्थ**—क्षायिक सम्यक्त्व होने पर या तो उस ही भवमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है । या देवतुल्य भव होगया हो तो तीसरे भवमें सिद्ध होता है । यदि सम्यक्त्वके परचे मिथ्यात्व अथवा नित्यत्व

तिर्यच आयुका बंध होगया हो तो चौथे भवमें सिद्ध होता है; किन्तु चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व साधनंत है ।

क्षायिकसम्यक्त्वका विशेषस्वरूप बताते हैं ।

वयणेहिं वि हेदूहिं वि इंदियभयआणएहिं रूवेहिं ।

वीमच्छजुगुंच्छाहिं य तेलोक्केण वि ण चालेज्जो ॥ ६४६ ॥

वचनैरपि हेतुभिरपि इन्द्रियभयानीतै रूपैः ।

बीभत्स्यजुगुप्साभिश्च त्रैलोक्येनापि न चाल्यः ॥ ६४६ ॥

अर्थ—श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोको भय उत्पन्न करनेवाले आकारोंसे यद्वा ग्लानिकारक पदार्थोंको देखकर उत्पन्न होनेवाली ग्लानिसे किं बहुना तीन लोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त्व चलायमान नहीं होता । **भावार्थ**—क्षायिक सम्यक्त्व इतना दृढ़ होता है कि तर्क तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । तथा वह भयोत्पादक आकार या ग्लानिकारक पदार्थोंको देखकर भी भ्रष्ट नहीं होता । यदि कदाचित् तीन लोक उपस्थित होकर भी उसको अपने श्रद्धानसे भ्रष्ट करना चाहें तो भी वह भ्रष्ट नहीं होता ।

यह सम्यग्दर्शन किसके तथा कहा पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं ।

दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो हु ।

मणुसो केवलिमूले णिट्टवगो होदि सव्वत्थ ॥ ६४७ ॥

दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापकः कर्मभूमिजातो हि ।

मनुष्यः केवलिमूले निष्ठापको भवति सर्वत्र ॥ ६४७ ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका प्रारम्भ केवलीके मूलमें कर्मभूमिका उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही करता है, तथा निष्ठापन सर्वत्र होता है । **भावार्थ**—दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका जो क्रम है उसका प्रारम्भ केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें (निकट) ही होता है, तथा उसका (प्रारम्भका) करनेवाला कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है । यदि कदाचित् पूर्ण क्षय होनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी (क्षपणकी) समाप्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है ।

वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप बताते हैं ।

दंसणमोहुदयादो उप्पज्जइ जं पयत्थसद्दहणं ।

चलमलिणमगाढं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ ॥

दर्शनमोहोदयादुत्पद्यते यत् पदार्थश्रद्धानम् ।

चलमलिनमगाढं तद् वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ ६४८ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल मलिन अगाढरूप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । **भावार्थ**—मिथ्यात्व मिश्र और अनंतानुबंधी चतुष्क इनका सर्वथा क्षय अथवा उदयाभावी क्षय और उपशम हो चुकने पर; किन्तु अवशिष्ट सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होते हुए पदार्थोंका जो श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । यहा पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयजनित चलता मलिनता और अगाढता ये तीन दोष होते हैं । इन तीनोंका लक्षण पहले कहचुके हैं ।

तीन गाथाओंमें उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप और सामग्रीका वर्णन करते हैं ।

दंसणमोहुवसमदो उप्पज्जइ जं पयत्थसद्दहणं ।

उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलपंकतोयसमं ॥ ६४९ ॥

दर्शनमोहोपशमादुत्पद्यते यत्पदार्थश्रद्धानम् ।

उपशमसम्यक्त्वमिदं प्रसन्नमलपङ्क्तोयसमम् ॥ ६४९ ॥

अर्थ—उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसको उपशमसम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व इस तरहका निर्मल होता है जैसा कि निर्मली आदि पदार्थोंके निमित्तसे कीचड़ आदि मलके नीचे बैठ जाने पर जल निर्मल होता है । **भावार्थ**—उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व निर्मलताकी अपेक्षा समान है; क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मोंका उदय दोनों ही स्थानपर नहीं है । किन्तु विशेषता इतनी ही है कि क्षायिक सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कर्मका सर्वथा अभाव होगया है, और उपशम सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता है । जैसे किसी जलमे निर्मली आदिके द्वारा उपरसे निर्मलता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं । अन्तर यही है कि एकके नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है ।

खयउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलद्धी य ।

चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥

क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना प्रायोग्यकरणलब्धी च ।

चतस्रोऽपि सामान्याः करण पुनर्भवति सम्यक्त्वे ॥ ६५० ॥

अर्थ—क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच लब्धि हैं । इनमें चार तो सामान्य हैं, किन्तु करण-लब्धि विशेष है । इसके होनेपर सम्यक्त्व या चारित्र नियमसे होता है । **भावार्थ**—लब्धि शब्दका अर्थ प्राप्ति है । प्रकृतमें सम्यक्त्व ग्रहण करनेके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होना इसको लब्धि कहते हैं । उनके उक्त पांच भेद हैं । सम्यक्त्वके योग्य कर्मोंके क्षयोपशम होनेको क्षायोपशमिक लब्धि कहते हैं । निर्मलता-विशेषको विशुद्धि कहते हैं । योग्य उपदेशको देशना कहते हैं । पंचेन्द्रियादिरूप

योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं । अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोको करणलब्धि कहते हैं । इन तीनों करणोंका स्वरूप पहले कह चुके हैं । इन पाच लब्धियोंमेंसे आदिकी चार लब्धि तो सामान्य हैं—अर्थात् भव्य अमव्य दोनोके होती हैं, किन्तु करण लब्धि असाधारण है—इसके होने पर नियमसे सम्यक्त्व या चारित्र होता है । जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता ।

उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य सामग्रीको बताकर उसको ग्रहण करनेकेलिये योग्य जीव कैसा होना चाहिये यह बताते हैं ।

चदुग्दिभव्वो सण्णी पज्जत्तो सुज्झगो य सागारो ।

जागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्ममुवगमई ॥ ६५१ ॥

चतुर्गतिभव्यः संज्ञी पर्याप्तः शुद्धकश्च साकारः ।

जागरूकः सल्लेश्यः सलब्धिकः सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६५१ ॥

अर्थ—जो जीव चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ञी, पर्याप्त, विशुद्धियुक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, और शुभ लेश्याका धारक होकर करणलब्धिरूप परिणामोका धारक होता है वह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ।

चत्तारिवि खेत्ताइं आउगबंधेण होदि सम्मत्तं ।

अणुवदमहव्वदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ ६५२ ॥

चत्वार्यपि क्षेत्राणि आयुष्कत्रन्धेन भवति सम्यक्त्वम् ।

अणुव्रतमहाव्रतानि न लभते देवायुष्कं मुक्त्वा ॥ ६५२ ॥

अर्थ—चारो गतिसम्बन्धी आयुष्कर्मका बन्ध होजाने पर भी सम्यक्त्व हो सकता है; किन्तु देवायुको छोड़कर शेष आयुका बंध होने पर अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते ।

भावार्थ—चारो गतिमेंसे किसी भी गतिमें रहनेवाले जीवके चार प्रकारकी आयुमेंसे किसी भी आयुका बंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है—इसमें कोई बाधा नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होनेके अनन्तर अणुव्रत या महाव्रत उसी जीवके हो सकते हैं जिसके चार आयुष्कर्मोंमेंसे केवल देवायुका बंध हुआ हो, अथवा किसी भी आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तिर्यगायु मनुष्यायुका बंध करनेवाले सम्यग्दृष्टिके अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते ।

सम्यक्त्वमार्गणाके दूसरे भेदोंको गिनाते हैं ।

ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो य परिवड्ढिदो ।

सो सासणोत्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो ॥ ६५३ ॥

न च मिथ्यात्वं प्राप्तः सम्यक्त्वतश्च यश्च परिपतितः ।

स सासन इति ज्ञेयः पंचमभावेन संयुक्तः ॥ ६५३ ॥

अर्थ—जो जीव सम्यक्त्वसे तो च्युत हो गया है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ है उसको सासन कहते हैं । यह जीव पांचमे पारणामिक भावोंसे युक्त होता है । **भावार्थ**—सासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसलिये यह भी सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है । अत एव यहां पर इसका वर्णन किया है; क्योंकि सम्यक्त्वमार्गणामें सामान्यसे सम्यक्त्वके समस्त भेदोंका वर्णन करना चाहिये । इस गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होते हैं, तथा अनन्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा औदयिकादि भाव होते हैं, । और इसका विशेष स्वरूप गुणस्थानाधिकारमें कह चुके हैं इसलिये यहा नहीं कहते हैं ।

मिश्रगुणस्थानका स्वरूप बताते हैं ।

सद्वहणासद्वहणं जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु ।

विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायव्वो ॥ ६५४ ॥

श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्य भवति तत्त्वेषु ।

विरताविरतेन समः सम्यग्मिथ्य इति ज्ञातव्यः ॥ ६५४ ॥

अर्थ—विरताविरतकी तरह जिस जीवके तत्त्वके विषयमें श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों हों उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये । **भावार्थ**—जिसतरह विरत और अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोडकी अपेक्षा विरताविरत नामका पाचमा गुणस्थान होता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धानरूप परिणामोंके जोडकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्व नामका तीसरा गुणस्थान होता है । यह भी सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है ।

मिच्छाइट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं ण सद्वहदि ।

सद्वहदि असब्भावं उवइट्ठं वा अणुवइट्ठं ॥ ६५५ ॥

मिथ्यादृष्टिर्जीव उपदिष्टं प्रवचनं न श्रद्धाति ।

श्रद्धाति असद्भावमुपदिष्टं वा अनुपदिष्टम् ॥ ६५५ ॥

अर्थ—जो जीव जिनेन्द्रदेवके कहे हुए आप्त आगम पदार्थका श्रद्धान नहीं करता; किन्तु कुगुरुओंके कहे हुए या विना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थका श्रद्धान करता है उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं । **भावार्थ**—मिथ्यात्व—दर्शनमोहनीके उदयसे दो प्रकारके विपरिणाम होते हैं । एक ग्रहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान । जो कुगुरुओंके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको ग्रहीतमिथ्यात्व कहते हैं । और जो विना उपदेशके ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्रहीतमिथ्यात्व कहते हैं । इन दोनों ही प्रकारके विपरिणामोंको मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते हैं । तथा यह मिथ्यात्व सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है । इसलिये इमी गाथाको एकवार गुणस्थानाधिकारमें आने पर भी यहा दूसरीवार कहा है ।

सम्यक्त्वमार्गणामे तीन गाथाओंद्वारा जीवसंख्या वताते हैं ।

वासपुधत्ते खइया संखेज्जा जइ हवंति सोहम्ममे ।

तो संखपल्लुठिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ ६५६ ॥

वर्षपृथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सौधर्मम् ।

तर्हि संख्यपल्यस्थितिके कति एवमनुपाते ॥ ६५६ ॥

अर्थ—क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सौधर्म ईशान स्वर्गमें पृथक्त्व वर्षमें संख्यात उत्पन्न होते है तो संख्यात पल्यकी स्थितिमे कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका त्रैराशिक करनेसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण निकलता है; क्योंकि क्षायिकसम्यग्दृष्टि बहुधा कल्पवासी देव होते है और कल्पवासी देव बहुत करके सौधर्म ईशान स्वर्गमें ही है । **भावार्थ**—फलराशि संख्यातका और इच्छाराशि संख्यात पल्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि पृथक्त्ववर्षका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण है ।

इस प्रकार त्रैराशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह वताते है ।

संखावलिहिदपल्ला खइया तत्तो य वेदमुवसमगा ।

आवलिअसंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७ ॥

संख्यावलिहितपल्या क्षायिकास्ततश्च वेदमुपशमकाः ।

आवलयसंख्यगुणिता असंख्यगुणहीनका क्रमशः ॥ ६५७ ॥

अर्थ—संख्यात आवलीसे भक्त पल्यप्रमाण क्षायिकसम्यग्दृष्टि है । क्षायिक सम्यग्दृष्टिके प्रमाणका आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण है । तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण है ।

सासादन मिश्र और मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण वताते हैं ।

पल्लासंखेज्जदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु ।

मिस्सा तेहिं विहीणो संसारी वामपरिमाणं ॥ ६५८ ॥

पल्यासंख्याताः सासनमिथ्याश्च संख्यगुणिता हि ।

मिश्रास्तैर्विहीनः संसारी वामपरिमाणम् ॥ ६५८ ॥

अर्थ—पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण सासादनमिथ्यादृष्टि जीव है । और इनसे संख्यातगुणे मिश्र जीव है । तथा संसारी जीवराशिमेसे क्षायिक औपशमिक क्षायोपशमिक सासादन मिश्र इन पाच प्रकारके जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण है ।

॥ इति सम्यक्त्वमार्गणाधिकार ॥

क्रमप्राप्त संज्ञिमार्गणाका निरूपण करते है ।

णोइंद्रियआवरणखओवसमं तज्जवोहणं सण्णा ।

सा जस्स सो ढु सण्णी इदरो सेसिंदिअवबोहो ॥ ६५९ ॥

नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तज्जबोधनं संज्ञा ।

सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेन्द्रियावबोधः ॥ ६५९ ॥

अर्थ—नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमको या तज्जन्य ज्ञानको संज्ञा कहते है । यह संज्ञा जिसके हो उसको संज्ञी कहते है । और जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवल यथा-सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो उनको असंज्ञी कहते है । **भावार्थ**—जीव दो प्रकारके होते हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी । जिनके लब्धि या उपयोगरूप मन पायाजाय उनको संज्ञी कहते है । और जिनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते है । इन असंज्ञी जीवोके यथासम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान ही होता है ।

संज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये चिह्नोंका वर्णन करते है ।

सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंबेण ।

जो जीवो सो सण्णी तविवरीओ असण्णी ढु ॥ ६६० ॥

शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोऽवलम्बेन ।

यो जीवः स संज्ञी तद्विपरीतोऽसंज्ञी तु ॥ ६६० ॥

अर्थ—हितका ग्रहण और अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको शिक्षा कहते है । इच्छापूर्वक हाथ पैरके चलानेको क्रिया कहते है । वचन अथवा चाबुक आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते है । और श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते है ।

जो जीव इन शिक्षादिकको मनके अवलम्बनसे ग्रहण=धारण करता है उसको संज्ञी कहते है । और जिन जीवोंमें यह लक्षण घटित न हो उनको असंज्ञी कहते है ।

मीमंसदि जो पुवं कज्जमकज्जं च तच्चमिदरं च ।

सिक्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदो ॥ ६६१ ॥

मीमासति यः पूर्वं कार्यमकार्यं च तत्त्वमितरच्च ।

शिक्षते नाम्ना एति च समना अमनाश्च विपरीतः ॥ ६६१ ॥

अर्थ—जो जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार करे, तथा तत्त्व और अतत्त्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्खा गया हो उस नामके द्वारा बुलाने पर आसके, उसको समनस्क या संज्ञी जीव कहते हैं । और इममे जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं ।

संज्ञीमार्गणागत जीवोंकी संख्याको बताते हैं ।

देवेहिं सादिरेगो रासी सण्णीण होदि परिमाणं ।


तेणूणो संसारी सव्वेसिमसण्णिणजीवाणं ॥ ६६२ ॥

देवैः सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणम् ।

तेनोनः संसारी सर्वेषामसंज्ञिजीवानाम् ॥ ६६२ ॥

अर्थ—देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है । सम्पूर्ण संसारी जीव राशियोंसे संज्ञी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही समस्त असंज्ञी जीवोंका प्रमाण है ।

॥ इति संज्ञीमार्गणाधिकारः ॥



क्रमप्राप्त आहारमार्गणाका वर्णन करते हैं ।

उदयावणसरीरोदयेण तद्देहवचनचित्ताणं ।

णोकम्मवग्गणाणं ग्रहणं आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥

उदयापन्नशरीरोदयेन तद्देहवचनचित्तानाम् ।

नोकर्मवर्गणानां ग्रहणमाहारकं नाम ॥ ६६३ ॥

अर्थ—शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन और द्रव्य मनरूप वचनेके योग्य नोकर्मवर्गणाका जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं ।

निरुक्तिपूर्वक आहारकका अर्थ लिखते हैं ।

आहरदि सरीराणं तिण्हं एयदरवग्गणाओ य ।

भासमणाणं णियदं तम्हा आहारयो भणियो ॥ ६६४ ॥

आहरति शरीराणा त्रयाणामेकतरवर्गणाश्च ।

भाषामनसोर्नियतं तस्मादाहारको भणितः ॥ ६६४ ॥

अर्थ—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे किसी भी एक शरीरके योग्य वर्गणाओंको तथा वचन और मनके योग्य वर्गणाओंको यथायोग्य जीवसमाप्त तथा कालमें जीव आहरण=ग्रहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं ।

जीव दो प्रकारके होते हैं एक आहारक दूसरे अनाहारक । आहारक जीव कौन २ होते हैं और अनाहारक जीव कौन २ होते हैं यह बताते हैं ।

विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदो अजोगी य ।

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ६६५ ॥

विग्रहगतिमापन्नाः केवलिनः समुद्धाता अयोगिनश्च ।

सिद्धाश्च अनाहाराः शेषा आहारका जीवाः ॥ ६६५ ॥

अर्थ—विग्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चारों गतिसम्बन्धी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समु-
द्घात करनेवाले सयोगकेवली, अयोगकेवली, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहारक होते हैं ।
और इनको छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं ।

समुद्घात, कितने प्रकारका होता है यह बताते हैं ।

वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियो समुग्घादो ।

तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ केवलीणं तु ॥ ६६६ ॥

वेदनाकषायवैगूर्विकाश्च मारणान्तिकः समुद्घातः ।

तेज आहारः षष्ठः सप्तमः केवलिनां तु ॥ ६६६ ॥

अर्थ—समुद्घातके सात भेद हैं । वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस,
आहारक, केवल । इनका स्वरूप लेख्यामार्गणाके क्षेत्राधिकारमें कहा जाचुका है इस लिये यहां
पर नहीं कहा है ।

समुद्घातका स्वरूप बताते हैं ।

मूलसरीरमच्छंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स ।

णिग्गमणं देहादो होदि समुग्घादणामं तु ॥ ६६७ ॥

मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीवपिण्डस्य ।

निर्गमनं देहाद्भवति समुद्घातनाम तु ॥ ६६७ ॥

अर्थ—मूल शरीरको न छोड़कर तैजस कर्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे-
शोंके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं ।

आहारमारणंति य द्दुगं पि णियमेण एगदिसिगं तु ।

दसदिंसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति ॥ ६६८ ॥

आहारमारणातिकद्विकमपि नियमेन एकदिशिकं तु ।

दशदिशि गता हि शेषाः पञ्चसमुद्घातका भवन्ति ॥ ६६८ ॥

अर्थ—उक्त सात प्रकारके समुद्घातोंमें आहार और मारणान्तिक ये दो समुद्घात तो
एक ही दिशामें गमन करते हैं; किन्तु बाकीके पांच समुद्घात दशों दिशाओंमें गमन करते हैं ।
आहारक और अनाहारकके कालका प्रमाण बताते हैं ।

अंगुलअसंखभागो कालो आहारयस्स उक्कस्सो ।

कम्मम्मि अणाहारो उक्कस्सं तिण्णि समया हु ॥ ६६९ ॥

अङ्गुलासंख्यभागः काल आहारकस्यात्कृष्ट ।

कर्मणे अनाहारः उत्कृष्टः त्रय समया हि ॥ ६६९ ॥

अर्थ—आहारकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण है । कर्मण शरीरमें अनाहारका उत्कृष्ट काल तीन समयका है, और जघन्य काल एक समयका है । तथा आहारका जघन्य काल तीन समय कम श्वासके अठारहमें भाग प्रमाण है, क्योंकि विग्रहगति-सम्बन्धी तीन समयोंके घटाने पर क्षुद्र भवका काल इतना ही अवशेष रहता है ।

आहारमार्गणासम्बन्धी जीवोंकी संख्याको बताते हैं ।

कर्मण्यकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं ।

तद्विरहितसंसारी सब्बो आहारपरिमाणं ॥ ६७० ॥

कर्मणकाययोगी भवति अनाहारकाणा परिमाणम् ।

तद्विरहितसंसारी सर्वे आहारपरिमाणम् ॥ ६७० ॥

अर्थ—कर्मणकाययोगी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीवोंका प्रमाण है । और संसारी जीवराशिमेंसे कर्मणकाययोगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही आहारक जीवोंका प्रमाण है ।

॥ इति आहारमार्गणाधिकारः ॥

कमप्राप्त उपयोगाधिकारका वर्णन करते हैं ।

वस्तुणिमित्तं भावो जादो जीवस्स जो दु उवजोगो ।

सो दुबिहो णायव्वो सायारो चेव णायारो ॥ ६७१ ॥

वस्तुनिमित्तं भावो जातो जीवस्य यस्तूपयोगः ।

स द्विविधो ज्ञातव्यः साकारश्चैवानाकारः ॥ ६७१ ॥

अर्थ—जीवका जो भाव वस्तुको (ज्ञेयको) ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्त होता है उसको उपयोग कहते हैं । इसके दो भेद हैं एक साकार (सविकल्प) दूसरा निराकार (निर्विकल्प) ।

दोनोंप्रकारके उपयोगोंके उत्तरभेदोंको बताते हुए यह उपयोग जीवका लक्षण है यह बताते हैं ।

णाणं पंचविहंपि च अण्णाणतियं च सागरुवजोगो ।

चदुदंसणमणगारो सब्बे तल्लक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥

ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः ।

चतुर्दर्शनमनाकारः सर्वे तल्लक्षणा जीवाः ॥ ६७२ ॥

अर्थ—पांच प्रकारका सम्यग्ज्ञान और तीन प्रकारका अज्ञान ये साकार उपयोग है । चार प्रकारका दर्शन अनाकार उपयोग है । यह उपयोग ही सम्पूर्ण जीवोंका लक्षण है ।

साकार उपयोगमे कुछ विशेषताको बताते हैं ।

**मदिसुद्ओहिमणेहिंय सगसगविसये विसेसविण्णाणं ।
अंतोमुहुत्तकालो उवजोगो सो दु सायारो ॥ ६७३ ॥**

मतिश्रुतावधिमनोभिश्च स्वकस्वकविषये विशेषविज्ञानम् ।

अन्तर्मुहूर्तकाल उपयोगः स तु साकारः ॥ ६७३ ॥

अर्थ—मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इनकेद्वारा अपने २ विषयका अन्तर्मुहूर्तकालपर्यन्त जो विशेषज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं । **भावार्थ**—साकार उपयोगके पांच भेद है । मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल । इनमेंसे आदिके चार ही उपयोग छद्मस्थ जीवके होते हैं । उपयोग चेतनाका एक परिणमन है । तथा एक वस्तुके ग्रहणरूप चेतनाका यह परिणमन छद्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तकालतक ही रह सकता है । इम साकार उपयोगमें यही विशेषता है कि यह वस्तुके विशेष अंशको ग्रहण करता है ।

अनाकार उपयोगका स्वरूप बताते हैं ।

**इंद्रियमणोहिणा वा अत्थे अविसेसिट्ठणं जं गहणं ।
अंतोमुहुत्तकालो उवजोगो सो अणायारो ॥ ६७४ ॥**

इन्द्रियमनोऽवधिना वा अर्थे अविशेष्य यद्ग्रहणम् ।

अन्तर्मुहूर्तकालः उपयोगः स अनाकारः ॥ ६७४ ॥

अर्थ—इन्द्रिय मन और अवधिकेद्वारा अन्तर्मुहूर्तकालतक पदार्थोंका जो सामान्यरूपसे ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं । **भावार्थ**—दर्शनके चार भेद है, चक्षु-दर्शन अचक्षुदर्शन अवधिदर्शन और केवलदर्शन । इनमेंसे आदिके तीन ही दर्शन छद्मस्थ जीवके होते हैं । नेत्रकेद्वारा पदार्थका जो सामान्यावलोकन होता है उसको चक्षुदर्शन कहते हैं । और नेत्रको छोडकर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्वारा जो सामान्यावलोकन होता है उसको अचक्षुदर्शन कहते हैं । अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय और मनकी सहायतके विना आत्म-मात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक सामान्यावलोकन होता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं । यह दर्शनरूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगकी तरह छद्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तकाल ही होता है ।

उपयोगाविकारमें जीवोंका प्रमाण बताते हैं ।

**पाणुवजोगजुट्ठणं परिमाणं पाणमग्गणं व हवे ।
दंसणुवजोगियाणं दंसणमग्गणं व उत्तकमो ॥ ६७५ ॥**

ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमार्गणावद्भवेत् ।

दर्शनोपयोगिनां दर्शनमार्गणावदुक्तक्रमः ॥ ६७५ ॥

अर्थ—ज्ञानोपयोगवाले जीवोका प्रमाण ज्ञानमार्गणावाले जीवोकी तरह समझना चाहिये । और दर्शनोपयोगवालोंका प्रमाण दर्शनमार्गणावालोंकी तरह समझना चाहिये । इनमें कुछ विशेषता नहीं है ।

॥ इति उपयोगाधिकार ॥

उक्त प्रकारसे वीस प्ररूपणाओका वर्णन करके अब अन्तर्भावाधिकारका वर्णन करते हैं ।

गुणजीवा पञ्जती षाणा सण्णा य मग्गणुवजोमो ।

जोग्गा परूविदव्वा ओघादेसेसु पत्तेयं ॥ ६७६ ॥

गुणजीवाः पर्याप्तियः प्राणाः संज्ञाश्च मार्गणोपयोगौ ।

योग्याः प्ररूपितव्या ओघादेशयोः प्रत्येकम् ॥ ६७६ ॥

अर्थ—उक्त वीस प्ररूपणाओंमेंसे गुणस्थान और मार्गणास्थानमे यथायोग्य प्रत्येक गुणस्थान जीवसमास पर्याप्ति प्राण संज्ञा मार्गणा उयोगका निरूपण करना चाहिये भावार्थ— इस अधिकारमें यह बताते हैं कि किस २ मार्गणमें या गुणस्थानमें शेष किस २ प्ररूपणाका अन्तर्भाव होता है । परन्तु इस अन्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना चाहिये ।

किस २ मार्गणमें कौन २ गुणस्थान होते हैं ? उत्तरः—

चउपण चोद्दस चउरो णिरयादिसु चोद्दसं तु पंचक्खे ।

तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छं गुणट्ठाणं ॥ ६७७ ॥

चत्वारि पञ्च चतुर्दश चत्वारि निरयादिषु चतुर्दश तु पञ्चाक्षे ।

त्रसकाये शेषेन्द्रियकाये मिथ्यात्वं गुणस्थानम् ॥ ६७७ ॥

अर्थ—गतिमार्गणाकी अपेक्षासे क्रमसे नरकगतिमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं, और तिर्यग्गतिमें पाच, मनुष्यगतिमें चौदह, तथा देवगतिमें नरकगतिके समान चार गुणस्थान होते हैं । इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवोंके चौदह गुणस्थान और शेष एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियपर्यन्त जीवोंके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । कायमार्गणाकी अपेक्षा त्रसकायके चौदह और शेष स्थावर कायके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । भावार्थ—यहां पर यह बताया है कि अमुक २ गति इन्द्रिय या कायवाले जीवोंके अमुक २ गुणस्थान होता है । इसी तरह जीवसमासादिकोंको भी यथायोग्य समझना चाहिये । जैसे कि नरक और देवगतिमें पर्याप्ति और निर्वृत्यपर्याप्ति ये दो जीवसमास होते हैं । तिर्यग्गतिमें चौदह तथा मनुष्यगतिमें मंजीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास

होते हैं । इन्द्रिय मार्गणामे एकेन्द्रिय जीवोंके बादर पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जीवोंके अपने २ पर्याप्त अपर्याप्त इस-तरह दो २ जीवसमान होते हैं । पंचेन्द्रियमें संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त असंज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीवसमास होते हैं । कायमार्गणाकी अपेक्षा स्थावरकायमें एकेन्द्रियके समान चार जीवसमास होते हैं । और त्रसकायमे शेष दश जीवसमास होते हैं ।

मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं दु जाव खीणोत्ति ।
सेसाणं जोगिन्ति य अणुभयवयणं तु वियलादो ॥ ६७८ ॥

मध्यमचतुर्भनोवचनयोः संज्ञिप्रभृतिस्तु यावत् क्षीण इति ।

शेषाणां योगीति च अनुभयवचनं तु विकलतः ॥ ६७८ ॥

अर्थ—असत्यमन उभयमन असत्य वचन उभय वचन इन चार योगोंके स्वामी संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यंत वारह गुणस्थानवाले जीव हैं । और सत्यमन अनुभयमन सत्यवचन इनके स्वामी आदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं । अनुभय वचनयोग विकलत्रयसे लेकर सयोगीपर्यन्त होता है । अनुभय वचनको छोड़कर शेष तीन प्रकारका वचन और चार प्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पर्याप्त ही जीवसमास है । और अनुभय वचनमें पर्याप्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच जीवसमास होते हैं ।

ओरालं पज्जत्ते थावरकायादि जाव जोगोत्ति ।
तम्मिस्ससपज्जत्ते चटुगुणठाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥

औरालं पर्याप्ते स्थावरकायादि यावत् योगीति ।

तन्मिश्रमपर्याप्ते चतुर्गुणस्थानेषु नियमेन ॥ ६७९ ॥

अर्थ—औदारिककाययोग, स्थावर एकेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगी पर्यन्त होता है । और औदारिक मिश्रकाययोग नियमसे चार अपर्याप्त गुणस्थानोंमें ही होता है । औदारिक काययोगमे पर्याप्त सात जीवसमास होते हैं, और मिश्रयोगमें अपर्याप्त सात जीवसमास हैं ।

अपर्याप्त चार गुणस्थानोंको गिनाते हैं ।

मिच्छे सासणसम्मं पुवेदयदे कवाडजोगिम्मि ।
णरत्तिरियेवि च दोण्णिवि हांतित्ति जिणेहिं णिट्ठिं ॥ ६८० ॥

मिथ्यात्वे मासनसम्यक्त्वे पुवेदायने कपाट्योगिनि ।

नरत्तिश्चोरपि च द्वावपि भवन्तीति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ६८० ॥

१ गुणस्थानोंका एक गुणस्थानविस्तरने चर्चाना । २ जन्म पर योगीति मिलनेसे अष्ट जीवसमास होते हैं ।

अर्थ—मिथ्यात्व, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपाटसमुद्धात करनेवाले सयोगकेवली, इन चार स्थानोंमें ही औदारिकमिश्रकाययोग होता है । तथा औदारिक काययोग और औदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनुष्य और तिर्यञ्चोंके ही होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

वेगुब्धं पज्जत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सं तु ।

सुरणिरयचउट्ठाणे मिस्से णहि मिस्सजोगो हु ॥ ६८१ ॥

वैगूर्वं पर्याप्त इतरे खलु भवति तस्य मिश्रं तु ।

सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्रे नहि मिश्रयोगो हि ॥ ६८१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतपर्यंत चारों ही गुणस्थानवाले देव और नारकियोंके पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिक काययोग होता है, और अपर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिकमिश्रयोग होता है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणस्थानोंमेंसे मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता; क्योंकि कोई भी मिश्रयोग मिश्रगुणस्थानमें नहीं होता । वैक्रियिक योगमें एक संज्ञीपर्याप्त ही जीवसमास है और मिश्रयोगमें एक संज्ञी निर्वृत्यपर्याप्त जीवसमास है ।

आहारो पज्जत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु ।

अंतोमुहुत्तकाले छट्ठगुणे होदि आहारो ॥ ६८२ ॥

आहारः पर्याप्त इतरे खलु भवति तस्य मिश्रस्तु ।

अन्तर्मुहूर्तकाले षष्ठगुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥

अर्थ—आहारककाययोग पर्याप्त अवस्थामें होता है, और आहारकमिश्रयोग अपर्याप्त अवस्थामें होता है । ये दोनों ही योग छठे गुणस्थानवाले मुनिके ही होते हैं । और इनके उत्कृष्ट और जघन्य कालका प्रमाण अंतमुहूर्त ही है **भावार्थ**—यहांपर जो पर्याप्तता या अपर्याप्तता कही है वह आहारक शरीरकी अपेक्षासे कही है, औदारिक शरीरकी अपेक्षासे नहीं कही है; क्योंकि औदारिकशरीरसम्बन्धी अपर्याप्तता छठे गुणस्थानमें नहीं होती ।

ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेषु होदि कम्मइयं ।

चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणगे ॥ ६८३ ॥

ओरालिकमिश्रो वा चतुर्गुणस्थानेषु भवति कर्मणम् ।

चतुर्गतिविग्रहकाले योगिनश्च प्रतरलोकपूरणके ॥ ६८३ ॥

अर्थ—औदारिक मिश्रयोगकी तरह कर्मण योग भी चार गुणस्थानोंमें और चारों विग्रहगतियोंके कालमें होता है, विशेषता केवल इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगको जो सयोगके-वलिगुणस्थानमें बताया है सो कपाटसमुद्धात समयमें बताया है, और कर्मणयोगको प्रतर और लोकपूरण समुद्धात समयमें बताया है । यहां पर औदारिकमिश्रकी तरह जीवसमास भी आठ होते हैं ।

थावरकायप्पहुदी संढो सेसा असण्णिआदी य ।

अणियट्टिस्स य पढमो भागोत्ति जिणेहिं णिट्ठिं ॥ ६८४ ॥

स्थावरकायप्रभृतिः षण्डः शेषा असंज्ञ्यादयश्च ।

अनिवृत्तेश्च प्रथमो भाग इति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ६८४ ॥

अर्थ—वेदमार्गणाके तीन भेद है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक । इसमें नपुंसक वेद स्थावर-काय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके पहले सवेद भाग पर्यन्त रहता है । अत एव इसमें गुणस्थान नव और जीवसमास चौदह होते हैं । शेष स्त्री और पुरुषवेद असंज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग तक होते हैं । यहां पर गुणस्थान तो पहलेकी तरह नव ही है; किन्तु जीवसमास असंज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त-अपर्याप्त और संज्ञीके पर्याप्त अपर्याप्त इसतरह चार ही होते हैं ।

थावरकायप्पहुदी अणियट्ठीबितिचउत्थभागोत्ति ।

कोहतिंयं लोहो पुण सुहमसुरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५ ॥

स्थावरकायप्रभृति अनिवृत्तिद्वित्रिचतुर्थभाग इति ।

क्रोधत्रिकं लोभः पुनः सूक्ष्मसराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥

अर्थ—कषायमार्गणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कषाय स्थावरकायमिथ्या-दृष्टिसे लेकर अनिवृत्ति करणके दूसरे तीसरे चौथे भाग तक क्रमसे रहते हैं । और लोभकषाय दशमे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक रहता है । अतएव आदिके तीन कषायोंमें गुणस्थान नव और लोभकषायमे दश होते हैं; किन्तु जीवसमास दोनो जगह चौदह २ ही होते हैं । :

थावरकायप्पहुदी मदिसुदअण्णाणयं विभंगो ढु ।

सण्णीपुण्णप्पहुदी सासनसम्मोत्ति णायव्वो ॥ ६८६ ॥

स्थावरकायप्रभृति मतिश्रुताज्ञानकं विभङ्गस्तु ।

संज्ञिपूर्णप्रभृति सासनसम्यगिति ज्ञातव्यः ॥ ६८६ ॥

अर्थ—कुमति और कुश्रुत ज्ञान स्थावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे लेकर सासादन गुणस्थान तक होते हैं । विभङ्गज्ञान संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सासादनपर्यन्त होता है । कुमति कुश्रुत ज्ञानमे गुणस्थान दो और जीवसमास चौदह होते हैं । विभङ्गमें गुणस्थान दो और जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है ।

सण्णाणतिगं अविरदसम्मादी छट्टगादि मणपज्जो ।

खीणकसायं जाव ढु केवलणाणं जिणे सिट्ठे ॥ ६८७ ॥

मद्ज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि षष्टकादिर्मन-पर्ययः ।

क्षीणकषायं यावत्तु केवलज्ञानं जिने सिट्ठे ॥ ६८७ ॥

अर्थ—आदिके तीन सम्यग्ज्ञान (मति श्रुत अवाधि) अव्रतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते है । मनःपर्ययज्ञान छेदे गुणस्थानसे लेकर वारहमे गुणस्थान तक होता है । और केवलज्ञान तेरहमे चौदहमे गुणस्थानमें तथा सिद्धोंके होता है । **भावार्थ**—आदिके तीन सम्यग्ज्ञानोंमें गुणस्थान नव और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते है । मनःपर्यय ज्ञानमें गुणस्थान सात और जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही है । यहां पर यह शंका नही हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपर्याप्तता भी सम्भव है इसलिये यहा दो जीवसमास कहने चाहिये ? क्योंकि मनःपर्यय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक-ऋद्धि नहीं होती । केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणस्थान दो (सयोगी, अयोगी) और जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते है । सयोगकेवलियों के समुद्धात समयमें अपर्याप्तता भी होती है यह पहले कहचुके है । गुणस्थानोसे रहित सिद्धोंके भी केवलज्ञान होता है ।

अयदोत्ति हु अविरमणं देसे देसो पमत्त इदरे य ।

परिहारो सामाह्यछेदो छट्ठादि थूलोत्ति ॥ ६८८ ॥

सुहमो सुहमकसाये संते खीणे जिणे जहक्खादं ।

संजममर्गणभेदा सिद्धे णत्थित्ति णिद्धिं ॥ ६८९ ॥

अयत इति आविरमणं देशे देशः प्रमत्तेतरस्मिन् च ।

परिहारः सामायिकश्छेदः षष्ठादिः स्थूल इति ॥ ६८८ ॥

सूक्ष्मः सूक्ष्मकषाये शान्ते क्षीणे जिने यथाख्यातम् ।

संयममार्गणभेदाः सिद्धे न सन्तीति निर्दिष्टम् ॥ ६८९ ॥

अर्थ—संयममार्गणामे असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह (असंयम) मिथ्या-दृष्टिसे लेकर अव्रतसम्यग्दृष्टितक होता है । अतः यहा पर गुणस्थान चार और जीवसमास चौदह होते है । देशसंयम पांचमे गुणस्थानमें ही होता है । अतः यहां पर गुणस्थान एक और जीवसमास भी एक संज्ञी पर्याप्त ही होता है । परिहारविशुद्धि संयम छेदे सातमे गुणस्थानमें ही होता है, यहापर भी जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है; क्योंकि परिहार-विशुद्धिवाला आहारक नहीं होता । सामायिक और छेदोपस्थापना संयम छेदेसे लेकर अनि-वृत्तिकरण गुणस्थानतक होता है । इसलिये यहापर गुणस्थान चार और जीवसमास दो होते है । सूक्ष्मसांपराय संयम दशमे गुणस्थानमें ही होता है । अतः यहापर गुणस्थान और जीवसमास एक २ ही है । यथाख्यात संयम उपशातकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवली और अयोगकेवलियोंके होता है । यहा पर गुणस्थान चार और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त तथा केवल-मनुष्ठानकी अपेक्षा अपर्याप्त ये दो होते है । सिद्ध गुणस्थान और मार्गणाओसे रहित है अतः उनके कोई भी संयम नहीं होता ।

क्रमप्राप्त दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणस्थान और जीवसमास घटित करते हैं ।

चउरक्खथावरविरदसम्माइट्ठी दु खीणमोहोत्ति ।

चक्खुअचक्खू ओही जिणसिद्धे केवलं होदि ॥ ६९० ॥

चतुरक्षस्थावराविरतसम्यग्दृष्टिस्तु क्षीणमोह इति ।

चक्षुरचक्षुरवधिः जिनसिद्धे केवलं भवति ॥ ६९० ॥

अर्थ—दर्शनके चार भेद हैं । चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अविधिदर्शन केवलदर्शन यह पहले बताचुके हैं । इनमें पहला चक्षुदर्शन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है । और अचक्षुदर्शन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त ही होता है । तथा अविधिदर्शन अव्रतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है । केवलदर्शन सयोगकेवल और अयोगकेवल इन दो गुणस्थानोंमें और सिद्धोंके होता है । **भावार्थ**—चक्षुदर्शनमें गुणस्थान बारह और चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्ञी संज्ञीसम्बन्धी अपर्याप्त पर्याप्तकी अपेक्षा जीवसमास छह होते हैं । अचक्षुदर्शनमें गुणस्थान बारह और जीवसमास चौदह होते हैं । अविधिदर्शनमें गुणस्थान नव और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं । केवलदर्शनमें गुणस्थान दो और जीवसमास भी दो होते हैं । विशेषता यह है कि यह (केवलदर्शन) गुणस्थानातीत सिद्धोंके भी होता है ।

लेश्याकी अपेक्षासे गुणस्थान और जीवसमासोंका वर्णन करते हैं ।

थावरकायप्पहुदी अविरदसम्मोत्ति असुहतियलेस्सा ।

सण्णीदो अपमत्तो जाव दु सुहतिणिलेस्साओ ॥ ६९१ ॥

स्थावरकायप्रभृति अविरतसम्यगिति अशुभत्रिकलेश्याः ।

संज्ञितः अप्रमत्तो यावत्तु शुभास्तिस्रो लेश्याः ॥ ६९१ ॥

अर्थ—लेश्याओके छह भेदोंको पहले बताचुके हैं । उनमें आदिकी कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेश्या स्थावरकायसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त होती हैं । और अतकी पीत पद्म शुक्ल ये तीन शुभलेश्या सजी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तपर्यन्त होती हैं । **भावार्थ**—अशुभ लेश्याओंमें गुणस्थान चार और जीवसमास चौदह होते हैं, तथा शुभलेश्याओंमें गुणस्थान सात और जीवसमास दो होते हैं ।

इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातमें गुणस्थानतक ही सिद्ध होनी है, अतः शुक्ललेश्याके विषयमें अपवादात्मक विशेष कथन करते हैं ।

णवरि च सुक्का लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण ।

* क्लोत्रि का नसीनील धन्वितान्दरी अर्थात् यमन है । जो मिथ्या दर्शन के लिये विष्णु का ३ है । जिसके पहले दर्शन नहीं होता ।

गयजोगिमि वि सिद्धे लेस्सा णत्थित्ति णिद्धिट्ठं ॥ ६९२ ॥

नवरि च शुक्ला लेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन ।

गतयोगेऽपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निर्दिष्टम् ॥ ६९२ ॥

अर्थ—शुक्ललेश्यामें यह विशेषता है कि वह सजी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग-केवल गुणस्थानपर्यन्त होती है । और उसमें जीवसमास दो ही होते हैं । इसके ऊपर चौदहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके तथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती, यह परमागममें कहा है ।

थावरकायप्पहुदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा ।

मिच्छाइद्धिद्धाणे अभव्वसिद्धा हवंतित्ति ॥ ६९३ ॥

स्थावरकायप्रभृति अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धाः ।

मिथ्यादृष्टिस्थाने अभव्वसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥

अर्थ—भवसिद्ध स्थावरकाय—मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिपर्यन्त होते हैं । और अभव्व-सिद्ध मिथ्यादृष्टिस्थानमें ही रहते हैं । भावार्थ—भव्यत्वमार्गणाके दो भेद हैं, एक भव्य और दूसरे अभव्य—इन्हींको भव्यसिद्ध अभव्वसिद्ध भी कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाह्य निमित्त मिलनेपर सिद्धपर्यायकी तथा उसके साधनभूत सम्यग्दर्शनादिसम्बन्धी शुद्धपर्यायकी प्राप्ति होसके जीवकी उस शक्तिविशेषको भव्यत्वशक्ति कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाह्य निमित्तके मिलने पर भी सम्यग्दर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपर्यायकी प्राप्ति न हो सके जीवकी उस शक्तिविशेषको अभव्यत्वशक्ति कहते हैं । भव्यत्वशक्तिवालोको भव्य और अभव्यत्वशक्तिवाले जीवोंको अभव्य कहते हैं । भव्यजीवोंके चौदह गुणस्थान और चौदह जीवसमास होते हैं । और अभव्य जीवोंके चौदह जीवसमास और एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है ।

सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं ।

मिच्छो सासनमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो ।

पढमुवसमवेद्वगसम्मत्तहुगं अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४ ॥

मिथ्यात्वं सासनमिश्रौ स्वकस्वकस्थाने भवति अयतात् ।

प्रथमोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकमप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद हैं—मिथ्यात्व, सासन, मिश्र, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक । इनमें आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणस्थानमें ही होते हैं । और प्रथमोपशम तथा वेदक ये दो सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातमे गुणस्थानतक होते हैं । भावार्थ—मिथ्यादर्शनका गुणस्थान एक प्रथम और जीवसमास चौदह । सासादनका

गुणस्थान एक दूसरा जीवसमास सात होते हैं । वे इस प्रकार हैं कि वादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी इनसम्बन्धी अपर्याप्त और एक संज्ञीपर्याप्त । मिश्रदर्शनका गुणस्थान एक तीसरा और जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त यह एक ही होता है । उपशमसम्यक्त्वके दो भेद हैं—एक प्रथमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो प्रतिपक्षी पांच या सात प्रकृतियोंके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । और जो सम्यग्दर्शन तीन दर्शनमोहनीय प्रकृतियोंके उपशमके साथ २ चार अनंतानुबंधी कषायोंके विसंयोजनसे उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । इनमेंसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा वेदक सम्यक्त्व असंयतसे लेकर अप्रमत्तपर्यंत होता है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व अवस्थामें मरण नहीं होता । इसलिये जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है । और वेदकसम्यक्त्वमें संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । क्योंकि प्रथम नरक और भवनत्रिकको छोड़कर शेष देव, भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्यचोमें अपर्याप्त अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता है ।

द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको कहते हैं ।

विदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोहोत्ति ।

खड्गं सम्मं च तथा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिद्धिं ॥ ६९५ ॥

द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशातमोहइति ।

क्षायिकं सम्यक्त्वं च तथा सिद्धइति जिनैर्निर्दिष्टम् ॥ ६९६ ॥

अर्थ—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर उपशांतमोहपर्यन्त होता है । क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थगुणस्थानसे लेकर सिद्धपर्यन्त होता है । द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें संज्ञीपर्याप्त और देव अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । क्षायिक सम्यक्त्वं संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोके भी होता है; परन्तु वहापर कोई भी जीवसमास नहीं होता । भावार्थ—यहां पर चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ गुणस्थानमें जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व बताया है उसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सातमे गुणस्थानमें ही उत्पन्न होता है; परन्तु वहासे श्रेणिका आसेहण करके जब ग्यारहमे गुणस्थानसे नीचे गिरता है तब छठे पांचमे चौथे गुणस्थानमें भी आता है इस अपेक्षासे इन गुणस्थानोंमें भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व रहता है ।

१ विशेषता इतनी है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर जो नामानुगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके संज्ञीपर्याप्त और देवअपर्याप्त ये जो ही जीवसमास होते हैं । २ अनंतानुबंधीका अप्रत्यागमनादिभ्यः परित्यजन होना । ३ वेदकसम्यक्त्वका लक्ष्य परले कउ चुके हैं ।

संज्ञामार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं ।

सण्णी सण्णिप्पहुदी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण ।

थावरकायप्पहुदी असण्णिप्पत्ति हवे असण्णी हु ॥ ६९६ ॥

संज्ञी संज्ञिप्रभृतिः क्षीणकषाय इति भवति नियमेन ।

स्थावरकायप्रभृतिः असंज्ञीति भवेदसंज्ञी हि ॥ ६९६ ॥

अर्थ—संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते हैं । इनमें गुणस्थान बारह और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं । असंज्ञी जीव स्थावरकायसे लेकर असंज्ञीपंचेन्द्रियपर्यन्त होते हैं । इनमें गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, और जीवसमास संज्ञीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भेदोंको छोड़कर शेष बारह होते हैं ।

थावरकायप्पहुदी सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी ।

कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायव्वो ॥ ६९७ ॥

स्थावरकायप्रभृतिः सयोगिचरम इति भवति आहारी ।

कर्मण अनाहारी अयोगिसिद्धेपि ज्ञातव्यः ॥ ६९७ ॥

अर्थ—स्थावरकायमिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त आहारी होते हैं । और कर्मणकाययोगवाले तथा अयोगकेवली अनाहारक समझने चाहिये । **भावार्थ**—कर्मणकाययोग और अयोग केवल गुणस्थानवाले जीवोंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव आहारक होते हैं । आहारक जीवोंके आदिके तेरह गुणस्थान और चौदह जीवसमास होते हैं । अनाहारक जीवोंके गुणस्थान पांच (मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी अयोगी) और जीवसमास सात अपर्याप्त और एक अयोगीसम्बन्धी पर्याप्त इसप्रकार आठ होते हैं ।

किस २ गुणस्थानमें कौन २ सा जीवसमास होता है यह धटित करते हैं ।

मिच्छे चोद्दस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे च ।

सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णीपुण्णो दु खीणोत्ति ॥ ६९८ ॥

मिथ्यात्वे चतुर्दश जीवाः सासनायते प्रमत्तविरते च ।

संज्ञिद्विकं शेषगुणे संज्ञिपूर्णस्तु क्षीण इति ॥ ६९८ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानमें चौदह जीवसमास है । सासादन असंयत प्रमत्तविरत चकारसे सयोगकेवली इनमें संज्ञी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें संज्ञीपर्याप्त एक ही जीवसमास होता है ।

—मार्गणास्थानोंमें जीवसमासोंको संक्षेपसे दिखाते हैं ।—

तिरियगदीए चोद्दस हवंति सेसेसु जाण दो दो दु ।

मग्गणठाणस्सेवं पेयाणि समासठाणाणि ॥ ६९९ ॥

तिर्यग्गतौ चतुर्दश भवन्ति शेषेषु जानीहि द्वौ द्वौ तु ।

मार्गणास्थानस्यैवं ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥ ६९९ ॥

अर्थ—मार्गणास्थानके जीवसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समझना चाहिये कि तिर्यग्गतिमार्गणामें तो चौदह जीवसमास होते हैं । और शेष समस्त गतियोंमें दो दो ही जीवसमास होते हैं ।

गुणस्थानोंमें पर्याप्ति और प्राणोंको बताते हैं ।

पञ्जती पाणावि य सुगमा भाविन्द्रियं ण जोगिम्हि ।

तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगहुगमजोगिणो आऊ ॥ ७०० ॥

पर्याप्तयः प्राणा अपि च सुगमा भावेन्द्रियं न योगिनि ।

तस्मिन् वागुच्छ्वासायुष्ककायत्रिकद्विकमयोगिन आयुः ॥ ७०० ॥

अर्थ—पर्याप्ति और प्राण ये सुगम हैं, इसलिये यहां पर इनका पृथक् उल्लेख नहीं करते; क्योंकि बारहमें गुणस्थानतक सब ही पर्याप्ति और सब ही प्राण होते हैं । तेहरमें गुणस्थानमें भावेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु द्रव्येन्द्रियकी अपेक्षा छहों पर्याप्ति होती है । परन्तु प्राण यहापर चार ही होते हैं—वचन श्वासोच्छ्वास आयु कायबल । इसी गुणस्थानमें वचनबलका अभाव होनेसे तीन और श्वासोच्छ्वासका अभाव होनेसे दो प्राण रहते हैं । चौदहमें गुणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानेसे केवल आयु प्राण ही रहता है ।

क्रमप्राप्त संज्ञाओंको गुणस्थानोंमें बताते हैं ।

छट्ठोत्ति पढमसण्णा सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा ।

पुव्वो पढमणियट्ठी सुहुमोत्ति कमेण सेसाओ ॥ ७०१ ॥

पष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकार्या शेषाश्च कारणापेक्षाः ।

अपूर्वः प्रथमानिवृत्तिः सूक्ष्म इति क्रमेण शेषाः ॥ ७०१ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपर्यन्त आहार भय मैथुन और परिग्रह ये चारों ही संज्ञा कार्यरूप होती हैं । किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आदिकर्म जो तीन आदिक संज्ञा होती है वे सब कारणकी अपेक्षासे होती हैं । छठे गुणस्थानमें आहारसंज्ञाकी व्युच्छित्ति होजाती है । शेष तीन संज्ञा कारणकी अपेक्षासे अपूर्वकरणपर्यन्त होती हैं । यहांपर (अपूर्वकरणमें) भयसंज्ञाकी भी व्युच्छित्ति होजाती है । शेष दो संज्ञा अनिवृत्तिकरणके सवेदभागपर्यन्त होती हैं । यहां पर मैथुनसंज्ञाका विच्छेद होनेसे सूक्ष्मसापरायमें एक परिग्रह संज्ञा ही होती है । इस परिग्रह संज्ञाका भी यहां विच्छेद होजानेसे ऊपर उपशातकृपाय आदि गुणस्थानोंमें कोई भी संज्ञा नहीं होती ।

मग्गण उवजोगावि य सुगमा पुब्बं परूविदत्तादो ।
गदिआदिसु मिच्छादी परूविदे रूविदा होंति ॥ ७०२ ॥

मार्गणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूर्वं प्ररूपितत्वात् ।

गत्यादिषु मिथ्यात्वादौ प्ररूपिते रूपिता भवन्ति ॥ ७०२ ॥

अर्थ—पहले मार्गणास्थानकमें गुणस्थान और जीवसमासादिका निरूपण करचुके हैं इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरणमें मार्गणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है ।
भावार्थ—मार्गणा और उपयोग किसतरह सुगम है यह संक्षेपमें यहां पर स्पष्ट करते हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नरकादि चारो ही गति पर्याप्त और अपर्याप्त होती है । सासादन गुणस्थानमें नरकातिको छोड़कर शेष तीनों गति पर्याप्त अपर्याप्त होती है । और नरक गति पर्याप्त ही है । मिश्रगुणस्थानमें चारों ही गति पर्याप्त ही होती है । असंयत गुणस्थानमें प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है । शेष छहों नरक पर्याप्त ही है । तिर्यग्गतिमें भोगभूमिज तिर्यंच पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही होते हैं । कर्मभूमिज तिर्यंच पर्याप्त ही होते हैं । मनुष्यगतिमें भोगभूमिज मनुष्य और कर्मभूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकारके होते हैं । देवगतिमें भवनत्रिक पर्याप्त ही होते हैं । और वैमानिक देव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं । देशसंयत गुणस्थानमें कर्मभूमिज तिर्यंच और मनुष्य ये दो ही और पर्याप्त ही होते हैं । प्रमत्तगुणस्थानमें मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं । किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं । अप्रमत्तसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं । सयोगकेवलियोंमें पर्याप्त तथा समुद्घातकी अपेक्षा अपर्याप्त भी मनुष्य होते हैं । अयोगकेवलियोंमें मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं । इन्द्रियमार्गणाके पांच भेद है । ये पांचो ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकारके होते हैं । सासादनमें पांचो अपर्याप्त होते हैं; और पंचेन्द्रिय पर्याप्त भी होता है अर्थात् अपर्याप्त अवस्थामें पांचो ही इन्द्रियवालोके सासादन गुणस्थान होता है, किन्तु पर्याप्त अवस्थामें पंचेन्द्रियके ही सासादन गुणस्थान होता है । मिश्रगुणस्थानमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही है । असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपर्याप्त होते हैं । देशसंयतसे लेकर अयोगीपर्यन्त सर्वगुणस्थानोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होते हैं; किन्तु छठे गुणस्थानमें आहारककी अपेक्षा और सयोगीमें समुद्घातकी अपेक्षा अपर्याप्त पंचेन्द्रिय भी होता है । कायके छह भेद है । पांच स्यावर और एक त्रस । ये छहों मिथ्यात्वमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनो होते हैं । सासादनमें वादर—पृथ्वी जल वनस्पती तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त ही होते हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनो ही होते हैं । मिश्रगुणस्थानसे लेकर अयोगीतक संज्ञी त्रसकाय पर्याप्त ही होता है; किन्तु असंयत गुणस्थानमें तथा

आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमें और समुद्धातकी अपेक्षा सयोगीमें संज्ञीत्रसकाय अपर्याप्त भी होता है । भावयोग आत्माकी शक्तिरूप है यह पहले कहचुके है । मन-वचन-कायके निमित्तसे जीवप्रदेशोंके चंचल होनेको द्रव्य योग कहते हैं । इसके तीन भेद हैं, मन वचन काय । इसमें मन और वचनके चार २ भेद हैं—सत्य असत्य उभय अनुभय । काययोगके सात भेद हैं—औदारिक वैक्रियिक आहारक और इन तीनोंकेमिश्र तथा कार्माण । इस प्रकार योगके पन्द्रह भेद होते हैं । इनमेंसे किस २ गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह बतानेकेलिये आचार्य सूत्र करते हैं—

तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छट्टयम्मि एयारा ।

जोगिमि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ७०३ ॥

त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश ।

योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत् शून्यम् ॥ ७०३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें उक्त पन्द्रह योगोंमेंसे आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं । मिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरह-योगोंमेंसे औदारिकमिश्र वैक्रियिकमिश्र कार्माण इन तीनोंके घटजानेसे शेष दश योग होते हैं । इसके ऊपर छट्टे गुणस्थानको छोड़कर सात गुणस्थानोंमें नव योग होते हैं; क्योंकि उक्त दश योगोंमेंसे वैक्रियिक योग और भी घट जाता है । किन्तु छट्टे गुणस्थानमें ग्यारह योग होते हैं; क्योंकि उक्त दश योगोंमेंसे वैक्रियिक योग घटता है और आहारक आहारकमिश्र ये दो योग मिलते हैं । सयोगकेवलीमें सातयोग होते हैं; वे ये हैं—सत्यमनोयोग अनुभयमनोयोग सत्यवचनयोग अनुभयवचनयोग औदारिक औदारिकमिश्र कार्माण । अयोगकेवलीके कोई भी योग नहीं होता । **भावार्थ**—इस सूत्रमें प्रत्येक गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं उनको बताकर अब वेदादिक मार्गणाओको बताते हैं । वेदके तीन भेद हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक । ये तीनों ही वेद अनिवृत्ति करणके सवेद भागपर्यन्त होते हैं—आगे किसी भी गुणस्थानमें नहीं होते । कषायके चार भेद हैं । क्रोध मान माय लोभ—इनमें प्रत्येकके अनतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते हैं । इस प्रकार कषायके सोलह भेद होते हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमें अनतानुबन्धी आदि चारो कषायका उदय रहता है । मिश्र और असंयतमें अनतानुबन्धीको छोड़कर शेष तीन कषाय रहते हैं । देहसंयतमें प्रत्यास्थान और संज्वलन ये दो ही कषाय रहते हैं । प्रमत्तादिक अनिवृत्तिकरणके दूसरे भागपर्यन्त संज्वलन कषाय रहता है । तीसरे भागमें संज्वलनके मान माया लोभ ये तीन ही भेद रहते हैं—क्रोध नहीं रहता । चौथे भागतक माया और लोभ, तथा पांचवें भागतक वादर लोभ रहता है । दशमें गुणस्थान तक सूक्ष्मलोभ रहता है । इसके ऊपर सर्व गुणस्थान कषायरहित

ही है । ज्ञानके आठ भेद है, कुमति कुश्रुत, विभंग, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । इनमें आदिके तीन मिथ्या और अंतके पांच ज्ञान सम्यक् होते हैं । मिथ्यादृष्टि सासादनमें आदिके तीन ज्ञान होते हैं । मिश्रमें भी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते हैं । असंयत देशसंयतमें सम्यग्ज्ञानोंमेंसे आदिके तीन होते हैं । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपर्यन्त आदिके चार सम्यग्ज्ञान होते हैं । सयोगी अयोगीमें केवल केवलज्ञान ही होता है । संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु विशेष अपेक्षा सात भेद है । असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसांपराय यथाख्यात । इनमें आदिके चार गुणस्थानोंमें असंयम और पांचमे गुणस्थानमें देशसंयम होता है । प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन संयम होते हैं । आठमे नवमेमें सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते हैं । दशमे गुणस्थानमें सूक्ष्मसांपराय होता है । इसके ऊपर सब गुणस्थानोंमें यथाख्यात संयम ही होता है । दर्शनके चार भेद है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल । मिश्रपर्यन्त तीन गुणस्थानोंमें चक्षु अचक्षु दो दर्शन होते हैं । असंयतादि क्षीणकषाय पर्यन्त चक्षु अचक्षु अवधि ये तीन दर्शन होते हैं । सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलदर्शन ही होता है । लेश्याके छह भेद है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल । इनमें आदिकी तीन अशुभ और अंतकी तीन शुभ हैं । आदिके चार गुणस्थानोंमें छहो लेश्या होती है । देशसंयतसे लेकर अप्रमत्तपर्यन्त तीन शुभ लेश्या होती है । इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है । और अयोगी गुणस्थान लेश्यारहित है । भव्यमार्गणाके दो भेद है, भव्य अभव्य । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें भव्य अभव्य दोनों होते हैं । सासादनादि क्षीणकषायपर्यन्त भव्य ही होते हैं । सयोगी और अयोगी भव्य अभव्य दोनोंसे रहित है । सम्यक्त्वके छह भेद है, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक । मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व, सासादनमें सासादन, मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अप्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्यक्त्व होते हैं । उसके ऊपर उपशमश्रेणीमें—अपूर्वकरण आदि उपशांतकषायतक उपशम और क्षायिक दो सम्यक्त्व होते हैं । क्षपक श्रेणीमें—अपूर्वकरण आदि समस्त गुणस्थानोंमें तथा सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है । संज्ञीमार्गणाके दो भेद है—एक संज्ञी दूसरा असंज्ञी । प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानमें संज्ञी असंज्ञी दोनों ही मार्गणा होती है । इसके आगे सासादन आदि क्षीणकषायपर्यन्त संज्ञी मार्गणा ही होती है । सयोगी अयोगीके मन नहीं होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमार्गणाके भी दो भेद है—एक आहार दूसरा अनाहार । मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी इनमें आहार अनाहार दोनों ही होते हैं । अयोगकेवली अनाहार ही होते हैं । शेष नव गुणस्थानोंमें आहार ही होता है ।

गुणस्थानोंमें मार्गणाओंको बताकर अब उपयोगको बताते हैं ।

दोण्हं पंच य छत्रेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा ।

सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥ ७०४ ॥

द्वयोः पञ्च च छट् चैव द्वयोर्मिश्रे भवन्ति व्यामिश्राः ।

सप्तोपयोगाः सप्तसु द्वौ चैव जिने च सिद्धे च ॥ ७०४ ॥

अर्थ—दो गुणस्थानोंमें पांच, और दोमें छह, मिश्रमें मिश्ररूप छह, सात गुणस्थानोंमें सात, जिन, और सिद्धोंके दो उपयोग होते हैं । **भावार्थ**—उपयोगके मूलमें दो भेद हैं, एक ज्ञान दूसरा दर्शन । ज्ञानके आठ भेद हैं, इनके नाम पहले बता चुके हैं । दर्शनके चार भेद हैं इनके भी नाम पहले गिना चुके हैं । इसतरह उपयोगके बारह भेद हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व और सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दो दर्शन ये पांच उपयोग होते हैं । असंयत और देशसंयतमें मति श्रुत अवधि तथा चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन ये छह उपयोग होते हैं । मिश्र गुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते हैं । प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणस्थानोंमें मनःपर्ययसहित सात उपयोग होते हैं । सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो ही उपयोग होते हैं ।

इसप्रकार गुणस्थानोंमें वीसप्ररूपणानिरूपणनामा इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ ।



इष्टदेवको नमस्कार करते हुए आलपाधिकारको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं ।

गोयमथेरं पणमिय ओघादेसेसु वीसभेदाणं ।

जोजणिकाणालापं वोच्छामि जहाकमं सुणह ॥ ७०५ ॥

गौतमस्थविरं प्रणम्य ओघादेशयोः विंशभेदानाम् ।

योजनिकानामालापं वक्ष्यामि यथाक्रमं शृणुत ॥ ७०५ ॥

अर्थ—सिद्धोंको वा वर्धमान—तीर्थकरको यद्वा गौतमगणधरस्वामीको अथवा साधुसम्-
हको नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणाओंके योजनिकारूप वीस भेदोंके आलापको क्रमसे
कहता हूँ सो सुनो ।

ओघे चोदसठाणे सिद्धे वीसदिविहाणमालावा ।

वेदकपायविभिण्णे अणियट्ठीपंचभागे य ॥ ७०६ ॥

ओघे चतुर्दशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामालापाः ।

वेदकपायविभिन्ने अनिवृत्तिपत्रभागे च ॥ ७०६ ॥

अर्थ—चौदह गुणस्थान और चौदह मार्गणास्थानोंमें उक्त वीस प्ररूपणाओंके सामान्य
पर्याप्त अपर्याप्त ये तीन आलाप होते हैं । वेद और कपायकी अपेक्षामें अनिवृत्तिकरणके पांच
भागोंमें पांच आलाप भिन्न २ समझने चाहिये ।

गुणस्थानोंमें आलापोंको बताते हैं ।

ओघे मिच्छदुगोवि य अयदपमत्ते सजोगिठाणाम्मि ।

तिण्णेव य आलावा सेसेसिक्को हवे णियमा ॥ ७०७ ॥

ओघे मिथ्यात्वद्विऽके पि च अयतप्रमत्तयोः सयोगिस्थाने ।

त्रय एवचालापाः शेषेष्वेको भवेत् नियमात् ॥ ७०७ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व सासादन असंयत प्रमत्त सयोगकेवली इन गुणस्थानोंमें तीनो आलाप होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है ।

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं ।

सामण्णं पज्जत्तमपज्जत्तं चेदि तिण्णिण आलावा ।

दुवियप्पमपज्जत्तं लद्धीणिव्वत्तगं चेदि ॥ ७०८ ॥

सामान्यः पर्याप्तः अपर्याप्तश्चेति त्रय आलापाः ।

द्विविकल्पोऽपर्याप्तो लब्धिर्निर्वृत्तिकश्चेति ॥ ७०८ ॥

अर्थ—आलापके तीन भेद हैं—सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त । अपर्याप्तके दो भेद हैं—एक लब्ध्यपर्याप्त दूसरा निर्वृत्यपर्याप्त ।

दुविहं पि अपज्जत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण ।

सत्सणअयदपमत्ते णिव्वत्तिअपुण्णगो होदि ॥ ७०९ ॥

द्विविधोप्यपर्याप्त ओघे मिथ्यात्व एव भवति नियमेन ।

सासादनायतप्रमत्तेषु निर्वृत्यपूर्णको भवति ॥ ७०९ ॥

अर्थ—दोनों प्रकारके अपर्याप्त आलाप समस्त गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होते हैं । सासादन असंयत प्रमत्त इनमें निर्वृत्यपर्याप्त आलाप होता है । भावार्थ—अपर्याप्तके जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थानमें दोनों और सासादन असंयत प्रमत्त इनमें एक निर्वृत्यपर्याप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और पर्याप्त ये दोनों आलाप सर्वत्र—पाचो गुणस्थानोंमें होते हैं ।

जोगं पडि जोगिजिणे होदि हु णियमा अपुण्णगत्तं तु ।

अवसेसणवट्ठाणे पज्जत्तालावगो एक्को ॥ ७१० ॥

योगं प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपूर्णकत्वं तु ।

अवशेषनवस्थाने पर्याप्तालापक एकः ॥ ७१० ॥

अर्थ—सयोगकेवलियोंमें योगकी (समुद्धातकी) अपेक्षासे नियमसे अपर्याप्तकता होती है, इसलिये उक्त पांच गुणस्थानोंमें तीन २ आलाप और शेष नव गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है ।

क्रमप्राप्त चौदह मार्गणाओमें आलापोंका वर्णन करते हैं ।

सत्तण्हं पुढवीणं ओघे मिच्छे य तिण्णि आलावा ।

पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णगालावो ॥ ७११ ॥

सप्तानां पृथिवीनामोघे मिथ्वात्वे च त्रय आलापाः ।

प्रथमाविरतेपि तथा शेषाणां पूर्णकालापः ॥ ७११ ॥

अर्थ—सातो ही पृथिवियोंमें गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे तीन आलाप होते हैं । तथा प्रथमा पृथिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीन अलाप होते हैं । शेष पृथिवियोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । **भावार्थ**—प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेष छह पृथिवियोंमें सासादन मिश्र असंयत ये तीन गुणस्थान पर्याप्त अवस्थामे ही होते हैं । अतः इन छह पृथिवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोंमें और प्रथम पृथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है, शेष स्थानोंमें तीनों ही आलाप होते हैं ।

तिरियचउक्काणोघे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णे व ।

णवरि य जोणिणि अयदे पुण्णो सेसेवि पुण्णो दु ॥ ७१२ ॥

तिर्यक्चतुष्काणामोघे मिथ्यात्वद्विके अविरते च त्रय एव ।

नवरि च योनिन्ययते पूर्णः शेषेऽपि पूर्णस्तु ॥ ७१२ ॥

अर्थ—तिर्यञ्च पांच प्रकारके होते हैं—सामान्य, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, योनिमती, अपर्याप्त । इनमेंसे अंतके अपर्याप्तको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्यचोंके पांच गुणस्थान होते हैं । जिनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयत इन गुणस्थानोंमें तीन २ आलाप होते हैं । इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमती तिर्यचके असंयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त आलाप ही होता है । शेष मिश्र और देशसंयतमें भी पर्याप्त ही आलाप होता है ।

तेरिच्छियलद्धियपज्जत्ते एक्को अपुण्ण आलावो ।

मूलोघं मणुसतिये मणुसिणिअयदम्हि पज्जत्तो ॥ ७१३ ॥

तिर्यग्द्व्यपर्याप्ते एकः अपूर्ण आलापः ।

मूलोघं मनुष्यत्रिके मानुष्ययते पर्याप्तः ॥ ७१३ ॥

अर्थ—द्व्यपर्याप्त तिर्यचोंके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है । मनुष्यके चार भेद हैं—सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्, अपर्याप्त । इनमेंसे आदिके तीन मनुष्योंके चौदह गुणस्थान होते हैं । उनमें गुणस्थानसामान्यके समान ही आलाप होते हैं । विशेषता इतनी

१ यहाँ यह कहा नहीं हो सकता कि 'योनिमत् मनुष्यके छठे आदि गुणस्थान किछ तब ही मरते हैं' । क्योंकि अत्रत्यमें तीनके भावोंकी प्रधानतामें वर्णन है । अतएव यदर्थ भाववेदधी अवेक्ष्य ब्रह्मण है ।

है कि असंयत गुणस्थानवर्ती मानुषीके एक पर्याप्त ही आलाप होता है **भावार्थ**—गुणस्थानोंमें जिस क्रमसे आलापोका वर्णन किया है उस ही क्रमसे मनुष्यगतिमें भी आलापोंको समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत् मनुष्यके असंयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त आलाप ही होता है ।

मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदुगं तु णत्थि णियमेण ।

अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भूदगदिमासेज्ज ॥ ७१४ ॥

मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारद्विकं तु नास्ति नियमेन ।

अपगतवेदायां मानुष्या संज्ञा भूतगतिमासाद्य ॥ ७१४ ॥

अर्थ—जो द्रव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेक्षा स्त्री है ऐसे प्रमत्तविरत जीवके आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्ग नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेदरहित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले भावस्त्री—मनुष्यके जो मैथुनसंज्ञा कही है वह भूतगतिन्यायकी अपेक्षासे कही है । **भावार्थ**—जिस तरह पहले कोई सेठ था परन्तु वर्तमानमें वह सेठ नहीं है तो भी पहलेकी अपेक्षासे उसको सेठ कहते हैं । इसी तरह वेदरहित जीवके यद्यपि वर्तमानमें मैथुनसंज्ञा नहीं है तथापि पहले थी इसलिये वहा पर मैथुनसंज्ञा कही जाती है । इस गाथामे जो तु शब्द पड़ा है उससे इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्रीवेद या नपुंसकवेदके उदयमे मनःपर्यय ज्ञान और परिहारविशुद्धि संघम भी नहीं होता । द्रव्यस्त्रीके पाच ही गुणस्थान होते हैं; किन्तु मावमानुषीके चौदहो गुणस्थान होसकते हैं । इसमें भी भाववेद नौमे गुणस्थानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋद्धि और परिहारविशुद्धिसंघमवाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता ।

णरलद्धिअपज्जत्ते एक्को दु अपुण्णगो दु आलावो ।

लेस्साभेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरह्ठाणा ॥ ७१५ ॥

नरलब्ध्यपर्याप्ते एकस्तु अपूर्णकस्तु आलापः ।

लेश्याभेदविभिन्नानि सप्त विकल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१५ ॥

अर्थ—मनुष्यगतिमें जो लब्ध्यपर्याप्तिक है उनके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है । देवगतिमें लेश्याभेदकी अपेक्षासे सात विकल्प होते हैं । **भावार्थ**—देवगतिमें लेश्याकी अपेक्षासे सात भेदोंको पहले बताचुके हैं कि; भवनत्रिकमे तेजका जघन्य अंश, सौधर्मयुगलमें तेजका मध्यमांश, सनत्कुमार युगलमें तेजका उत्कृष्ट अंश और पद्मका जघन्य अंश, ब्रह्मादिक ल्ह स्वर्गमें पद्मका मध्यमांश, शतारयुगलमें पद्मका उत्कृष्ट और शुक्लका जघन्य अंश, आनतादिक तेरहमें शुक्लका मध्यमांश, अनुदिश और अनुत्तरमें शुक्लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है ।

सव्वसुराणं ओघे मिच्छद्दुगे अविरदे य तिण्णेव ।

णवरि य भवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णे ॥ ७१६ ॥

सर्वसुराणामोघे मिथ्यात्वद्विके अविरते च त्रय एव ।

नवरि च भवनत्रिकल्पस्त्रीणां च च अविरते पूर्णः ॥ ७१६ ॥

अर्थ—समस्त देवोके चार गुणस्थान सम्भव है । उनमेंसे मिथ्यात्व सासादन अविरत गुणस्थानमें तीन २ आलाप होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि भवनत्रिक देव और कल्पवासिनी देवी इनके असंयत गुणस्थानमे एक पर्याप्त ही आलाप होता है ।

मिस्से पुण्णालाओ अणुद्दिसाणुत्तरा ह्नु ते सम्मा ।

अविरद तिण्णालावा अणुद्दिसाणुत्तरे होंति ॥ ७१७ ॥

मिश्रे पूर्णालापः अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यञ्चः ।

अविरते त्रय आलापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१७ ॥

अर्थ—नव त्रैवेयकपर्यन्त सामान्यसे समस्त देवोके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं; अतः इन देवोके अविरत गुणस्थानमे तीन आलाप होते हैं ।

क्रमप्राप्त इन्द्रियमार्गणामे आलापोको बताते हैं ।

वादरसुहमेइंदियवितिचउरिंदियअसण्णिजीवाणं ।

ओघे पुण्णे तिण्णि य अपुण्णगे पुण अपुण्णे तु ॥ ७१८ ॥

वादरसूक्ष्मैकेन्द्रियाद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजीवानाम् ।

ओघे पूर्णे त्रयश्च अपूर्णके पुनः अपूर्णस्तु ॥ ७१८ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय—वादर सूक्ष्म, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमेंसे जिनके पर्याप्ति—नामकर्मका उदय है उनके तीन आलाप होते हैं । और जिनके अपर्याप्ति—नामकर्मका उदय होता है उनके लक्ष्यपर्याप्त ही आलाप होता है । **भावार्थ—**निर्वृत्यपर्याप्तके भी पर्याप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आलाप होते हैं ।

सण्णी ओघे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मूलआलावा ।

लद्धियपुण्णे एक्कोऽपज्जत्तो होदि आलाओ ॥ ७१९ ॥

सत्रयोत्रे मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्ने च मूलालापा ।

लट् यपूर्णं एकः अपर्याप्तो भवति आलापः ॥ ७१९ ॥

अर्थ—संज्ञी जीवोंमें जितने गुणस्थान होते हैं उनमेंसे मिथ्यादृष्टि या विशेष गुणस्थानमें प्राप्त होनेवालेके मूलके समान ही आलाप समझने चाहिये । और लक्ष्यपर्याप्तके मूलके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है । **भावार्थ—**संज्ञी जीवोंमेंसे तिर्यक्के पांच ही

गुणस्थान होते हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयतमें तीन २ आलाप होते हैं । और मिश्र देशसंयतमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । दूसरे संज्ञी जीवोंमें सामान्य गुणस्थानोंमें जो आलाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी जीवोंमें नारकी और देवोके चार तथा मनुष्योके चौदहो गुणस्थान होते हैं ।

क्रमप्राप्त कायमार्गणाके आलापोंको दो गाथाओंमें गिनाते हैं ।

मूआउतेउवाऊणिञ्चचहुग्गदिणिगोदगे तिण्णि ।

ताणं थूलेदरसु वि पत्तेगे तहुभेदेवि ॥ ७२० ॥

तसजीवाणं ओघे मिच्छादिगुणे वि ओघ आलाओ ।

लद्धिअपुण्णे एक्कोऽपज्जत्तो होदि आलाओ ॥ ७२१ ॥

भ्रतेजोवायुनित्यचतुर्गतिनिगोदके त्रयः ।

तेषां स्थूलेतरयोरपि प्रत्येके तद्विभेदेपि ॥ ७२० ॥

त्रसजीवानामोघे मिथ्यात्वादिगुणेऽपि ओघ आलापः ।

लब्ध्यपूर्णो एक अपर्याप्तो भवत्यालापः ॥ ७२१ ॥

अर्थ—पृथिवी जल अग्नि वायु नित्यनिगोद चतुर्गतिनिगोद इनके स्थूल और सूक्ष्म भेदोंमें तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो भेदोंमें तीन २ आलाप होते हैं । त्रसजीवोंमें चौदह गुणस्थान होते हैं । इनके आलापोंमें कुछ विशेषता नहीं है । गुणस्थानसामान्यके जिस तरह आलाप बताये हैं उसी तरह यहा भी समझने चाहिये । पृथ्वीसे लेकर त्रसपर्यंत जितने भेद हैं उनमें जो लब्ध्यपर्याप्त है उनके एक लब्ध्यपर्याप्त ही आलाप होता है । योगमार्गणोंमें आलापोंको बताते हैं ।

एक्कारसजोगाणं पुण्णगदाणं सपुण्णआलाओ ।

मिस्सचउक्कस्स पुणो सगएक्कअपुण्णआलाओ ॥ ७२२ ॥

एकादशयोगानां पूर्णगतानां स्वपूर्णालापः ।

मिश्रचतुष्कस्य पुनः स्वकैकापूर्णालापः ॥ ७२२ ॥

अर्थ—चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पन्द्रह योगोंमेंसे औदारिक मिश्र वैकल्पिकमिश्र आहारकमिश्र कार्माण इन चार योगोंको छोड़कर शेष न्यारह योगोंमें अपना २ एक पर्याप्त आलाप होता है । और शेष उक्त चार योगोंमें अपना २ एक अपर्याप्त आलाप ही होता है ।

अग्निष्ट मार्गणाओंके आलापोंको सप्तेपमें कहते हैं ।

वेदादाहारोत्ति य सगुणद्वाणाणमोघ आलाओ ।

णवन्नि य संदित्थीणं णत्थि ह् आहारगाण दुगं ॥ ७२३ ॥

वेदादाहार इति च स्वगुणस्थानानामोघ आलापः ।

नवरि च षण्ढस्त्रीणां नास्ति हि आहारकानां द्विकम् ॥ ७२३ ॥

अर्थ—वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्यन्त दशमार्गणाओंमें अपने २ गुणस्थानके समान आलाप होते हैं । विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंसक या भावस्त्रीवेदी है उनके आहारक—काययोग और आहारक—मिश्रकाययोग नहीं होता । भावार्थ—जिस २ मार्गणांमें जो २ गुणस्थान सम्भव है और उनमें जो २ आलाप बताये हैं वे ही आलाप उन २ मार्गणाओंमें होते हैं, इनको यथासम्भव लगालेना चाहिये । गुणस्थानोंके आलापोंको पहले बता चुके हैं अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गुणजीवापज्जती पाणा सण्णा गइंदिया काया ।

जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥ ७२४ ॥

भव्वा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा ।

जोगा परूविदव्वा ओघादेसेसु समुदायं ॥ ७२५ ॥

गुणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाः गतीन्द्रियाणि कायाः ।

योगा वेदकषायाः ज्ञानयमा दर्शनानि लेश्याः ॥ ७२४ ॥

भव्याः सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाश्चोपयोगाः ।

योग्याः प्ररूपितव्या ओघादेशयोः समुदायम् ॥ ७२५ ॥

अर्थ—चौदह गुणस्थान, चौदह जीवसमास, छह पर्याप्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार गति, पाच इन्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चार कषाय, आठ ज्ञान, सात संयम, चार दर्शन, छह लेश्या, भव्यत्व अभव्यत्व, छह प्रकारके सम्यक्त्व, सज्ञित्व, असंज्ञित्व, आहारक अनाहारक, बारह प्रकारका उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें निरूपण करना चाहिये । भावार्थ—इन बीस स्थानोंमेंसे कोई एक विवक्षित स्थान शेष स्थानोंमें कहां २ पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वर्णन करना चाहिये । जैसे चौदह गुणस्थानोंमेंसे कौन २ सा गुणस्थान जीवसमासके चौदह भेदोंमेंसे किस २ विवक्षित भेदमें पाया जाता है । अथवा जीवसमास या पर्याप्तिका कोई एक विवक्षित भेदरूप स्थान किस २ गुणस्थानमें पाया जाता है उसका वर्णन करना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे स्थानोंमें भी समझना चाहिये ।

जीवसमासमें कुछ विशेषता है उसको बताते हैं ।

ओघे आदेसे वा सण्णीपज्जंतगा हवे जत्थ ।

तत्त य उणवीसंता दग्गिविंतिगुणिदा हवे ठाणा ॥ ७२६ ॥

ओषे आदेशे वा संज्ञिपर्यन्तका भवेयुर्यत्र ।

तत्र चैकोनविंशता एकद्वित्रिगुणिता भवेयुः स्थानानि ॥ ७२६ ॥

अर्थ—सामान्य (गुणस्थान) या विशेषस्थानमे (मार्गणास्थानमें) संज्ञी पंचेन्द्रिय-पर्यन्त मूलजीवसमासोंका जहा निरूपण किया है वहा उत्तर जीवसमासस्थानके भेद उन्नीसपर्यन्त होते है । और इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे क्रममे उन्नीस अड़तीस और सत्तावन जीवसमासके भेद होते है । **भावार्थ**—गुणस्थान और मार्गणाओंमें जहा संज्ञि-पर्यन्त भेद बताये हैं, वहां ही जीवसमासके एकसे लेकर उन्नीसपर्यन्त भेद और पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा अड़तीस भेद, तथा पर्याप्त निर्वृत्त्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त इन तिन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने चाहिये । इसका विशेष स्वरूप जीवसमासाधिकारमें कहचुके है ।

“ गुणजीवे ”—त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए बीस भेदोंकी योजना करते है ।

वीरमुखकमलगिग्गयसयलसुयग्गहणपयउणसमत्थं ।

णमिऊणगोयममहं सिद्धंतालावमणुवोच्छं ॥ ७२७ ॥

वीरमुखकमलनिर्गतसकलश्रुतग्रहणप्रकटनसमर्थम् ।

नत्वा गौतममहं सिद्धान्तालापमनुवक्ष्ये ॥ ७२७ ॥

अर्थ—अंतिम तीर्थंकर श्रीवर्धमानस्वामीके मुखकमलसे निर्गत समस्त श्रुतसिद्धान्तके ग्रहण करने और प्रकट करनेमें समर्थ श्रीगौतमस्वामीको नमस्कार करके मैं उस सिद्धान्तालापको कहूंगा जो कि वीर भगवान्के मुखकमलसे उपदिष्ट श्रुतमे वर्णित समस्त पदार्थोंके प्रकट करनेमें समर्थ है । **भावार्थ**—जिस तरह श्रीगौतमस्वामी तीर्थंकर भगवान्के समस्त उपदेशको ग्रहण और प्रकट करनेमे समर्थ है उसी तरह यह आलाप भी उनके (भगवान्के) समस्त श्रुतके ग्रहण और प्रकट करनेमें समर्थ है । क्योंकि इस सिद्धान्तालापमें उन्ही समस्त पदार्थोंका वर्णन है जिनको कि श्रीगौतमस्वामीने भगवान्के समस्त श्रुतको ग्रहण करके प्रकट किया है ।

पहले गुणस्थान जीवसमास आदि बीस प्ररूपणाओको बताचुके है उनमें तथा उनके उत्तर भेदोंमें क्रमसे एक २ के ऊपर यह आलाप आगमके अनुसार लगालेना चाहिये कि विवक्षित किसी एक प्ररूपणाके साथ शेष प्ररूपणाओंमेंसे कौन २ सी प्ररूपणा अथवा उनकी उत्तर भेद पाया जाता है । इनका विशेष स्वरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो वे इसकी संस्कृत टीका अथवा बड़ी भापाटीकामें देखें ।

इन आलापोंको लगाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विशेष बातोंको ही आचार्य यहा पर दिखाते है ।

सव्वेसिं सुहुमाणं काओदा सव्वविग्गहे सुक्का ।

सव्वो मिससो देहो कओदवण्णो हवे णियमा ॥ १ ॥

सर्वेषा सूक्ष्माणां कपोताः सर्वविग्रहे शुक्लाः ।

सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णो भवेन्नियमात् ॥ १ ॥

अर्थ—पृथिवीकायादि समस्त सूक्ष्मकी कपोत लेश्या ही होती है । तथा समस्त विग्रहगतिसम्बन्धी कर्मणशरीरकी शुक्ल लेश्या होती है । तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे कपोतवर्ण-वाला होता है । भावार्थ—अपर्याप्त आलापोमें द्रव्यलेश्या कपोत और शुक्ल ये दो ही होती है । इसके सिवाय और भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी प्रमत्तादि गुण-स्थानोंमें जो तीन वेद बताये हैं वे द्रव्यवेदकी अपेक्षासे है । भाववेदकी अपेक्षासे एक पुरुष वेदही होता है । तथा स्त्री नपुंसक वेदके उदयमे आहारक योग मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम ये नहीं होते । नारकियोंके अपर्याप्त अवस्थामें सासादन गुणस्थान नहीं होता । तथा किष्की भी अपर्याप्त अवस्थामे मिश्र गुणस्थान नहीं होता । इत्यादि और भी जो नियम “पुढवी आदि चउण्हं” आदि पहले बताये हैं उनको तथा अन्यत्र भी कहे हुए नियमोंको आलाप ल्गाते समय ध्यानमें रखना चाहिये ।

और भी कुछ नियमोंको गिनांत है ।

मणपज्जवपरिहारो पढमुवसम्मत्त दोण्णि आहारा ।

एदेसु एकपगदे णत्थित्ति असेसयं जाणे ॥ ७२८ ॥

मनःपर्ययपरिहारौ प्रथमोपसम्यक्त्व द्वावाहारौ ।

एतेषु एकप्रकृते नास्तीति अशेषकं जानीहि ॥ ७२८ ॥

अर्थ—मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्व और आहारकद्वय इनमे किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिये ।

विदियुवसमसम्मत्तं सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु ।

सगसगलेस्सामरिदे देवअपज्जत्तगेव हवे ॥ ७२९ ॥

द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं श्रेणितोऽवतीर्णोऽविरतादिषु ।

स्वकस्वफलेश्यामृते देवापर्याप्तक एव भवेत् ॥ ७२९ ॥

अर्थ—उपशमश्रेणिते उतरकर अविरतादिक गुणस्थानोंको प्राप्त करनेवालोंमेंमे जो अपनी २ लेश्याके अनुसार मरण करके देवपर्याप्तको प्राप्त करता है उमहीके अपर्याप्त अवस्थामें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है । भावार्थ—चारगतिमेंसे एक देव अपर्याप्तको छोडकर अन्य किम्भी भी गतिकी अपर्याप्त अवस्थामें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता ।

१ यह गद्यांश जगत्सि लेश्या नार्यामने नी अनुवृत्त है, नार्याम क्लाम भा अन्ने उश्याता सम्मसर पुन सिन दिना १ ।

गुणस्थानियोका स्वरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धोंका स्वरूप बताते हैं ।

सिद्धाणं सिद्धगई केवलणाणं च दंसणं खयियं ।

सम्मत्तमणाहारं उवजोगाणक्कमपउत्ती ॥ ७३० ॥

सिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च दर्शनं क्षायिकम् ।

सम्यक्त्वमनाहारमुपयोगानामक्रमप्रवृत्तिः ॥ ७३० ॥

अर्थ—सिद्ध जीवोंके सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकदर्शन क्षायिकसम्यक्त्व अनाहार और उपयोगकी अक्रम प्रवृत्ति होती है । **भावार्थ—**छद्मस्थ जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शनकी तरह सिद्धोंके क्षायिक ज्ञान दर्शनरूप उपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु युगपत् होती है । तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता—वे अनाहार होते हैं । क्योंकि उनसे कर्मका और नोकर्मका सर्वथा सम्बन्ध ही छूटगया है । “ णोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो ओजमणोवि य कमसो आहारो छब्धिभहो णेयो ” ॥ १ ॥ इस गाथाके अनुसार नोकर्म और कर्म भी आहार ही हैं, अतः सर्वथा अनाहार सिद्धोंके ही होता है ॥

गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्जत्तिपाणपरिहीणा ।

सेसणवमग्गण्णा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१ ॥

गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापर्याप्तिप्राणपरिहीनाः ।

शेषनवमार्गणोनाः सिद्धाः शुद्धाः सदा भवन्ति ॥ ७३१ ॥

अर्थ—सिद्ध परमेष्ठी, चौदह गुणस्थान चौदह जीवसमास चार संज्ञा छह पर्याप्ति दश प्राण इनसे रहित होते हैं । तथा इनके सिद्धगति ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व और अनाहारको छोड़कर शेष नव मार्गणा नहीं पाई जाती । और ये सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि मुक्ति-प्राप्तिके बाद पुनः कर्मका बन्ध नहीं होता ।

अंतमें वीस भेदोंके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फल दिखाते हैं ।

णिकखेवे एयत्थे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे ।

मग्गइ वीसं भेयं सो जाणइ अप्पसब्भावं ॥ ७३२ ॥

निक्षेपे एकार्थे नयप्रमाणे निरुत्तचनुयोगयोः ।

मार्गयति विशं भेदं स जानाति आत्मसद्भावम् ॥ ७३२ ॥

अर्थ—जो भव्य उक्त गुणस्थानादिक वीस भेदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुत्ति अनुयोग आदिके द्वारा जानलेता है वही आत्मसद्भावको समझता है । **भावार्थ—**जिनके द्वारा पदार्थोंका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेषको निक्षेप कहते हैं । इसके चार भेद हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव । इनकेद्वारा जीवादि समस्त पदार्थोंका समीचीन व्यवहार होता है । जैसे किसी अर्थ विशेषकी अपेक्षा न करके किसीकी जीव यह

संज्ञा रखदी इसको जीवका नामनिक्षेप कहते हैं । किसी काष्ठ चित्र या मूर्ति आदिमें किसी जीवकी ' यह वही है ' ऐसे संकल्परूपको स्थापनानिक्षेप कहते हैं । स्थापनामें स्थाप्यमान पदार्थकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है । भविष्यत् या भूतको वर्तमानवत् कहना जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाला है उसको देवपर्यायमें मनुष्य कहना, अथवा मनुष्य होनेपर देव कहना यह द्रव्यनिक्षेपका विषय है । वर्तमान मनुष्यको मनुष्य कहना यह भाव-निक्षेपका विषय है । प्राणभूत असाधारण लक्षणको एकार्थ कहते हैं । जैसे जीवका लक्षण दश प्राणोंमेंसे यथासम्भव प्राणोंका धारण करना या चेतना (जानना और देखना) है । यही जीवका एकार्थ है । वस्तुके अंशग्रहणको नय कहते हैं । जैसे जीवशब्दके द्वारा आत्माकी एक जीवत्वशक्तिका ग्रहण करना । एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके ग्रहणको प्रमाण कहते हैं । जैसे जीवशब्दके द्वारा संपूर्ण आत्माका ग्रहण करना । जिस धातु और प्रत्ययके द्वारा जिस अर्थमें जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसही प्रकारसे दिखानेको निरुक्ति कहते हैं । जैसे जीवति जीविष्यति अजीवीत् वा स जीवः=जो जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव कहते हैं । जीवादिक पदार्थोंके जाननेके उपाय विशेषको अनुयोग कहते हैं । उसके छह भेद हैं । निर्देश (नाममात्र या स्वरूप अथवा लक्षणका कहना) स्वामित्व, साधन (उत्पत्तिके निमित्त) अधिकरण, स्थिति (कालकी मर्यादा) भेद । इन उपायोंसे जो उक्त वीसप्ररूपणाओंको जानलेता है वही आत्माके समीचीन स्वरूपको समझ सकता है ।

॥ इति आलापाधिकारः ॥



अन्तमे आशीर्वादस्वरूप गाथाको आचार्य कहते हैं ।


अज्जसेणगुणगणसमूहसंधारिअजितसेणगुरु ।

भुवणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७३३ ॥

आर्यार्यसेणगुणगणसमूहसंधार्यजितसेणगुरुः ।

भुवनगुरुर्यस्य गुरुः स राजा गोम्मटो जयतु ॥ ७३३ ॥

अर्थ—श्रीआर्यसेन आचार्यके अनेक गुणगणको धारण करनेवाले और तीनलोकके गुरु श्रीअजितसेन आचार्य जिसके गुरु हैं वह श्री गोम्मट (चामुण्डराय) राजा जयवन्ता रहे ।



अकारादिके क्रमसे गाथासूची ।

गाथा.	अ.	पृ. गा.	गाथा	पृ. गा
अद्भीमदंसणेण	अंतोमुहुत्तमेत्ता	१०२।२६१
अंगुलअसंख	५६।१३५	अद्धत्तेरस वारस	४७।११४
अंगुलअसख	७०।१७१	अपदिद्धिदपत्तेय	४१।९८
अंगुलअसंख	...	१२४।३३५	अपदिद्धिदपत्तेया	८३।२०४
अंगुलअसख	...	१४७।३८९	अप्पपरोभय	१११।२८८
अंगुलअसख	१४७।३९०	अयदोत्ति छ	१९०।५३१
अंगुलअसंख	१४९।३९८	अयदोत्ति हु अवि	२५४।६८८
अंगुलअसख	१५०।४००	अवरह्ववादुवरिमि	१४५।३८३
अंगुलअसंख	१५२।४०८	अवरद्धे अवरख	४४।१०६
अंगुलअसंख	२४७।६६९	अवरपरित्ता	४५।१०९
अंगुलमावल्लिया	...	१५१।४०३	अवरमपुण्णं	४०।९९
अंगोवगुदया	...	९२।२२८	अवरा पज्जाय	२१२।५७२
अज्जसेणगुण	...	२७३।७३३	अवस्वरि इगि	४३।१०२
अज्जवमलेच्छ	...	३५।८०	अवस्वरिम्मि	१२४।३२२
अजीवेसु य रूची	...	२०९।५६३	अवरे वरसंख	४४।१०८
अट्टत्तीसद्धलवा	...	२१३।५७४	अवरोग्गाहण	४३।१०३
अट्टविहकम्म	...	३०।६८	अवरोग्गाहण	१४४।३७९
अट्टह कम्मार्ण	...	१६५।४५२	अवरो जुत्ताणत्तो	२०३।५७९
अट्टारसद्धत्तीसं	...	१३५।३५७	अवरोहिखेत्त	१४४।३७८
अट्टेव सयसहस्ता	...	२३२।६२८	अवरोहिखेत्त	१४५।३८१
अडकोडिएय	...	९३३।३५०	अवर तु ओहि	१४४।३८०
अण्णाणातिर्यं होदि	...	११६।३००	अवर दव्वमुदा	१६५।४५०
अण्णोणुवयारेण	...	२२३।६०५	अवरसमुदा हेति	१८६।५१९
अणुलोहं वेदतो	...	२७।६०	अवरसमुदा सो	१८७।५२२
अणुलोहं वेदतो	...	१७१।४७३	अवर होदि अणंत	१४६।३८६
अणुमत्तासंत्ते	...	२१९।५९३	अवहीयदिति	१४१।३६९
अथक्त्तरं च	...	१३२।३८७	अव्वाघादी अंतो	९८।२३७
अत्यागे अत्यतर	...	१२१।३१४	अमहायणाण	२८।६४
अत्थि अणता जीवा	...	७९।१९६	असुराणमनंत्ते	१५८।४२६
अतरभावप्पव	...	१७७।४९१	असुराणमस	१७८।४२७
अतरभयरास्त	...	१९९।५५२	असुहाण वर	१७९।५००
अतोमुहुत्तमालं	...	२३।५०	अहमिदा ज्ह देवा	६६।१६३
अतोमुहुत्तमेत्ते	...	२४।५३	अहिमुत्तणिपमिय	११८।३३५
अतोमुहुत्तमेत्तो	...	२१।४९	अहिवागे पाहुट्टय	१००।३८०
अतोमुहुत्तमेत्त	...	९९।५२		

गाथा.	आ	पृ गा	गाथा	पृ गा.
आलङ्कारासि	८२।२०२	इच्छिदरासिच्छे १५६।४१९
आगासं वज्रित्ता	२१६।५८२	इंदियकाये २।५
आणदपाणद	१५९।४३०	इंदियकायाऊणि ५४।१३१
आदिमच्छाण	१२५।३२६	इंदियणोइंदिय १६४।४५
आदिमसम्मत्त...	...	९।१९	इंदियमणोहिणा २४९।६७४
आदेसे...	२।४	इह जाहि वाहिया ५५।१३३
आभीयमासुर	११७।३०३	ईहणकरणेण ११९।३०८
आमतणि आण	.	९०।२२४		
आयारे सुद्वये	...	१३४।३५५	उक्स्सिद्धि ९८।२४९
आवलिअसंखसं	...	८५।२११	उक्स्ससखमेत्त १२६।३३०
आवलिअसखभा	...	८५।२१२	उत्तमअंगाम्हि ९४।२३६
आवलिअसख	१४५।३८२	उदयावणसरी २४६।६६३
आवलिअसख...	.	१५०।३९९	उदये दु अपुण्ण ५०।१२१
आवलिअसख...	...	१५३।४१६	उदये दु वणप्फ ७५।१८४
आवलिअसख.	...	१५६।४२१	उप्पायपुव्वगाणिय १३१।३४४
आवलिअसंख...	...	१६७।४५७	उवजोगो वण्ण २०९।५६४
आवलिअसख...	...	२१३।५७३	उववाद्दगन्धजेसु ३८।९२
आवलिअसख...	...	१५१।४०४	उववादमारणतिय ८०।१९८
आवासया हु	९८।२५०	उववादा सुरणिरया ३८।९०
आसवसवर	२३८।६४३	उववादे अच्चित्तं ३७।८५
आहरदि अणेण	...	९५।२३८	उववादे सीदुसणं ३७।८६
आहरदि सरीराणं	...	२४६।६६४	उवसमसुहमाहारे ५८।१४२
आहारसरीरिं	४९।११८	उवसते खीणे १७१।४७४
आहारदंसणेण	...	५६।१३४	उवसतरवीण ५।१०
आहारस्सुदयेण	...	९४।२३४	उववादे पढम १९७।४८
आहारयमुत्तत्य	.	९५।२३९	उवहीण तेत्तीसं १९८।५५१
आहारकायजो	१०५।२६९	उव्वंक चउरंक १२४।३२४
आहारवग्गणादो	...	२२४।६०६		
आहारमारण ..	.	२४७।६६७		
आहारो पन्नत्ते	...	२५२।६८२	एइंदियपहुदीण १७६।४८७
	इ		एइंदियस्सफुसण ६८।१६६
इगिदुगपचे	१३५।३५८	एकट्टवचय १३४।३५३
इगिपुरिसे वन्तीमं	...	१०८।२७७	एकाम्हि काल २५।५६
इगिउग्ग इगि...	..	३५।७९	एकं खलु अट्टकं १२५।३२८
इगिउत्तिचउग्ग	...	१९।४३	एकचउकं चउ १२१।३१३
इगिउत्तिचउग्ग	...	१९।४४	एकदरगदि १२९।३३७
इगिउत्तिचउग्ग	...	२०।४७	एकं समयपवद्ध ९९।२५३
इगिउत्तिचउग्ग	...		एकारण जीवा ३६८।७२२

गाथा	पृ. गा.	गाथा.	पृ गा.
एगमुण तु ज	२५२।६०९	किमिरायचक्र	१११।२८६
एगणिगोदसरीरे	७९।१९४	कुम्मुणय जो	३६।८२
एदम्हि गुणहाणे	२३।५१	केवलणाणदि	२८।६३
एदम्हि विभज्जंते	१४९।३९७	केवलणाणाण,	१९३।५३८
एदे भावा णियमा	६।१२	ख	
एयक्खरादु ...	१२८।३३४	खंधं सयल ...	२२२।६०३
एयदवियम्मि	२१५।५८१	खंधा असंखलोगा	७८।१९३
एयपदादो उव	१२८।३३६	खयउवसमिय ...	२४१।६५०
एया य कोडिकोडी	४८।११६	खवगो य खीणमोहे	२९।६७
एयंत बुद्ध ...	८।१६	खीणे दंसणमोहे	२३९।६४५
एव असंखलोग	१२७।३३१	खेत्तादो असुह	१९३।१३७
एवं उवरि विणेओ	४६।१११	ग	
एवं गुणसंजुत्त	२२५।६१०	गइददियेसु ...	५८।१४१
एवं तु समुग्घादे	१९६।५४६	गइउदयज ...	५९।१४५
क		गच्छसमा तक्का	१५५।४१७
कदकफलजुद	२७।६१	गतनममनग ...	१३६।३६२
कंदस्स व मूलस्स	७६।१८८	गदिठाणोगगह	२१०।५६५
कप्पववहार ...	१४०।३६७	गदिठाणोगगह	२२३।६०४
कप्पसुराणं ...	१६०।४३२	गब्भजजीवाणं	३७।८७
कम्मइयकाय ...	२४८।६७०	गब्भणउइत्थि	१०८।२७९
कम्मइयवग्गणं	१५३।४०९	गाउयपुधत्त ...	१६६।४५४
कम्मोव य कम्मभवं	९५।२४०	गुणजीवा ...	२।२
कम्मोरात्थिय ...	१०३।२६३	गुणजीवा पज्जत्ती	२५०।६७६
कम्मवणुत्तर ..	१३२।३४८	गुणजीवा पज्जत्ती	२६९।७२४
काऊणीलक्किहं	१८०।५०१	गुणजीवठाण ...	२७२।७३१
काऊ काऊ काऊ	१८९।५२८	गुणपच्चइगो ...	१४१।३३१
कालविसेसेण ...	१५२।४०७	गूट्सिरसाधि ...	७६।१८६
काले चउग्ग ...	१५३।४११	गोयमथेरं ...	२६३।७०५
कालो छेस्सा	१९८।५५०	घ	
कालोवि य ववएसो	२१५।५७९	घणअगुलपटम	६५।१६०
कालं अस्सिय	२११।५७०	च	
किरुत्तउवाणं	१८८।५२६	चउगइसत्त्व ...	१२९।३३८
किरुत्तित्तं ...	१८९।५२७	चउ पण चोइत्त	२५०।६७७
किरुत्तमेण सुअ	१८७।५२३	चउग्गवधावर	२७५।६९०
किरुत्तिय	११२।२९१	चउग्गट्टि	१३३।३५२
किरुत्तिय काउ	१७७।४९२	चउग्ग जं पत्ता	१७१।६८३
किरुत्तिय	१९९।१३६	चउग्गगेटं ...	७०।१७०
किरुत्तिय	२०१।५५५	चउग्ग प सुत्तर	१८३।५०८

गाथा	पृ. गा	गाथा	पृ. गा.
चत्तारिखि खे	... २४२।६५२	जाहिव जासु व	... ५८।१४०
चदुगादि भव्वो	... २४२।६५१	जाविदुग उत्तं	... २२९।६२१
चदुगादिमदि १६७।६६०	जीवा अणंतसंखा	... २१७।५८७
चदरविजंबु १३६।३६०	जीवा चोहसभे	... १७२।४७७
चरमधरासाण	... २३६।६३७	जीवाजीव दव्वं	... २०९।५६२
चरिमुव्वकेण १२७।२३२	जीवाणं च य रासी	... १२४।३२३
चागी भद्वो चोक्खो	... १८४।५१५	जीवादोणंत ९८।२४८
चित्तियमचित्तिय	... १६१।४३७	जीवादोणतयु २२१।५९८
चित्तियमचित्तिय	... १६५।४४८	जीविदरे कम्म	... २३८।६४२
चोहसमगण १२९।३३९	जेडावरवहु २३३।६३१
छ		जेसिं ण सति	... ९६।२४२
छट्टाणाण आ	... १२५।४३७	जेहि अणेया ३१।७०
छट्टोत्ति पढम	... २५९।७०१	जोइसियवाण १०७।२७६
छद्व्वावट्टाण २१५।५८०	जोइसियंताणो	... १६१।४३६
छद्व्वेसु य णामं	... २०८।५६१	जोइसियादो अहिया	... १९३।५३९
छप्पयणील १७८।४९४	जोगपउत्ती १७६।४८९
छप्पंचाधिय ४८।११५	जोगं पडि जोगि	... २६४।७१०
छपचणववि २०८।५६०	जोगे चउरवखा	... १७५।४८६
छस्सय जोयण	... ६३।१५५	जो गेव सच्चमोसो	... ८९।२२०
छस्सयपण्णासाई	... १३७।३६५	जो तसवहाडु १४।३१
छादयदि सयं	... १०६।२७३	ठ	
छेतूनय परि-	... १७०।४७०	ठाणेहिंवि जोणीहिं	... ३३।७४
ज		ण	
जगवदसम्मदि	... ८९।२२१	णट्टकसाये १९१।५३२
जत्तस्स पहं २१०।५६६	णट्टपमाए पढमा	... ५७।१३८
जत्थेक्कसरड ७७।१९२	णट्टासेसपमादो	... २०।४६
जम्म खलु सम्मु	... ३६।८३	णय कुणइ पक्खवाय	... १८५।५१६
जम्बूदीवं भरहो	... ७८।१९४	णय जे भव्वाभव्वा	... २०२।५५८
जम्हा उवरिम	... २१।४८	णय परिणमदि	... २११।५६९
ज सामणं १७४।४८१	णय पत्तियइ १८३।५१२
जह कचणमगिग	... ८१।२०२	णय मिच्छत्त २४२।६५३
जहरवादसजमो	... १६९।४६७	णय सच्चमोस	... ८८।२१८
जह पुग्गापुग्गाई	... ४८।११७	णरतिरियाणं १८९।५२९
जह भाग्वहो	... ८१।२०१	णरतिरिय ११५।२९२
जाटजरामरण	... ६२।१५१	ण रमति जदो	... ६०।१४६
जाटं अविगाभावी	... ७३।१८०	णरलद्धिअपज्जत्त	... २६६।७१५
जाटं क्कालाक्क	... १८४।५१४	णरलोएत्ति य...	... १६६।४५५
जाटं तिरुन्द	... ११५।२९८	णवमी अणक्खर	... ९०।२२५

गाथा	पृ गा	गाथा.	पृ गा
णव य पदत्या ...	२२९।६२०	तत्तो ल्यातव ...	१६१।४३५
णवरि य दुस ...	१००।२५४	तत्तो सखेज्ज ...	२३६।६३९
णवरि विसेस ...	१२२।३१८	तद्देहमंगुलस्स ...	७४।१८३
णवरि समुग्धा ...	१९७।५४९	तदियक्खो अत ...	१७।४०
णवरि य सुक्का ...	२५५।६९२	तदियकसाय ...	९७०।४६८
णवि ईदिय ...	७१।१७३	तललीनमधुग ...	६४।१५७
णाण पंचविहं ...	२४८।६७२	तव्वट्ठीए चरिमो ...	४४।१०५
णाणवजोगजुदाण ...	२४-।६७५	तव्विदियं कप्पाण ...	१६६।४५३
णारयतिरिक्ख ...	१११।२८७	तसचदुजुगाण ...	३१।७१
णिक्खित्तु विदिय ...	१६।३८	तसजीवाणं ...	२६८।७२१
णिक्खेवे एयत्थे ...	२७२।७३२	तसरासिपुडाधि ...	८३।२०५
णिच्चिदरधाहु ...	३९।८९	तस्समयवद्ध ...	९७।२४७
णिहापयले ...	२५।५५	तस्सुवरि इगि ...	४४।१०४
णिहावचण ...	१८३।५१०	तसहीणो ससारी ...	७१।१७५
णिहेसवण्णपरि ...	१७७।४९०	तहिं मन्वे सुद्ध ...	१०४।२६६
णिद्धतं छुक्खत्तं ...	२२४।६०८	तहिं सेसदेव ...	१०५।२६८
णिद्धणिद्धा ण ...	२२५।६११	तं सुद्धसलागा ...	१०५।२६७
णिद्धस्स णिद्धेण ...	२२६।६१४	ताणं समयपवद्धा ...	९७।२४५
णिद्धिदरोली ...	२२६।६१२	तारिसपरिणाम ...	२५।५४
णिद्धिदरवरमु ...	२२८।६१७	तिगुणा सत्तगुणा ...	६६।१६२
णिद्धिदरगुणा ...	२२८।६१८	तिणकारिसिद्ध ...	१०७।२७५
णिद्धिदरे सम ...	२२७।६१५	तिणिसया ...	५१।१२२
णिम्मूलखध ...	१८२।५०७	तिणिसयजोय ...	६५।१५९
णियखेत्ते केवल्लि ...	९४।२३५	तिणिसयसद्धि ...	६९।१६९
णिरया किण्हा ...	१७८।४९५	तिण्हं दोण्हं दोण्हं ...	१९१।५३३
णिस्सेसखीण ...	२८।६२	तिविपच पुण्ण ...	७३।१७९
णेरइया सल्लु ...	३९।९३	तियकालविसय ...	१६२।४४०
णेवित्थी णेव ...	१०६।२७४	तिरधियमय ...	२३१।६२४
णेइदियवावरण ...	२४५।६५९	तिरियगदीए ...	२५८।६९९
णेइदियात्ति ...	१६३।४४३	तिरियचउत्ता ...	२६५।७१२
णे इदियेत्तु वि ...	१३।२९	तिरिये अवर ...	१५८।८२४
णे कम्मुराल्ल ...	१४३।३७६	तिरियंति कुडिल ...	६०।१४७
त्त ...	१०३।२६२	तिव्वतमा तिव्व ...	१७९।४९९
... ..	७।६४	तिसय भणंति ...	२३१।६२५
... ..	६५।१६१	तिउ तेर वम्म ...	२६१।७०३
... ..	१३९।३९६	तीन वामो जम्मे ...	१७१।४७२
... ..	२३६।८३८	तेउत्तियाण एउ ...	१९९।५५३
... ..		तेउत्तु वम्मउ ...	१९८।५८१

गाथा	पृ. गा	गाथा	पृ. गा
तेजस्तय सन्न	...	देवार्णं अवहारा	...
तेज तेज तेज	...	देवेहिं सादिरेया	...
तेज पढमे सुके	...	देवेहिं सादिरेया	...
तेजा सरीरजेहं	...	देवेहि सादिरेगो	...
तेत्तीसवेजणाई	...	देसविरदे	...
तेरसकोडी देसे	...	देसावहिवर	...
तेरिच्छियलद्धि	...	देसोहिअवर	...
तेवि विसेसेण	...	देसोहिमज्ज	...
तेसिं च समासे	...	देसोहिस्स य	...
तो वासय अज्जय	...	दोगुणणिद्धाणु	...
	थ	दोण्हं पच्चय	...
थावरकायप्पहुदी	...	दोत्तिगपमव	...
थावरकायप्प		ध
थावरकायप्प	धणुवीसडदस	...
यावरकायप्प	धम्मगुणमग्गणा	...
यावरकायप्प	धम्मावम्मादीर्णं	...
यावरकायप्प	धुवअद्धुवस्सुवे	...
थावरसंख	धुवकोसुभय	...
थोवा तिसु	धुवहारकम्म	...
	द	धुवहारस्स य	...
दव्वं खेत्तं कालं	...	धूलिगच्छकट्टाणे	...
दव्व खेत काल	...		न
दव्व छक्कमकाल्मिय	...	नीलुक्कस्सस
दस चोदसद्ध	...		प
दसविहसच्चे	...	पच्चक्खाणुदयादो	...
दस सण्णीण	पच्चक्खाणेव
दंसणमोह	पंचक्खतिरि-	...
दसणमोहुद	...	पंचतिहिच्चहु
दंसणमोहुव	...	पंचवि ईदिय
दंसणवयसामाइय	...	पंचरस पंच
दहिदुडमिव वा	...	पंचसंमिदो तिगुत्तो	...
दिग्गच्छेद	...	पंचेव होति णाणा	...
दिग्गच्छेदेणयहिद	...	पजत्तस्स य	...
दिवसो भिय्या	...	पजत्तसरीरस्स
दीव्वंति जडो	...	पजत्तमणुस्साण	...
दुगानिगभवा हु	...	पजत्तीपट्टवण
दुगानिगपट्टिदादो	...	पजत्ती पाणावि	...
दुग्गि वर	...	पज्जायक्खर

गाथा	पृ गा	गाथा.	पृ गा.
पडिवादी दे-	१४२।३७४	पुष्पाजहणं	४२।१००
पडिवादी पुण	१६४।४४६	पुरिसिच्छिसंढ	१०६।२७०
पढमक्खो अत-	१७।३९	पुखुणभोगे	१०६।२७२
पढं पमदपमा-	१६।३७	पुख्महदुदास	९२।२२९
पढमुवसमसहि-	५९।१४४	पुव्वं जलथल	१३६।३६१
पणजुगले तस	३३।७६	पुव्वापुव्वप्फट्टय	२६।५८
पण्हदाल पण-	१३६।३६४	पुहपुहकसाय	११४।२९५
पणणउदिसया	१३२।३४६	पोगलदव्वग्धि	२१९।५९२
पण्णवाणिज्जा	१२७।३३३	पोगलदव्व्वाण	२१६।५८४
पाणिदरसभोय-	५६।१३७	पोतजरायुज-	३६।८४
पणुवीस जोय-	१५८।४२५		
पत्तेयवुद्धतिथ-	१३३।६३०	फासरसगंध	६७।१६५
पमदादिचउ-	१७३।४७९		
पम्मस्स य सद्धान	१९७।५४७	बंधो समयप-	२३८।६४४
पम्मुक्कस्ससमुदा	१८६।५२०	बहुवहुविहं च	११९।०३९
परमणोसिद्धियमट्ठं	१६४।४४७	बहुभागे समभागो	७२।१७८
परमाणुआदि	१७४।४८४	बहुवतिजादि	१२०।३१०
परमाणुवगणादो	२१९।५९५	बहुविहवहुप्प-	१७५।४८५
परमाणुहिं अणं-	९६।२४४	वादरआज	१७८।४९६
परमावहिवर	१५५।४१८	वादरतेजवाज	९३।२३२
परमावहिस्स	१४८।३९२	वादरपुण्णातेज	१०१।२५८
परमावहिस्स	१५४।४१३	वादरवादर	२२२।६०२
परमोहिदव्व	१५४।४१५	वादरसुहमे	३२।७२
पत्तिय उव-	९९।२५१	वादरसुहमा	७२।१७६
पत्तमऊण	१५३।४१०	वादरसुहम	७४।१८२
पत्तासंरापण-	१६८।४६२	वादरसंजल-	१६९।४६५
पत्तासंरोजव	८४।२०८	वादरसंजलणु	१६९।४६६
पत्तासंरोच-	१७३।४८०	वावीस सत्त	४७।११३
पत्तासंरोच	२४४।६५८	वास्तारसय	१३२।३४९
पत्तासंरोच्चा-	१०२।२५९	वाहिरपाणेहिं	५३।१२८
पत्तादि ओपी	१४८।३९५	वित्तिचप पुग्ग	४०।९६
पत्तासा जे छापु-	१८२।५०६	वित्तिचपमाण	७२।१७७
पुम्भारगणणे	१२१।३१२	विदियुवनम	२७१।७१९
पुम्भारगणणे	८७।२१५	विहिंतीर् चदुहिं	७९।१९७
पुम्भारगणणे	५१।१२४	दीजे जीणीभूदे	७६।१८९
पुम्भारगणणे	७४।१८१		
पुम्भारगणणे	८०।१९९	भत्त देवी चदप्पर	८१।२२२
पुम्भारगणणे	२२२।६०१	भरहम्मि अद	१५१।२०५

गाथा	पृ	गा	गाथा.	पृ	गा
भवप्रतिघाण	मिच्छाडद्री जीवो
भवपचडगो	मिच्छाडद्री पावा
भवपचडगो	.	..	मिच्छा सावय
भवत्तणस्स जोग्गा	मिच्छे खलु
भव्वामम्मत्तोवि	मिच्छे चोद्दस
भविव्या सिद्धी	मिच्छे सासण
भावाण सामण्ण	मिच्छोदयेण
भावादो छल्लेस्सा	मिच्छो सासण
भासमणवग्ग-	मिच्छो मासण
भिण्णस्समयट्ठि	मिस्सुदये सम्मिस्स
भूआउतेउ	मिस्ते पुण्णालाओ
भूआउतेउवाळ	मीमासादि जो पुब्ब	.	..
भोगा पुण्णग	मूलग्गपोरवीजा
स			मूलसरीरमछं-
मग्गणउव्वजोगा	मूले कंदे छल्ली
मज्झिमअंसेण	य		
मज्झिमचउ	याजकनामनानन
मज्झिमदव्वं खेत्तं	र		
मज्झिमपदक्खर-	रुज्जवरे अवह
मण्णति जदो	रुवुत्तरेण तत्तो
मणदव्ववग्गणा	रुसइ णिंदइ
मणदव्ववग्गणा	ल		
मणपन्नव च	लद्धिअपुण्णं
मणपज्जवं च	लिंपइ अप्पीकीरइ
मणपन्नवपरिहारो	लेस्साणं खु
मणवयणाण	लेस्साणुक्कस्सा-
मणवग्गणाणं	.	..	लोगस्सअसखे-
मग्गमहियाण	लोगागासपदेमा
मण्णमिणियमत्त	लोगागासपदेसे
मदिआवरण	लोगागासय
मदिमुदव्वोही	लोगाणमसं-
मदो बुद्धिविहीणो	लोगाणमसं-
मग्ग पग्गेइ	व		
मग्गिअन्नेवन्न-	वग्गणरासि
मग्गबुद्धि	वण्णोदयेण
मावाग्गे	वण्णोदयसपा-
मिण्ण वदन्तो	वत्तणहेट्ट कालो
मिण्ण जीवो	वत्तावत्तपमाटे

गाथा.	पृ गा	गाथा.	पृ. गा.
वत्सीस अडदा-	... २३२।६२७	सक्तीसाणा पढमं	... १५९।४२९
वत्थुणिमित्तं २४८।६७१	सक्को जम्बूदीवं	... ८९।२२३
वत्थुत्स पदे-	... १२०।३११	संखा तह पत्थारो	... १५।३५
वसदमिदिकसा-	... १६९।४६४	सखातीदा सम	... १५०।४०२
वयणेहीं वि २४०।६४६	सखावत्तय जोणी	... ३५।८१
वरकावोदस १८८।५२५	सखावलिहिद २४४।६७७
ववहारो पुण का-	... २१४।५७६	सखेओ ओघो	... २।३
ववहारो पुण ति-	... २१४।५७७	सखेज्जपमे वासे	... १५१।४०६
ववहारो पुण २१८।५८९	सखेज्जासखेज्जा	... २१७।५८५
ववहारो य विय-	... २१२।५७१	सखेज्जासंखे-	... २२०।५९७
वादरसुहमे २६७।७१८	सगज्जुगलाम्हि ३४।७७
वापणनरनो १३५।३५९	सगमारोहिं विभत्ते	... १८।४१
वागपुधत्ते खइया	... २४४।६५६	सगसगअसंख	... ८३।२०६
विउल्लभदीवि १६२।४३९	सगसगखेत्त १६०।४३३
विकहा तहा १५।३४	सगसगअवहा २३७।६४०
विग्गहगादिमा-	... २४६।६६५	सगहिय सयल	... १७०।४६९
विंदावल्लोगाण	... ८४।२०९	संजलणणोकसा-	... १४।३२
विदियुवरसम २५७।६९५	संजलणणोकसा-	... २०।४५
विवरीयमोहि ११७।३०४	सट्टाणसमुग्घा-	... १९४।५४२
विविहगुण ९३।२३१	सठाविदूण रुव	... १८।४२
विसजंतकूड ११७।३०२	सण्णाणतिग २५३।६८७
विमयाण विम-	... ११९।३०७	सण्णाणरासि १६८।४६३
वीरमुहम्मल २७०।७२७	सण्णित्स वार...	... ६८।१६८
वीरियजुदमदि ५४।१३०	सणी ओघे मिच्छे	... २६७।७१९
वीम वीम पाहुड	... १३०।३४२	सणी सण्णिप्प	... २५८।६९६
वेगुव्व पज्जत्ते २५२।६८१	सत्तह उवनमदो	... १२।२६
वेगुप्पिय आहारो	... ९६।२४१	सत्तह पुटवीणं	... २६५।७११
वेगुप्पिय उत्तप	... ९३।२३३	सत्तादिणा छम्माणा	... ५८।१४३
वेगुप्पियवरस-	... १०१।२५६	सत्तमरिवडिम्मि	... १५७।४२३
वेज्जगअथ ११८।३०६	सत्तादी अत्रंता	... २३३।६३२
वेज्जुवत्तोर-	... ११०।२८५	सदसिवनंतो ३८।६९
वेस्सुमीरणाए	... १०६।७७१	नपुण तु ममग्ग	... १६७।४५९
वेसम्माराणि-	... २६८।७२३	नहहणासदहण	... २४३।६५४
वेसम्मारास २१७।६६६	नत्थायमगो मथां	... ८८।७१७
वेसम्मारास-	... १९४।५४०	नमओ हु वट्टमा	... २१४।५७८
स		नम्मन्तेमघादि	... १२।७५
सम्मो सत्ता	... १८१।५०५	नम्मन्तेव न-	... १०९।७८२
सम्मो सत्ता	... १८०।५०३	नम्मन्तेमन्तरि-	... ११।७६

गाथा.	पृ गा.	गाथा	पृ गा.
सम्मत्तरयण ...	९१२०	सुकस्स ससुग्घा-	१९६१५४४
सम्मत्तुप्पत्तीए..	२९१६६	सुण्ह दुग्गि	११४१२९४
समयत्तयसखा	१०३१२६४	सुत्तादो तं सम्म	१३१२८
सम्माइत्थी जीवो	१३१२७	सुदकेवलं च णाण	१४०१३६८
सम्माभिच्छुदये	१०१२१	सुहमणिगोद	३९१९४
मव्वंगअगसभव	१६३१४०१	सुहमणिगोद	७०११७२
सव्व च लोयणालि	१५९१४३१	सुहमणिगोद	१२३१३१९
सव्वमरुत्ती ...	२१८१५९१	सुहमणिगोद	१२३१३२०
सव्वसमासे ...	११४१२९६	सुहमणिगोद	१२३१३२१
सव्वसमासो ...	१२६१३०९	सुहमणिगोद	१४३१३७७
सव्वसुराणं ओघे	२६७१७१६	सुहदुक्खसुवहु	१०९१२८१
सव्वावहिस्स एक	१५४१४१४	सुहमेसु सख	८४१२०७
सव्वेपि पुव्वभगा	१५३६	सुहमेदरगुण	४२११०१
सव्वेसिं सुहमाणं	१७८१०९७	सुहमणिवाते	४११९७
सव्वोहित्ति य क-	१५७१४२२	सुहमो सुहम	२५४१६८९
सपारी पंचवखा	६३११५४	सेढी सूई अगुल	६४११५६
सागारो उव्वजोगो	४१७	सेढी सूई पल्ला-	२२११५९९
सातरणि, तरेण	२१९१५९४	सेल्लाकिण्हे	१०३१२९२
सामण्णजीव ...	३३१७५	सेल्लिकक	११०१२८४
सामण्णा णेरइया	६२११५२	सेसट्टारसअसा	१८६१५१८
सामण्णा पंचिदी	६१११४९	सोलसय चउ	२३११६२६
सामण्णेण य एवं	३७१८८	सोवक्कमाणुवक्कम	१०४१२६५
सामण्णेण तिपंती	३४१७८	सो सजमं ण गि-	१११२३
सामण्णं पज्जत्त	०६४१७०८	सोहम्मसाण	२३५१६३५
नामाइयचउ	१४०१३६६	सोहम्मादासा-	२३५१६३६
साहरणवादरेसु	८५१२१०	सोहम्मीसाणा	१६११४३४
नाहारणोदयेण	७७११९०	सोल्लससय	१२८१३३५
साहारणमाहारो	७७११९१		
साहियनहस्समेकं	४०१९५		
मिक्कनाकिरियु-	२४५१६६०	हिदि होदि हु	१६३१४४२
मिद्धमुद्धं	१११	हेट्टिमउक्कस्सं	२२११६००
मिद्धानातिम	२२०१५९६	हेट्टा जेसिं	४७१११२
मिद्धान निद्धगई	२७२१७३०	हेट्टिमछप्पुडवीणं	५३११२७
मिल्लपुववि	११०१२८३	हेट्टिमछप्पुडवीण	६३११५३
सिल्लमल्लेणु	११२१२९०	होति अणियट्टिणो	२६१५७
सौदी मग्गि तालं	५१११२३	होति खवा इग्गि	२३३१६२९
मीलेमि मंपत्तो	२९१६५	होदि अणतिम	१४६१३८८

